

पूज्य जनाचार्य
श्री गीला गी महाराज
विरचित



प्रकाशक

पंडित करुणाशंकर वेणीराम पंड्या
काव्यतीर्थ

वीर सवन २५०१ विक्रमसंवत्- २०३३ हस्वीसन् १९७६

प्रातिस्थान

करुणाशकर वेणीराम पडया

ठि० डी० गाधी की चाली

नं० ९२।१०

चमत्पुरा अमारवा अमदाबाद

प्रत १००

कीमत रु० ६

ः—

श्री रामानन्द प्रिन्टिंग प्रेस काकरिया रोड

अहमदाबाद—२२

जयतु वीरः

1. कीर्त्य निवेदन

जैन समाज में जैनाचार्य जैनधर्म दिवाकर पूज्य आचार्य श्री-
धासीलाल महाराज से कौन अपरिचित है ? विश्व में जैसा सूर्य
का प्रकाश फैल रहा है वैसा ही आचार्य महाराजका यशरूपिसु-
प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, इसमेंभी श्रीस्थानकवासी जैन समाज पर
महाराज सा. का. अवर्णनीय उपकार है कारण की जैन समाजमें
जो बत्तीस आगम ग्रन्थ है उनके ऊपर स्थानक वासी समाज की
मान्यता याने प्ररूपणा के अनुसार शास्त्रग्रन्थ में अर्थ घटन नहीं
था । इस क्षति को दूर करने के लिये पूज्य आचार्य श्री ने बत्तीस
आगम की स्थानक वासी समाजकी प्ररूपणानुसार का अर्थघटन कर
के स्वतन्त्र सस्कृतटीका एवं उसका हिन्दी गुजराती भाषानुवाद
सहित सामान्य वर्ग भी सरलता से समजसके इस प्रकार बत्तीस
आगम ग्रन्थों की रचना की बत्तीस आगम ग्रन्थ पैकी कई ग्रन्थ म
सा की विद्यमानता मे हो प्रकाशित हो गये थे और जिन ग्रन्थ का
प्रकाशन कार्य अवशिष्ट रहा वह कार्य पूर्ण करने के लिए श्री
अ. भा. श्रे. स्था० जैन शास्त्रोद्धार समिति एवं म. सा. के सुशिष्य
सस्कृत प्राकृतज्ञ पण्डित मुनि श्रीकन्हैयालालजी म. सा पूर्ण धगश
से अत्रिरत श्रम पूर्वक कार्य कर रहे हैं ।

पूज्य आचार्य श्री ने आगम ग्रन्थ से अलावा जैन जगतमें
उपयोगी बने इस प्रकार के न्याय, व्याकरण, साहित्य एवं कोषके

ग्रन्थों की रचना भी की है, जो अभी अप्रकाशित है एवं आगम ग्रन्थ का पूर्णतया प्रकाशन हो जाने के बाद इन ग्रन्थों के प्रकाशन के लिये योग्य विचारणा की जायेगी ऐसा उक्त समिति विचारणा में है

आगम ग्रन्थ के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इन ग्रन्थों का भी प्रकाशन कार्य हो जाय तो आगम के साथ साथ बहुत सा कार्य की निवृत्ति सत्वर हो जाय इस उद्देश्य से आचार्य श्री रचित 'शिव कोष' का प्रकाशन करने को म. सा. कन्हैयालालजी म ने मुझे उत्साहित किया

इस ग्रन्थ में आचार्य श्रीने सस्कृत शब्द एवं जैन पारिभाषिक शब्दों का संग्रह किया है एवं केवल सस्कृत जानने वालों को ही उपयोग में आवे ऐसा न करके साथ साथ हिन्दी भाषा के जानकार सर्व जनोपयोगी हो इस हेतु से हिन्दी अनुवाद दिया है जिससे कोष के पढ़ने वाले भी सरलता से उपयोग कर सकें

सस्कृत भाषा में कोष का अर्थ स्वजाना होता है—

जिस प्रकार राजा के चार अङ्ग में कोष (स्वजाना) को प्रधान गिना है कारण की कोष समृद्ध न होने पर अन्य सैन्यादि अङ्ग नहीं निभसकता उसी प्रकार जिस भाषा का कोष समृद्ध न हो वह भाषा असमृद्ध याने अल्पजीवि हो जाती है अतः आचार्य श्री का इस कोष ग्रन्थ को प्रकाशित करने का कार्य मैंने समुचित माना है आशा है कि आचार्य श्री के भक्त-

जन एवं जन इस कार्य को अपना कर के मेरे उत्साह को बढ़ावे जिससे आचार्य श्री के अन्य अप्रसिद्ध ग्रन्थों को प्रकाशित करने कि विचारणा कर सके इति शम्

सुज्ञेषु कि बहुना और अधिक क्या कहे :

इस ग्रन्थ का प्रकाशन होने के पहले से सौ प्रत के ग्राहक बनने के लिये श्रीमती अ. मौ पानकुवर बहेन धोंगडमलजी कानुगा गढसिवाना वाले ने अपना नाम देकर सुज्ञे प्रोत्साहित किया है अतः आपका सधन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ ।

पंडित करुणाशंकर वे. पंडया,
काव्यतीर्थ

ता क.—यह ग्रन्थ बहुजनोपयोगी हो इस भावना से केवल पडतर कीमत से ही देने को रखा है.

प्राप्तिस्थान

पंडित करुणाशंकर

हि० डॉ० गांधी की चाल

चमनपुरा न० ९२।१०

अहमदाबाद

शुद्धि पत्र

अशुद्ध	शुद्ध	पेज	पक्ति
स्याद्वादिन	स्याद्वादिन्	२	१८
कहने	कहते	४	१७
सुमन्त	समन्त	६	५
बर्हितुस्व	बहिमुस्व	७	९
उकरण	उपकरण	१४	८
नीलोहित	नीललोहित	१५	१९
भाया	भार्या	१६	२
सप्तर्चिं	सप्तार्चिं	१७	८
हक्कावे	ह्कीवे	२०	५
ग्व	स्व	२४	१०
बृहस्पते	बृहस्पते	२७	८
शदिस्थं.	दिस्थं	३१	६
गणरत्र	गणरात्रं	३४	७
फाल्गुनस्य	फाल्गुनस्य	३७	२
वसन्नस्य	वसन्तस्य	३८	२
त्त्रात्वे	त्त्रोत्वे	३८	८
तृताया	तृतीया	४२	८
द्रोह	द्रोह	४३	६
द्व	द्वे	४३	३
प्राक्की	प्रोक्तं	४८	६

अशुद्ध		पेज	पंक्ति
कठारस्य	कठोरस्य	५०	९
घोष	घोष	५१	१२
त्रणि	त्रीणि	५२	४
भरय	भैरव	५४	१५
गुजरा	गुंजरी	५४	२२
मोरहाडी	मोरहाटी	५५	११
डिण्डिभौ	डिण्डिमौ	५६	४
शङ्गारः	शृङ्गार	५६	८
डिण्डिभ	डिण्डिम	५६	१७
मूर्छा	मूर्छा	६०	१५
घाण	घोण	६३	१०
त्रिपु	त्रिषु	६४	४
कृच्छ	कृच्छू	६४	१८
दा	दो	६७	११
जलाधान्याल वाला	जलधानीस्या दालवाल	६८	९
वापोवालस्तु क्षुद्रजे	लघूकृतौ		
नैःस्तैरिः	नैःस्तरिः	७१	१
कवर्त	कैवर्त	७२	२१
मुषा	मषा	७५	२
सवतः	सर्वतः	८०	१

अशुद्ध	शुद्ध	पेज	पक्ति
डा कुरुचरा	कूडाकचरा	९०	२१
कणिकार	कर्णिकार.	९९	१
तान	तीन	१०३	१२
केनिल	फेनिल	१०४	४
भण्ड	भण्डी	११३	१५
मत	मत	११६	३
मूरिदुग्घा	भूरिदुग्घा	११६	१६
थनन्ता	अनन्ता	१२१	८
छिक्के	छिक्किके	१२३	६
मुनिघोन्यं	मुनिघान्यं	१२७	८
ओढकी	आढकी	१२७	१०
रोन	रसोन	१२८	१९
बालमूषिक,	बालमूषिक,	१४३	१४
कत्या	कन्या	१५२	७
श्रद्धालु	श्रद्धालु	१५५	४
दोहदायिनी	दोहदारिणी	१५५	४
गुविणी	गुर्विणी	१५५	५
पैतृष्वस्य	पैतृष्वस्येय	१५६	३
स्वञ्ज	स्वञ्जे	१६२	१
रुक्तप्रकार	रुक्तप्रतीकार	१६३	१३

अशुद्ध	शुद्ध	पेज	पक्ति
सिंहतलः	सिंहतलः	१७३	९
१११	११०	१७८	२
ब्राह्मचारी	ब्रह्मचारी	१८३	१८
गायंस	पायस	१८६	७-
कसण्डलु	कमण्डलु	१८९	१३
का	०	१९४	९-
घाटा	घोटी	२०६	१२-
मर्ग	मार्ग	२०८	६
अवमदौ	अवमैदौ	२२३	१-
क्षत्रं	क्षेत्र	२२७	४-
वाधुकिन्	वाधुकिन्	२२७	१०-
वृद्धजीव	वृद्ध्याजीव	२२७	११-
छागी	श्चागी	२३५	७
मेढ्र	मेढ्र	२३५	२०-
तुर्याश	तुर्याश	२३८	१९-
वजट	वजन	२३८	२१
सुरत	सुत	२४१	९
कल्पाल	कल्पपाल	२४३	१०-
रुक्मकत्	रुक्मकृत्	२४३	११
विक्रमी	विक्रयी	२४५	४-

अशुद्ध	शुद्ध	पेज	पंक्ति
सहाघाय	क्षुराघार	२४६	६
वीज्ञवेश	वीरावेश	२४९	१९
स्थाल्लोप्त्रं	स्याल्लोप्त्र	२४८	२
ताम	नाम	२४९	१०
विपर्यय	विपर्यये	२५४	१
मिध्यामिति	मिध्यामति	२५९	१२
पाश्य	पाश्या	२६१	४
जवातृक	जैवातृक	२६३	१३
अघान	अघीन	२६५	१२
लोभा	लोभी	२६५	१६
हृद्यमभीष्ट	हृद्यमभीष्ट	२७५	१
गूथे	गूथे-	२७८	२१
वागलङ्का	वागलङ्कार	२८७	२३
मूर्ख	मूर्ख	२८९	१२
वज्र	वज्र	२९०	११
शीर्षक	शीर्षक	२९०	१८
कृच्छ	कृच्छू	२९३	२१
आसन	आसव	२९४	१५
रीति	रीतिः	३०३	३
श्रुत	श्रुतं	३०४	५

अशुद्ध	शुद्ध	पेज	पंक्ति
पातमें	पीतमें	३०५	१८
मनाषि	मनीषि	३०७	२
भ्रूमृत्	भ्रूमृत्	३०७	१७
कुलयघर	कुलायघर	३१३	२४
मथुनं	मैथुन	३१८	६
ख	खो०	३१८	१८
माच्छदना	माच्छादना	३१९	५
क्लीब	(४) क्लीब	३२०	१३
क्षर	क्षुरं	३२७	८
अस्ति	अस्थि	३२८	१६
शुक्कयो	शुक्लयोः	३३२	१
कतन	केतन	३३४	२०
शीला	शील	३३७	१०
लला	लीला	३३७	२२
प्रावृदकाल	प्रावृट्काल	३४०	३३
कुड्मलार्थाघ	कुड्मलार्थौघ	३४१	४
परिर्वह	परिर्वह	३४५	११
अनुमान	अनुनय	३५१	१५
मा	मा	३५४	१४
लिङ्गादान्	लिङ्गादीन्	३५५	५

		पेज	पंक्ति-
अशुद्ध	शुद्ध		
जसे	जैसे	३५६	८
स्वधी	स्वधा,	३५७	१८
दोन	दोनो	३५९	२३
पुनर्भाव	पुनर्भवः	३६०	१३
वाचाक	वाचक	३६०	१६
छुरदा	छुरा	३६४	१३
शाच	शोचि	३६५	२४
सर्म	शर्म	२६६	८
सुगमम्	सगमम्	३७०	१
अपत्यत्य	अपत्य	३७०	७

समाप्त

॥ श्री ॥

॥ वीतरागाय नमः ॥

जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्य श्रीघासीलालजी
महाराजविरचितः

शिवकोषः

—॥००॥—

—॥ देववर्गः ॥—

—मङ्गलाचरणम्—

इन्द्रचन्द्रनरेन्द्राणा वन्धं वन्दे जिनेश्वरम् ।

ध्रौव्योत्पादव्ययाधारं शब्दलिङ्गावबुद्धये ॥१॥

श्रीवर्धमान च शिवस्वरूपं शिवप्रधानं शिवद् प्रणम्य ।

प्रयत्नतोऽहं व्रति घासीलालः करोमि कोष च शिवाभिधानम्

परिभाषा

रूपभेदात् साहचर्यात् सुप्रसिद्धेरपि क्वचित् ।

क्वचिद् विशेषनाम्नैव लिङ्गमत्र निरूपितम् ॥३॥

त्रिव्रित्ति स्यात् त्रिलिङ्गेषु द्विलिङ्गेषु द्वयोरिति

निपिद्धलिङ्गं सर्वत्र शिष्टस्पष्टावबुद्धये ॥४॥

द्वन्द्वाद्यभावो लिङ्गाना पार्थक्येन प्रतीयते ।

क्वचित्क्वचिद्यथायोग बोद्धव्यः शुद्धबुद्धिभिः ॥५॥

तु शब्दान्तोऽथ शब्दादिः क्वापि पूर्वत्रनान्वितः ।

प्राय एकार्थकाः शब्दा एकत्रैव प्रपञ्चिताः ॥६॥

अशुद्ध	शुद्ध	पेज	पंक्ति-
नसे	जैसे	३५६	८
स्वधी	स्वधा,	३५७	१८
दोन	दोनो	३५९	२३
पुनर्भाव·	पुनर्भवः	३६०	१३
वाचाक	वाचक	३६०	१६
छुरदा	छुरा	३६४	१३
शाच·	शोचि·	३६५	२४
सर्म	शर्म	२६६	८
सृगमम्	सगमम्	३७०	१·
अपत्यत्य	अपत्य	३७०	७

॥ श्री ॥

॥ वीतरागाय नमः ॥

जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्य श्रीघासीलालजी
महाराजविरचितः

शिवकोषः

—॥००॥—

—॥ देववर्गः ॥—

— मङ्गलाचरणम् —

इन्द्रचन्द्रनरेन्द्राणा वन्ध वन्दे जिनेश्वरम् ।

श्रीव्योत्पादव्ययाधार शब्दलिङ्गावबुद्धये ॥१॥

श्रीवर्धमान च शिवस्वरूपं शिवप्रधानं शिवद प्रणम्य ।

प्रयत्नतोऽह व्रति घासीलालः करोमि कोप च शिवाभिधानम्
परिभाषा

रूपभेदात् साहचर्यात् सुप्रसिद्धेरपि क्वचित् ।

क्वचिद् विशेषनाम्नैव लिङ्गमत्र निरूपितम् ॥३॥

त्रिष्विति स्यात् त्रिलिङ्गेषु द्विलिङ्गेषु द्वयोरिति

निषिद्धलिङ्गं सर्वत्र शिष्टस्पष्टावबुद्धये ॥४॥

द्वन्द्वाद्यभावो लिङ्गाना पार्थक्येन प्रतीयते ।

क्वचित्क्वचिच्चथायोग बोद्धव्यः शुद्धबुद्धिभिः ॥५॥

तु शब्दान्तोऽथ शब्दादिः क्वापि पूर्वत्रनान्वितः ।

माय एकार्थकाः शब्दा एकत्रैव प्रपञ्चिताः ॥६॥

जिननामानि २४ चतुर्विंशति

तीर्थङ्करो जिनेशोऽर्हन् केवली बोधिदो जिनः ।

स्वयभूर्भगवान् शम्भु जगत्पतिरधीश्वरः ७॥

देवस्त्रिकालविच्चैव क्षीणकर्माऽथ पारगः ।

सर्वज्ञोऽभयदः सार्वः स्याद्वादी सर्वदर्शकः ॥८॥

आप्तस्तीर्थकरो देवाऽधिदेवः पुरुषोत्तमः ।

वोतरागः पुमासोऽमी सर्वे ते जिनवाचकाः ॥९॥

अतीति २४ चतुर्विंशति

अतीतोत्सर्पिणी काले चतुर्विंशोऽर्हतां क्रमः ।

केवलज्ञानि निर्वाणि सागराश्च महायशा ॥१०॥

विमलः सर्वानुभूतिः श्रीधरो दत्ततीर्थकृत् ।

दामोदरः सुतेजाश्च स्वामी च मुनिसुव्रतः ॥११॥

सुमतिश्च शिवगति रस्ताधश्च नमीश्वरः ।

हिन्दी—जिन भगवान् के चौबीस नाम—तीर्थङ्कर १, जिनेश २, अर्हन् ३, केवलिन् ४, बोधिद ५, स्वयभू ६, भगवत् ७, शम्भू ८, जगत्पति ९, अधीश्वर १०, देव ११, त्रिकालविद् १२, क्षीणकर्मन् १३, पराग १४, सर्वज्ञ १५, अभयद १६, सार्व १७, स्याद्वादिन् १८, सर्वदर्शक १९, आप्त २०, तीर्थकर २१, देवाधिदेव २२, पुरुषोत्तम २३, वीतराग २४ सब पुं०

हिन्दी—अतीतकाल की चौबीसी के नाम—केवलज्ञानिन् १, निर्वाणिन् २, सागर ३, महायशस् ४, विमल ५, सर्वानुभूति ६, श्रीधर ७, दत्ततीर्थकृत् ८, दामोदर ९, सुतेजस् १०, स्वामिन् ११, मुनिसुव्रत १२, सुमति १३, शिवगति १४, अस्ताध १५, नमीश्वर

अनिलो यशोधराख्यः कृतार्थश्च जिनेश्वरः ॥१२॥

शुद्धमतिः शिवकरः स्यन्दनः सप्रतिस्तथा ।

वर्तमान २४ चतुर्विंशति

एतस्यामत्रसर्पिण्या मृषभाऽजितसम्भवाः ॥१३॥

अभिनन्दनश्च सुमतिः पद्मप्रभ सुपार्श्वरौ ।

चन्द्रप्रभश्च सुविधिः शीतलश्च ततः परम् ॥१४॥

श्रेयासो वासुपूज्योऽथ विमलोऽनन्तनामकः ।

धर्मः शान्तिः कुन्थुऽररो मल्लिश्च मुनिसुव्रतः ॥१५॥

नामनेमिः पार्श्ववीरौ सर्वेऽप्येते जिनेश्वराः ।

जिनाना नामान्तराणि

श्रेयास^१ इष्यते श्रेयान्^२ अनन्तोऽनन्तजित्स्मृतः ॥१६॥

सुविधिः पुष्पदन्तः स्याद् ऋषभो वृषभो मतः ।

सदृशस्त्येक एकस्य मुनिसुव्रत सुव्रतौ । १७॥

अग्निनेमि^३ नेमि वा^४ वीरेश्वरमतीर्थकृत् ।

वर्द्धमानो महावीरो देवार्यो ज्ञातनन्दन ॥१८॥

१६, अनिल १७ यशोधर १८, कृताथे १९, जिनेश्वर २०,
शुद्धमति २१ शिवकर २२, स्यन्दन २३, सप्रति २४ पु० ।

हिन्दो—वर्तमान चौबीसी के नाम—ऋषभ १, अजित २,
सम्भव ३, अभिनन्दन ४, सुमति ५, पद्मप्रभ ६, सुपार्श्व ७, चन्द्र
प्रभ ८, सुविधि ९, शीतल १० श्रेयास ११, वासुपूज्य १२,
विमल १३, अनन्त १४, धर्म १५, शान्ति १६, कुन्थु १७,
अर १८, मल्लि १९, मुनिसुव्रत २०, नमि २१ नेमि २२, पार्श्व
२३, वीर २४ ये सर्व पुञ्जि हैं ।

एकादश गणधरनामानि—

एकादश गणाधीशा स्त्रयो गौतम गोत्रजा ।

इन्द्रभू त्यग्निभूतिः द्वौ वायुभूतिः क्रमादिमे ॥१९॥

व्यक्तः सुधर्ममण्डित मौर्यपुत्रा अकम्पित ।

अचलभ्रातृमेतार्यौ प्रभासोऽमी पृथक्कुलाः ॥२०॥

श्रुतकेवलिन पद नामानि—

चरमः केवली जम्बू स्वाम्यथ प्रभवः प्रभुः ।

शय्यम्भव यशोभद्रौ सम्भूति विजयस्तथा ॥२१॥

भद्रबाहु स्थूलभद्रो श्रुतकेवलिनश्च षट् ।

हिन्दी—(१)श्रेयास के दो नाम—श्रेयास १, श्रेयान् २ पु० ।

(२) अनन्त के दो नाम—अनन्त १, अनन्तजित् २ पु० । (३)

सुविधि के दो नाम—सुविधि १, पुष्पदन्त २ पु० । (४) ऋषभदेव के

दो नाम—ऋषभ १, वृषभ २ पु० । (५) मुनि सुव्रत के दो नाम

मुनिसुव्रत १, सुव्रत २ पु० । (६) नेमि के दो नाम—अरिष्टनेमि १,

नेमि २ पु० । (७) वीरजिन भगवान् के छ नाम—वीर १, चरम

तीर्थकृत् २, वर्द्धमान ३, महावीर ४, देवार्थ ५, ज्ञातनन्दन ६ पु०

हिन्दी—मुनि समुदाय को गण कहने है, श्रीमहावीर स्वामी

के नौ गण थे, जो सब के सब अनगार थे । ग्यारह गणधर

थे—इन्द्रभूति १, अग्निभूति २, वायुभूति ३, ये तीनों गौतम गोत्री

थे, व्यक्त ४, सुधर्मन् (सुधर्मा) ५, मण्डित (मण्डितपुत्र) ६,

मौर्यपुत्र ७, अकम्पित ८, अचलभ्रातृ ९, मेतार्य १०, प्रभास

११ ये आठ गणधर पृथक् २ कुल के थे क्रमश नाम जाने

दशपूर्विण नामानि

महागिरिसुहस्त्याद्या वज्रान्ता दशपूर्विणः ॥२२॥

तीर्थकरकुलानि —

इक्ष्वाकुकुलसभूता स्याद् द्वाविंशतिरर्हताम् ।

मुनिसुव्रत नेमी तु हरिवंशसमुद्भवौ ॥२३॥

भविष्यत् चतुर्विंशति जिन नामानि—

आगामिन्या महापद्म सूरदेव सुपार्श्वकौ ।

स्वयप्रभश्च सर्वालु-भूति देवश्रुतो दयाः ॥२४॥

पेढालः षोडशश्रीभौ शतकीर्तिश्च सुव्रतः ।

अममः सर्वभाववित् निष्कपायश्चतुर्दशः ॥२५॥

निष्पुलाको निर्ममश्च चित्रगुप्तः समाधिकः ।

संवरोऽनिवृत्तिश्चैव विजयो विमञ्चस्तथा ॥२६॥

देवोपपातश्चानन्त-विजयश्चान्तिमः स्मृतः ।

हिन्दी-केवलियो मे अन्तिमकेवली जम्बू स्वामी हुए, श्रुत-केवलियो के लछ नाम-प्रभव १ शय्यम्भव २, यशोभद्र ३, सम्भू-तिविजय ४, भद्रबाहु ५, स्थूलभद्र ६ पु० ।

हिन्दी-दशपूर्वियो के नाम-महागिरि १, सुहस्तिन् २, श्रीगुणसुन्दर ३, श्यामार्य ४, रून्दिनार्य ५, रेवतीमित्र ६, श्रीधर्मन् (श्रीधर्मा) ७, भद्रगुप्त ८, श्रीगुप्त ९, वज्र १० पु० ।

हिन्दी-चौबीस तीर्थङ्करो मे बाईस तीर्थङ्कर तो इक्ष्वाकु कुलो-त्पन्न थे और मुनिसुव्रत स्वामी तथा नेमीनाथ ये दोनो हरिवंश में उत्पन्न हुए थे ।

मुक्तेरेकादश नामानि—

सिद्धालयश्च निर्याण सिद्धिर्मोक्षोऽपवर्गकः ॥२७॥

मुक्तिः कैवल्य निर्वाण श्रेयो निः श्रेयसाऽमृतम् ।

बुद्धस्य चतुर्विंशति नामानि

समन्तभद्रः सर्वज्ञो धर्मराजो विनायकः ॥२८॥

सुगतो लोकजिद्बुद्धोऽद्वयवादी जिनो मुनिः ।

षडभिज्ञो मारजित्च श्रीघनश्च तथागतः ॥२९॥

बोधिसत्त्वो मुनीन्द्रश्च शास्ता दशबलश्चथा ।

यं शाक्यसिंहः सर्वार्थ-सिद्धः शौद्धोदनिस्तथा ॥३०॥

अर्कबन्धु गोतमश्च मायादेवी सुतो मतः ।

हिन्दी—भविष्यत् चौविंसी के नाम—महापद्म १, सूरदेव २, सुपार्श्व ३, स्वयंप्रभ ४, सर्वानुभूति ५, देवशुत ६, उदय ७, पेढाल ८ पोडिल ९, शतकीर्ति १०, सुव्रत ११, अमम १२, सर्व-भाववित् १३, निष्कषाय १४ निष्पुलाक १५, निर्मम १६, चित्र-गुप्त १७ समाधि १८, सवर १९, अनिवृत्ति २०, विजय २१, विमल २२ देवोपपात २३, अनन्तविजय २४, ये सर्वपुलिङ्ग है ।

हिन्दी— मुक्ति के ग्यारह नाम—सिद्धालय १ मोक्ष २ अपवर्ग ३ पु० सिद्धि ४ मुक्ति ५ स्त्री० निर्याग ६ निर्वाण ७ कैवल्य ८ श्रेयस् ९ निःश्रेयस १० अमृत ११ नपुमकलिङ्ग ।

हिन्दी—बुद्ध के चौबीस नाम इस प्रकार—समन्तभद्र १ सर्वज्ञ २ धर्मराज ३ विनायक ४ सुगत ५ लोकजित् ६ बुद्ध ७ अद्वयवादी ८ जिन ९ मुनि १० षडभिज्ञ ११ मारजित् १२ श्री-

—अथ सुरवर्गं प्रारभ्यते

देवलोकस्य नव नामानि—

देवलोकः स्वर्गनाकौ त्रिदिवस्त्रिदशालयः ।

कलीवे त्रिविष्टपं स्त्रीत्वे द्यौं दिवौ द्वे स्वरव्ययम् ॥१॥

देवानां चतुर्विंशति नामानि—

देवोऽस्वप्नस्त्रिदशौ निर्जरौ विबुधोऽमरः ।

अनिमेषी दिवौकाश्च सुपर्वा सुमनाः सुरः ॥२॥

वृन्दारकाऽदिति सुतौ देवतपु नपुसकम् ।

बर्हिमुख क्रतुभुजौ गीर्वाणो देवतास्त्रियाम् ॥३॥

आदित्यदिविषदलेखा अमर्त्याऽमृतभोजनौ ।

दानवारिरिमे पुंसि लेखादेवेस्त्रिया मता ॥४॥

घन १३, तयागत १४ बोधिसत्त्व १५ मुनीन्द्र १६ शास्ता १७
दशबल १८ शाक्यसिंह १९ सर्वार्थसिद्ध २० शौद्धोदनि २१
अर्कबन्धु २२ गौतम २३ मायादेवीसुत २४ पुलिङ्ग ।

हिन्दी—देवलोक के नौ नाम—देवलोक १ स्वर्ग २ नाक ३
त्रिदिव ४ त्रिदशालय ५ पु० त्रिविष्टप ६ नपु० द्यौ ७ दिव ८
स्त्री० स्वर ९ अव्यय ।

हिन्दी—देवताओं के चौबीस नाम—देव १ अस्वप्न २ त्रिदश
३ निर्जर ४ विबुध ५ अमर ६ अनिमेष ७ दिवौक ८ सुपर्वा
९ सुमन १० सुर ११ वृन्दारक १२ अदिति सुत १३ बर्हिमुख
१४ क्रतुभुज १५ गीर्वाण १६ आदित्य १७, दिविषद १८
अमर्त्य १९ अमृतभोजन २० दानवारि २१ पु० दैवत २२ नपु०

मुक्तेरेकादश नामानि—

सिद्धालयश्च निर्याण सिद्धिर्मोक्षोऽपवर्गकः ॥२७॥
मुक्तिः कैवल्य निर्वाण श्रेयो निः श्रेयसाऽमृतम् ।

बुद्धस्य चतुर्विंशति नामानि
समन्तभद्रः सर्वज्ञो धर्मराजो विनायकः ॥२८॥
सुगतो लोकजिद्वुद्धोऽद्वयवादी जिनो मुनिः ।
षड्भिज्जो मारजित्च श्रीघनश्च तथागतः ॥२९॥
बोधिसत्त्वो मुनीन्द्रश्च शास्ता दशबलस्या ।
यं शाक्यसिंहः सर्वार्थ-सिद्धः गौद्धोदनिस्तथा ॥३०॥
अर्कबन्धु गोतमश्च मायादेवी सुतो मतः ।

हिन्दी-भविष्यत् चौविंसी के नाम-महापद्म १, सूरदेव २, सुपार्श्व ३, स्वयंप्रभ ४, सर्वानुभूति ५, देवश्रुत ६, उदय ७, पेढाल ८ पोडिल ९, शतकीर्ति १०, सुव्रत ११, अमम १२, सर्वभाववित् १३, निष्कपाय १४ निष्पुलाक १५, निर्मम १६, चित्रगुप्त १७ समाधि १८, सवर १९, अनिवृत्ति २०, विजय २१, विमल २२ देवोपपात २३, अनन्तविजय २४, ये सर्वपुलिङ्ग है ।

हिन्दी- मुक्ति के ग्यारह नाम-सिद्धालय १ मोक्ष २ अपवर्ग ३ पु० सिद्धि ४ मुक्ति ५ ली० निर्याग ६ निर्वाण ७ कैवल्य ८ श्रेयस् ९ निःश्रेयस १० अमृत ११ नपुमकलिङ्ग ।

हिन्दी-बुद्ध के चौवीस नाम इस प्रकार-समन्तभद्र १ सर्वज्ञ २ धर्मराज ३ विनायक ४ सुगत ५ लोकजित् ६ बुद्ध ७ अद्वयवादी ८ जिन ९ मुनि १० षड्भिज्ज ११ मारजित् १२ श्री-

—अथ सुरवर्गं प्रारभ्यते

देवलोकस्य नव नामानि—

देवलोकः स्वर्गनाकौ त्रिदिवस्त्रिदशालयः ।

कलीवे त्रिविष्टपं स्त्रीत्वे द्यौ दिवौ द्वे स्वरव्ययम् ॥१॥

देवानां चतुर्विंशति नामानि—

देवोऽस्वप्नस्त्रिदशौ निर्जरौ विबुधोऽमरः ।

अनिमेषी दिवौकाश्च सुपर्वा सुमनाः सुर ॥२॥

वृन्दारकाऽदिति सुतौ देवत पुं नपुंसकम् ।

बर्हिमुख क्रतुभुजौ गीर्वाणो देवतास्त्रियाम् ॥३॥

आदित्यदिविषल्लेखा अमर्त्याऽमृत भोजनौ ।

दानवारिरिमे पुंसि लेखादेवेस्त्रिया मता ॥४॥

घन १३, तयागत १४ बोधिसत्त्व १५ मुनीन्द्र १६ शास्ता १७
दशबल १८ शाक्यसिंह १९ सर्वार्थसिद्ध २० शौद्धोदनि २१
अर्कबन्धु २२ गौतम २३ मायादेवीसुत २४ पुलिङ्ग ।

हिन्दी—देवलोक के नौ नाम—देवलोक १ स्वर्ग २ नाक ३
त्रिदिव ४ त्रिदशालय ५ पु० त्रिविष्टप ६ नपु० द्यौ ७ दिव ८
स्त्री० स्वर ९ अव्यय ।

हिन्दी—देवताओं के चौबीस नाम—देव १ अस्वप्न २ त्रिदश
३ निर्जर ४ विबुध ५ अमर ६ अनिमेष ७ दिवौक ८ सुपर्वा
९ सुमन १० सुर ११ वृन्दारक १२ अदिति सुत १३ बर्हिमुख
१४ क्रतुभुज् १५ गीर्वाण १६ आदित्य १७, दिविषद् १८
अमर्त्य १९ अमृतभोजन २० दानवारि २१ पु० दैवत २२ नपु०

देवाना भेद प्रदर्शनम्—

देवाश्चतुर्विधाः प्रोक्ता आद्या भवनवासिनः ।
 वानव्यन्तरज्योतिष्काः पुनर्वैमानिका मताः ॥५॥
 असुराद्या दशविधा देवा भवनवासिनः ।
 व्यन्तराश्च पिशाचाद्या इमे षोडश समता ॥६॥
 पिशाचा भूत यक्षाश्च राक्षसाः किन्नरास्तथा ।
 किं पुरुषा मन्तरगाः गन्धर्वा अप्रज्ञप्तिकाः ॥७॥
 पञ्चप्रज्ञप्तिका ऋषि वादिनो भूतवादिनः ।
 क्रन्दिता महाक्रन्दिताः कूष्माण्डाः षट्पतास्तथा ॥८॥

ज्योतिष्कदेवाना पञ्चनामानि—

ज्योतिष्काः पञ्चचन्द्रार्क ग्रहनक्षत्रतारकाः ।
 वैमानिकाः कल्पभवाः क्षौवर्मादि निवासिन ॥९॥

देवता २३ स्त्री० ङेया २४ देव अर्थ में स्त्रीङ्ग ।

हिन्दी—भवनवासी वानव्यन्तर ज्योतिषी और वैमानिकके भेद से देव चार प्रकार के होते हैं । जिसमें असुरकुमार आदि के नाम- असुरकुमार १ नागकुमार २ सुवर्णकुमार ३ विद्युत्कुमार ४ अग्नि-कुमार ५ द्वीपकुमार ६ उदधिकुमार ७ दिशाकुमार ८ वायुकुमार ९ स्तनितकुमार १० ये दश भवनवासी देव हैं और पिशाच आदि सोलह प्रकार के व्यन्तर हैं उनके नाम—पिशाच १ भूत २ यक्ष ३ राक्षस ४ किन्नर ५ किपुरुष ६ महोरग ७ गन्धर्व ८ अप्रज्ञप्तिक ९ (पणपन्निय) १० ऋषिवादी ११ भूतवादी १२ क्रन्दित १३ महाक्रन्दित १४ कूष्माड १५ पतग (पतंगदेव) १६ पुल्लिङ्ग ।

देवलोकस्य द्वादशभेदा

सौधर्म ईशान सनत्कुमारा माहेन्द्रको ब्रह्मततश्च लान्तकः ।
शुक्रः सहस्रारक आनतश्च, ततः पर प्राणत आरणान्युतो
कल्पातीतदेवाना चतुर्दश भेदा

त्रैवेयका अनुत्तराः कल्पातीताश्चतुर्दशः ।

इन्द्रस्यैव त्रिंशद् नामानि

इन्द्रस्तु मघवा शक्रः सुनासीरः पुरन्दरः ॥११॥

शतमन्यु निर्डौजाश्च पुरुहूतो दिवरपतिः ।

जिष्णुर्वज्री वृत्रहा च मरुत्तान् पाकशासनः ॥१२॥

सक्रन्दन सुरपति गौत्रभिद् वासवो वृषा ।

सुरेश्वरो बलारातिः सहस्राक्षः शचीपतिः ॥१३॥

हरिर्हरिहयो मेघवाहनो जम्भभेदनः ।

आखण्डलो देवराजः स्वाराड् देवेन्द्र इत्यपि ॥

हिन्दी—ज्योतिष्क देवो के पाचभेद है—चन्द्र १ सूर्य २ ग्रह
३ नक्षत्र ४ तारक ५ पु० ।

हिन्दी—देवलोक बारह है उनके नाम—सौधर्म १ ईशान २
सनत्कुमार ३ माहेन्द्र ४ ब्रह्म ५ लान्तक ६ महाशुक्र ७ सहस्रार
८ आनत ९ प्राणत १० आरण ११ अच्युत १२ पु० । यहा
के देव कल्पोपपन्न कहलाते है ।

हिन्दी—त्रैवेयक देव के नौ नाम—भद्र १ सुभद्र २ सुजात ३
सुमानस ४ प्रियदर्शन ५ सुदर्शन ६ अमोघ ७ सुप्रतिबुद्ध ८
यशोधर ९ पु० । अनुत्तर देव के पाच नाम—विजय १ वैजयन्त
२ जयन्त ३ अपराजित ४ सर्वार्थसिद्ध ५ पु० ।

इन्द्रपरिवारस्य नामानि—

पुत्रो जयन्त एतस्य प्रियेन्द्राणो^१ शचीमता ।
उच्चैः^२ श्रवा घोटकश्च नगरीत्वेमरावती ॥१६॥

ऐरावतो गजः प्रोक्तः स ऐरावण उच्यते ।
सारथि मातलिः पर्यत् सुधर्मा नन्दन वनम् ॥१६॥
कल्पवृक्षस्य पञ्चनामानि

^३पारिजातश्च मन्तानो मन्दारः कल्प इत्यपि ।
पञ्चैते देवतरवः पुसिवा हरिचन्दनम् ॥१७॥

हिन्दी—इन्द्र के इकतीस नाम—इन्द्र, मघवा (मघवन्) २, शक्र ३, सुनासीर ४ पुरन्दर ५ गतमन्यु ६, बिडौजा (बिडौजस्) ७, पुरहूत ८, दिवस्पति ९, जिष्णु १०, वज्री(वज्रिन्) ११, वृत्रहा (वृत्रहन्) १२ मरुत्वान् (मरुत्वत्) १३, पाकशासन १४, सक्रन्दन १५, सुरपति १६, गोत्रभिद् १७, वासव १८, वृषा(वृषन्) १९, सुरेश्वर २० बलाराति २१, सहस्राक्ष २२, शचीपति २३, हरि २४, हरिहय २५, मेघवाहन २६, जम्भभेदन २७, आस्वण्डल २८, देवराज २९, स्वाराट (स्वराज्) ३०, और देवेन्द्र ३१ पुल्लिग ।

हिन्दी—(१) इन्द्र के पुत्र का नाम—जयन्त १ पु० । (२) प्रिया के दो नाम—इन्द्राणी १ शची २ स्त्री (३) घोडे का एक नाम—उच्चै श्रवा १ पु० । (४) नगरी का एक नाम—अमरावती १ स्त्री (५) हाथी के दो नाम—ऐरावत १ ऐरावण २ पु० । (६) सारथि का एक नाम मातलि—१ पु० । (७) सभा का एक नाम—सुधर्मा (सुधर्मन्)। १ स्त्री० । (८)वन का एक नाम—नन्दन १ नपुसक ।

दम्भोलिर्वज्रमस्त्रीस्याद् ह्रादिनाभिदुरं पविः ।

शतकोटिः स्वरुः शंभुः कुलिशमशनिर्द्वयोः ।

ब्रह्मणो अष्टाविंशतिनामानि

ब्रह्मात्मभू रव्योनि विधाता चतुराननः ।

परमेष्ठी सुरज्येष्ठः स्वयभूः कमलासनः ॥१९॥

वेधा विरिञ्चिलोकेशो विधिः स्रष्टा प्रजापतिः ।

विश्वसृद् सत्यको धाता सृष्टिकर्ता पितामहः ॥१०॥

नाभिजन्माण्डजो हंसवाहनः—कमलोद्भवः ।

हिरण्यगर्भो द्रुहिणो रजोमूर्तिश्चतुर्मुखः ॥२१॥

हिन्दी—(१) कल्पवृक्ष के पाँच नाम—पारिजात १ सन्तान २, मन्दार ३, कल्पवृक्ष ४ पु० हरिचन्दन ५ पु० (२) वज्र के दश नाम—दम्भोलि १ पुं०, वज्र २ अस्त्रि०, ह्रादिनी ३ पु. भिदुरं ४ पु नपु पवि ५, शतकोटि ६, स्वरु ७, शंभु ८ पुं. कुलिश ९ पु. नपुं, अशनि १० स्त्री० पु० ।

हिन्दी—ब्रह्मा के अट्ठाईस नाम—ब्रह्मा (ब्रह्मन्) १, आत्मभू २, अव्योनि ३ विधाता ४ चतुरानन ५ परमेष्ठी (परमेष्ठिन) ६ सुरज्येष्ठ ७ स्वयभू ८ कमलासन ९ वेधा (वेधस्) १० विरिञ्चि (विरिञ्चि) ११ लोकेश १२ विधि १३ स्रष्टा (स्रष्ट) १४ प्रजापति १५ विश्वसृद् (विश्वसृज्) १६ सत्यक १७ धाता १८ सृष्टिकर्ता १९ पितामह २० नाभिजन्मा २१ अण्डज २२ हंसवाहन २३ कमलोद्भव २४ हिरण्यगर्भ २५ द्रुहिण २६ रजोमूर्ति २७ चतुर्मुख २८ ये सर्व पुलिङ्ग हैं ।

विष्णो. एकोनचत्वारिंशद् नामानि—

हरिर्विष्णु हृषीकेशः केशवो गरुडध्वजः ।
 गोविन्दो माधवः कृष्णः स्वभूर्दामोदरोऽच्युतः ॥२२॥
 नारायणश्चक्रपाणिः शौरिः श्रीशश्चतुर्भुजः ।
 उपेन्द्रः पुण्डरीकाक्षो वासुदेवो जनार्दनः ॥२३॥
 त्रिविक्रमः पद्मनाभः श्रीपतिर्जगतीपतिः ।
 देवकीनन्दनो विष्वक् सेनः श्रीवत्सलाञ्छन ॥२४॥
 वनमाली बलिध्वसी कंसारि विश्वनायकः ।
 अधोक्षजो मधुरिपु मुकुन्द पुरुषोत्तमः ॥२५॥
 विश्वरूपः कैटभजिद् मुरारिर्भृगुसूदनः ।

कृष्णपितुद्दे नाम्नी

जनको वसुदेवोऽरय स एवाऽऽनक्तदुन्दुभिः ॥२६॥

हिन्दी-विष्णुके उन्चाठीस नाम-हरि १ विष्णु २ हृषीकेश ३
 केशव ४ गरुडध्वज ५ गोविन्द ६ माधव ७ कृष्ण ८ स्वभू ९
 दामोदर १० अच्युत ११ नारायण १२ चक्रपाणि १३ शौरि
 १४ श्रीश २५ चतुर्भुज १६ उपेन्द्र १७ पुण्डरीकाक्ष १८
 वासुदेव १९ जनार्दन २० त्रिविक्रम २१ पद्मनाभ २२ श्री-
 पति २३ जगतीपति २४ देवकीनन्दन २५ विष्वक्सेन २६
 श्रीवत्सलाञ्छन २७ वनमाली (वनमालिन्) २८ बलिध्वमी (बलि-
 ध्वसिन्) २९ कंसारि ३० विश्वनायक ३१ अधोक्षज ३२
 मधुरिपु ३३ मुकुन्द ३४ पुरुषोत्तम ३५ विश्वरूप २६ कैटभ
 जिद् ३७ मुरारि ३८ मधुसूदन ३९ ये सर्व पुलिङ्ग है ।

लक्ष्मा एकादश नामानि

रमालक्ष्मी विष्णुकान्ता पद्मापद्मालयास्तथा ॥३१॥

इन्दिराकमला श्री मा भार्गवी कमलासना ।

गरुडस्य एकादश नामानि

कृष्णस्य वाहनमृताक्षर्यो गरुडः पन्नगाशनः ॥३२॥

नागान्तकौ वैनतयो गरुत्माश्च स्वर्गेश्वरः ।

पक्षिराजो विष्णुरथः सुपर्णो भोगिभोजनः ॥३३॥

कृष्णस्य उकरण नामानि—

श्रीपतेः पाञ्चजन्यः स्याद् शंखश्चक्र सुदर्शनम् ।

गदा क्रौमोदकी खड्गो नन्दकः कौस्तुभो मणिः ॥३४॥

१३ शबरारि १४ अनन्यज १५ आत्मभू १६ मीनकेतु १७ रताग
१८ मकरध्वज १९ ये सर्व पुलिङ्ग है ।

हिन्दी—लक्ष्मी के ग्यारह नाम—रमा १ लक्ष्मी २ विष्णुकान्ता
३ पद्मा ४ पद्मालया ५ इन्दिरा ६ कमला ७ श्री ८ मा ९,
भार्गवी १० कमलासना ११ स्त्री० ।

हिन्दी—गरुड के ग्यारह नाम—ताक्ष्य १, गरुड २, पन्न
गाशन ३, नागान्तक ४, वैनतेय ५, गरुत्मान् (गरुत्मन्) ६, स्वर्ग
ेश्वर ७, पक्षिराज ८, विष्णुरथ ९, सुपर्ण १०, भोगिभोजन ११
ये सर्व पुलिङ्ग हैं ।

हिन्दी—विष्णु के शस्त्र का एक नाम—पाञ्चजन्य १ पु० ।
(२) चक्र का एक नाम—सुदर्शन १ नपुं० । (३) गदा का एक-
नाम—क्रौमोदकी १ स्त्री० । (४) खड्ग का एक नाम—नन्दक १
पुं० । (५) मणि का एक नाम—कौस्तुभ १ पु० ।

पार्वत्या षड्विंशति नामानि —

अथाऽस्य भाया रुद्राणी भवानी सर्वमङ्गला ।

गौरी कात्यायनी काली शर्वाणी चण्डिकाऽम्बिका ॥४१॥

मृडानी पार्वती चण्डी श्यामा हैमवतीश्वरी ।

उमा माहेश्वरी तारा भद्रकाली च भैरवी ॥४२॥

चामुण्डा गिरजा दुर्गा सत्याऽऽर्या भुवनेश्वरी ।

कार्तिकेयस्य चतुर्दश नामानि —

अथाऽस्य तनयः स्कन्दः कार्तिकेयः षडाननः ॥४३॥

पार्वतीनन्दनः क्रौञ्चदारणः शिखिवाहनः ।

पाण्मातुरो महासेनः शरजन्मा गुहोऽग्निभूः ॥४४॥

तारकारिः शक्तिधरः कुमारोऽ

गणेशस्य त्रयोदशनामानि—

थ नाणाधिपः ।

३९ भोम ४० बुध्न्य ४१ स्याणु ४२ उमापति ४३ रुद्र ४४
गिरीश ४५ अष्टमूर्ति ४६ नीलकण्ठ ४७ जटाधर ४८ पु ।

(१) शिवधनुष के दो नामे—पिनाक १ पु० अजगव २ नपु०
(२) शिव अनुचर मे प्रमथ आदि है । (३) शिव निवास स्थान
को कैलास कहते है ।

हिन्दो—पार्वती के छत्रोम नाम है—रुद्राणो १ भवानी २ सर्व
मङ्गला ३ गौरी ४ कात्यायनी ५ काली ६ शर्वाणी ७ चण्डिका ८
अम्बिका ९ मृडानी १० पार्वती ११ चण्डी १२ श्यामा १३
हैमवती १४ ईश्वरी १५ उमा १६ माहेश्वरी १७ तारा १८ मन्—

विनायको विघ्नहरो विघ्नराजो गजाननः ॥४५॥

हेरम्बे एकदन्तश्च लम्बोदर उमात्मजः ।

द्वैमातुरो गणाध्यक्षो गणेशो गणनायकः ॥४६॥

अग्नेः षड्विंशतिर्नामानि -

स्यादग्निरनलो वह्निः कृष्णवर्त्मा हुताशनः ॥४७॥

वैश्वानरो जातवेदा ज्वलनो हव्यवाहनः ॥४७॥

तनूनपादाश्रयाशः पावकश्च धनञ्जयः

कृपीटयोनिः सप्तर्चिः कृशानुश्चाशुशुक्षणिः ॥४८॥

विभावसुश्चित्रभानु हुतभृग् दहनः शुचिः ।

हिरण्यरेताः शुक्रश्च शिखी वायुसखः पुमान् ॥४९॥

काली १९ भैरवो २० चामुण्डा २१ गिरिजा २२ दुर्गा २३ सत्या
(सती) २४ आर्या २५ भुवनेश्वरी २६ ये सभी शब्द खीलिङ्ग हैं ।

हिन्दी—कार्तिकेय के चौदह नाम—स्कन्द १ कार्तिकेय २
षडानन ३ पार्वतीनन्दन ४ क्रोञ्चदारण ५ शिखिवाहन ६ षण्म-
तुर ७ महासेन ८ शरजन्मा (शरजन्मन्) ९ गुह १० अग्निभू ११
तारकारि १२ शक्तिधर १३ कुमार १४ ये सर्व पुलिङ्ग है ।

हिन्दी—गणेश के तेरह नाम— गणाधिप १, विनायक २,
विघ्नहर ३, विघ्नराज ४, गजानन ५, हेरम्ब ६, एकदन्त ७,
लम्बोदर ८, उमात्मज ९ द्वैमातुर १०, गणाध्यक्ष ११, गणेश १२
गणनायक १३ पु ।

हिन्द—अग्नि के छव्वीस नाम—अग्नि १, अनल २, वह्नि ३,

वडवाग्निप्रभृतीना नामानि

१ और्वो वाडवनामाग्निः २ सन्तापोऽग्नेस्तु संज्वर ।
 ३ उल्का प्रशान्तज्वाला ४ स्यादिङ्गाल दग्धमिन्धनम् ॥५०
 ५ कीलज्वालौ द्वयोरर्चिः क्लीवे हेतिः शिखा स्त्रियाम्
 ६ दावो दवश्च वन्याग्निः ७ स्फुलिङ्गोऽग्निकणस्त्रिषु ॥५१॥
 ८ रक्षा भूतिः स्त्रिया क्षारः पुमान् भसितभस्मनी ।

यमस्य दश नमानि—

प्रेतराड् यमराह् कालः कृतान्तः शमनो यमः ॥५२॥

कृष्णवर्त्मा (कृष्णवर्त्मन्) ४, हुताशन ५, वैश्वानर ६, जातवेदा
 (जातवेदस्) ७ ज्वलन ८ हव्यवाहन ९ तनूनपत् आश्रयाश ११
 पावक १२, घनज्जय १३, कृपीटयोनि १४, सप्तार्चि १२, कृशानु
 १६ आशुशुक्षणि १७, विभावसु १८, चित्रभानु ९, हुतभुक् (हुत
 भुज्) २० दहन २, शुचि ५५, हिरण्यरेता (हिरण्यरेतस्) २३,
 शुक्र २४ शिखी (शिखिन्) २५, वायुसख २६ ये सर्व पु० ।

हिन्दी—(१) वडवानल के दो नाम—और्व १ वाडव २ पु० (२)
 सताप के दो नाम—सताप १ संज्वर २ पु (३) उल्काके दो नाम—
 उल्का १ प्रशान्तज्वाला २ स्त्री०। (४) कोयला—कोलसा का
 एक नाम—इङ्गाल १ नपु० । (५) अग्नि ज्वाला के पाच नाम—कील
 १ ज्वाल २ पु नपु, अचि(अर्चिप्) ३ नपु हेति ४ शिखा ५
 स्त्रीलिङ्ग । (६) वनाग्नि के तीन नाम—दाव १ दव ३ वन्याग्नि
 ३ पु । (७) अग्नि कण के दो नाम—स्फुलिङ्ग १, अग्निकण २
 स्त्रीलिङ्ग । (८) रास के पाच नाम—रक्षा १ भूति २ स्त्री०, क्षार
 ३ पु० भसित ४ भस्म ५ नपुसकलिङ्ग ।

धर्मराजोऽन्तको वैव-स्वतो दण्डधरस्तथा ।

राक्षसस्य नव नामानि—

क्रव्यास्तु राक्षसो रात्रि-चरो रात्रिञ्चरोऽसुपः ॥५३॥

क्रव्यादः कौणपो यातु-धानो रक्षो नपुसकः ।

वरुणस्य पञ्च नामानि—

वरुणोऽप्पतिः प्रचेताश्च पाशी च यादसापति ॥५४॥

वायो सप्तदश, जलयुक्तयो एकम्, उग्रवायोर्द्वे नामानि—

मारुतः पवनो वातो मातरिश्वाऽनिलो मरुत् ।

सदागति गर्न्धवहो गन्धवाहः समीरणः ॥५५॥

ीर आशुगो वायु जैगत्प्राणः प्रभञ्जनः ।

नभस्व च्छवसनौ झंझा^२ वातस्तु प्राप्तवर्षणः ॥५६॥

प्रकैम्पनस्तूग्रवातोऽथाऽसौ शारीरिको यथा ।

हिन्दी—यमराज के दश नाम—प्रेतराट् (प्रेतराज्) १, यमराट् (यमराज्) २, काल ३, कृतान्त ४, शमन ५, यम ६ धर्मराज ७, अन्तक ८, वैवस्वत ९, दण्डधर १० पुलिङ्ग है ।

हिन्दी—राक्षस के नौ नाम—क्रव्यात् १, राक्षस २, रात्रिचर ३, रात्रिञ्चर ४, असुप ५, क्रव्याद ६, कौणप ७, यातुधान ८, पु०, रक्षस ९, नपु० ।

हिन्दी—वरुण के पाच नाम—वरुण १, अप्पति २, प्रचेता (प्रचेतम्) ३, पाशो (पाशिन्) ४, यादसापति ५ पुलिङ्ग ।

हिन्दी—(१) वायु के सत्रह नाम—मारुत १, पवन २ वात ३ मातरिश्वा (मातरिश्चन्) ४, अनिल ५, मरुत ६, सदागति ७,

प्राणवायोः पञ्च, वेगस्य पञ्च, शीघ्रस्यैकादश, निरन्तरस्य,
नवनामानि—

व्यानः सर्वशरीरेऽन्तः प्राणोऽपानो गुदस्थले ॥५७॥

समानो नाभिदेशेऽस्या, दुदानः कण्ठसंस्थितः ।

क्लावे रहस्तरः पुसि जवो वेगो रयः स्यदः ॥५८॥

अथ शीघ्रमैरं क्षिप्र चपल सत्वर द्रुतम् ।

त्वरित लघु तद्वत्स्या—तूर्णमाश्च विलम्बितम् ॥५९॥

संतताऽविरताऽश्रान्त सतताऽनारताऽनिशम् ।

नित्याऽनवरताऽनस्त्रं नखी नैव पुमान् क्वचित् ॥६०॥

गन्धवह ८, गन्धवाह ९, समीरण १०, समीर ११, आशुग
१२ वायु १३, जगत्प्राण १४, प्रभञ्जन १५, नभस्वान् (नभस्वत्)
१६, श्वसन १७ पु० (२) वर्षा के साथ चलते वायु का एक
नाम—झझावात १ पु० (३) उग्रवायु के दो नाम—प्रकम्पन १,
उग्रवात २ पुलिङ्ग ।

(१) प्राण वायु के पाच भेद हैं—व्यान १ समस्त शरीर मे,
प्राण २ अन्त शरीर मे, अपान ३ गुद देश मे समान ४ नाभि-
देश मे, उदान ५ कण्ठदेश मे स्थित है पु० । (२) वेग के पाच
नाम—रह (रहस्) १ तर (तरस्) २, नपु० जब ३, वेग ४, रय
५, स्यद ६, पुलिङ्ग । (३) शीघ्र के ग्यारह नाम—शीघ्र १, अर
२ क्षिप्र ३, चपल ४, सत्वर ५, द्रुत ६, त्वरित ७, लघु ८, तूर्ण
९, आशु १०, अविलम्बित ११ नपु० । (४) निरन्तर के नौ नाम
संतत १, अविरत २, अश्रान्त ३, सतत ४, अनारत ५, अनिश

अतीशयस्य चतुर्दश नामानि—

भरोऽतिशय एतौ द्वौ पुंस्युद्गाढ च निर्भरम् ।

अतिमात्रं नितान्तं च गाढवाढदृढानि च ॥६१॥

अत्यर्थमतिवेलं च भृशं तीव्रमुदाहृतम् ।

एकान्तमपि शीघ्रादि सत्त्वेनैव नपुसकम् ॥६२॥

वात्याया. पञ्च नामानि—

वात्या स्त्री वातुलो वातग्रन्थिस्तृणविघूर्णकः ।

वातुलो ह्रस्वमध्योऽपि क्षीरस्वामिमतं यथा ॥६३॥

स्वर्गवेश्याया द्वे नामानि—

उर्वेश्याद्यादिवो वेश्या बहुत्वेऽप्सरसः स्त्रियाम् ।

बहुत्वेऽप्सरसो वादः प्राय आह पतञ्जलिः ॥६४॥

६, नित्य ७, अनवरत ८ अजस्र ९ नित्यनपुंसक ।

हिन्दी—अतिशय के चौदह नाम—भर १, अतिशय २ पु०, उद्गाढ ३, निर्भर ४, अतिमात्र ५, नितान्त ६, गाढ ७, वाढ ८, दृढ ९, अत्यर्थ १०, अतिवेल ११, भृश १२, तीव्र १३, एकान्त १४ शीघ्रादि असत्त्वे मे नपुसक है, सत्त्व मे तत्तल्लिङ्ग है ।

हिन्दी—वटोरिया वायु (ववण्डर) के पांच नाम—वात्या १, स्त्री० वातुल २, वातूल ३ (वातल) वातग्रन्थि ४, तृणविघूर्णक ५, पुलिङ्ग ।

हिन्दी—उर्वेशी आदि स्वर्ग की वेश्याएँ है, इनके साधारण दो नाम—स्वर्वेश्या १, अप्सरस् २ स्त्री० अप्सरस् शब्द का प्रयोग

देवगायकाना 'हाहा हू हू' इत्यादीनि नामानि—
गन्धर्वा ये च हाहाघ्राः सर्वे ते देवगायकाः ।

विश्वकर्मणश्चत्वारि नामानि—

विश्वकर्माऽथवात्वष्टा विश्वकृद् देववर्धकिः ॥६५॥

विमानस्य द्वे नारदस्य द्वे नाम्नी—

'विमानोऽस्त्री नभोयान नारदः कलहप्रियः ।

किन्नरस्य चत्वारि नामानि—

किन्नरोयस्तुरङ्गाऽऽस्यो मयु किपुरुषश्च स

कुवेरस्यैकादश नामानि—

कुवेरो यक्षराज स्याद् धनदश्च धनेश्वरः ।

गुह्यकेश्वर पौलस्त्यौ राजराड् विश्रवः सुतः ॥६७॥

किं पुरुषेश्वर ईशान सखश्च नरवाहनः ।

बहुवचन मे ही होता है पतञ्जलि इसको प्रायोवाद मानते हैं ।

हिन्दी—देवगायक गन्धर्वों के नाम—हाहा हू हू आदि पु० ।

हिन्दी—विश्वकर्मा के चार नाम—विश्वकर्मा (विश्वकर्मन्) १,
त्वष्टा (त्वष्ट) २, विश्वकृत् ३, देववर्धकि ४ पु० ।

हिन्दी—(१)विमान के दो नाम—विमान १ अस्त्री०, नभोयान
२, नपु० ।(२)नारद के दो नाम—नारद १, कलहप्रिय २ पुलिङ्ग।

हिन्दी—किन्नर के चार नाम—किन्नर १, तुरङ्गास्य २, मयु
३, किंपुरुष ४ पुलिङ्ग ।

हिन्दी—कुवेर के ग्यारह नाम—कुवेर १, यक्षराज २, धनद

कुबेरस्य स्थान पुरी सुत विमानोघानानामकैकम्—
कैलासः स्थानमलकापूः सुतो नलकूबरः ॥६८॥

विमानं पुष्पक चैत्र रथमुद्यानमुत्तमम् ।

निधि द्वे नाम्नी, तत्प्रभेदा नव

निधिस्तु शेवधिः पुसि प्रभेदा नव कीर्णिताः ॥६९॥

तथाहि मकरः खर्वः शंखः पद्मश्च कच्छप ।

महापद्मो मुकुन्दश्च कुन्दो नीलः क्रमादमी ॥७०॥

इति सुरवर्गः समाप्तः

॥ अथ व्योमवर्गः प्रारभ्यते ॥

—आकाशस्थोन विंशति नामानि—

अथ व्योम वियद् विष्णु पद ख पुष्करं नभः ।

अन्तरीक्षाऽम्बराऽनन्त गगनानि नपुंसके ॥१॥

अस्त्री विहाय आकाशोऽन्तरिक्ष सुरवर्त्मनी ।

३, घनेश्वर ४, गुह्यकेश्वर ५, पौलस्त्य ६, राजराट् (राजराजू) ७
विश्रवसुत ८, किंपुरुषेश्वर ९, ईशानसखा १०, नरवाहन ११ पु.

हिन्दी—कुबेर का स्थान—कैलास पु०, पुरी—अलका स्त्री०,
पुत्र—नलकूबर पु०, विमान पुष्पक पुंनपु०, उद्यान—चैत्ररथ नपुं-
सकलिङ्ग ।

हिन्दी—निधि के दो नाम—निधि १ शेवधि २ पु० इनके नौ
भेदों का नाम—मकर १, खर्व २, शंख ३, पद्म ४, कच्छप ५,
महापद्म ६, मुकुन्द ७, कुन्द ८, नील ९ पुलिङ्ग ।

॥इति सुरवर्ग समाप्त ॥

तारापथो द्यो दिवो स्त्री मेघमार्गो विहायसः ॥२॥

मेघस्य त्रयोदश नामानि—

धाराधरो जलधरो जीमूतो मुदिरोऽम्बुभृत् ।

जलमुग् धूमयोनिश्च वारिदश्च बलाहकः ॥३॥

वारिवाहो घनो मेघ स्वभ्रमेव नपुसकम् ।

मेघमालाया द्वे विद्युतोऽष्टौ नामानि—

कादम्बिनी मेघपङ्क्ति विद्युत्सौदामिनी तडित् ॥४॥

ह्लादिनी चञ्चला शम्पा चपला च क्षणप्रभा ।

हिन्दी—आकाश के उन्नीस नाम—व्योम (व्योमन) १, वियत् २, विष्णुपद ३, ग्व ४, पुष्कर ५, नभ (नभस्) ६, अन्तरीक्ष ७, अम्बर ८, अनन्त ९, गगन १०, अन्तरिक्ष ११, सुरवर्त्म १२, नपु०, विहायस् १३, आकाश १४, अल्लो० द्यो १५, दिव १६, स्त्री०, तारापथ १७, मेघमार्ग १८, विहायस १९, पुलङ्ग

हिन्दी— मेघ के तेरह नाम—धाराधर १, जलधर २, जीमूत ३, मुदिर ४, अम्बुभृत् ५, जलभुक् (जलमुच्) ६, धूमयोनि ७, वारिद ८, बलाहक ९, वारिवाह १०, घन ११, मेघ १२, पु० अम्भ १३, नपु० ।

हिन्दी— १ मेघमाला के दो नाम—कादम्बिनी १, मेघपङ्क्ति २, स्त्री० २ विजली के आठ नाम—विद्युत (त्) १, सौदामिनी (सौदामि) २, तडित (त्) ३, ह्लादिनी ४, चञ्चला ५, शम्पा ६, चपला ७, क्षणप्रभा ८, छलित्

मेघध्वनेश्चत्वारि नामानि—

मेघध्वनिस्तु रसित—गर्जितस्तनितानि च ॥५॥

१ वज्रघोषस्य द्वे, २ घनज्योते द्वे ३ कारकाया द्वे, ४ दुर्दिनस्य
द्वे ५ धारासपातस्य द्वे ६ अम्बुकणस्य द्वे, ७ इन्द्रधनुषो द्वे नाम्नी—

वज्रघोषः स्पर्जथुः स्याद् घनज्योतिरिर मदः ।

वर्षोत्पलस्तु करका मेघाच्छन्न तु दुर्दिनम् ॥५॥

धाराप्रपात आसारः शीकरोऽम्बुकणः पुमान् ।

इन्द्रधनुः शक्रचापे दृश्यते वार्दलोद्गमे ॥७॥

अन्तर्धानस्य दश, चन्द्रस्य विशति —

पुस्यन्तेर्धिर्निलयने ह्यन्तर्धा व्यवधा स्त्रियाम् ।

पिधानमपिधान च तिरोधानाऽपवारणे ॥८॥

निकोचनाऽऽच्छादने च चन्द्रैस्त्वन्दुर्निशापतिः ।

सोमः सुधांशुः शुभ्रांशु हिमांशुश्चन्द्रमा विधुः ॥९॥

हिन्दी— मेघध्वनि के चार नाम—मेघध्वनि १ पुं०, रसित, २
गर्जित ३, स्तनित ४ नपुं० ।

हिन्दी—(१) विजलो कड़कने के दो नाम—वज्रघोष १, स्फूर्-
ज्जथु २ पु० । (२) मेघज्योति के दो नाम—घनज्योति १ स्त्री०,
इरंमद पु० । (३) वृष्टि से जो प्रस्तर (ओले) पड़े उमके दो नाम—
वर्षोत्पल १ पु०, कारका २ स्त्री० । (४) बादल से छाये हुए दिन
का एक नाम—दुर्दिन १ नपुं० । (५) महावृष्टि के दो नाम—धाराप्रपात
२, आसार २ पु० । (६) जलकण के दो नाम—शीकर १ अम्बुकण २
पुं० । (७) इन्द्रधनुष के दो नाम—इन्द्रधनुष १ नपु०, शक्रचाप २
पुल्लिग ।

शशी शशधरः शीतरश्मिः कुमुदवान्धवः ।

नक्षत्रेशो मृगाङ्को ग्लौ रोषधीशः कलानिधिः ॥१०॥

क्षपाकर निशानाथौ विंशतिः केवलं पुमान् ।

सूर्यचन्द्रमण्डलस्य द्वे, चन्द्रकिरणाना षोडशांशस्यैकम् खण्डस्य चत्वारि-
मण्डलं त्रिषु विम्बोऽस्त्री षोडशांश कला त्रियाम् ॥११॥

खण्डोऽस्त्री शकलेभित्तं पुस्यर्थोऽर्धं समाशके ।

१ चन्द्रचन्द्रिकाया पञ्च, २ प्रसन्नताया द्वे ३ चिह्नस्य षट्
४ शोभायाश्चत्वारि ५ अगस्त्यस्य चत्वारि ६ नक्षत्रस्य षट्, ७
मृगशिरसो द्वे—

हिन्दी—(१) अन्तर्धान के दश नाम—अन्तर्धि १ पु०, अन्तर्धा
२ व्यवधा ३ खीलिङ्ग निलयन ४, पिधान ५, अपिधान ६,
तिरोधान ७, अपवारण ८, निकोचन ०, आच्छादन १० नपु० ।
(२) चन्द्रमा के वीम नाम—चन्द्र १, इन्दु २, निशापति ३, सोम
४, सुधाशु ५, शुभ्राशु ६, हिमाशु ७, चन्द्रमा (चन्द्रमस्) ८,
विधु ९, शशी(शशिन्) १०, शशधर ११, शीतरश्मि १२, कुमु-
दवान्धव १३, नक्षत्रेश १४, मृगाङ्क १५, ग्लौ १६, ओषधीश
१७, कलानिधि १८, क्षपाकर १९, निशानाथ २० पुलिङ्ग ।

हिन्दी—(१) सूर्यचन्द्रमण्डल के दो नाम—मण्डल १ त्रिलिङ्ग,
विम्ब २ अस्त्री० । (२) चन्द्रमण्डल के सोलहवे भाग का नाम—
कला १ खीलिङ्ग । (३) खण्डमात्र के चार नाम—खण्ड १, शकल
२, भित्त ३ अस्त्री०, अर्ध ४ पु०, सम अश मे अर्ध नपुसक ।

चान्द्रीस्याच्चन्द्रिका चन्द्र कला ज्योत्स्ना च कौमुदी ॥१२॥

प्रसन्नता प्रसादः स्यात् लाञ्छनं लक्ष्मलक्षणम् ।

चिह्नमङ्कः कलङ्कश्च चत्वार्याहुर्नपुंसके ॥१४॥

धृतिः कान्तिश्छवि शोभा सुषमा तु महाद्युतिः ।

अगस्त्यो घटयोनिश्च मैत्रावरुण कुम्भजौ ॥१४॥

उड्डु नक्षत्रमृक्षं भं तारा स्त्री तारका न ना ।

मृगशीर्षं मृगशिर आह गोपालितः स्त्रियाम् ॥१५॥

१ बृहस्पतेः पञ्च, २ शुक्रस्य षट्, ३ मङ्गलस्य चत्वारि, ४

त्रीणि बुधस्य, ५ त्रीणि शनै, राहोः पञ्च, ७ सूर्यत्रिंशत्नाम-

जीवोगुरुः सुराचार्यो वाचस्पति बृहस्पती ।

भार्गवो भृगुजः काव्यः शुक्रो दैत्यगुरुः कविः ॥१६॥

मैङ्गलोऽङ्गारको भौमः कुजो भूमिसुतस्तथा ।

रौहिणेयो बुधः सौम्यः शनिः शौरिः शनैश्चर ॥१७॥

(१) चन्द्र को चादनी के पाच नाम—चान्द्री १, चन्द्रिका २ चन्द्रकला ३, ज्योत्स्ना ४, कौमुदी ५ स्त्री० । (२) प्रसन्नता के दो नाम—प्रसन्नता १ स्त्री०, प्रसाद २ पु० । (३) चिह्न के छ नाम—लाञ्छन १, लक्ष्म २, लक्षण ३, चिह्न ४ नपु०, अङ्क ५, कलङ्क ६ पु० (४) शोभा के चार नाम—द्युति १ कान्ति २ छवि ३, शोभा ४ स्त्रीलिङ्ग । (५) अगस्त्यऋषि के चार नाम—अगस्त्य १, घटयोनि २, मैत्रावरुण ३, कुम्भज ४ पुलिङ्ग । (६) नक्षत्र के छ नाम—उड्डु १, नक्षत्र २, ऋक्ष ३, भ ४ नपुंसक, तारा ५, स्त्री० तारका ६ स्त्री० नपुंसक । (७) मृगशिरा के दो नाम—मृगशीर्ष १ नपु०, (मृगशिरस्) मृगशिरा २ स्त्री० नपुंसक ।

स्वर्भानुः सैहिकेयोऽपि तमो राहु विधुन्तुदः ।

सूर्यः^९ स्यादर्यमासुर आदित्यो भास्करो रविः ॥१८॥

अर्को विभाकरो भास्वान् प्रभाकर दिवाकरो ।

मार्तण्डो मिहिरो लोक चक्षुर्ग्रहपतिस्तथा ॥१९॥

उष्णरश्मिश्च चण्डाशुः सप्ताश्वः पूषणोऽपि च ।

तरणिस्तपनः पूषा तमोहन्ता ह्यहर्षतिः ॥२०॥

विवस्वानशुमान्भानु मित्रो द्युमणि रुष्णगुः ।

हिन्दी—(१) वृहस्पति के पाच नाम—जीव १ गुरु २ सुराचार्य ३, वाचस्पति ४, वृद्धस्पति ५ पु० । (२) शुक्र के छ नाम—भार्गव १, भृगुज २, काव्य ३, शुक्र ४, दैत्यगुरु ५, कवि ६ पु० । (३) मङ्गल के पाच नाम—मङ्गल १, अङ्गारक २, भौम ३, कुज ४, भूमिसुत ५, पु० (४) बुध के तीन नाम—रौहिणेय १, बुध २, सौम्य ३ पु० । (५) शनि के तीन नाम—शनि १, सौरि २, शनैश्वर ३, पु० । (६) राहु के पाच नाम—स्वर्भानु १, सैहिकेय २, तम (तमम्) ३, राहु ४, विधुन्तुद ५ पु० । (७) सूर्य के तीस नाम—सूर्य १ अर्यमा (अर्यमन्) २, सूर ३, आदित्य ४, भास्कर ५, रवि ६ अर्क ७ विभाकर ८ भास्वान् (भास्वन्) ९ प्रभाकर १० दिवाकर ११, मार्तण्ड १२ मिहिर १३ लोकचक्षु (लोकचक्षुष) १४ ग्रहपति १५ उष्णरश्मि १६ चण्डाशु १७ सप्ताश्व १८ पूषण १९ तरणि २० तपन २१ पूषा (पूषन्) २२ तमोहन्ता (तमोहन्त) २३ अहर्षति २४ विवस्वान् २५ अंशुमान् २६ भानु २७ मित्र २८ द्युमणि २९ उष्णगु ३० पुल्लिङ्ग ।

१ सूर्य तेजोमण्डलस्य द्वे २ सूर्यस्य पार्श्वचरा अष्टादश ३ सूर्यपत्न्याद्वे ४ उदयस्य द्वे ५ अस्तकालस्य द्वे ६ सूर्यस्य रथेश्चत्वारि परिधिः परिवेषस्तु सूर्यमण्डलतः परे ॥२१॥

रथे पार्श्वचरानित्यं माठराद्या उदाहृताः ।

सूर्यप्रिया तु छायास्यात् समौस्त उदयोद्गमौ ॥२२॥
अस्तगतेऽर्थेऽस्तमनं तथाऽस्तमयनं द्वयम् ।

अनूरुररुणः सूर-सूतश्च गरुडाऽग्रजः ॥२३॥

१ सूर्य किरणानामेकादश २ प्रभाया एनादश ३ आतपस्य त्रीणि ५ ईषदुष्णस्य चत्वारि ५ अत्युष्णस्य त्रीणि ६ मृगतृष्ण या द्वे ७ रागयो द्वादश-

मयूखाऽश्वस्रकिरणा गभस्ति घृणि रश्मय ।

भानुःकरो मरीचिस्तु द्वयोः स्याद् दीधितिः स्त्रियाम् ॥२४॥

भा भाः प्रभारुचिस्त्वङ्गू दीप्तश्च द्युतिश्छविः ।

शोचिरोचिरमूवलीबे प्रकाशो घोट आतपः ॥२५॥

हिन्दी—(१) सूर्य के चारो ओर गोलाकार तेजोमण्डल के दो नाम— परिधि १ परिवेष २ पु० । (२) सूर्य के पार्श्वचर अठारह हैं—माठर १ पिङ्गल २ दण्ड ३ राजा ४ श्रोथ ५ स्वर ६ द्वारिक ७ कल्माष ८ पक्षी ९ जातृकार १० कुन ११ अपक १२ पिङ्ग १३ गज १४ दण्डों १५ पुरुष १६ किश १७ उरक १८ पु० । (३) सूर्यपत्नी के दो नाम—सूर्यप्रिया १ छाया (सूर्या) २ स्त्री० । (४) उदय के दो नाम—उदय १ उद्गम २ पु० । (५) अस्तकाल के दो नाम—अस्तमन १ अस्तमयन २ पु० । (६) सूर्य सारथी के चार नाम—अनूरु १ अरुण २ सूरसुत ३ गरुडाग्रज ४ पुलिङ्ग

कैवोष्णं कोष्णमन्दोष्णे कदुष्णं त्रिषु तद्वति ।

तथा तीक्ष्णं स्वरं तिग्मं मृगतृष्णा मरीचिका ॥२६॥

°मेषो वृषश्च मिथुनं कर्क सिंहश्च कन्यका ।

तुला च वृश्चिको धन्वी मकरः कुम्भ मीनकौ ॥२७॥

१ राशानामुदयस्यैकम्, २ हिमस्य सप्त, ३ हिमसमूहस्य द्वे,
४ गुणे नपुसक शीतं तद्वदर्थी, सप्त ५ दिशाया पञ्च ६ चतसृषु
दिक्षु प्रत्येकदिशो द्वे द्वे नाम्नी ७ दिश्यं त्रिलिङ्गम् ।

राशीनामुदयो लग्नं द्वादश स्युः क्रमादमी ।

अवश्यैयस्तुषारश्च नीहारस्तुहिनं हिमम् ॥२८॥

(१)सूर्य किरण के ग्यारह नाम—मयूख १ अंशु २ अन्न (उन्न)
३ किरण ४ गभस्ति ५ घृणि ६ रश्मि ७ भानु ८ कर ९ पु०
मरीचि १० पु० स्त्री० दीधिति ११ स्त्री० । (२) प्रभा के ग्यारह
नाम—भा भास् २ प्रभा ३ रुचि ४ त्विट् (त्विष्) ५ रुट्
(रुष्) ६ दीप्ति ७ द्युति ८ छवि ९ स्त्री० रोचि (रोचिष्) १०
शोचि (शोचिष्) ११ नपुसक । (३) आतप के तीन नाम—प्रकाश
१ द्योत २ आतप ३ पु० (४) ईषत् उष्ण के चार नाम—कवोष्ण
१ कोष्ण २ मन्दोष्ण ३ कदुष्ण ४ त्रिलिङ्ग । (५) अतिउष्ण के
तीन नाम—तीक्ष्ण १ खर २ तिग्म ३ नपु० । (६) मृगतृष्णा
के दो नाम—मृगतृष्णा १ मरीचिका २ स्त्री० (७) राशि के
वारह नाम—मेष १ वृषभ २ पु० मिथुन ३ नपु० कर्क ४ सिंह
५ पु० कन्या ६ तुला ७ स्त्री० वृश्चिक ३ ८ धन्वी (धन्विन्) ९
मकर १० कुम्भ ११ मीन १२ पुलिङ्ग ।

प्रालेयं मिहिका वाऽपि हिमानी हिमसचयः ।
 शीतं गुणे तदर्था ये सुषीमः शिशिरो जडः ॥२९॥
 तुषार शीतलौ शीत हिमौ तल्लिङ्ग वाचकाः ।
 स्त्रियां दिक्कैकुभौ काष्ठा हरिदाशाऽथ तद्भिदाः ॥३०॥
 पश्चिमादि प्रतीची स्या, दवाची दक्षिणा मता ।
 पूर्वाप्राच्युत्तरोदीची शदिश्यं तु दिग्भवे त्रिषु ॥३१॥
 पूर्वोऽभवतु प्राचीन सर्वाचीनं ततः परम् ।
 अर्वाचीन मुदीचीनं भवार्थे सर्व एव ते ॥३२॥

हिन्दी-(१) राशि के उदय का एक नाम—लग्न १ नपु ।(२) हिम के सात नाम—अवश्याय १ तुषार २, नीहार ३ पु०, तुहिन ४ हिम ५ प्रालेय ६ नपु० मिहिका ७ स्त्री० ।(३) हिम समूह के दो नाम—हिमानी १ स्त्री०, हिमसचय २ पु० । (४) गुण—वाचक शीत नपुसक है इस अर्थ में आने वाले सात नाम—सुषीम १ शिगीर २ जड ३, तुषार ४ शीतल ५ शीत ६ हिम ७ ये अन्यलिङ्ग है ।(५) दिशा के पाच नाम—दिश (दिशा) १, ककुम्भ २, काष्ठा ३ हरित् ४ आशा ५ स्त्री० ।(६) प्रत्येक दिशा के दो दो नाम—पश्चिम दिशा के पश्चिमा १ प्रतीची २ दक्षिण दिशा के—अवाची १ दक्षिणा २ पूर्वदिशा के—प्राची १ पूर्वा २ उत्तरदिशा के—उत्तरा १ उदीची २ स्त्री० ।(७) पहले या पूर्व में जो हुआ हो वह प्राचीन है, अभी २ या पीछे जो हो उसको अर्वाचीन कहते हैं; समुद्र के दक्षिण तीर की 'अर्वाचीन' और उत्तर तीर भव की 'उदीचन' सज्ञा है त्रिलिङ्ग ।

१ अष्टौ तिर्यग्दिशा पतय अष्ट, २ सूर्यादयोऽष्टौ पूर्वादि-
दिशा क्रमशो ग्रहाः, ३ दिशोर्मध्यस्यैकम् ४ मण्डलस्य द्वे ५ विदिशा द्वे-
तिर्यग्दिशां तु पतय इन्द्रोऽग्निर्यम नैर्ऋतौ
वरुणो वायु यक्षेशा वीशानश्च यथाक्रमम् ॥३३॥
सूर्यः शुक्रः कुजो राहुः शनिश्चन्द्रो बुधो गुरुः ।
अष्टावेते क्रमाज्ज्ञेयाः पूर्वादीनां दिशां ग्रहाः ॥३४॥
अन्तराल दिशोर्मध्यं चक्रवालं हि मण्डलम् ।
विदिक् स्त्रियां दिशोर्मध्येऽपदिशं वलीव मव्ययम् ॥३५॥

व्योमवर्गः समाप्तः

॥अथ समय वर्गः प्रारभ्यते ॥

समयस्य पञ्च २ तिथे द्वे ३ दिवसस्य पञ्च ४ प्रभातस्य
पञ्च ५ सन्धाकालस्य पञ्च ६ एक दिनाद्यन्तमध्यानाम्—

हिन्दी—१तिर्यग्दिशाओ मे प्रत्येक दिशा के अधिपति के आठ
नाम—इन्द्र १ अग्नि २ यम ३ नैर्ऋत ४ वरुण ५ वायु ६
यक्षेश ७ ईशान ८ पुलिङ्ग । (२) पूर्व आदि दिशा ग्रहो के आठ
नाम—सूर्य १ शुक्र २ कुज ३ राहु ४ शनि चन्द्र ६ बुध ७ गुरु
८ पुं । (३) दो दो दिशाओ के मध्य का एक नाम—अन्तराल
१ नपु० वाल १ मडल २ नपुसक । ४ मण्डल के दो नाम—
चक्रवाल १ मडल २ नपुसक (५) दो दिशाओं के मध्य मे जो
दिशा है उसके दो नाम—विदिक् १ स्त्री० अपदिश २ नपुसक ।

॥ इति व्योमवर्ग समाप्त ॥

—अथ समयवर्गः प्रारभ्यते—

(१) समयस्य पञ्च २ तिथेर्द्वे ३ दिवसस्य पञ्च ४ प्रभा-
तस्य पञ्च ५ सन्धाकालस्य पञ्च ६ एक दिनाद्यन्तमध्यानाम्

समयः कालदिष्टौ चाऽनेहा च क्षण उच्यते ।

पक्षतिः प्रतिपत्स्त्रीत्वे तदाद्यास्तिययो द्वयाः ॥१॥

दिवसो वासरो घञ्चः पुंसि क्लीबे दिनाहनौ ॥

प्रभातोऽर्हमुखं कल्यं प्रत्यूष ऊष इत्यपि ॥२॥

सायं सन्ध्या दिनान्तश्च सायः पितृ प्रसूरपि ।

त्रिधा विभक्ते दिवसे पूर्वाह्नः प्रथमस्ततः ॥३॥

१ द्वादश रात्रे २ द्वे अन्धकाररात्रे ३ एक ज्योत्स्नावद्
रात्रे ४ एक दिनद्वयमध्यगतरात्रे ५ एकं रात्रिममूहस्य ६ द्वे
रात्रि प्रारम्भस्य ७ द्वे रात्रि मध्यस्य ८ द्वे प्रहरस्य ९ एकं पर्वमन्धे

हिन्दी—(१) समय के पांच नाम समय १ काल २ दिष्ट ३
अनेहा (अनेहस्) ४ क्षण ५ पु० । (२) प्रतिपत् (प्रतिपदा) ।
तिथि के दो नाम—पक्षति १ प्रतिपत् स्त्री० । इसी को आदि
लेकर कृष्ण शुक्ल पक्षों में पन्द्रह २ तिथियाँ आती हैं तिथि पु०
स्त्री० । (३) दिन के पाँच नाम—दिवस १ वासर २ घञ्च ३ पु०
दिन ४ अहन् ५ नपु० । (४) प्रभात के पाच नाम—प्रभात
१ पु०, अर्हमुख २ कल्य ३ नपु० प्रत्यूष ४ ऊष ५ पु०
(प्रत्यूषस् ऊषस् नपुं०) । (५) सन्धाकाल के पाच नाम—सन्ध्या
१ स्त्री० दिनान्त २ पितृ ३ प्रसू ४ पुं० साय ५ पु० नपुं० ।
दिन के आदि अन्त मध्य का एक नाम—पूर्वाह्न अपराह्न
मध्याह्न पु०, त्रिसन्ध्य नपु० स्त्री० ।

मध्याह्ना ह्यपराह्णोऽन्त स्त्रि सन्ध्या न पुमान्भवेत् ।
शर्वरी क्षणदा रात्रि स्त्रियामा च क्षपा निशा ॥४॥

तमस्विनी विभावर्यो यामिनी रजनी तमी ।

निशीथिनी तमिस्राऽपि तामसी तिमिरेऽधिके ॥५॥

चन्द्रस्य कलया युक्ता रात्रि ज्योत्स्नी निगद्यते ।

पूर्वाऽऽशामिदिनाभ्या या युक्ता सा पक्षिणी निशा ॥

गणरैत्र निशावह्व्यः प्रदोषः क्षणदामुखम् ।

अर्धरात्रौ निशीथः स्याद् यार्मस्तु प्रहरः समौ ॥७॥

कः पर्वसन्धिः प्रतिपत् पञ्चदशयोर्यदन्तरम् ।

हिन्दी—१ रात्रि के बारह नाम— शर्वरी १ क्षणदा २ रात्रि
३ त्रियामा ४ क्षपा ५ निशा ६ तमस्विनी ७ विभावरौ ८ रजनी
९ यामिनी १० तमा ११ निशीथिनी १२ स्त्री० । (२) अघेरी
रात्री के दो नाम—तमिस्रा १ तामसी २ स्त्री० । (३) चन्द्रयुक्त
रात्रि का एक नाम—ज्योत्स्नी १ स्त्री० । (४) वर्तमान आगामी
दिन के बीच रात्रि का एक नाम—पक्षिणी १ स्त्री० । (५) रात्रि
समूह का एक नाम—गणरात्र १ नपु० । (६) रात्री प्रारम्भ के दो
नाम—प्रदोष १ पु क्षणदामुख २ नपु. (७) रात्रि मध्य के दो नाम
अर्धरात्र १ निशीथ २ पु । (८) प्रहर के दो नाम—याम १ प्रहर
२ पु० । (९) पर्वयुगम का एक नाम पर्वसन्धि १ पुलिङ्ग ।

१ पूर्णिमायाः त्रीणि । तत्र पूर्णे निशाकरे राकाः, २ एकः, सानुमत्याः, ३ दर्शस्य चत्वारि, ४ एक सिनीवाल्या, ५ एकं कुहा, ६ द्वे पक्षान्तस्य, ७ द्वे ग्रहणस्य ८ पञ्चाऽऽकाशादिष्वग्निविकारस्य, ९ एकं समुच्चयितसूर्यचन्द्रयो १० एकम् उच्छवासनिःश्वासयोः—

राका च पूर्णिमा पौर्ण—मासी पूर्णे निशाकरे ॥८॥

कलया हीयमाने तु चन्द्र सानुमतिः स्मृता ।

सूर्येन्दोः सङ्गमो दर्शोऽमावस्याऽप्यमामसी ॥९॥

अमावस्या सिनीवाली दृष्टेन्दुः कलया कुहः ।

नष्टेन्दुः कृष्णशुक्लेषु पक्षान्तैः पञ्चदश्यपि ॥१०॥

उपरागो ग्रहो राहु ग्रस्ते चन्द्रेरवावपि ।

अजन्यमीतिरुत्पातो बह्न्युत्पात उपाहितः ॥११॥

स्याता सहोक्तौ चन्द्राकौ पुष्पवन्तौ नचाऽन्यथा ।

उच्छवासेन च निश्वासे नैकेन प्राण उच्यते ॥१३॥

हिन्दी—(१) पूर्णिमा के तीन नाम—राका १, पूर्णिमा २, पौर्णमासी ३ वह है जब पूर्ण चन्द्र हो स्त्री० । (२) होन चन्द्र का एक नाम—सानुमती १ स्त्री० जब कलाहीन चन्द्र हो । (३) दर्श के चार नाम—दर्श १ पु०, अमावस्या २, अमामसी ३ अमावस्या ४ स्त्री० । (४) कला युक्त अमावस का एक नाम—‘सिनीवाली’ १ स्त्री (५) कलाहीन अमावसका एक नाम—कुह १ स्त्री० । (६) पक्षान्त के दो नाम—पक्षान्त १ पु०, पंचदशी २ स्त्री० । (७) ग्रहण के दो नाम—उपराग १ ग्रह २ पु०, । (८) आकाशादिमे अग्निविकार के पाच नाम—अजन्य १ नपु०, इति २ स्त्री०.

१ एक सप्तप्राणानाम्, २ एकं सप्तस्तोक्रानाम्, एक सप्तसप्तति लवानाम्, ४ एक त्रिगद् मुहूर्तानाम्, ५ एकं पचदशाहोरात्राणाम्, ६ एकमेक पक्षयो, ७ एकमेक द्वयोर्द्वयोर्मागादि मासयो, ८ एकम् ऋतुत्रयाणाम् ९ एकम् अयनयो. १० द्वे समरात्रे, ११ एक पुष्पयुक्त पौर्णमास्या —

सप्तप्राणैर्भवेत्स्तोकैः सप्तस्तोत्रैर्लवो लवैः ।

सप्त सप्तति सख्यावान् मुहूर्तस्त्रिगता पुनः ॥१३॥

मुहूर्तैश्च दिवारात्रि रताभ्या च दश पंचभिः ।

पक्षं शुक्लोऽथ कृष्णश्च ताभ्या मासैः प्रकीर्तितः ॥१४॥

द्वाभ्या मार्गादि मासाभ्या मृत्तुस्तैरयनं त्रिभिः ।

दक्षिणोदग्गतार्कस्य ह्ययने द्वे तु वर्त्सरः ॥१५॥

विषुव विषुवद् यत्र समारात्रि दिवा समम् ।

पुष्येण संयुता पौर्ण-मासी पौषी" तथा युतः ॥१६॥

उत्पात ३ बह्वयुत्पात ४, उपाहित ५ पु० । (९) चन्द्रसूर्य का साथ में एक नाम—पुष्पवन्त १ पु० । (१०) उच्छ्वासनि श्वास, का एक नाम—प्राण १ पु० ।

हिन्दी—(१) सात प्राणो का एक नाम—‘स्तोक’ १ पु० ।

(२) सात स्तोको का एक नाम—‘लव’ १ पु० । (३) सप्तहत्तर लवों का एक नाम—‘मुहूर्त’ पु० । (४) तीस मुहूर्तों से ‘दिवा रात्रि’ दिवा अव्यय, रात्रि ली० । (५) पन्द्रह दिन रात्रि का एक ‘पक्ष’ पु०, शुक्ल वा कृष्ण । (६) दो पक्षो का एक मास पु० । (७) दो दो मार्गादि मासो का एक ऋतु पु० । (८) तीन ऋतुओं का एक

१ एकं पोष्या परीतस्य, २ एकं तत्तद नक्षत्र युक्तानाम्, ३ षट् नाम मार्गस्य, ४ द्वे पौषमासस्य ५ द्वे माघस्य ६ द्वे फाल्गुनस्य ७ त्रीणि चैत्रस्य ८ त्रीणि वैशाखस्य ९ द्वे ज्येष्ठस्य १० द्वे आषाढस्य ११ त्रीणि श्रावणस्य १२ चत्वारि भाद्रस्य—

पौषो माघाद्वयोऽप्येवं तत्तन्नक्षत्रयोगतः ।

आग्रहायणिकोमार्गोऽग्रयण चाऽऽग्रहायणः ॥१७॥

मार्गशीर्षः सहाः पौषे तैषो माघे तथा इति ।

फाल्गुनस्तु तपस्यः स्यात् चैत्रे तु चैत्रिको मधुः ॥१८॥

वैशाखो माधवो राधो ज्येष्ठे शुक्रः शुचिः पुमान् ।

आषाढः श्रावणो मासो नभाः श्रावणिको मतः ॥१९॥

स्युर्नभस्यो भाद्रपदो भाद्रः श्रौष्ठपदोऽपि च ।

‘अयन’ नपु० । (९) दो अयनो का एक ‘सवत्सर’ पु० । (१०) समरात्रि के दो नाम— विषुव १ त्रिषुवत् २ नपु० । (१२) पुष्ययुक्त पौर्णमासी का एक नाम—पौषो स्त्री० ।

हिन्दी—(१) पौषो युक्त का एक नाम—पौष १ पु० । (२) उन उन नक्षत्रों के योग से एक नाम—माघादि पु० । (३) मार्गशीर्ष के छ नाम—आग्रहायणिक १ मार्ग २ आग्रहायण ३ मार्गशीर्ष ४ सहस् ५ (शब्दार्णव के अनुसार ‘सह’ भी पु०) अग्रयण ६ नपुं० । (४) पौष के दो नाम—पौष १ तैष २ पु० । (५) माघके दो नाम—माघ १ तपस् २ पु० । (६) फाल्गुन के दो नाम—फाल्गुन १ तपस्य २ पु० । (७) चैत्र के तीन नाम—चैत्र १ चैत्रिक २ मधु ३ पु० । (८) वैशाख के तीन नाम—वैशाख १

१ पापस्य नाम एकादश २ पंच धर्मस्य ३ आनन्दस्य एकादश ४ कल्याणमात्रस्य द्वादश ५ द्रव्यवाचि पुण्यादि त्रिलिङ्गम् ६ पञ्च नामानि प्रशसावाचकस्य ७ एकं शुभावहविधेः ८ एक यौवनादेः ९ द्वे मायायाः—

पापे पङ्कं पुमान् पाप्मा कल्मषं किल्बिषं च तत् ।
 कलुषं दुरितं चाऽघ मेनो वृजिन दुष्कृते ॥२६॥
 स्याद्वृषः सुकृतं श्रेयः पुण्यं धर्मस्तु न स्त्रियाम् ।
 प्रभोदौऽऽमोदहर्षा स्युः प्रमदाऽऽनन्दसंमदाः ॥२७॥
 मुत्प्रीतीस्तः स्त्रियां क्लीबे शातं शर्म सुखे अपि ।
 कर्ल्याण मङ्गल भद्र शुभ खः श्रेयसं शिवम् ॥२८॥
 कुशल भवुक भव्यं क्षेमं भविकमस्त्रियाम् ।

पु० । (३) एक एक नाम—हेमन्त, शिशिर पु० नपुं० । (४) वसन्त के दो नाम—वसन्त १ सुरभि २ पु० । (५) व्येष्ट अषाढ के चार नाम—ग्रीष्म १ निदाघ २ उष्ण ३ पु० । तपस् ४ नपुं० । (६) श्रावण भाद्रपद के दो नाम—प्रावृष् १ वर्षा २ स्त्री० । (७) जिन ऋतु मे सस्य का पाक ले वह आश्विन कार्तिक के एक नाम—शरत् स्त्री० । (८) सवत्सर के छ नाम—हायन १ अब्द २ वत्सर ३ सवत्सर ४ अस्त्री० शरत् ५ समा ६ स्त्री० । (९) प्रलय के पाच नाम—सर्वत् १ प्रलय २ कल्प ३ कल्पान्त ४ क्षय ५ पु० । दश कोडा कोडी सागर की एक उत्सर्पिणी, दश कोडा-कोडी सागर की एक अवसर्पिणी होती है बीस कोडा कोडी सागर का एक कालचक्र होता है ।

शक्तं च त्रिषु द्रव्ये चेत् पुण्य पाप सुखादिकम् ॥२९॥
 मतल्लिका प्रकाण्ड च तल्लजो-द्धौ मचर्चिका ।
 प्रशसावचनान्येता न्ययरत्तु सशुभो विधिः ॥३०॥
 यौवनादि रवस्थास्या त्प्रधान प्रकृतिः स्मृताः ।

हिन्दा—(१) पाप के ग्यारह नाम—पाप १ कल्मष २ किल्बिष
 ४ कलुष ५ दुरित ६ अघ ७ एनस् ८ वृजिन ९ दुष्कृत १०
 अस्त्री० पाप्मन ११ पु० (२) धर्म के पाव नाम—वृष १ पु० सुकृत
 २ श्रेयस् ३ पुण्य ४ धर्म ५ अस्त्री० (३) आनन्द के ग्यारह
 नाम—प्रमोद १ आमोद २ हर्ष ३ प्रमद ४ आनन्द ५ सन्मद ६
 पु० मुत् ७ प्रीति ८ स्त्री० शात ९ शर्म १० सुख ११ नपु० ।
 (४) फल्यण मात्र के बारह नाम—कल्याण १ मङ्गल २ भद्र ३
 शुभ ४ श्व श्रेयस् (श्रौवस्यसम्) ५ शिव ६ कुशल ७ भावुक ८
 भव्य ९ भविक १० क्षेम ११ शस्त १२ अस्त्री० । (५) द्रव्यवाची
 के तीन नाम—पुण्य १ पाप २ सुखादि ३ त्रिलिङ्ग । (६) प्रशसा-
 वचन के पाच नाम—मतल्लिका १ मचर्चिका २ स्त्री० प्रकाण्ड ३
 नपु० पु० तल्लज ४ उद्ध ५ पु० (मतल्लिकादि नियत लिङ्ग है)
 (७) शुभावह विधि का एक नाम—अय १ पु० । (८) यौव-
 नादि का एक नाम—अवस्था १ स्त्री० । (९) प्रकृति के दो नाम-
 प्रधान १ नपु० प्रकृति २ स्त्री० ।

१ त्रीणि आत्मनः, २ त्रीणि गुणानाम्, ३ षड् भाग्यस्य
४ द्वे मूलकारणस्य, ५ कारणस्य त्रीणि, ६ षड् नामानि जन्मनः
७ षट् नामानि प्राणिनः, ८ सप्त नामानि मनसः —

क्षेत्रज्ञ पुरुषावात्मा तैमः सत्त्व रजोगुणाः ॥३१॥

भाग्य दिष्ट भागधेय दैवं स्त्री नियति विधिः ।

स्यान्ननिदान मूलबीजं हेतुर्ना बीजकारणे ॥३२॥

उत्पत्तौ जननं जन्म जन्तुर्जनि समुद्भवौ ।

शरीरी चेतनः प्राणो जन्तुर्जीवी च जन्मिनि ॥३३॥

हृदय मानस चित्त हन्मनः स्वान्त चेतसी ।

उक्तं कोषविदायत्तन्मयाप्यत्र प्रकीर्तितः ॥३४॥

॥ इति समयवर्ग समाप्तः ॥

हिन्दी—(१) आत्मा के तीन नाम—क्षेत्रज्ञ १, पुरुष २, आत्मा ३ पु० । (२) गुण के तीन नाम—तमस् १, सत्त्व २, रजस् ३ नपु० । (३) भाग्य के छ नाम—भाग्य १, दिष्ट २, भागधेय ३, दैव ४ नपु०, नियति ५, स्त्री०, विधि० ६ पु० । (४) मुख्यकारण के दो नाम—निदान १ मूलबीज २ नपु० । (५) कारण के तीन नाम—हेतु १ पु०, बीज २, कारण ३ नपु० । (६) जन्म के छ नाम—उत्पत्ति १, जनन २, जन्मन् ३ नपु० (जन्म अदन्त अस्त्री०) जनुष् ४ नपु०, जनि ५ स्त्री० समुद्भव ६ पु० । (७) शरीरी के छ नाम—शरीरिन् १, चेतन २, प्राणिन् ३, जन्तु ४, जीविन् ५, जन्मिन् ६ पु० । (८) मन के सात नाम—हृदय १, मानस २, चित्त ३, हृत् ४, मनसू ५, स्वान्त ६ चेतस् ७ नपु० ।

॥ समयवर्ग समाप्तः ॥

॥ अथ मतिवर्गः प्रारभ्यते ॥

१ बुद्धे सप्तनामानि, २ बुद्धेश्च चत्वारो भेदाः, ३ मनो-
व्यापारस्यैकम्, ४ धारणावती बुद्धे एकम्, ५ तर्कस्य त्रीणि,
६ विचारस्यैकम्, ७ सन्देहस्य त्रीणि, ८ द्वे समाधानस्य ९
भावनायास्त्रीणि—

मतिधीर्धिषणाबुद्धिः शेमुषी चेतनाऽपि च ।

मनीषौ-त्पत्तिकी ज्ञेया ततो वैनयिकी मता ॥१॥

कर्मजा सा तृताया तु चतुर्थी पारिणामिकी ।

मनस कर्मसङ्कल्पौ मेधा तु धारणा धियः ॥२॥

तर्कोऽध्याहरऊहस्तु विचारे च विचारणा ।

सशयो विचिकित्सा स्त्री सन्देहः पुंसि कीर्तितः ॥३॥

अवधानं समाधानं द्वयमुक्त नपुंसके ।

विमर्शो भावना चैव वासनापि निगद्यते ॥४॥

हिन्दी—(१) बुद्धि के सात नाम—मति १, धी २, धिषणा ३ बुद्धि ४ शेमुषी ५, चेतना ६, मनीषा ७ स्त्री० । (२) बुद्धि के चार भेदों का नाम—औपत्तिकी १, वैनयिकी २, कर्मजा ३ पारिणामिकी ४ स्त्री० । (३) मनोव्यापार का एक नाम—सकल्प १ पु० । (४) धारणा रखने वाली बुद्धि का एक नाम—मेधा १ स्त्री० । (५) तर्क के तीन नाम—तर्क १, ऊह २, अध्याहार ३ पु० । (६) विचार का एक नाम—विचारणा १ स्त्री० । (७) सन्देह के तीन नाम—सशय १, सन्देह पु०, विचिकित्सा ३ स्त्री० । (८) समाधान के दो नाम—अवधान १ समाधान २ नपु० । (९) भावना के तीन नाम—विमर्श १ पु०, भावना २, वासना ३ स्त्री० ।

१ असत् शास्त्रिनः एकम् , २ द्वे निश्चयस्य, ३ द्वे सिद्धान्तस्य, ४ एकं द्रोहचिन्तनस्य, ५ त्रीणि भ्रमरस्य, चत्वारि स्वोकारस्य, ७ एक मोक्षबुद्धे , ८ एकं लौकिककलाया , ९ मोक्ष स्याद्यौ १०, पञ्चरसा ११ इन्द्रियाणां विषयाः पञ्च १२ पञ्च कर्णादीनि इन्द्रियाणि—

मिथ्यादृष्टिरसच्छास्त्री निर्णयो निश्चयः पुमान् ।
 उभौ सिद्धान्त राद्धान्तौ द्वेषोहि द्रोहचिन्तनम् ॥५॥
 अतद् वस्तुनि तज्ज्ञाने भ्रान्तिर्मिथ्यामति भ्रमः ।
 अङ्गीकारेऽभ्युपगमः स्वीकारः स्वीकृतिस्तथा ॥६॥
 मोक्षबुद्धिर्भवेज्ज्ञानं विज्ञानं शिल्पशास्त्रता ।
 पुंसि मोक्षोपवर्गश्च स्त्रिया मुक्तिर्नपुंसके ॥७॥
 निर्वाणाऽमृतकैवल्य श्रेयो निःश्रेयसान्यपि ।
 तिक्तैः कटुः कषायोऽम्लो मधुरश्च रसा इमे ॥८॥
 शब्दाद्याविषयाः पञ्च कर्णादीनीन्द्रियाण्यिमौ ।

हिन्दी—(१) सत् शास्त्र को नहीं मानने वाले का एक नाम—मिथ्यादृष्टि १ पु० । (२) निश्चय के दो नाम—निर्णय १, निश्चय २ पु० । (३) सिद्धान्त के दो नाम—सिद्धान्त १ राद्धान्त २ पु० । (४) द्रोहचिन्तन का एक नाम—द्वेष १ पु० । (५) भ्रान्ति के तीन नाम—भ्रान्ति १ मिथ्यामति २ स्त्री०, भ्रम ३ पु० । (६) स्वीकार के चार नाम—अङ्गीकार १, अभ्युपगम २ स्वीकार ३ पु०, स्वीकृति ४ स्त्री० । (७) मोक्ष में बुद्धि को रखने का एक नाम—ज्ञान १ नपुं० । (८) लौकिक कला का एक नाम—विज्ञान १ नपुं० । (९) मोक्ष के आठ नाम—मोक्ष १, उपवर्ग २ पु०, मुक्ति ३ स्त्री०

१ द्वे घर्षणोत्थगन्धस्य, २ द्वे इष्टगन्धस्य, ३ द्वे दुर्गन्धस्य,
४ एक मासगन्धस्य, ५ एकादश शुक्लवर्णस्य, ६ द्वे कपोतवर्णस्य,
७ द्वे धूसरवर्णस्य ८ सप्तनामानि कृष्णवर्णस्य, ९ द्वे पीतवर्णस्य,
१० त्रीणि हरितवर्णस्य—

गन्धौ परिमैलाऽऽमोदौ मर्दनोत्थमनोहरौ ॥९॥

इष्टगन्धस्तु सुरैभिः सुगन्धिरपि गीयते ।

दुर्गन्धौ पूतिगन्धरतु विस्त्रं च मासगन्धके ॥१०॥

अथ शुक्लोऽवदातश्च शुभ्रश्च धवलः सितः ।

श्वेतो गौरोऽवलक्षाश्चाऽर्जुन पाण्डरपाण्डवः ॥११॥

कपोतस्तु कपोताभः स्वल्पपीतस्तु धूसरः ।

कालेकृष्णाऽसितश्याम नीलश्यामलमेचकाः ॥१२॥

हारिद्रैः पीत आख्यातः पालाशे हरितो हरित् ।

निर्वाण ४, अमृत ५, कैवल्य ६, श्रेयस् ७, निश्रेयस् ८ नपुं० ।

(१०) रस के पाच नाम—तिक्त १, कटु २, कषाय ३ अम्ल ४,

मधुर ५ पु० । (११) इन्द्रिय के विषय के पाच नाम—शब्द १ पु०

रूप २ नपु०, गन्ध ३, रस ४ स्पर्श ५ पु० । (१२) वही कर्ण

आदि पाच इन्द्रिया है ।

हिन्दी—(१) घर्षण से उत्पन्न गंध के दो नाम—परिमल १,

आमोद २ पु० । (२) इष्ट गंध के दो नाम—सुगंधि १ सुगन्धि

२ पु० । (३) दुर्गन्ध के दो नाम—दुर्गन्ध १, पूतिगन्ध २ पु० ।

(४) मास के गंध का एक नाम—विस्र १ नपु० । (५) शुक्ल वर्ण

के ग्यारह नाम—शुक्ल १, अवदात २ शुभ्र ३ धवल ४ सित ५,

१ त्रीणि रक्तवर्णस्य, २ एक रक्तश्वेतस्य, ३ एकं पीतरक्तस्य ४ बालसन्ध्याप्रभस्यैकम् ५ कपिलवर्णस्य षट्, ६ कृष्णलोहिताभ्या सगतस्य द्वे, ७ नानावर्णवत् पञ्च, ८ विशेष्यनिन्नाः ९ गुणस्यैकम्—

रक्ते लोहित शोणौ तु श्वेतरक्ते च पाटलः ॥१३॥

पिञ्जरः पीतरक्तो यो बालसन्ध्या प्रभोऽरुणः ।

पिशङ्ग पिङ्ग कपिल कडाराः कद्रु पिङ्गलौ ॥१४॥

कृष्णलोहित वर्णे तु पुमांसौ धुञ्च धूमलौ ।

कर्बुरे चित्रकिर्मीर कल्माष शबला स्त्रिषु ॥१५॥

गुणि लिङ्गा इमे प्रोक्ता गुणैः पुंसि तु केवलम् ।

॥ इति मतिवर्गः समाप्तः ॥

श्वेत ६, गौर ७, अवलक्ष ८, अर्जुन ९, पाण्डर १०, पाण्डु ११ पु० । (६) कपोतवर्ण के दो नाम—कपोताभ १ कापोत २ पु० । (७) धूसरवर्ण के दो नाम—स्वल्पपीत १, धूसर २ पु० । (८) कृष्ण वर्ण के सात नाम—काल १, कृष्ण २ (शिति) असित ३ श्याम ४ नील ५, श्यामल ६ मेचक ७ पु० । (९) पीतवर्ण के दो नाम—हारिद्र १ पीत २ पु० (१०) हरितवर्ण के तीन नाम—पलाश १ हरित २ हरित् ३ पु० ।

हिन्दी—(१) रक्त वर्ण के तीन नाम—रक्त १ लोहित २ शोण ३ पु० । (२) श्वेत रक्त का एक नाम—पाटल १ पु० । (३) पीत रक्त का एक नाम—पिञ्जर १ पु० । (४) बालसन्ध्या सदृशवर्ण का एक नाम—अरुण १ पु० । (५) कपिल वर्ण के छ

—॥००॥ अथ वाणीवर्गं प्रारभ्यते ॥००॥—

१ वाण्याः सप्त, २ त्रीणि आगमस्य, ३ चत्वारि वचनस्य,
४ त्रीणि क्रियाया ५ एकं सुबन्ततिङ्गन्तचयस्य, ६ द्व वेदस्य,
७ द्वे त्रय्या, ८ षड्वेदाङ्गानिऽ ९ द्वे प्रणवस्य

अथ वाणी वर्गः प्रारभ्यते—

वाणीगीर्भारती भाषा ब्राह्मी वाक् च सरस्वती ।
आगमो वाक्यमाप्तानां सूत्रं शास्त्रं प्रचक्षते ॥१॥

लपितं भाषितं लोके वचनं वच उच्यते ।

कृतिः क्रिया प्रयत्नश्च वाक्यं तु सुप्तिडा चयः ॥२॥

ऋक् स्त्रियां सामयजुषी श्रुतिर्वेदास्त्रयस्त्रयी ।

शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषी ॥३॥

षडङ्गानि तु वेदस्य ऌकारः प्रणवः स्मृतः ।

नाम—पिशङ्ग १ पिंग २, कपिल ३, कडार ४, कद्रु ५, पिशङ्ग
६ पु० । (६) कृष्णलोहित वर्ण के दो नाम—धूम्र १ धूमल २
पु० । (७) नानावर्ण वाले के पाच नाम—कर्बुर १ चित्र २,
किर्मारि ३, कल्माष ४, शबल ५ पु० । (८) ये विशेष्य निष्पन्न
हैं । (९) गुण का एक नाम—गुण १ पु० ।

॥ मतिवर्गसमाप्त ॥

हिन्दो—(१) वाणी के सात नाम—वाणी १, गिर २, भारती
३, भाषा ४, ब्राह्मी ५, वाक् ६ सरस्वती ७ ये सब स्त्री० । (२)
आगम के तीन नाम—आगम १ पु०, सूत्र २, शास्त्र ३ नपु० ।
(३) वचन के चार नाम—लपित १ भाषित २ वचन ३ वचस् ४
नपु० । (४) क्रिया के तीन नाम—कृति १ क्रिया २ स्त्री०, प्रयत्न

त्रीणि स्वरस्य, २ द्वे इतिहासस्य, ३ द्वे तर्कस्य, ४ द्वे मीमांसाया, ५ चत्वारि धर्मग्रन्थस्य, ६ षड्चलक्षण पुराणम्, ७ चतुर्दशविधा भवन्ति, ९ अङ्गानि एकादश

त्रयः स्वरा उदात्ताद्या इतिहासः पुरातनम् ॥४॥

आन्वीक्षिकी^३ तर्कविद्या मीमांसा तु विचारणा ।

पुराणं धर्मशास्त्राणि स्मृतयो धर्मसंहिता ॥५॥

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वशो मन्वन्तराणि च ।

भूम्यादेश्चैत्र सस्थान पुराण षड्चलक्षणम् ॥६॥

षडङ्गानि चतुर्वेदा मीमांसाऽऽन्वीक्षिकी तथा ।

पुराण धर्मशास्त्रं च विद्या एताश्चतुर्दश ॥७॥

आचाराद्यागमा एकादशाङ्गानि जिनोदिताः ।

३ पु० । (५) सुबन्ततिगन्तो के चय को 'वाक्य' कहते हैं । (६) वेद के दो नाम-श्रुति १ स्त्री०, वेद २ पु० । (७) त्रयी के दो नाम-त्रय १ पु०, त्रयी २ स्त्री० । यह ऋक् यजुष् सामन् रूप है ऋक् स्त्री, यजुष् सामन् नपुं० । (८) वेद के छ अङ्ग है उनके नाम-शिक्षा १ स्त्री०, कल्प २ पु०, व्याकरण ३, निरुक्त, ४ छन्दसू (छन्द) ५, ज्योतिष ६ नपु० । (९) प्रणव के दो नाम-ऊँकार १ प्रणव० २ पु० ।

हिन्दी--(१) स्वर के तीन भेद-उदात्त १ अनुदात्त २ स्वरित ३ पु० । (२) इतिहास के दो नाम-इतिहास १ पु०, पुरातन २ नपु० । (३) तर्कविद्या के दो नाम-आन्वीक्षिकी १ तर्कविद्या २ स्त्री० । (४) मीमांसा के दो नाम-मीमांसा १, विचारणा

उपाङ्गानि द्वादश, २ मूलानि चत्वारि, ३ छेदानि चत्वारि
एकमावश्यकम् ५ एते द्वात्रिंशद् आगम , ६ एता अपि चतुर्दश
विधा भवन्ति—

औपपातिकमारभ्य द्वादशोपाङ्गकानि च ॥८॥

चत्वारि मूलसूत्राणि छेदान्यपि तथैव च ।

अन्त्यर्षावश्यकं प्राक्तं द्वात्रिंशत् प्रकीर्त्तिताः॥९॥

आर्काशगामिनी विद्या परकायप्रवेशिनी ।

रूपान्तरकरी नान्नी चतुर्थी स्तम्भनी मता ॥१०॥

मोहिनी पञ्चमी षष्ठी स्वर्गसिद्धिकरी खलु ।

रौप्यसिद्धिकरी ख्याता रससिद्धिकरी तथा ॥११॥

दमनी नवमी ज्ञेया स्याद् वशीकरणी क्रमात् ।

भूतदमनी च दशम दमनी द्वादशी मता ॥१२॥

२ स्त्री० । ५ लौकिक धर्मग्रन्थ के चार नाम—पुराण १ धर्मशास्त्र
२ नपु०, स्मृति ३, धर्मसहिता ४ स्त्री० । ६) पुराण के पांच
लक्षण—सर्ग १, प्रतिमर्ग २ वज्र ३ पु०, मन्वन्तर ४ भूम्यादि
सस्थान ५ नपु० । (७) चतुर्दशविद्या के नाम—वेदाङ्ग ६ नपु०,
वेद ४ पु०, मीमामा ११, आन्वोक्षिकी १२ स्त्री०, पुराण १३
धर्मशास्त्र १४ नपु० । (८) ग्यारह अङ्ग के नाम—आचाराङ्ग
१, सूत्रकृताङ्ग २, स्थानाङ्ग ३, समवायाङ्ग ४, भगवत्यङ्ग
५, ज्ञाताधर्मकथाङ्ग ६, उपासकदशाङ्ग ७ अन्तकृतदशाङ्ग ८, अनु
त्तरोपपातिकदशाङ्ग ९, प्रश्नव्याकरण १०, विपाकश्रुत ११ नपु० ।

उपाङ्गानि द्वादश, २ मूळानि चत्वारि, ३ छेदानि चत्वारि
एकमावश्यकम् ५ एते द्वात्रिंशद् आगम ६ एता अपि चतुर्दशा
विधा भवन्ति—

औपपातिकमारभ्य द्वादशोपाङ्गकानि च ॥८॥

चत्वारि मूलसूत्राणि छेदान्यपि तथैव च ।

अन्त्यर्षावश्यकं प्राक्तं द्वात्रिंशत्ते श्कीर्त्तिताः॥९॥

आर्काशगामिनी विद्या परकायप्रवेशिनी ।

रूपान्तरकरी नान्नी चतुर्थी स्तम्भनी मता ॥१०॥

मोहिनी पञ्चमी षष्ठी स्वर्गसिद्धिकरी खलु ।

रौप्यसिद्धिकरी ख्याता रससिद्धिकरी तथा ॥११॥

दमनी नवमी ज्ञेया स्याद् वशीकरणी क्रमात् ।

भूतदमनी च द्वाग दमनी द्वादशी मता ॥१२॥

२ स्त्री० । ५ लौकिक धर्मग्रन्थ के चार नाम—पुराण १ धर्मशास्त्र
२ नपु०, स्मृति ३, धर्मसहिता ४ स्त्री० । ६) पुराण के पाच
लक्षण—सर्ग १, प्रातिसर्ग २ वश ३ पु०, मन्वन्तर ४ भूम्यादि
सस्थान ५ नपु० । (७) चतुर्दशविद्या के नाम—वेदाङ्ग ६ नपु०,
वेद ४ पु०, मीमामा ११, आन्वोक्षिकी १२ स्त्री०, पुराण १३
धर्मशास्त्र १४ नपु० । (८) ग्यारह अङ्ग के नाम—आचाराङ्ग
१,, सूत्रकृताङ्ग २, स्थानाङ्ग ३, समवायाङ्ग ४, भगवत्यङ्ग
५, जाताधर्मकथाङ्ग ६, उपासकदशाङ्ग ७ अन्तकृतदशाङ्ग ८, अनु
त्तरोपपातिकदशाङ्ग ९, प्रश्नव्याकरण १०, विपाकश्रुत ११ नपु०।

सर्वसम्पत्करी चान्त्या शिवदाख्या चतुर्दशी ।

लोकलोकोत्तराः सिद्धा विद्याश्चैता श्रतुर्दश ॥१३॥

१ कथाया द्वे नाम्नी २ सत्यकथाया एकम् ३ गूढार्थस्य एकम्
४ द्वे समस्याया ५ द्वे सप्रहस्य ६ चत्वारि वार्ताया ७ द्वे लोकप्र-
वादस्य ८ पञ्च नाम्नः ९ एकम् अनेककर्तृकाह्वानस्य १० द्वे भूमि-
काया ११ द्वे विवादस्य १२ त्रयस्यैकम्—

प्रवन्धेकल्पनायान्तु कथा साऽऽख्यायिका यदि ।

सत्यार्थेनोपलब्धा स्याद् गूढार्थे तु प्रहेलिका ॥१४॥

हिन्दी— (१) बारह उपाङ्ग के नाम—औपपातिक १, राज-
प्रश्रीय २, जीवाभिगम ३, प्रज्ञापना ४, नम्बूद्वापप्रज्ञप्ति ५, चन्द्र
प्रज्ञप्ति ६, सूर्यप्रज्ञप्ति ७, निरियावळिका ८ कल्पावतसिका ९,
पुष्पिका १०, पुष्पचूलिका ११, वृष्णिदशा १२ ये बारहहुवे ।
(२) मूलसूत्र के चार नाम—नन्दी १, उत्तराध्ययन २, दशवैका-
लिक ३, अनुयोगद्वार ४ । (३) छेदसूत्रके चार नाम—निशीथ
१, बृहत्कल्प २, व्यवहार ३, दशाश्रुतस्कन्ध ४ । (४) अन्तिम
सूत्र—आवश्यक १ । ये बत्तीस आगम आचाराङ्ग से लेकर आव-
श्यक पर्यन्त प्रमाणभूत उपलब्ध है । इन बत्तीस आगमों के साथ
सूत्रशब्द जोड़ने पर नपुंसक लिङ्ग होते हैं । (६) ये भी चौदह
विद्याएं हैं उनके नाम—आकाशगामिनी १, परकायप्रवेशिनी २,
रूपान्तरकरी ३, स्तम्भिनी ४, मोहिनी ५, स्वर्णसिद्धि ६, रौप्य-
सिद्धि ७, रससिद्धि ८, रिपुदमनी ९, वगाकरणा १०, भूतदमनी
११, नागदमनी १२, सर्वसपत्करी १३ शिवदायिनी १४ स्त्री० ।

समासार्था समस्योक्ता संग्रहस्तु समाहृतिः ।

वार्ता प्रवृत्ति वृत्तान्त उदन्तोऽथ जनश्रुतिः ॥१५॥

किं वदन्ती भवेत्सत्या वाऽसत्या निर्णयो नहि ।

आख्याऽऽहे अभिधानं च नामधेयं च नाम च ॥१६॥

बहुकर्तृकमाह्वानं संहृतिरथ भूमिका ।

उपोद्घातो विरुद्धार्थो विवादः शपथः पुनः ॥१७॥

१ त्रीणि प्रश्नस्य, २ द्वे उत्तरस्य, ३ द्वे घोषणाया, ४ चत्वारि
स्तुते, ५ द्वे द्विरुक्ते, ६ निन्दाया सप्तनामानि, ७ एक नाम परोक्ष-
निन्दाया, ८ एक ध्वनिविकारस्य, ९ चत्वारि कठारस्य, १० एक
सभाषणस्य, ११ एकं नाम अर्थहीन वचनस्य

हिन्दी—(१) कथा के दो नाम—प्रबन्धरूपना १ कथा २ स्त्री० ।

(२) सत्य कथा का एक नाम—आख्यायिका १ स्त्री० । (३) गूढार्थ

का एक नाम—प्रहेलिका (प्रवहिका) १ स्त्री० । (४) समस्या के

दो नाम—समासार्था १ समस्या २ स्त्री० । (५) संग्रह के दो नाम

संग्रह १ पु, समाहृत २ स्त्री० । (६) वार्ता के चार नाम—वार्ता १

प्रवृत्ति २ स्त्री, वृत्तान्त ३ उदन्त ४ पु० । (७) लोक प्रवाद के

दो नाम—जनश्रुति १ किंवदन्ती २ स्त्री० । (८) नाम के पांच नाम-

आख्या १ आह्वा २ स्त्री० अभिधान ३ नामधेय ४ नाम ५ नपु० ।

(९) अनेक जनो द्वारा आह्वान का एक नाम—सहृति १ स्त्री० ।

(१०) भूमिका के दो नाम—भूमिका १ स्त्री० उपोद्घात २ पु० ।

(११) विवाद के दो नाम—विरुद्धार्थ १ विवाद २ पु० । (१२)

सौगद का एक नाम—शपथ १ पु० ।

प्रतिज्ञावचने प्रोक्तः शास्त्रविद्धिः पुमानयम् ।
 पृच्छा प्रश्नोऽनुयोगश्च प्रतिवाक्योत्तरे समे ॥१८॥
 घोषणोच्चैस्तु घोषो यः स्तुतिः स्तोत्रं स्तवोनुतिः ।
 आम्नेडितं द्विरुक्तं च पुनः पुनरुदाहृतम् ॥१९॥
 परोक्षे निन्दनं लोके पृष्ठमासं नपुंसकम् ।
 कुत्सा जुगुप्सानिन्दा स्त्री परिवादाऽपवादवत् ॥२०॥
 आक्षेपो गर्हणायां स्यात् कार्कुः स्त्री विकृति ध्वनेः ।
 कठिनं च कठोरं च कर्कशं परुषं वचः ॥२१॥
 स्यात्सम्भाषणमालापः प्रलापोऽनर्थभाषणम् ।

हिन्दी—(१) प्रश्न के तीन नाम—पृच्छा १ स्त्री०, प्रश्न २, अनुयोग ३ पु० । (२) उत्तर के दो नाम—प्रतिवाक्य १, उत्तर नपु० । (३) घोषणा के दो नाम—घोषणा १ स्त्री०, घोष २ पु० । (४) स्तुति के चार नाम—स्तुति १ नुति २ स्त्री० । स्तोत्र ३ नपु० स्तव ४ पु० । (५) दुवारा कथन के दो नाम—आम्नेडित १, द्विरुक्त २ नपु० । (६) परोक्ष में निन्दा का एक नाम—पृष्ठमास १ नपु० । (७) निन्दा के सात नाम—कुत्सा १, जुगुप्सा २, निन्दा ३, गर्हणा ४ स्त्री० परीवाद ५ अपवाद ६, आक्षेप ७ पु० । (८) ध्वनि विकार का एक नाम—कार्कु १ स्त्री० । (९) कठोर के चार नाम—कठिन १, कठोर २, कर्कश ३, परुष ४ नपु० । १० सम्भाषणका एक नाम—आलाप १ पु० । (११) अर्थशून्य वचन का एक नाम—प्रलाप १ पु० ।

१ एक मिथ्यावचनस्य २ द्वे विलापस्य ३ द्वे मिथ्यास्तुते , ४ एकम् अलिखितसदेशस्य ५ एक प्रियसत्यवचनस्य, ६ एक हृदयग्राही वचनस्य, ७ द्वे अनुचितवचनस्य, ८ एकं रतिसभाषणवचनस्य ९ द्वे असम्भ्यशब्दस्य १० द्वे सत्यविरुद्धस्य ११ त्रिणि सत्यस्य १२ चतुर्दशशब्दपर्याया —

मिथ्यावागपलापः स्याद् विलापः परिदेवनम् ॥२२॥

मिथ्यास्तुतौ चटुश्चाटु वाचिकं वचसाहृतम् ।

सूत्रतं स्यात् प्रियं सत्यं सङ्गतं हृदयगमम् ॥२३॥

अवकर्तव्यमवाच्यं स्याद् द्विणितं रतिकूजितम् ।

ग्राम्यमश्लीलवचनं वितथं त्वनृतं वचः ॥२४॥

॥३॥ ऋतं तथ्यं च सत्ये स्याद्भ्रूँन निस्वाननिस्वनाः ।

स्वः स्वानः स्वनोनादो निनादनिनदौ ध्वनिः ॥२५॥

आरवाऽरावसंराव विरावाः स्यूश्चतुर्दश ।

हिन्दी— १ मिथ्यावचन का एक नाम—अपलाप (१) निह्व पु० । २ विलाप के दो नाम—विलाप १ पु०, परिदेवन २ नपु० । (३) चालाकी के दो नाम—चाटु १ चटु २ स्त्री० । (४) अलिखितसन्देश का एक नाम—वाचिक १ नपु० । (५) प्रिय सत्य का एक नाम—सूत्रत १ नपु० । (६) हृदयग्राही वचन का एक नाम—सगत (आदेय) नपु० । (७) अनुचितवचन के दो नाम—अवकर्तव्य १ अवाच्य २ नपु० । (८) रति सभाषण का एक नाम—भणित (मणित) १ नपु० । (९) असम्भ्य शब्द के दो नाम—ग्राम्य १ अश्लील २ नपु० (१०) सत्यविरुद्ध वचन के दो नाम—वितथ १ अनृत २ नपु० । (११)

१ द्वे बहुभि कृतस्य महाध्वने २ द्वे प्रतिध्वने ३ षट् भूषण-
ध्वने ४ वीणाध्वनौ प्रकणादयः ५ द्वे गानस्य ६ एकं विवक्षितार्थ-
बोधकवाक्यस्य

कोलाहलः कलकलः प्रतिश्रुत् स्त्री प्रतिध्वनौ ॥२६॥

शिञ्जितं क्वाण निक्वाण क्कण क्कणन निक्कणम् ।

भूषणानां ध्वनौ चाऽपि वीणायाः प्रकणादयः ॥२७॥

गीतगाने विवक्षार्थबोधे चाऽऽलार्पको भवेत् ।

॥ इति वाणीवर्गः समाप्त ॥

॥ अथ नृत्यवर्गः प्रारभ्यते ॥

नाट्यं तु नटन नृत्य ताण्डवं नर्तनं च यत् ।

नाट्यं तौर्यत्रिकं नृत्यगीतवाद्यत्रयं त्विदम् ॥१॥

सत्य के तीन नाम-ऋत १ तथ्य २ सत्य ३ नपुं० । (१२) शब्द
पर्याय के चौदह नाम-ध्वान १ निस्वान २ निस्वन ३ (रव) ४
स्वान ५ स्वन ६ नाद ७ निनाद ८ निनद ९ ध्वनि १० आरव
११ आरोव १२ सराव १३ विराव १४ पु० ।

हिन्दी—(१) एक समय में बहुतों से किये गये शब्द के दो
नाम—कोलाहल १ कलकल २ पु० । (२) प्रतिध्वनि के दो नाम—
प्रतिश्रुत् १ स्त्री० प्रतिध्वनि २ नपु० । (३) आभूषण शब्द के छ नाम
शिञ्जित १ क्वाण २ निक्वाण ३ क्कण ४ क्कणन ५ निक्कण ६
नपु । (४) वीणाध्वनि के नाम—प्रकण आदि सोपसर्गक उपकणादि
पु० । (५) गान के दो नाम—गीत १ गान २ नपु० । (६) वक्ता के
सङ्केतार्थ वाचक शब्द का एक नाम—आलार्पक १ पु० ।

रङ्गः स्थान तु नाट्यस्य पूर्वरङ्ग उपक्रमः ।
निषाद ऋषभश्चैव गान्धारः षड्जमध्यमौ ॥२॥
धैवतः पञ्चम सप्त स्वरास्तन्त्री गता इमे ।
भरतादिमते रीगाः षट् षडेषा च वल्लभाः ॥३॥
एकैकस्य च षट्त्रिंशद् गणिष्यो गुणिताश्च षट् ।
हिन्दोलकौशिकौ रागौ, रागौ भैरवदीपकौ ॥४॥
श्रीरागो मेघरागश्च रागः षट् नामत क्रमात् ।

हिन्दी-(१) नृत्य के पाच नाम—नाट्य १, नटन २ नृत्य ३, ताण्डव ४, नर्तन ५ नपुं० । (२) नाट्य के दो नाम (नृत्य गीतवाद्य रूप) तौर्यत्रिक १ नाट्य २ नपु० । (३) नृत्यस्थान का एक नाम—रङ्ग १ पु० । (४) नाटक के प्रारम्भ मे स्तुति पाठ करने वाला का एक नाम—ऊपक्रम १ पु० । (५) तन्त्रीस्वरो के सात नाम—निषाद १ ऋषभ २ गान्धार ३ षड्ज ४ मध्यम ५ धैवत ६ पञ्चम ७ पु० । (६) भरत आदि गायनाचार्य के मत से राग छ होते है उनके नाम—हिन्दोल १, कौशिक २ भरव ३ दीपक ४ श्रीराग ५ मेघराग ६ पु० । (७) प्रत्येक राग के छ छ रागिणिया वल्लभाए है जैसे—भैरव रागकी धानसी १ मालसी २ रामकीरी ३ सिबुडा ४ आगावरी ५ भैरवी ६ खी० । मल्लारराग की वेलावरी १ पुरवी २ कानडा ३ माधवी ४ कोडा ५ केदारिका ६ खी० । श्रीराग को—गौरी १ कौमारिका २ गान्धारी ३ सुभगा ४ त्रैशगी ५ वेलियारी ६ खी० । दीपक राग को—ललिता १ पञ्चमी २ तोड़ी ३ पटमञ्जरी ४ विभाषा ५ गुजरा ६ खी० ।

केचिन्मालवमल्लारौ श्रीरागश्च वसन्तकः ॥५॥
 हिन्दोलश्चाऽपि कर्नाट इति रागान् प्रचक्षते ।
 उच्चैस्तारोऽथ गम्भीरे मन्द्रः^१ स्यान्मधुरेऽस्फुटे ॥६॥
 कलं स्तस्मिन् कले सूक्ष्मे काकली स्वर ईर्यते ।
 एकतालस्तु गीतस्य सामस्त्ये लयवाद्ययोः ॥७॥
 विपञ्ची वल्लकी वीणा सप्तभि परिवादिनी ।
 तन्त्रीभिर्वाद्य वीणादि तंतं स्यान्मुरजादिकम् ॥८॥
 आनद्धं सुषिरं वेणुः कांस्यघण्टादिक धनम् ।
 वाद्य^२वादित्रतोद्यानि चतुर्णां नाम गीयते ॥९॥

हिन्दोल राग की दीपिका १ देशकारी २ मायूरी ३ पाहिडी
 ४ मोरहाडी ५ वराडी ६ स्त्री० । कौशिक राग की कामोदा
 १ रामकेली २ भूपाली ३ नाटिका ४ गडा ५ कल्याणी ६ स्त्री० ।

हिन्दी—(१) कितनेक गायनाचार्यों के मत से छ राग हैं उनके नाम—मालव १, मल्लार २ श्रीराग ३ वसन्त ४ हिन्दोल ५ कर्नाट ६ । (२) उच्चस्वर को 'तार' कहते हैं पु० । (३) गम्भीर स्वर को 'मन्द्र' कहते हैं पु० । (४) मीठे और स्फुट स्वर को 'कल' कहते हैं पु० । (५) मीठा और अस्फुट सूक्ष्म कल को 'काकला' कहते हैं स्त्री० । (६) जिस गाना में गीतवाद्यलय आनुरूप से संचारित हो उसे 'एकताल' कहते हैं पु० । (७) वीणा के तीन नाम—विपञ्ची १ वल्लकी २ वीणा ३ स्त्री० । (८) तंततार वाली वीणा को 'परिवादिना' कहते हैं स्त्री० (९) वाद्य-वीणादिको 'तंत' कहते हैं नपुं० । मुरज आदि को 'आनद्ध' कहते

आङ्ग्याऽऽङ्ग्यो-ध्वका भेदा मृदङ्गो मुरजः स्मृतः ।
 आनकः पटहोऽस्त्रीस्यात्कदाचित्पु नपुंसकम् ॥१०॥
 ढकास्त्रिया पुमान् ढोलः स्त्रीभेरी पुंसि दुन्दुभि ।
 अक्षरौ वाद्यभेदः स्याद् डमरुमड्डु डिण्डिभौ ॥११॥
 लयः साम्ये भ्रकुसश्च भ्रकुंसश्च भ्रकुसकः ।
 नर्तकः पुरुषः स्त्रीणा वेषधारी रसा नव ॥१२॥
 शृङ्गारं करुणा हास्याऽद्भुतरौद्रभयानका ।
 वीभत्स वीर शान्ताश्च शृङ्गारः शुचिरुज्ज्वल ॥१३॥

है नपु० । (११) वेणु को 'सृषिर' कहते हैं नपु० । १२ कास्य घण्टा अदि को 'धन' कहते हैं नपु । (१३) इन चारों वाजों के तीन नाम—वाद्य १, वादत्र २, तोद्य ३ नपु० ।

हिन्दी—(१) चतुर्विध वाद्यो के तीन नाम—आङ्ग्य १, आलिङ्ग्य २, ऊर्ध्वक ३ पु० । (२) मृदङ्ग के दो नाम—मृदङ्ग १, मुरज २ पु० । (३) पटह के दो नाम—आनक १, पटह २ अस्त्री० । (४) उत्सववाद्य के चार नाम—ढका १ भेरी २ स्त्री० ढोल १, दुन्दुभि ४ पु० । (५) ये चार वाद्य भेद हैं उनके नाम—अक्षर १, डमरु २ मड्डु ३ डिण्डिभ ४ पु० । (६) गीतवाद्य पादादिन्यास और क्रियाकाल के समता को 'लय' कहते हैं पु० । (७) स्त्रीवेषधारी नाचने वाले पुरुष के तीन नाम—भ्रकुंस १, भ्रकुस २ भ्रकुंसक ३ पु० । (८) रस के नौ नाम—शृङ्गार १, हास्य २ अद्भुत ३, रौद्र ४, भयानक ५, वीभत्स ६, वीर ७, शान्त ८ करुणा ९ स्त्री० । (९) शृङ्गार के तीन नाम—शृङ्गार १, शुचि २, उज्ज्वल ३ पु० ।

हीस्तु व्रीडा त्रपालज्जा सैवाऽन्यस्मादपत्रपा ।
 तितिक्षायां क्षमाक्षान्ति रभिध्या तु परस्पृहा ॥१९॥
 ईर्ष्या त्वीर्ष्या तितिक्षास्या दसूयाऽलीकदूषणम् ।
 द्वेष वैरो विरोधेऽथ शोको मन्युः स्त्रियां तु शुक् ॥२०॥
 पश्चात्तापोऽनुतापः स्याच्छीलं तु चरितेऽमले ।
 क्रोधेऽमर्षस्तथा क्रोपो रोषो रुद् कृध् स्त्रियामुभे ॥२१॥

हिन्दी—(१) अनादर के आठ नाम—अवलेप १, तिरस्कार २, अनादर ३ अपमान ४ पश्चिम ५ पु, अवमानना ६, अवज्ञा ७ अवलेहना ८ स्त्री० । (२) लज्जा के चार नाम—ही १, व्रीडा २ लज्जा ३, त्रपा ४ स्त्री० । (३) पिता आदिके आगे लज्जा का एक नाम—अपत्रपा १ स्त्री । (४) क्षमा के तीन नाम—तितिक्षा १ क्षमा २ क्षान्ति ३ स्त्री० । (५) परद्रव्येच्छा का एक नाम—अभिध्या १ स्त्री० । (६) पर उन्नति नहीं सहने के तीन नाम—ईर्ष्या १, ईर्ष्या २ अतितिक्षा ३ स्त्री० । (७) मिथ्यादोषारोपण का एक नाम—असूया १ स्त्री० । (८) वैर के तीन नाम—द्वेष १ पु वैर नपु २ विरोध ३ पु० । (९) शोक के तीन नाम—शोक १ मन्यु २ पु (मन्यु शब्द दैन्य क्रतु क्रोध बोधकनानार्थ है), शुक् ३ स्त्री । (१०) पश्चात्ताप के दो नाम—पश्चात्ताप १, अनुताप २ पु० । (११) अमल (विमल) चरित्र को 'शील' कहते हैं पु० । (१२) क्रोध के छ नाम—क्रोध १, अमर्ष २ काप ३, रोष ४ पु०, रुध् ५ क्रुध ६ स्त्री० ।

मूर्च्छाया कश्मल मोहः कल्पान्तः प्रलयो मत् ।
 सवेगैश्चैव निर्वेदो वैराग्यं तु नपुंसकम् ॥२७॥
 क्रन्दनं रोदनै जम्भा जृम्भा जृम्भश्च जम्भणे ।
 स्वापः स्वप्नश्च निद्राया शयनं च निगद्यते ॥२८॥
 असम्यक्त्वं विसवादं समे स्खलनरिङ्गणे ।
 तन्द्री तन्द्रा प्रमीला स्याद् भ्रुकुटि भ्रुकुटी समे ॥२९॥
 कैम्पो वेपथु रुद्धिर्षे तु क्षणो मह उत्सव ।
 स्वभावे प्रकृतिः स्त्रीस्या न्निसर्गः पुंस्युदाहृत ॥३०॥
 सन्तुष्टस्य च गुर्वादेः कृपादृष्टिः प्रसन्नता ।
 ॥ इति नृत्यवर्ग समाप्त ॥७॥

हिन्दी—(१) उत्साह के दो नाम—उत्साह १, अध्यवसाय २ पुं० । (२) प्रमाद के दो नाम—प्रमाद १ पुं०, अनवधानता २ स्त्री
 (३) पसीना के तीन नाम—स्वेद १, घर्म २ निदाघ ३ पुं० ।
 आकारगोपन के दो नाम—अवहित्था १ स्त्री० आकारगोपन २ नपु
 (५) मूर्च्छा के तीन नाम—मूर्च्छा १ स्त्री० कश्मल २ नपु० मोह ३ पुं० । (६) प्रलय को कल्पान्त कहते हैं । (७) वैराग्य के तीन नाम—सवेग १, निर्वेद २ पुं० वैराग्य ३ नपु० । (८) रोदन के दो नाम—क्रन्दन १ रोदन २ नपु० । (९) जम्भाई के चार नाम—जम्भा १, जृम्भा २ स्त्री०, जृम्भ ३ पुं०, जृम्भण ४ नपु० । (१०) निद्रा के चार नाम—स्वाप १, स्वप्न २, पुं० शयन ३ नपु०, निद्रा ४ स्त्री० । असम्यक्त्व को 'विसवाद' कहते हैं पुं० । पिच्छिल (कर्म) भूमि से छिछलने के दो नाम—स्खलन १, रिङ्गण २ नपु० ।

॥०॥अथ पातालवर्गः प्रारभ्यते ॥०॥

पातालस्यादधो लोको बलिसन्न रसातलम् ।

बिलं तु सुषिरं क्लीबं कुहरं विवरं स्मृतम् ॥१॥

रोकं छिद्रं रन्ध्रमथ श्वभ्रे गर्ताऽऽवटावुभौ ।

ध्वान्ते तमिस्रं तिमिर मन्धकारोऽस्त्रियां तम ॥२॥

अल्पे ध्वान्तेऽवतमैसं घोरेऽन्धर्तमस तथा ।

सर्पस्तु भुजगो व्यालो द्विजिह्वोऽहि सरीसृपः ॥३॥

चक्षुःश्रवाः फणी काकोदरो भोगी भुजगमः ।

पन्नगः कुण्डली चक्री भुजगः पवनाशनः ॥४॥

॥ नृत्यवर्ग समाप्त ॥

हिन्दी—(१) तन्द्रा के तीन नाम—तन्द्री १ तन्द्रा २ प्रमीला ३ स्त्री० । (२) भ्रुकुटि के दो नाम—भ्रुकुटि भ्रुकुटि २ स्त्री० । ३ कम्प के दो नाम—कम्प १ वेपथु २ पु० । (४) उत्सव के पांच नाम—उद्धर्ष १ क्षण २ मुः ३ उत्सव ४ उद्धव ५ पु० । (५) स्वभाव के तीन नाम—स्वभाव १ निसर्ग २ पु०, प्रकृति ४ स्त्री० । (६) प्रमन्नता को 'कृपादृष्टि' कहते हैं स्त्री० ।

हिन्दी—(१) पाताल के चार नाम—पाताल नपु० अधो-लोक २ पु० 'बलिसन्न ३, रसातल ४ नपु० । बिल के सात नाम बिल १, सुषिर २, कुहर ३, विवर ४, रोक ५, छिद्र, ६, रन्ध्र ७ नपुं । (२) खड्गे के तीन नाम—श्वभ्र १, गर्त, २, अवट ३ पु० । (३) सामान्य अन्धकार के पांच नाम—ध्वान्त २, तमिस्र २, तिमिर ३, तमस् ४ नपु०, अन्धकार ५ अस्त्री० । (५)

अशीविषो द्विरसनो लेलिहानश्च जिह्वग ।
 विलेशयो दन्तशूको गूढपदुरगोऽपि च ॥५॥
 गोकर्णः ऋञ्चुकी कुम्भी-नसो विषधरस्तथा ।
 काद्रवेयास्तु नागास्युः शेषोऽनन्तस्तदीश्वरः ॥६॥
 तिलित्सगोनसौ तूल्यो सर्पराजस्तु वासुकिः
 अलगर्दो दराधारोऽर्जगरो वाहस शयुः ॥७॥
 स्याद् घोणो निर्विषः सर्पस्तुल्योर्धर्मणधावनौ ।
 राजीलोडुण्डुभो मालुं-धानो मातुल पन्नगः ॥८॥

अल्प अन्धकार का एक नाम—अवतमम १ नपु० । (६) घोर-
 अन्धकार का एक नाम—अन्धतमस १ नपु० । (७) सर्प के
 अट्टाईस नाम सर्प १ भुजग २ व्याल ३ द्विजिह्व ४ अहि ५
 सरीसृप ५ चक्षु श्रवस् ७ फणिन् ८, काकोदर ९ भोगिन् १०
 भुजगम ११ पन्नग १२ कुण्डलिन् १३ चक्रिन् १४ भुजग १५
 पवनाशन १६,

हिन्दी—आशीविष १७, द्विरसन १८, लेलिहान, १९ जिह्वग
 २०, विलेशय २१, दन्तशूक २२ गूढपाद्, २३, उरग २४, गोकर्ण
 २५, कञ्चुकिन्, २६, कुम्भीनस २७, विषधर २८, (हरि) पु० ।
 (१) फणा और पूंछवाले नराकार सर्पों के दो नाम—काद्रवेय १
 नाग २ पु० । (२) नागस्वामी के दो नाम—शेष १ अनन्त २
 पु० । (३) सर्प विशेष के दो नाम—तिलित्स १ गोनस २ पु० ।
 (४) नागराज के दो नाम—सर्पराज, वासुकि २ पु० । (५) जल-
 स्थायी सर्प के दो नाम—अलगर्द १, दराधार २ पु० । (६)

शरोरमस्य भोगःस्याद् दंष्ट्रा त्वाशीः फणौस्फटा ।

विषं तु गरलंक्ष्वेडो विषभेदा उमेऽस्त्रियाम् ॥९॥

हलाहलः कालकूटः काकोलश्च प्रदीपनः ।

शौक्लिकेयोब्रह्मपुत्रो वत्सनाभश्च दारदः ॥१०॥

कञ्चुक स्यात्तु निर्मोक आहियं स्यात् त्रिलिङ्गकम् ।

व्यालर्ग्राही जाङ्गलिको विषवैद्याऽऽहि तुण्डकौ ॥११॥

नरैको निरयः किञ्च नारको दुर्गतिः स्त्रियाम् ।

तत्प्रभेदास्तु तैपनो महारौरवरौरवो ॥१२॥

अजगर के तीन नाम—अजगर १, वाहस २, शयु ३ पु०० । (७)

निर्विष सर्पजाति वालों में एक जाति का नाम—‘घाण पु० । (८)

दूरे जाति के दो नाम—घर्मण १ घावन २ पु० । (१) निर्विष

द्विमुख सर्पों के दो नाम—राजील १ डुण्डुभ २ पु० । (१०)

चित्र सर्प के दो नाम—मालुघान १, मातुलपन्नग २ पु० ।

हिन्दी—(१) सर्प के शरीर का एक नाम—‘भोग’ पु० । (२)

सर्पों के ताल में दात होता है उनके दो नाम—दंष्ट्रा १, आशी २

(अशिष्) स्त्री, इन दातों से काटने पर कोई नहीं जीता है । (३)

सर्पफणा के दो नाम—फणा १ स्फटा २ स्त्री० । (४) विष के तीन

नाम—विष १, गरल २ नपुं, क्ष्वेड ३ पु० विष के ८ भेद उनके ८

नाम—हलाहल (हालाहल) कालकूट २, काकोल ३, प्रदीपन ४,

ब्रह्मपुत्र ५, शौक्लिकेय ६, दारद ७, वत्सनाभ ८ पु० । (६) सर्प से

निकले हुए त्वचा के दो नाम—कञ्चुक १ निर्मोक २ पु० । (७) सर्प

के प्रत्यङ्ग विकारों को ‘आहिय’ कहते हैं त्रिलिङ्ग । (८) सर्प के

कालसूत्र च सद्घातोऽवीचि र्जीवास्तु नारंकाः ।
 सिन्धुवैतरणी प्रेतौ यातना घोरवेदना ॥१३॥
 कँष्ठं प्रसूतिजं दुःख माभीलं कृच्छ्रमित्यपि ।
 पीडाबाधा व्यथैतेषा त्रिषु ज्ञेयं विशेष्यगम् ॥१४॥
 घर्मावंशा तृतीया तु जैला तुर्याऽञ्जना क्रमात् ।
 रिष्टा षष्ठी मघा माघवती नरकभूमयः ॥१५॥
 ॥ इति पातालवर्ग समाप्त ॥

पकडने वाले के दो नाम—व्यालप्राहिन् १ जाङ्गुलिक २ पु० ।
 (९) विषवैद्य के दो नाम—विषवैद्य १, आहितुण्डिक २ पु० ।
 (१०) नरक के चार नाम—नरक १, निरय २, नारक ३ पु०
 दुर्गति ४ स्त्री । (११) नारक के भेद से नरक के ऊँचे छ नाम—
 तपन १, महारीरव २, रौरव ३, सघात ४, अवीचि ५ पु०,
 कालसूत्र ६ नपु० ।

हिन्दी—(१) नरकवासी जीवों को 'नारक' कहते हैं । (२)
 नरक नदी के दो नाम—सिन्धु १, वैतरणी २, स्त्री० । (३) भया-
 नक दुःख के तीन नाम—प्रेता १, यातना २, घोरयातना ३,
 स्त्री० । (४) दुःख के आठ नाम—कष्ट, प्रसूतिज २, दुःख ३ आ-
 भील ४, कृच्छ्र ५, नपु०, पीडा ६, बाधा ७, व्यथा ८ स्त्री० ।
 (५) नरक के ये सात नाम जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं उनके नाम—
 जैला १, रिष्टा २, अञ्जना ३,, वंशा ४, घर्मा ५, माघवती ६
 मघा ७ स्त्री० ।

॥अथ जलवर्गः प्रारभ्यते॥

जलं स्यात्सलिल वारि मेघपुष्पं दक च कम् ।

पानीयमुदकं नीरं क्षीर जीवनमम्बु च ॥१॥

कीलालममृतं तोयं पाथोऽर्णोऽम्भश्च शंवरम् ।

क्लीवमापो बहत्वे स्त्री पयो वाः पुष्करं वनम् ॥२॥

नदी निर्झरिणी स्रोतस्वती द्वीपवती धुनी ।

तरङ्गिव्यापगा कूलं कषा शैवलिनी सरित् ॥३॥

सरस्वती स्रवन्ती च तटिनी हृदिनी तथा ।

निम्नगाऽमूः स्त्रियः सर्वा गङ्गा जह्नुसुताऽपि च ॥४॥

भागीरथी त्रिपथगा तथा विष्णुपदीति च ।

सूर्यात्मजा तु यमुना कालिन्दी शमनस्वसा ॥५॥

हिन्दी— (१) जल के चौबीस नाम—जल १, सलिल २ वारि ३, मेघपुष्प ४, दक ५, क ६, पानीय ७, उदक, ८, नीरं ९, क्षीर १० जीवन ११, अम्बु १२, कोलाल १३, अमृत १४, तोय १५ पाथस् १६, अर्णस् १७, अम्भस् १८, सवर, १९, पयस् २०, वार २१ पुष्कर २२, वन २३, नपु०, आप २४, बहुवचनान्त स्त्री० । (२) नदी के पन्द्रह नाम—नदी १, निर्झरिणी २ स्रोतस्वती ३, द्वीपवती ४, धुनी, ५, तरङ्गिनी ६, आपगा ७, कूलङ्कषा ८, शैवलिनी ९, सरित् १०, सरस्वती ११ स्रवन्ती १२ तटिनी १३ हृदिनी १४ निम्नगा १५ स्त्री० । (३) गङ्गा के पाच नाम—गङ्गा ० जह्नुसुता २ भागीरथी ३ त्रिपथगा ४, विष्णुपदी ५ स्त्री । (४) यमुना के चार नाम—सूर्यात्मजा ३, यमुना २ कालिन्दी ३ शमनस्वसा ४ स्त्री० ।

सोमजा नर्मदा रेवा सैव मेकलकन्यका ।
 करतोया सदा नीरा चन्द्रभागा सरस्वती ॥६॥
 शरावती वेत्रवती कावेर्याद्याः अनेकश ।
 ब्रह्मपुत्रो नदः शोणः कुल्याऽल्पा कृत्रिमा सरित् ॥७॥
 समुद्र उदधिः सिन्धु रब्धिर्जलधिरर्णव ।
 सरस्वान् सागरः पारा-वारो रत्नाकरस्तथा ॥८॥
 यादः पतिरुदन्वांश्च सरित्पति रपांपतिः ।
 भेदा लवणक्षीराऽऽज्य सुरे-क्षु-दधिवारयः ॥९॥

हिन्दी—(१) नर्मदा नदी के चार नाम—सोमजा १, नर्म-
 दा ५, रेवा ३, मेकलकन्यका ४, स्त्री० (२) करतोया नदी
 के दो नाम—करतोया १ सदानीरा २ स्त्री० । (३) नदीविशेषो
 के पृथक् २ नाम—चन्द्रभागा १, सरस्वती २ शरावती ३, वेत्र-
 वती ४ कावेरी २, स्त्री० । (४) नद के दो नाम—ब्रह्मपुत्र १
 शोण (भद्र) (२) खोदकर बनाई गई नदी के तीन नाम
 कुल्या १, अल्पा २, कृत्रिमा स्त्री० । (६) समुद्र के चौदह नाम
 समुद्र १, उदधि १, सिन्धु ३, अब्धि ४, जलधि ५, अर्णव ६,
 सरस्वत् ७, सागर ८, पारावार ९, रत्नाकर १०, याद पति
 ११ उदन्वम् १२ सरित्पति १३, अपापति १४, पु (७)
 समुद्र के अनेक भेद—लवण १, क्षीर २ आज्य ३, सुरा ४,
 इक्षु ५, दधि ६, पु । (८) तरङ्ग के पाच नाम—तरङ्ग १, भद्र
 २ पुं, लहरी ३ स्त्री, वीचि ४, ऊर्मि ५ पु स्त्री ।

तरङ्ग भङ्गौ लहरी वीचिरुमिर्द्वयोर्मतः ।

जलभ्रमिः स्यादावर्तः कल्लोलैल्लौ महोर्मिषु ॥१०॥

विभ्रुष्ट स्त्रियां पृषत्क्रीचे स्याद् विन्दुः पृषतः पुमान्

पुटंभेदो भ्रमः पुंसि चक्रं च जलनिर्गमे ॥११॥

स्यात् त्रिलिङ्गं तटंकूलं प्रतीरं तीरं रोधमी ।

परतीरं तु पार स्याद्वारमपर तथा ॥१२॥

सिन्धुमेले तु संभेदः प्रणाली जलपद्धतौ ।

अस्त्री द्वीपोऽन्तरीपंच जलाभ्यन्तस्तटे द्वयम् ॥१३॥

सैकतं सिकतापुञ्जे द्वे सिकताऽसिकते स्त्रियां ।

जलक्रमेण संजाते तटे पुलिनं मीरितम् ॥१४॥

- (१) जलभ्रमि को 'आवर्त' कहते हैं पुं. (२) तरङ्ग के दो नाम—कल्लोल १ उल्ल २ पु (३) विन्दु के चार नाम—विभ्रुष १ स्त्री., पृषत् २ नपु., विन्दु ३, पृषत् ४ पु (४) चक्राकार से अधोगामी जल के तीन नाम—पुटभेद १ भ्रम २ पु, चक्र ३ नपु. (५) तट के पांच नाम—तट १ कूल २, प्रतीर ३, तीर ४, रोधस् २ त्रिलिङ्ग (३) नदी आदि के परतट को 'परतीर' ३, और 'पार' कहते हैं, पूर्वतटको 'अवार' और 'अपर' कहते हैं नपु । (७) नदि सगम का एक नाम—सभेद १ पु । (८) जलमार्ग का एक नाम—प्रणाली स्त्री. (९) जल के अन्तर्वर्ती द्वीप के दो नाम—द्वीप १ अन्तरीप २ पु. । (१०) सिकता समूह के एक नाम—सैकत १ नपु, २१ रेतो के दो नाम—सिकता १ सिकता २ स्त्री । (१२) जल धार से बने हुए तट को 'पुलिन' कहते हैं ।

परीवाहो जलोच्छ्वासः प्रवृद्धजलनिर्गतौ ।
 ह्रदोऽगाधजले पुंसि जलाधारो जलाशये ॥१५॥
 उदपानं स्त्रियां नस्या दन्धुः कूपः प्रहि पुमान् ।
 विदारको भवेत्कूपो गर्तेऽम्बु प्राप्तये कृतः ॥१६॥
 त्रिकांतु नेमिः कूपस्य वीनाहो मुखबन्धनम् ।
 देवखातमखातं स्यात्खात पुष्करिणी स्त्रियाम् ॥१७॥
 पद्माकरस्तटाकोऽस्त्री तडागः सरसी सरः ।
 कासारः पल्लव त्वल्प सरो वेशन्त इत्यपि ॥१८॥
 आधारो जलाधान्यालवाला वापोऽऽवाळस्तु क्षुद्रजे ।
 खैर्यं स्यात्परिखा वाप्यां दीर्घिक द्वे अम् स्त्रियाम् ॥१९॥

हिन्दी—(१) प्रवृद्ध जल निर्गम के दो नाम—परिवाह, १
 जलोच्छ्वास २ पु० । (२) अगाध जल को 'ह्रद' कहते हैं ।
 (३) जलाधार को 'जलाशय' कहते हैं । (४) कूप के पाच नाम
 उदपान १, अस्त्री० अन्धुर २, कूप ३, प्रहि ४, विदारक ५ पु ।
 (५) कूप के अन्दर में डोरी आदि बन्धन यन्त्र के दो नाम—
 त्रिका १, नेमि २, स्त्री० । (६) कूप के मुखबन्धन का 'विनाह'
 कहते हैं पु० । (७) अकृत्रिम जलाशय के दो नाम—देवखात
 १, अखात २, पु । (८) तालाव के आठ नाम—खात १,
 पद्माकर २, तटाक ३, तडाग ४, कासार ५, अस्त्री० पुष्क-
 रिणी ६, सरसी ७ स्त्री०, सरस् ८ नपु० । (९) अल्प (छोटे)
 तालाव के तीन नाम—पल्लव १, अल्पसरस् २, नपु०,
 वेशन्त ३ पु० ।

जलनील्यान्तु शैवाल वारिर्षणीं तु कुम्भिका ।
 सौगन्धिकं सिताम्भोजं कल्हारं यत् त्रिसन्ध्यकम् ॥२०॥
 रक्तं तद् हल्लकं ज्ञेयं कमलेषु कुशेशयम् ।
 पद्मारविन्दे नलिन शतपत्रं स्त्रियं विना ॥२१॥
 सहस्रपत्रमम्भोज-मञ्जं राजीवमम्बुजम् ।
 कञ्जं पङ्केरुह पुण्डरीकं तामरसोत्पले ॥२२॥
 अम्भोरुहं सरसिजं सारसं सरसीरुहम् ।
 रात्रीपद्मं कुवलयं कैरवं कुमुदं सिते ॥२३॥

हिन्दी—(१) बड़े बन्धों का एक नाम—जलधानी १, स्त्री० (आधार पु०) । (२) क्यारी के तीन नाम—आवाल १, आल वाल २, नपु०, आवाप ३ पु० । (३) नगर के चारो ओर बनाई हुई खाई के दो नाम—खेय १ नपु०, परीखा २ (स्वाता) स्त्री० । वावडो के दो नाम—वापी १ दीर्घिका २ स्त्री० । (४) जलनाली का एक नाम—शैवाल (खेळ, शैवल, शेवल) नपु० पु० । (५) पत्तेवाले शैवाल के दो नाम—वारिषणीं १, कुम्भिका २ स्त्री० । (६) श्वेत कमल के तीन नाम—सौगन्धिक १, सिताम्भोज २, कल्हार । (७) रक्त कमल का एक नाम 'हल्लक' । (८) कमल के बीस नाम—कमल १, कुशेशय २, पद्म ३, अरविन्द ४, नलिन ५, शतपत्र ६, सहस्रपत्र ७, अम्भोज ८, अञ्ज ९, राजीव १०, अम्बुज ११, कञ्ज १२, पङ्केरुह १३, पुण्डरीक १४, तामरस १५, उत्पल १६, अम्भोरुह १७, सरसिज १८, सारस १९, सरसीरुह २०, । (१०) रात्रि में खिलने वाले कमल के तीन नाम—कुवलय १, कुमुद २, कैरव ३ ।

नीले चेन्दीवरं कन्द स्त्वेषा शालूकं मुच्यते ।
 पद्ममूल शिफाकन्दः करहाट उभौ पुमान् ॥२४॥
 नालिन्यां विसिनी प्रोक्ता कुमुदिन्या कुमुद्वती ।
 नालानालं स्त्रिया ह्रीवे रक्तः कोकनदोऽम्बुजः ॥२५॥
 मृणाल च मृणाली स्त्री विसे किञ्जल्क केसरौ ।
 वराट्को बीजकोशे परागो रेणुरुच्यते ॥२६॥
 पङ्कोऽस्त्री कर्दमः शादो जम्बालश्च निषड्दर ।

हिन्दी—(१) नीलकमल के एक नाम—इन्दीवर १ । (२) रात्रिविकासी कमलकन्द का एक नाम—‘शालूक’ येउन्तीस अक्षी० । (३) पद्मकन्द के दो नाम—शिफाकन्द १ करहाट २ पु० । (४) कुमुदिनी के तीन नाम—नलिनी १ विसिनी २ पद्मिनी ३ अक्षी० । (५) कुमुद युक्त देश वा कुमुदलता के दो नाम—कुमुदिनी १ कुमुद्वती २ अक्षी० । (६) कमलनाल का एक नाम—नाला, अक्षी० नपु० । (७) रक्त कमल के तीन नाम—कोकन्द १ पु०, रक्तमरोरुह २, रक्तोत्पल ३ पु० नपु० । (८) जलजात कमल शैवाल आदि के तीन नाम—मृणाल १ नपु० मृणाली २ अक्षी०, विस ३ अक्षी० । (९) कमल केसर के दो नाम—किञ्जल्क १, केसर २ पु० नपु० । (१०) पद्मबीजके दो नाम—वराटक १ बीजकोश २ पु० । (११) कमल आदि पुष्प धूली के दो नाम—पराग १ रेणु २ पु० । (१२) कीचड के पाच नाम—कर्दम १ शाद २ जम्बाल ३ निषड्दर ४ पु०, पङ्क ५ अक्षी० ।

नौतार्ये त्रिषु नाव्य स्या-तरणिर्नैर्स्तरिः स्त्रियाम् ॥२७॥
 पोतस्तु पुंसि वोहित्थं वहित्रं वहन च तत् ।
 स्रोतः स्वतोऽम्बुसरणे प्लवकोलौ तथोडुपः ॥२८॥
 काष्ठाऽम्बुवाहिनीद्रोणी गुणवृक्षस्तु कूपकः ।
 अरित्र केनिपाते ऽथ नौर्दण्डे क्षेपणीस्त्रियाम् ॥२९॥
 आतराऽतितरौस्यातां तरपण्येऽथ सेचनम् ।
 सेकपात्रेऽथ नावोऽर्धेऽर्धनावं लकीव लिङ्गकम् ॥३०॥
 नाविकः कर्णधारः स्या तपोतवाहो नियामकः ।
 पारंग स्त्रिषु पारीणो ऽवारपारीण इत्यपि ॥३१॥

हिन्दी-(१) नौका से पार करने योग्य जलनदी आदि को 'नाव्य' कहते हैं त्रिलिङ्ग । (२) नौका के सात नाम-तरणि १ तरि २ नौ ३ स्त्री०, पोत ४ पु०, वोहित्थ ५ वहित्र ६ वहन नपुं० । ३ अकृत्रिम जलप्रवाह को 'स्रोतस्' कहते हैं, नपुं । ४ तृणादि निर्मित नौका के तीन नाम-प्लव कोल २ उडुप ३ पुं । काष्ठ आदि से नौकाकार बनाई गई जलसेचनी का एक नाम-द्रोणी १ स्त्री० । पाल जिसमें बांधे जाँय उस काष्ठ के दो नाम-गुणवृक्ष १ कूपक २ पु० । नौका को चलाने वाले काष्ठ के दो नाम-अरति १ नपु, केनिपातक २ पु० । (८) नौका के किनारे मे बांधे गये चालन काष्ठ के दो नाम-नौ दण्ड १ पु०, क्षेपणी (क्षिपणी) २ स्त्री० । (९) नौका उतराई मूल्य के दो नाम-आतर १ अतितर २ पु० । (१०) नौका से जल निकालने के पात्र के दो नाम-सेचन १ सेकपात्र २ नपुं० ।

सांयात्रिको द्वयोर्नौका वणिक् पोतवणिक्च सः ।
 अत्रिः काष्ठस्य कुहाले प्रसन्नाऽच्छौतु निर्मलः ॥३२॥
 समलः कलुषोऽनच्छ अविळश्चेत्यमी समा ।
 निम्नं गभीरगम्भीरे अगाधेऽस्ताद्य इत्यपि ॥३३॥
 धीवरे दाश कैवर्ते मत्स्याधानी कुवेणिका ।
 मत्स्यवेधन यन्त्रे स्या-द्वडिशं वडिशास्त्रियाम् ॥३४॥
 आनायो ना च जालं स्यान्मीने वैसारिणो ज्ञषः ।
 पृथुरोमा च मत्स्यश्च विसारः शकली पुमान् ॥३५॥

हिन्दी-(१) अर्ध नौकाकार सेचनी को 'अर्धनाव' कहते हैं
 नपुं० । (२) नौका के सूत्रधार 'नाव चलाने वाले' को 'नाविक
 और कर्णधार' कहते हैं पु० । (३) नौका व्यवस्था सचालक के
 दो नाम—पोतवाह १, नियामक २ पु० । (४) पार जाने वाले
 के तीन नाम—पारग १ पारीण २, अवारपारीण ३ त्रिलिङ्ग । (५)
 नौका से पार करने वाले के तीन नाम—सायात्रिक १ अस्त्री०,
 नौकावणिक् २, पोतवणिक्, ३ पु० । (६) नौका से कचरा
 निकालने के पात्र के दो नाम—अत्रि १ स्त्री०, काष्ठकुहाल २
 पुं० । (७) निर्मल के तीन नाम—प्रसन्न १, अच्छ २ निर्मल ३
 त्रिलिङ्ग । (८) मलिन जल के चार नाम—समल १ कलुष २ अनच्छ
 ३, अविळ ४ त्रिलिङ्ग । (९) गंभीर के पाच नाम—निम्न १, गभीर
 २ गम्भीर ३ अगाध ४, अस्ताद्य ५ त्रिलिङ्ग । (१०) धीवर के तीन
 नाम—धीवर १, दाश २, कवर्त ३ पु० । (११) मछली रखने का
 जो पात्र है उसके दो नाम—मत्स्याधानी १, कुवेणिका २ स्त्री ।

सहस्रदंष्ट्रे पाठीनी प्रौष्ठी तु शफरी द्वयोः ।

मद्गुरः शालराजीवौ शकुलस्तिमिरोहितौ ॥३६॥

झषास्तिमिङ्गिलोऽन्येतु यादांसि जलजन्तवः ॥

शङ्कुर्द्रं शिशुमाराः स्यु स्तद्भेदे मकरादयः ॥३७॥

कच्छपः : कूर्मे कुलीरः कर्कटः पुमान् ।

ग्राहे स्वहारो नक्रस्तु कुम्भीरेऽथ महीलता ॥३८॥

हिन्दी—(१) मत्स्यवेधन यन्त्र के दो नाम—बडिशा १ नपु०, बडिशा २ स्त्री० । (२) जाल के दो नाम—आनाय १ पु०, जाल २ नपु० । (३) मत्स्यो के सात नाम—मीन, १ वैसारिण २ झष ३ पृथुरोमन् ४ मत्स्य ५ विसार ६ शकलिन् ७ पु० । (४) बहुत दात वालि मछलियो के दो नाम—सहस्रदंष्ट्र १ पाठीन १ पु० । (५) मत्स्य विशेष के दो नाम—प्रौष्ठी १ शफरी २ स्त्री पु० । (६) पृथक् पृथक् एक एक मत्स्य जाति के नाम—मद्गुर १ शाल २ राजीव ३ शकुल ४ तिमि ५ रोहित ६ तिमिङ्गिल पु० । (७) जलचर मात्र 'यादस्' १ बहुवचन नपु०, जलजन्तु २ पुं नपु० । (८) जलचर के अनेक भेद—शकु १ उद्र २ शिशुमार ३ मकर ४ पु० । (९) कच्छप के तीन नाम—कच्छप १ कमठ २ कूर्म ३ पु० । (१०) केवड़ा के दो नाम—कुलीर १ कर्कट २ पु० । (११) ग्राह के दो नाम—ग्राह अवहार २ पु० । (१२) मगर मच्छके दो नाम—नक्र १ कुम्भीर पु० । (१३) केंचुवा (अलसिया) ये जमीन पर चलने वाले लघु सर्पाकृति द्वीन्द्रिय कीट हैं इनके तीन नाम—महीलता १ स्त्री०, गण्डूपद २ किञ्चलक ३ पु० ।

सायात्रिको द्वयोर्नौका वणिक् पोतवणिक्व सः ।
 अभ्रिः काष्ठस्य कुहाले प्रसन्नाऽच्छौतु निर्मलः ॥३२॥
 सर्मलः कलुषोऽनच्छ अविलश्चेत्यमी समा ।
 निम्नं गभीरगम्भीरे अगाधेऽस्ताघ इत्यपि ॥३३॥
 धीर्वरे दाश कैवर्तौ मत्स्याधानी कुवेणिका ।
 मत्स्यवेधन यन्त्रे स्या—द्वडिशं वडिशास्त्रियाम् ॥३४॥
 आनायो ना च जाल स्यान्मीने वैसारिणो द्रवः ।
 पृथुरोमा च मत्स्यश्च विसारः शकली पुमान् ॥३५॥

हिन्दी—(१) अर्ध नौकाकार सेचनी को 'अर्धनाव' कहते हैं नपुं० । (२) नौका के सूत्रधार 'नाव चलाने वाले' को 'नाविक और कर्णधार' कहते हैं पु० । (३) नौका व्यवस्था सचालक के दो नाम—पोतवाह १, नियामक २ पु० । (४) पार जाने वाले के तीन नाम—पारग १ पारीण २, अवारपारीण ३ त्रिलिङ्ग । (५) नौका से पार करने वाले के तीन नाम—सायात्रिक १ अस्त्री०, नौकावणिक् २, पोतवणिक्, ३ पु० । (६) नौका से कचरा निकालने के पात्र के दो नाम—अभ्रि १ स्त्री०, काष्ठकुहाल २ पुं० । (७) निर्मल के तीन नाम—प्रसन्न १, अच्छ २ निर्मल ३ त्रिलिङ्ग । (८) मलिन जल के चार नाम—समल १ कलुष २ अनच्छ ३, अविल ४ त्रिलिङ्ग । (९) गंभीर के पाच नाम—निम्न १, गभीर २ गम्भीर ३ अगाध ४, अस्ताघ ५ त्रिलिङ्ग । (१०) धीवर के तीन नाम—धीवर १, दाश २, कवर्त ३ पु० । (११) मछली रखने का जो पात्र है उसके दो नाम—मत्स्याधानी १, कुवेणिका २ स्त्री ।

सहस्रदंष्ट्रे पाठीनौ प्रौष्ठी तु शफरी द्वयोः ।

मद्गुरः शालराजीवौ शकुलस्तिमिरोहितौ ॥३६॥

झषास्तिमिङ्गिलोऽन्येतु यादांसि जलजन्तवः ॥

शङ्खुर्द्रं शिशुमाराः स्यु स्तद्धेदे मकरादयः ॥३७॥

कच्छपः : कूर्मे कुलीरः^{१०} कर्कटः पुमान् ।

ग्राहे ऽवहारो नैक्रस्तु कुम्भीरेऽथ महीलता ॥३८॥

हिन्दी-(१) मत्स्यवेधन यन्त्र के दो नाम-बडिश १ नपुं०, बडिशा २ स्त्री० । (२) जाल के दो नाम-आनाय १ पु०, जाल २ नपुं० । (३) मत्स्यो के सात नाम-मीन, १ वैसारिण २ झष ३ पृथुरोमन् ४ मत्स्य ५ विसार ६ शकलिन् ७ पु० । (४) बहुत दात वालि मछलियो के दो नाम-सहस्रदंष्ट्र १ पाठीन १ पु० । (५) मत्स्य विशेष के दो नाम-प्रौष्ठी १ शफरी २ स्त्री पु० । (६) पृथक् पृथक् एक एक मत्स्य जाति के नाम-मद्गुर १ शाल २ राजीव ३ शकुल ४ तिमि ५ रोहित ६ तिमिङ्गिल पु० । (७) जलचर मात्र 'यादस' १ बहुवचन नपुं०, जलजन्तु २ पुं नपु० । (८) जलचर के अनेक भेद-शंकु १ उड २ शिशुमार ३ मकर ४ पु० । (९) कच्छप के तीन नाम-कच्छप १ कमठ २ कूर्म ३ पु० । (१०) केवड़ा के दो नाम-कुलीर १ कर्कट २ पु० । (११) ग्राह के दो नाम-ग्राह अवहार २ पुं० । (१२) मगर मच्छके दो नाम-नक्र १ कुम्भीर पु० । (१३) केंचुवा (अलसिया) ये जमीन पर चलने वाले लघु सर्पाकृति द्वीन्द्रिय कीट हैं इनके तीन नाम-महीलता १ स्त्री०, गण्डूपद २ किंचुलक ३ पु० ।

गण्डूपदः किचुलुको निहाकास्यात्तु गोधिका ।
 मुक्तास्फोटः पुमान् शुक्तिः स्त्रियलौका तु रक्तपा ॥३९॥
 क्षुद्रशङ्खे शङ्खनखाः शङ्खः कम्बुर्न तु स्त्रियाम् ।
 भेकै मण्डूक शालूर वर्षाभू दर्दुर प्लवाः ॥४०॥
 शृङ्गी मद्गुर पुंयोगे भेकी स्त्री कमठी डुलिः ।
 ॥ इति जलवर्गः समाप्त ॥

॥ अथ अव्ययवर्गः प्रारभ्यते ॥

प्रादुराविः प्रकाशले श्वैस्त्वनागत वासरे ।
 परेध्वि परश्वः स्यात्परश्वस्तदुत्तरे ॥१॥
 दुष्टु प्रोक्त जुगुप्साया सुष्टु प्राशस्त्यवाचकम् ।
 अधुना सम्प्रतीदानीं स्यादेतर्हि च साम्प्रतम् ॥२॥
 समया निकषाऽऽसन्ने प्रभाते प्रातरुच्यते ।
 सन्व्याकाले स्मृतं सार्यं मुषा रात्र्यन्तमीरितम् ॥३॥

हिन्दी—[१] जलगोधिका के दो नाम—निहाका १ गोधिका
 २ ली० । [सीप के दो नाम—मुक्तास्फोट १ पु०, शुक्ति २ स्त्री० ।
 [३] जलोका [जोक] के दो नाम—जलोका १ रक्तपा २ ली० । [४]
 छोटे शखों के दो नाम—क्षुद्रशङ्ख १ शङ्खनख २ पु० । [५] शख के
 दो नाम—शख १ कम्बु २ वस्त्री० [६] मेढक के छ नाम—भेक
 १ मण्डूक २ शालूर ३ वर्षाभू ४ दर्दुर ५ प्लव ६ पु० । [७]
 मद्गुर के पुयोग में शृङ्गी १ भेककी भेकी, कमठ की कमठी,
 डुलि दो नाम स्त्रीलिङ्ग ।

॥ जलवर्गः समाप्त ॥

वैतहर्षे विषादे च स्याद् यथार्थे यथातथम् ।
 कच्चित्कल्याण पृच्छाया मुर्धाऽस्मिन्नहनीष्यते ॥४॥
 ह्यो गतेऽहन्य द्रुतेतु शैनेः प्रायस्तु भूमनि ।
 अयि कोमल संबुद्धा वोमा मेवं च सम्मतौ ॥५॥
 स्वीकृता वस्तु पर्याप्ते कामं वा स्याद्विकल्पने ।
 बाह्ये बहिरदृष्टेऽस्तं स्यादनेके च निश्चये ॥६॥
 उच्चै रूर्वे सैनानित्ये,ऽर्धस्तान्नीचैः पुर्नमुहुः ।
 मीमास्माऽल निरोधे स्युः पुरस्तादयतः पुरः ॥७॥
 नो नहि निषेधेऽर्थे हा खेदेऽहोतु विस्मये ।
 संत्रा साक सम सार्ध सहार्थेधिकैव भर्त्सने ॥८॥

हिन्दी—[१] प्रकाश अर्थ मे दो शब्द—प्रादुसू १ आविस् ।
 २ आगामी दिन मे 'श्वस्' । [३] तीसरे दिन के बोधक 'परेद्यु',
 परश्व, दो शब्द है । [४] चौथे दिवस को 'प्रपरश्व' कहते है ।
 [५] जुगुप्सा अर्थ मे 'दुष्टु' है । [६] प्रगस्तबोधक अर्थमें 'सुष्टु'
 है । [७] अभो अर्थ में 'अधुना, सम्प्रति, इदानीम्, एतर्हि, साम्प्र-
 तम्, है । [८] आसन्न 'समीपवर्ती' अर्थ मे 'समया निकषा'
 है । [९] सवेरा अर्थ में 'प्रभात, प्रातर' है । [सन्ध्या अर्थ में
 'सायम्' है । [११] रात्रिका अन्त बोधक 'उषा' है । [१२]
 हर्ष या विषाद अर्थ मे 'वत' है । [१३] यथार्थबोधक 'यथातथम्'
 है । [१४] कल्याण सूचक प्रश्न में 'कच्चित्' है । [१५] आज के
 दिन मे 'अद्य' है ।

(१) आज से अव्ययवहित पूर्व दिन का बोधक 'ह्यस्' है ।

येदि चेद् अन्यपक्षे द्वे ह्यः पूर्वेषुः समाबुभौ ।
 एकैदा युगपत्सद्यः ५ सपद्यऽत्रत्विवहार्थकम् ॥९॥
 तदानीं तदा तस्मिन्कालेऽमुत्र भवान्तरे ।
 किञ्चिदीवन्मनागल्पे, स्याद् व्यर्थेतु मुर्धावृथा ॥१०॥
 चिरं च चिररात्राय चिरस्य च चिराय च ।
 चिराच्चिरे चिरेणाऽपि चिरार्थे योजिताः पुरा ॥११॥
 कदाचिज्जातु तुल्येद्वे सहैसाऽतर्किते मतम् ।
 विनामध्यार्थयोः प्रोक्ता व्यन्तरेणाऽन्तरेऽन्तरा ॥१२॥
 तिर्यगर्थे तिरः साचि दिष्ट्याऽऽनन्देऽर्चने स्वैति ।

- (२) मन्द अर्थ में 'शनेस्' है । (३) बाहुल्य अर्थ में 'प्रायस्' है ।
 (४) कोमल संबोधन में 'अयि' है । (५) स्वीकार अर्थ में 'ओम्,
 आम्, एवम्' है । (६) स्वीकृति अर्थ में 'कामं' है । (७) विकल्प
 में 'वा' है । (८) बाहिर अर्थ में 'बहिस्' है । (९) दृष्टि से परे
 को 'अस्तम्' कहते हैं । (१०) अनेक अर्थ में और निश्चय में
 'स्यात्' है । (११) ऊपर अर्थ में 'उच्चैस्' है । (१२) नित्य अर्थ
 में 'सना' है । (१३) नीचे अर्थ में 'अधस्, नीचैस्' है । (१४)
 फिर से अर्थ बोधक 'पुनर्, मुहुस्' है । (१५) निरोध अर्थ में
 'मामा स्म अल' है । (१६) आगे अर्थ में 'पुरस्तात्, अग्रतम्,
 पुरस्' है । (१७) निषेध अर्थ में 'न नो नहो' हैं । (१८) खेद
 अर्थ में 'हा' है । (१९) विस्मय में 'अहो' के प्रयोग होते हैं ।
 (२०) सह के अर्थ में 'सत्रा, साक, सम, सार्धम्' हैं । (२१)
 भर्त्सन में 'धिक्' है ।

सम्बोधनेऽङ्ग हे है भोः किलं सम्भाव्य वार्तयोः ॥१३॥
 उतौहो किमुताऽऽहोच तु विकल्पे नुं निश्चये ।
 नीचाह्वाने त्वरेरे च त्वराच सम्भ्रमः समौ ॥१४॥
 प्रसह्य तु हठार्थे स्या त्प्रतिक्षण मनुक्षणम् ।
 वर्जने स्तो हिर्हृक् नाना हेतौ यत्तद् यतस्ततः ॥१५॥
 सुंदि शुक्ले दले कृष्णे वंदि संव्वे^२तु वत्सरे ।
 अह्नीत्यर्थे दिवां नक्तं^३ दोषा च रजनाविति ॥१६॥
 स्वैयं स्यादात्मनेत्यर्थे तत्त्वेऽद्धां^४ऽर्वाक् तथाऽवरे ।
 निश्चये पादपूर्तौ च तुं^५हि च स्म ह वै इति ॥१७॥

(१) अन्य पक्ष के बोधक 'यदि, चेत्' हैं । (२) आज से अव्यवहित पूर्व दिन को 'ह्यस्, पूर्वेषुस्' कहते हैं । (३) किसी समय अर्थ में 'एकदा, युगपत्, सद्यस् सपदि' है । (४) यहा पर अर्थ मे 'अत्र, इह' है । (५) उस समय का बोधक 'तदानीं, तदा' है । (६) परभव अर्थ में 'अमुत्र' है । (७) अल्प अर्थ में 'किञ्चित्, ईषत्, मनाक्' है । (८) व्यर्थ (विना प्रयोजन के) अर्थ मे 'मुधा-वृथा' हैं । (९) चिर (बहुत देर तक) अर्थ मे सात शब्द है— 'चिरम् १, चिररात्राय २, चिरस्य ३, चिराय ४, चिरात् ५, चिरे ६, चिरेण ७, । (१०) किसी समय अर्थ मे 'कदाचित्, जातु' है । (११) अचानक (अतर्कित) अर्थ में 'सहसा है । (१२) विना अर्थ मे और मध्य अर्थ में—'अन्तरेण, अन्तरे, अन्तरा' है । (१३) ति-रछा अर्थ मे 'तिर्यक्, तिरस्, साचि' हैं । (१४) आनन्द अर्थ में 'दिष्ट्या' है । (१५) सत्कार सम्मान अर्थ में 'सु, अति' हैं ।

साम्ये यथा तथा वे वाऽतिशयेऽतीव सुष्ठु च ।
 झटित्यैहाय मङ्क्षुद्रा गञ्जसा सपदि द्रुते ॥१८॥
 हविर्दाने स्वैथा स्वाहाऽसाकल्पे चित् चनेत्युभे ।
 तूर्ण्णीं च तूर्णिका मौनेऽव्ययं नूनं च निश्चिते ॥१९॥
 आम् एव निश्चये प्रातः प्रभातार्थे प्रगेऽपि च ।
 तके वितर्के हुं प्रश्ने ऊं ननु द्वे प्रयोजिते ॥२०॥

(१) सम्बोधन में— 'अङ्ग, हे, है, भोस् (पाट, प्याट्) है ।
 (२) वार्ता संभाव्य (अनुनय, अरुचि) में 'किल' है । (३) विकल्प
 में 'उताहो, आहो, आहोस्वित् (किं किमूत) है । (४) निश्चय में
 'नु' है । (५) नीच सम्बोधन में 'अरे, रे' हैं । (६) आवेग अर्थ में
 'त्वरा, सभ्रमस्' हैं । (७) हलात् (बलजोरी जवर्दस्ती) अर्थ में
 'प्रसह्य, प्रतिक्षणम्, अनुक्षणम्' है । (८) वर्जन (निषेध) अर्थ में
 'हिरुक, नाना' है । (९) हेतु अर्थ में 'यत्, तत्, यतस्, ततस्'
 हैं । (१०) शुक पक्ष अर्थ में 'सुदि' है । (११) कृष्ण पक्ष अर्थ में
 'वदि' है । (१२) वत्सर (साल) अर्थ में 'सवत्' है । (१३) अहि
 (दिवम) अर्थ में 'दिवा' है । (१४) रात्रि अर्थ में 'नक्तं, दोषा'
 है । (१५) अपने अपने क्रिया अर्थ में 'स्वयम्' है । (१६) नूतन
 काल में 'अद्वा, अर्वाक्, अवर' है । (१७) निश्चय अर्थ में 'तु,
 हि, च, स्म, ह, वै' हैं ।

(१) साम्य अर्थ में 'यथा, तथा, व, वा, इव' है । (२)
 अतिशय अर्थ में 'अतीव, सुष्ठु' है । (३) झटगट (द्रुन) अर्थ में
 'झटिति, अहाय, मङ्क्षु, द्राक्, अञ्जसा, सपदि' है । (४) हविर्दान

एषमौऽस्मिन् परेत पूर्वे परोर्यब्दे ततोऽपि च ।

पूर्वोत्तराऽपराऽन्याऽन्य-तरादितरतोऽधरात् ॥२१॥

पूर्वाद्यहःसु पूर्वेषु रादयः स्युः क्रमादिमे ।

रुद्रकोशे तु पूर्वेषुः प्रातर्वा पूर्ववासरे ॥२२॥

परेद्यवि परेऽह्निस्या दुभयेद्युर्दिनद्वये ।

वितथेस्तोमृषा मिथ्या सत्त्वेऽस्ति नमने नमः ॥२३॥

अर्थ में 'स्वधा, स्वाहा' है । (५) असाकल्प अर्थ में 'चित्, चन' हैं । (६) मौन अर्थ में 'तूष्णीं, तूष्णीकाम्' हैं । (७) निश्चित अर्थ में 'अवश्यं, नूनम्' है । (८) निश्चय अर्थ में— 'आम्, एवम्' हैं । (९) प्रभात अर्थ में 'प्रातः, प्रगे' हैं । (१०) तर्क वितर्क अर्थ में 'हुं' है । (११) प्रश्रवाचक अर्थ में 'ऊ, ननु' है । (१२) इस वर्ष (चालु सोल संवत्) अर्थ में 'ऐषमस्' है । (१३) वीते हुए (इस वर्ष से अव्यवहित पूर्व) वर्ष अर्थ में 'परत्' का प्रयोग होता है । (१४) परत् से पूर्व वर्ष को 'परारि' कहते हैं । (१५) पूर्व १, उत्तर २, अपर ३, अन्य ४, अन्यतर ५, इतर ६, अधर ७ इन सात शब्दों से 'पूर्वे, अहनि' इत्यादि अर्थों में—

'पूर्वेषु, उत्तरेषु, अपरेषु, अन्येषु, अन्यतरेषु, इतरेषु, अधरेषु' निपातन से बनते हैं । (१) रुद्रकोष में 'पूर्वेषु' का प्रयोग 'प्रात' अथवा 'पूर्वदिवस' अर्थ में माना गया है । (२) पर दिवस अर्थ में 'परेद्यवि' होता है । (३) जहा दोनों दिनों में ऐसा अर्थ हो, वहा 'उभयेषु (उभयषु)' होते हैं । (४) व्यर्थ (फिजूल)

सर्वतः परितो विष्वक् समन्ता दभितस्तथा ।

अव्ययवर्ग समाप्त ॥१०॥

अर्थ में 'मृषा, मिथ्या' है । (५) वर्तमान अर्थ में 'अस्ति' है ।
(६) प्रणाम अर्थ में 'नमः' है । (७) सर्वत अर्थ में 'सर्वतस्, परितस्, विष्वक्, समन्तात्, अभितस्' ये पाच शब्द हैं ।

॥ अव्ययवर्ग समाप्त ॥

॥ इति प्रथम काण्ड समाप्त ॥

—०—०—

॥ श्री ॥

॥ अथ द्वितीयकाण्डम् ॥

—०—

॥ अथ लोकवर्गः प्रारभ्यते ॥

लोकैऽयं जगती स्त्री स्याद् जगद् भुवनविष्टपम् ।

भरतैरवतानि स्युर्विदेहाः कर्म भूमयः ॥१॥

अन्ये हैमवताद्याः स्युस्त्रिगच्चाऽकर्मभूमयः ।

और्यावर्तो जन्मभूमिः सतीर्थङ्कर चक्रिणाम् ॥२॥

आचारवेदिः पूण्याभू दक्षिणार्धस्य मध्यमः ।

(१) लोक के पाच नाम— लोक १ पुं०, जगती २ स्त्री०, जगत् ३ भुवन ४ विष्टप ५ नपु० । (२) पाच भरत वर्ष, पाच ऐरवत वर्ष, पाच महाविदेह हैं । ये पन्द्रह क्षेत्र कर्मभूमि हैं । पाच हैमवत, पाच हैरण्यवत, पाच हरित्रप, पाच रम्यक वर्ष, पाच देव-कुरु, पाच उत्तरकुरु ये तीस अकर्मभूमि हैं, ये जुगलिक क्षेत्र ये

भूमि वसुमती क्षोणी रत्नगर्भा वसुन्धरा ॥३॥

जगती वसुधा गोत्राऽचलाऽनन्ता रसा च भूः ।

विश्वम्भरा च पृथिवी स्थिरा कुः सागरांबरा ॥४॥

महीधात्री च पृथ्वी च धरित्रो धरणी क्षमा ।

धरा क्षोणिः क्षितिक्षमा गौरिला सर्वसहाऽवनिः ॥५॥

मृत्तिकामृत् प्रशस्ता चेत् मृत्सा मृत्सना च सामता ।

ऊर्षः स्यात्क्षारमृत् सर्वं सस्याढ्या योर्वरा च सा ॥६॥

स्थलं स्थलाऽकृत्तिमा तु स्थली चोषैरमूषवत् ।

जो पाच पाच क्षेत्र है वे जम्बूद्वीप में एक एक और धातकीखण्ड द्वीप तथा पुष्करद्वीपार्ध में दो दो क्षेत्र होते है । [३] तीर्थङ्कर २४, चक्रवर्ती १२, वासुदेव ९, बलदेव ९, प्रतिवासुदेव ९, इन तिरसठ [६३] शलाका पुरुषों की जन्मभूमि के तीन नाम— आर्यावर्त १ पु०, पुण्यमू २, आचारवेदी ३ स्त्री०, यह दक्षिण भरतार्ध का मध्यखण्ड वैताड्य से दक्षिण लवणोदधि से उत्तर, गङ्गा से पश्चिम, सिंधु से पूर्व में है ।

हिन्दी-(१) भूमि के एकतीम नाम—भूमि १, वसुमति २, क्षोणी ३, रत्नगर्भा ४, वसुन्धरा ५, जगती ६, वसुधा ७, गोत्रा ८, अचला ९, अनन्ता १०, रसा ११, मू १२, विश्वम्भरा १३, पृथिवी १४, स्थिरा १५, कु १६, सागराम्बरा १७, मही १८, धात्री १९, पृथिवी २०, धरित्रो २१, धरणी २२, क्षमा २३, धरा २४, क्षोणि २५, क्षिति २६, क्षमा २७, गो २८, इला

निर्जले मेरुधन्वानौ खिलैमप्रहतं त्रिषु ॥७॥

निर्वृञ्जनपदौ देशे विषयौ तूपवर्तनम् ।

शाद्वलः स्यादहरिते सर्पैङ्ग पङ्किलः स्थले ॥८॥

सँवेतसे तु वेतस्वान् कुर्मुद्वान् कुमुदैर्युते ।

नद्वत्वास्तु नद्वलः प्रोक्तः समौ चिकेण पिच्छला ॥९॥

स्थल नद्यम्बु वृष्ट्यम्बु जातसस्य सुरक्षितम् ।

नदीमार्तुकमेक तद् द्वितीय देवैर्मातृकम् ॥१०॥

सुराज्ञि सति राजँन्वान् देशोऽन्यत्र तु राजँवान् ।

रजोर्युक्ते सिकतिलः सैकतः शार्करोऽपि च ॥११॥

२९, सर्वसहा ३०, अवनि ३१ स्त्री० । [२] मिट्टी के दो नाम-मृत्तिका १, मृत् २ स्त्री० । [३] प्रशस्त मिट्टी के दो नाम-मृत्सा १, मृत्सना २ स्त्री० । [४] खारी मिट्टी का एक नाम-ऊष १ पु० । [५] उपजाऊ भूमि का एक नाम-उर्वरा स्त्री० । [६] स्थल शब्द के खोलिङ्ग में दो भेद हैं कृत्रिमा में 'स्थला' और अकृत्रिमा में 'स्थली' इन भेदों से अन्यत्र नपुसकलिङ्ग । [७] ऊष युक्त स्थल के दो नाम-ऊषर १ ऊषवत् २ त्रिलिङ्ग ।

हिन्दी-[१] मागवाड के दो नाम-मरु १, धन्वा [धन्वन्] २ पु० । [२] नहीं जोते गये भूमि के दो नाम-खिल १, अप्रहत २ त्रिलिङ्ग । [३] जननिवास स्थल के दो नाम-नीवृत् १, जनपद २ पु० । [४] ग्रामसमुदायरूप स्थानमात्र के तीन नाम-देश १, विषय २ पु०, उपवर्तन ३ नपु । [५] नूतनहरितघाससे शोभित देश के दो नाम-शाद्वल [शाद्वल] १, सादह

गोष्ठे स्याद्गोत्रजस्थान गोष्ठीनं भूतपूर्वकम् ।

कच्छैः पुमान् जलप्राय प्रदेशेऽनूपमित्यपि ॥१२॥

पुमान् परिसरः प्रान्ते पर्यन्तो जलबन्धने ।

सेतुः पुमान् स्त्रियामालि वर्ल्मीके पु नपु सकम् ॥१३॥

वामलूरश्च नाकुश्च वर्त्मत्वयनमेकपात् ।

वर्तनी पद्धतिः पद्या पदवी सरणिः सृतिः ॥१४॥

पुंसि मार्गाऽध्व पन्थानः सत्पथस्त्वर्चितोऽध्वनिः ।

सुपन्था अतिपन्थाश्च कार्पथे विपथोऽपथः ॥१५॥

अपन्थाश्च कदध्वाच दुरध्व व्यध्व कत्पथाः ।

रित २पु० । [६] पङ्कयुक्त प्रदेश के दो नाम—सपङ्क १, पङ्किल

२पु० । [७] क्षेत्र प्रदेश के दो नाम—सवेतस १, वेतस्वान् २ नपु० ।

[८] कुमुदवाले प्रदेश का एक नाम—कुमुद्वान् १ पु० । [९] नलतृण

युक्त प्रदेश के दो नाम— नड्वान् १, नड्वल २ पु० । [१०]

फिसलने वाला स्थल के दो नाम—चिक्कण १, पिच्छिल २ पु० ।

[११] नदी जल से सस्यशाली स्थल का एक नाम—नदीमातृक

१ त्रिलिङ्ग । [१२] वृष्टि जल से सस्यशाली स्थल का एक

नाम—देवमातृक १ त्रिलिङ्ग । [१३] न्यायी राजा के देश का

नाम— राजन्वान् (राजन्वन्) त्रिलिङ्ग । [१४] अन्य का राजवान्

[राजवत्] त्रिलिङ्ग । [१५] सिक्का युक्त धुलिवाले प्रदेश के चार

नाम—रजोयुक्त १, सिकतिल २, सैकत ३, शार्कर ४, पु० ।

हिन्दी (१) गोनिवास स्थान के दो नाम—गोष्ठ १, गोत्रज स्थान

२ नपु० । [२] जहा भूतकाल मे गाएं रहती थी उस प्रदेश का

शृङ्गाटक पथायोगे चतुर्णां स्याच्चतुष्पथः ॥१६॥

घण्टामार्गो राजमार्गो क्लीवं संसरणं विदुः ।

दुर्गे मार्गे तु कान्तारं प्रान्तरं शून्यवर्त्मनि ॥१६॥

एक नाम— गोष्ठीन १ नपु० । [३] जलासन्न प्रदेश के दोनाम-
कच्छ १ पु०, अनूप २ नपु० [नानार्थ] । [४] पर्वत प्रासाद
आदि के समोपवर्ती प्रदेशके दो नाम—परिसर १, पर्यन्त २ पु० ।
(५) नदी के ऊपर पूल (बाध) के दो नाम—सेतु १ पु०, आलि २
स्त्री० । (६) बल्मीका (उढइ) के तीन नाम—बल्मीक १ पु०, नपु०
वामछर २ नाकु २ पु० । (७) मार्ग के बारह नाम—वर्त्म(वर्त्मन्)
१, अयन २ नपु०, एकपात् (एकपदी) ३, वर्तनी ४, पद्धति ५,
पद्या' ६, पदत्रो ७, सरणि ८, सृति ९ स्त्री० । मार्ग १०, अच्वा
(अच्वन्) ११, पन्था (पथिन्) १२ पु० । (८) सुन्दर मार्ग के
तीन नाम—सत्पथ १ सुपन्था (सुपथिन्) २, अतिपन्था (अतिपथिन्)
३ पु० । (९) अयोग्य मार्ग के आठ नाम—कापथ १, नपु०,
विपथ २, अपथ ३, अपन्था अपथिन् ४, कदच्वा कदच्वन् ५,
दुरध्व ६, व्यच्च ७, कल्पथ ८ पु० ।

हिन्दी—(१) चार मार्ग जहा मिलते हैं उसके दो नाम—
शृङ्गाटक १ नपु, चतुष्पथ २ पु० । (२) राजमार्ग के तीन नाम—
घण्टामार्ग १ राजमार्ग २ नपु० । संसरण ३ नपु० । (३) विपम
मार्ग के दो नाम—दुर्गमार्ग १ पु०, कान्तार २ नपु० । (४) छाया
आदि विश्राम कारण शून्य मार्ग के दो नाम—प्रान्तर १, शून्य-
वर्त्म (शून्यव र्मन्) २ नपु० । (५) दो हजार वनुष मानवाले

द्राभ्यां धनु सहस्राभ्यां गंव्यूत क्रोश उच्यते ।
 क्रोशद्वय स्त्री गंव्यूति नल्वो हस्त चतुःशती ॥१८॥
 भूर्धावौ रोदसी पुर्या अध्वास्यादुपनिष्करम् ।

॥ इति लोकवर्ग समाप्त ॥

॥०॥ अथ नगरवर्गः प्रारभ्यते ॥०॥

नगरं नगरी पूः स्त्री पुरी वा पत्तन पुरम् ।
 वणिजां सति वासेतु निगमः पुटभेदनम् ॥१॥
 सर्ववस्तूपलब्धौ तद् भेदे ग्रामस्ततस्ततः ।
 वसन्तेर्वास भेदा स्युः खेट कर्वटकादयः ॥२॥

मार्ग के दो नाम—गंव्यूत १ नपु०, क्रोश २ पु० । (६) दो क्रोश की 'गंव्यूति' सज्ञा है स्त्रीलिङ्ग और 'गंव्यूत' भी । (७) चार सौ हाथ के मान को 'नल्व' कहते हैं पु० । (८) पृथिवी सहित आकाश के दो नाम—धावाभूमी १ स्त्रीलिङ्ग द्विवचन, रोदसी २ नपुं० द्विवचनान्त । नगर मार्ग का नाम—उपनिष्कर नपुं० (पुरीमार्ग पु०) ।

॥ लोकवर्ग समाप्त ॥

हिन्दी—(१) नगर के छ नाम—नगर १ नपु०, नगरी २, पु ३ पुरी ४ स्त्री०, पत्तन ५, पुर ६ नपुं० (२) व्यापारी निवासस्थान का एक नाम—निगम १ पु० । (३) जहा सब वस्तु मिले उसका एक नाम—पुटभेदन (पत्तन) १ नपु० । (४) कण्टकादि बाड़वेष्टित जननिवास का एक नाम—ग्राम १ पु० (५) वसति भेद में—खेट (धूँडि प्राकारयुक्त नगर) कर्वट (कुत्सितनगर) मडंब

लघुग्रामिका ग्रामा वैशो वेद्यालयस्थलम् ।

द्विकानमापणो हट्टो विपणिः पण्यवीथिका ॥३॥

प्रतोली^{१०} विशिखा रथ्या वैप्रः स्यान्मृच्चयोऽस्त्रियाम् ।

कृत्रिमेवेष्टने सालः प्राकारो वरणस्तथा ॥४॥

प्राचीरं चैव प्राचीनं प्रान्ततो वृत्तिरिष्यते ।

कुडचेभितिः स्त्रियामन्त-न्यस्तास्थन्येडूक मुच्यते ॥५॥

(अढाई २ कोश तक ग्रामान्तर रहीत) द्रोणमुख (जलस्थल मार्ग स्थल) आश्रम (तापसादि निवास) सबाह (कृषिवल द्वारा निर्मित धान्य रक्षा स्थल दुर्ग आदि) सनिवेश (सार्थवाहादि निवास स्थल) आदि है नपुं० । (६) छोटे ग्राम को—‘ग्रामठिका’ कहते हैं स्त्री० (७) वेद्यालय का एक नाम—‘वेश’ पु० । (८) दुकानो के तीन नाम—द्विकान १ नपुं०, आपण २ हट्ट ३ पु० । (९) दुकान पडूकियो के दो नाम—विपणि (विपणी) १, पण्यवीथिका २ स्त्री० । (१०) ग्राम वाले मध्यमार्ग के तीन नाम—प्रतोली १ विशिखा २ रथ्या ३ स्त्री० । (११) परिखा आदि के मिट्टी ढेर का एक नाम—वप्र १ अस्त्री० ।

हिन्दी—(१) कृत्रिम बिरावे (कोट) के तीन नाम—साल १, प्राकार २, वरण ३ पु० । (२) ग्रामादि के अन्त में कण्टक आदि वेष्टन (बाड) के तीन नाम—प्राचीर १, प्राचीन २ नपु०, वृत्ति ३ स्त्री० । (३) भित्ति के दो नाम—कुडच १ नपु०, भित्ति २ स्त्री० । (४) अस्थि आदि से निर्मितभित्ति को ‘एडूक’ कहते हैं नपु० । (५) गृह के तेरह नाम—गृह १, वेश्म २ (वेश्मन्), भवन

गृहं स्याद् वेश्म भवन गेह सन्न च सादनम् ।
 निकेतनमगारं चाऽऽगारं च सदनं तथा ॥६॥
 गृहाः पुंस्यपि भूमन्येव निकाय्यो निलयाऽऽलयौ ।
 कुटीगो यतिनां गेहं पर्णशालो-ऽजः कुटी ॥७॥
 हर्म्यं तु धनिनां वेश्म प्रासादो देवभूमताम् ।
 स्वस्तिकादीनि चिह्नानि गृहेष्ठीश्वरवेश्मनाम् ॥८॥
 अष्टिं सूतिका गेहं मण्डपैस्तु जनाश्रयः ।
 वस्त्रनिर्मित गेहं यद् उपकार्योपकारिका ॥९॥
 क्षत्रियाणां स्त्रियावेश्म शुद्धान्तोऽन्तः पुरं तथा ।

३, गेह ४, सन्न (सन्नन्) ५, सादन ६, निकेतन ७, अगार ८, आगार ९, सदन १० नपुं० (गृह का बहुवचन नित्य पुल्लिङ्ग रहता है), निकाय्य ११, निलय १२, आलय १३ पु० । (६) तापसो के निवास स्थान के चार नाम—कुटीर १, उटज २ पु० । पर्णशाला ३, कुटी (कुटि) ४ स्त्री० । (७) धनवानों के घर का एक नाम—हर्म्य १ नपुं० । (८) राजमहल को—‘प्रासाद’ कहते हैं ।

हिन्दी—(१) प्रासादभेद में ऐश्वर्यशालियों के भवन विशेष की—स्वस्तिक, सर्वतोभद्र, नन्धावर्त, विच्छन्दक, रुचक, वर्धमान सजाए होती है पु० । (२) सूतिका गृह के दो नाम—आरिष्टे १, सूतिकागृह २ नपु० । (३) मण्डप के दो नाम—मण्डप १ जनाश्रय २ पु० । (४) वस्त्रगृह करपट्टिका (रौटी) को—‘उपकार्या १, उपकारिका’ २ कहते हैं स्त्री० । (५) अन्त पुर गृह के दो नाम—शुद्धान्त १ पु०, अन्त पुर २ नपु० । (६) ऊपर महल

लघुग्रामिका ग्रामा वेशी वेश्यालयस्थलम् ।

द्विकानमापणो हट्टो विपणिः पण्यवीथिका ॥३॥

प्रतोली^{१०} विशिखा रथ्या वप्रः स्यान्मृच्चयोऽस्त्रियाम् ।

कृत्रिमेवेष्टने सालः प्राकारो वरणस्तथा ॥४॥

प्राचीरं चैव प्राचीन प्रान्ततो वृत्तिरिष्यते ।

कुड्येभितिः स्त्रियामन्त-न्यस्तास्थन्येडूक मुच्यते ॥५॥

(अढाई २ कोश तक ग्रामान्तर रहीत) द्रोणमुख (जलस्थल मार्ग स्थल) आश्रम (तापसादि निवास) सवाह (कृषिवल द्वारा निर्मित धान्य रक्षा स्थल दुर्ग आदि) सनिवेश (सार्थवाहादि निवास स्थल) आदि है नपुं० । (६) छोटे ग्राम को—'ग्रामठिका' कहते हैं स्त्री० (७) वेश्यालय का एक नाम—'वेश' पु० । (८) दुकानों के तीन नाम—द्विकान १ नपुं०, आपण २ हट्ट ३ पु० । (९) दुकान पङ्क्तियों के दो नाम—विपणि (विपणी) १, पण्यवीथिका २ स्त्री० । (१०) ग्राम वाले मध्यमार्ग के तीन नाम—प्रतोली १ विशिखा २ रथ्या ३ स्त्री० । (११) परिखा आदि के मिट्टी ढेर का एक नाम—वप्र १ अस्त्री० ।

हिन्दी—(१) कृत्रिम बिरावे (कोट) के तीन नाम—साल १, प्राकार २, वरण ३ पु० । (२) ग्रामादि के अन्त में कण्टक आदि वेष्टन (बाड) के तीन नाम—प्राचीर १, प्राचीन २ नपुं०, वृत्ति ३ स्त्री० । (३) भित्ति के दो नाम—कुड्य १ नपुं०, भित्ति २ स्त्री० । (४) अस्थि आदि से निर्मितभित्ति को 'एडूक' कहते हैं नपुं० । (५) गृह के तेरह नाम—गृह १, वेश्म २ (वेश्मन्), भवन

गृहं स्याद् वेश्म भवन गेह सन्न च सादनम् ।
 निकेतनमगारं चाऽऽगारं च सदनं तथा ॥६॥
 गृहाः पुंस्यपि भूमन्येव निकाय्यो निलयाऽऽलयौ ।
 कुटीगो यतिनां गेहं पर्णशालो-उजः कुटी ॥७॥
 हर्म्यं तु धनिनां वेश्म प्रासादो देवभूमताम् ।
 स्वस्तिकादीनि चिह्नानि गृहेष्त्रीश्वरवेश्मनाम् ॥८॥
 अिष्टं सूतिका गेहं मण्डपैस्तु जनाश्रयः ।
 वस्त्रनिर्मित गेहं यद् उपकार्योपकारिका ॥९॥
 क्षत्रियाणां स्त्रियावेश्म शुद्धान्तोऽन्तः पुरं तथा ।

३, गेह ४, सन्न (सन्नन्) ५, सादन ६, निकेतन ७, अगार ८,
 आगार ९, सदन १० नपुं० (गृह का बहुवचन नित्य पुल्लिङ्ग
 रहता है), निकाय्य ११, निलय १२, आलय १३ पु० । (६)
 तापसो के निवास स्थान के चार नाम—कुटीर १, उटज २ पु० ।
 पर्णशाला ३, कुटी (कुटि) ४ स्त्री० । (७) धनवानों के घर का
 एक नाम—हर्म्य १ नपुं० । (८) राजमहल को—‘प्रासाद’ कहते हैं ।

हिन्दी—(१) प्रासादभेद में ऐश्वर्यशालियों के भवन
 विशेष की—स्वस्तिक, सर्वतोभद्र, नन्धावर्त, विच्छन्दक, रुचक,
 वर्धमान सजाएँ होती हैं पु० । (२) सूतिका गृह के दो नाम—
 अरिष्टे १, सूतिकागृह २ नपु० । (३) मण्डप के दो नाम—मण्डप
 १ जनाश्रय २ पु० । (४) वस्त्रगृह करपट्टिका (रौटी) को—‘उप-
 कार्या १, उपकारिका’ २ कहते हैं स्त्री० । (५) अन्त पुर गृह के
 दो नाम—शुद्धान्त १ पु०, अन्त पुर २ नपु० । (६) ऊपर महल

वलभी चन्द्रशाले द्वे तस्यैवोद्धे तु वेश्म यत् ॥१०॥
 प्रपा पानीयशालायां गञ्जार्थन्मदिरागृहम् ।
 ग्रामे गेहे च गोपस्य घोषः पल्लिरितिद्वयम् ॥११॥
 धर्मशालं धर्मशाला शालान्तो न कचित्पुमान् ।
 मन्दुरावाजिनः शालाऽऽवेशंन शिल्पिवेश्मनि ॥१२॥
 श्मशाने यज्ञशालायां चैत्यमायतन गृहे ।
 वातायनं गवाक्षोऽस्त्री क्षोममट्टः शिरोगृहम् ॥१३॥
 विष्कम्भोनाऽर्गलानान कपाट मररं त्रिषु ।
 तालं च तालिका ताला मोचनोद्धाटने समे ॥१४॥

के दो नाम—वलभी १ चन्द्रशाला २ स्त्री० । (७) प्याऊ के दो नाम—प्रपा १ पानीयशाला २ स्त्री० । (८) मदिरा (दारु) घर के दो नाम—गञ्जा १ स्त्री०, मदिरागृह २ नपुं० । (९) गोपाल के घर के और ग्राम के दो नाम—घोष १ पु० । पल्लि (पल्ली) २ स्त्री० । (१०) धर्मशाला के दो नाम—धर्मशाल १ नपुं०, धर्मशाला २ स्त्री ।

हिन्दी—(१) घोडसार (अस्तवल) के दो नाम—मन्दुरा १, वाजिशाला २ स्त्री० । (२) चित्रकारों के घर का एक नाम—आवेशन (शिल्पिशाला) १ नपुं० । (३) यज्ञशाला के दो नाम—आयतन १ चैत्य २ नपुं० । (४) खिडकी के दो नाम—वातायन १ नपुं०, गवाक्ष २ पु० । (५) ऊपर महल के दो नाम—क्षोम १, अट्ट २ पु० नपुं० । (६) सांकल (कपाट बन्द करने वाला जंजीर वा कील) के दो नाम—विष्कम्भ १ पु०, अर्गला २ स्त्री० । (७) कपाट के

च्यावी स्त्री कुंचिका कुञ्ची कुञ्जिकोद्घाटनीति च
 देहल्यै दुम्बरोऽपिस्याद् गृहावग्रहणी तु या ॥१५॥
 स्तम्भाद्धर्मधस्ताद्वा दारुनासां शिलमता ।
 गोपानसी च वलभी छादने वक्रदारुणि ॥१६॥
 विटङ्कोऽस्त्री स्त्रीकपोत पाली पारावतालये ।
 नीघ्रंवलीकं पटल प्रान्तेऽथो पटलं छदिः ॥१७॥
 प्रघाणः प्रघणोऽलिन्दो बाह्ये द्वारप्रकोष्ठके ।

दो नाम—कपाट १ अरर २ नपुं० । (८) ताला के तीन नाम—
 ताल १, तालिका २, ताला ३ स्त्री० । (९) खोलने की क्रिया
 के दो नाम—मोचन १ उद्घाटन २ नपुं० । (१०) कुञ्जी के पाच
 नाम—च्यावी १ कुंचिका २ कुची ३ कुंचिका ४ उद्घाटिनी ५
 स्त्री० । (११) देहली के तीन नाम—देहली १ गृहावग्रहणी २
 स्त्री०, उदुम्बर ३ पु० । (१२) खम्भे के ऊपर तथा नीचे रक्खी
 गइ लकड़ी का क्रमशः एक एक नाम—नासा, शिला छा० ।

हिन्दी—(१) छज्जा (जिससे मकान पाटा गया हो उस
 लकड़ीके) के दो नाम—गोपानसी १ वलभी (वलभि) २ स्त्री० ।
 (२) कबूतर खाना के तीन नाम—विटक १ अस्त्री०, कपोतपालो
 २ स्त्री०, पारावतालय (३) पु० ३ पटल के किनारे के दो नाम
 —नीघ्र १ नपु०, वलोक २ पु० नपु०, (४) गृह का आच्छादन
 (छप्पर छौनी) का दो नाम—पटल १ त्रिलिङ्ग, छदि २ पु० (५)
 द्वारेसे बाहिर द्वार चौकी के तीन नाम—प्रघाण १ प्रघण २ अलिन्द ३
 पु०, (६) बाहिर की चौकी अथवा यज्ञवेदी के दो नाम—वेदिका

वेदिस्तु वेदिका द्वारे द्वाः प्रतीहार इत्युभौ ॥१८॥
 आरोहण तु सोपान निःश्रेण्यामधिरोहिणी ।
 गोपुरं स्यात्पुरद्वारं वहि द्वारेऽस्त्रि तोरणम् १९॥
 पुरोभागे समतले ह्यङ्गने चत्वरजिरे ।
 मतो हस्तिनखः कूटेऽवतारार्थे पुराद्बहिः ॥२०॥
 वैश्वभूर्वास्तुरस्त्रीस्या बिल्लग्रामस्तु पक्वणः ।
 सकराऽवकरक्षेप्त्या समार्जन्यैवशोधनी ॥२१॥

१ वेदि (वेदी) २ स्त्री० [पण्डित अथ में वेदि पुं०] । (७)
 द्वारपाल के दो नाम— प्रतीहार १ द्वार [द्वा] २ स्त्री पु०, । (८)
 सीढी के दो नाम—आरोहन १ सोपान २ नपु० । (९) पङ्क्तिबद्ध
 सोपान के दो नाम—नि श्रेणी १ अधिरोहिणी २ स्त्री० । (१०)
 न र द्वार के दो नाम—गोपुर १, पु० द्वार २ नपु० । (११)
 गृहद्वार से बाहर चौराहे आदि स्थल पर स्वागतार्थ द्वार का
 एक नाम 'तोरण १ अस्त्री० ।

हिन्दी—[१] गृह आदि के आगे के समतल भूमि के तीन
 नाम—अङ्गन [अङ्गण] १, चत्वर २, नपु० । अजिर ३ नपु० ।
 [२] नगर के दरवाजे पर जो मृतकूट है उसमें उससे उतरने के
 लिए क्रम बद्ध मृतसोपान 'हो तो, उमका नाम 'हस्तिनख'
 नपुं० । [३] वास भूमि के दो नाम—वैश्वभू? स्त्री०, वास्तु
 २ अस्त्री० । बिल्ल ग्राम का एक नाम—'पक्वण' पु० । [५]
 डा कूकचरा के दो नाम—सकर १ अवकर २ पु० । [६]
 झाड़ू के दो नाम—समार्जनी १ शोधनी २ स्त्री० [७] ग्राम

उपकण्ठं तूपशल्ये सीमा सीमास्त्रियां द्वयम् ।

॥ इति नगर वर्ग समाप्त ॥

॥अथ मेरुवर्गः प्रारभ्यते॥

मेरुहिमालयो विन्ध्यो निषदो माल्यवानपि ।

वैताढ्यादय इत्येवं विशिष्टा भूध्रं भूधरौ ॥१॥

पर्वतः शिखरी शैलो महीध्रोऽद्रि गिरिर्नग ।

शिलोच्चयोऽचलः क्षमाभृद्भूभृच्च सानुमानिति ॥२॥

पापाणोऽश्मो पलोग्रावा प्रस्तर स्त्री शिला दृषत् ।

शृङ्गंतु शिखरं कूटोऽस्त्री प्रपातोऽतटो भृगुः ॥३॥

समीप के दो नाम—उपकण्ठ १ उपशल्य २ नपुं. । [८] सीमा

के दो नाम—सीमा [सीमन्] सीमा [डाबन्त] दोनो स्त्री० ।

॥ नगरवर्ग समाप्त ॥

हिन्दी—(१) मेरु १ हिमालय २ विन्ध्य ३ निषद ४ माल्यवान् ५ वैताढ्य ६ आदि ७ ब विशिष्ट पर्वत है, जिन में मेरु के सोलह नाम हैं—मन्दर १, मेरु २, मनोरम ३, सुदर्शन ४, स्वयंप्रभ ५, गिरिराज ६, रत्नोच्चय ७, शिलोच्चय ८, मध्यलोक ९, नाभि १०, अर्थ ११, सूर्यावर्त १२ सूर्यावरण १३ उत्तम १४, दिशादि १५ वतस १६, (ज० ४ वक्ष०) । (२) पर्वत के चौदह नाम—भूध्र १, भूधर २ पर्वत ३, शिखरी ४ शैल ५, महीध्र ६ अद्रि ७, गिरि ८, नग ९ शिलोच्चय १० अचल ११, क्षमाभृत् १२, भूभृत् १३, सानुमान् १४ । (३) पत्थर के सात नाम—पापाण १ अश्मा (अश्मन्) २, उपल ३, ग्रावा (ग्रावन्)

नितम्बे कटकोऽद्रेस्यात् प्रस्थः स्तुः सानुरस्त्रियाम् ।
 गुहाया गहरः किञ्च कन्दरः कन्दरा दरी ॥४॥
 स्थूलो पलो गण्डैशैलो यश्च्युतः पर्वताद्भूवि ।
 आकरः स्त्री खनिः खानिः पाद प्रत्यन्तपर्वते ॥५॥
 लताऽऽद्याऽऽच्छादितस्थान निकुञ्जः कुञ्जइत्युभौ ।
 अधित्यकोर्ध्वभूरद्रे रासन्नाभूरुपत्यका ॥६॥
 शरोत्स निर्शरावारि प्रवाहो गैरिकौदय ।

४ प्रस्तर ५ पु०, शिला ६, (दृषत्) दृषद् ७, स्त्री० । (४) पर्वत
 शिखर के तीन नाम— शृङ्ग १ शिखर २, कूट ३, अस्त्री० । (५)
 उच्चस्थान से पतन के तीन नाम—प्रपात १, अतर २, भृगु ३
 अस्त्री० । (६) पर्वत के मध्य भाग अन्तिम भाग कटि प्रदेश के दो
 नाम—नितम्ब १ कटक २ अस्त्री० । (७) पर्वत समभूभाग के तीन
 नाम—प्रस्थ १ स्तु २ सानु ३ अस्त्री० ।

हिन्दी—(१) गुफा के पाच नाम—गुहा १ स्त्री०, गहर २,
 अस्त्री० । कन्दर ३, पु०, कन्दरा ४ दग ५, स्त्री० । (२) पर्वत से
 टूटकर पृथ्वी पर पड़े हुए पर्वतखण्ड का एक नाम—गण्डशैल १
 पु० । (३) आकर खान के तीन नाम—आकर १ पु०, खनि २
 खानि ३ स्त्री० । (४) प्रधान पर्वत से सटे हुए पर्वत माला का एक
 नाम—पाद १ पु० । (५) वृक्ष लतादि वेष्टित स्थल के दो नाम—
 निकुञ्ज १, कुञ्ज २ पु० । (६) पर्वत के उपरी प्रदेश का नाम—
 अधित्यका' हैं स्त्री० । (७) पर्वत के नीची समतल भूमि का एक
 नाम—उपत्यका' है स्त्री० । (८) शरना के चार नाम—शर १,

घातवो गिरिसम्भूताः सन्तितेऽन्यत्र विस्तराः ॥७॥

॥ इति मेरुवर्ग समाप्त ॥

॥ अथ वनस्पतिवर्गः प्रारभ्यते ॥

अपुष्पैः फलवान् य स वानस्पैत्यो वनस्पतिः ।

फलैस्तु फलवाञ्चेत्स पलाशी पादपस्तरुः ॥१॥

सालो महीरुह शाखी विटपी च कुटोऽगमः ।

द्रुद्रुमोऽनोकहो वृक्षः शिखरी पुष्पदो नगः ॥२॥

अवकेश्य फलो बन्ध्यः फलिनः फलवान्फली ।

फलेग्रहिः स्वकाले योऽबन्ध्यः पाकान्तर्तोषधिः ॥३॥

उत्तर २, निर्झर ३ वारिप्रवाह ४ पु०। ९ गैरिक आदि धातु हैं ।

मेरुवर्ग समाप्त

हिन्दी—(१) बिना पुष्प ही फलने वाले का दो नाम—
वानस्पति १ वनस्पति २ पु० । (२) वृक्ष के तेरह नाम—पलाशी
(पलाशिन) १, पादप २, तरु ३, साल ४, महीरुह (महीरुह
महीरुह) ५, शाखी (शाखिन) ६, विटपी (विटपिन) ७, कुट ८,
अगम ९, द्रु १०, द्रुम ११, अनोकह १२, वृक्ष १३ पु० ।
(३) फलने वाले वृक्ष न फले तो उनके तीन नाम—अवकेशी (अव-
केशिन) १, अफल २, बन्ध्य ३ पु० । (४) फलवान् वृक्ष के
तीन नाम—फलिन १, फलवान् (फलवत्) २, फली (फलिन) ३
पु० । (५) अपने अपने ऋतु में अवश्य फलने वाले वृक्ष का नाम
'फलेग्रहि' पु० । (६) जिसका अन्त फलों के पकने पर हो जाय
वह ओषधि (ओषधी) है त्रीहि यवादि स्त्री० । (७) स्कन्ध रहित

गुल्मः स्तम्बोऽप्रकाण्ड द्वौ स्याद् वल्लयां व्रततिर्लता ।
 प्रतानिनीलताया सा भवेद् वीरुच्च गुल्मिनी ॥४॥
 दैर्घ्ये उत्सेध आरोह उच्छ्रायश्चोच्छ्रयस्तरोः ।
 स्कन्धः प्रकाण्ड आमूलाच्छाखापर्यन्तमस्त्रियाम् ॥५॥
 वृक्षमूलं तु बुध्न स्याच्छिरोऽग्र शिखरोऽस्त्रियाम् ।
 शाखा लताद्रुमाशेस्या त्स्कन्धशाखा तु या पुरा ॥६॥
 शिफाऽवरोह शाखाया मूलेमूले शिफाजटे ।
 त्वच्यं स्त्री वल्कलो वल्कः सारो मज्जा समाबुभौ ॥७॥
 काष्ठमात्रे दारुकाष्ठ शुष्के त्वत्रेन्धनैधसी ।

तरु के दो नाम—गुल्म १, स्तम्ब २ पु० । (८) लता के तीन नाम—वल्ली १, व्रतति २ लता ३ स्त्री० । (९) शाखा प्रशाखावाली लता के तीन नाम—प्रतानिनी, वीरुत् (वीरुध्) २, गुल्मिनी ३ स्त्री० ।

हिन्दी — (१) ऊँचाई के अर्थ में पाँच नाम—दैर्घ्य १, उत्सेध २, आरोह ३, उच्छ्राय ४, उच्छ्रय ५ पु० । (२) मूल से शाखा पर्यन्त वृक्ष के दो नाम—स्कन्ध १, प्रकाण्ड २ पु० नपु० । (३) वृक्षमूल का एक नाम—बुध्न १ पु० । (४) वृक्ष शिखर के दो नाम—शिरोग्र १ शिखर २ स्त्री० । (५) वृक्षशाखा के दो नाम—शाखा १, लता २, स्त्री०, द्रुमाश ३ पु० । (६) वृक्ष के पहले डाल का एक नाम—स्कन्धशाखा १ स्त्री० । (७) वट वृक्षादि की शाखा के मूल से लटकते हुए अवयव के दो नाम—शिफा १ स्त्री०, अवरोह २ पु० । (८) मूल में जो जड़ जाल के जैसे झोने २ हो उसके दो नाम—शिफा १, जटा, २ स्त्री० । ९ वृक्ष त्वचा के तीन

पुमानेधः समित्तु स्त्री वृक्षैरन्ध्रे तु कोटरम् ॥८॥
 निष्कुहो वल्लैरिस्तस्यान्मञ्जरिर्मञ्जरी स्त्रियाम् ।
 पलाशं छदन पर्णं दलं पत्रं पुमान् छदः ॥९॥
 स्यात्पल्लवः किसलयं वृन्तः पुष्पादि वन्धनम् ।
 ततो विस्तारविटपौ कलिका कोरकः प्रमान् ॥१०॥
 आरामः कृत्रिमः अरण्यं तथैवोपवनं मतम् ।
 स्यात्पुस्याः क्रीड उद्यानं राजसाधारणं वनम् ॥११॥

नाम—त्वक् (त्वच्) १, वल्कल २, वल्क ३ पु० नपु० । (१०)
 वृक्ष के भीतरी हिस्से के दो नाम—सार १ पु०, मञ्जरी २ स्त्री० ।
 (११) काष्ठ मात्र के दो नाम—काष्ठ १, दारु २ नपु० । (१२)
 सूखी लकड़ी के पाच नाम—शुष्क १, इन्धन २, एधस् ३ नपु०,
 एध ४ पु०, समित् (समिध्) ५ स्त्री० । (१३) वृक्षरन्ध्रे के तीन
 नाम—वृक्षरन्ध्र १, कोटर २, नपु०, निष्कुह ३ पु० ।

हिन्दी— १ मञ्जरी के तीन नाम—वल्लरी (वल्लरि) १,
 मञ्जरि २, मञ्जरी ३ स्त्री० । (२) पत्र (पत्तो) के छ नाम—पलाश
 १, छदन २, पर्ण ३, दल ४, पत्र ५ नपु०, छद ६ पु० । (३)
 नूतन पत्र के दो नाम—पल्लव १, किसलय २ नपु० । (४) पुष्प
 के आधार वन्ध के दो नाम—वृन्त १, प्रसववन्धन २ नपु० । (५)
 वृक्ष के शाखादि विष्कम्भ के तीन नाम—विस्तार १ विटप २
 अस्त्री० तति ३ स्त्री० । (६) पुष्पकली के दो नाम—कलिका
 १, कोरक २ पु० । (७) कृत्रिम वन के तीन नाम—आराम १ पु०
 कृत्रिमरण्य २, उपवन ३ नपु० । (८) सर्वोपभोग्य राजवन के दो

अमात्यादे गृहाऽऽ आरामो वृक्षवाटिका ।
 अन्तः पुरोचितंयत्स्या त्प्रमंदावनमुच्यते ॥१२॥
 वनेऽटवी स्त्री विपिनाऽरण्ये गहनकानने ।
 निष्कुटस्तु गृहारामोऽरण्यानी तु महावनम् ॥१३॥
 वनानां संहतिर्वन्या नूतनोद्धिदि वाऽङ्कुरैः ।
 वीथी श्रेण्यावलिः पङ्क्ति रालि लेंखा सुराजयः ॥१४॥
 व्याक्रोशो विकचः फुल्लः स्फुटो विकसिते द्रुमे ।
 क्षुद्रशाखे क्षुपः प्रोक्तः शिङ्गौ स्थाणु ध्रुवः पुमान् ॥१५॥

नाम—आक्रीड १ पु०, उद्यान २ नपु० । (९) अमात्य आदि के उपवन के दो नाम—आराम १ पु०, वृक्षवाटिका २ स्त्री० । (१०) रानियों के विहार वन का एक नाम—प्रमदावन नपु० ।

हिन्दी—(१) वन के छ नाम—अटवी १ स्त्री०, वन २, विपिन ३, अरण्य ४, गहन ५, कानन ६ नपुं० । (२) गृह समीप वन के दो नाम—निष्कुट १, गृहाराम २ पु० । (३) महावन के दो नाम—अरण्यानी १ स्त्री०, महावन २ नपु० । (४) वन समूह का एक नाम—वन्या १ स्त्री० । (५) उद्धिद के नवोद्गम का एक नाम—अङ्कुर १ पु० । (६) क्रमबद्ध पङ्क्ति के पाच नाम—वीथी १, श्रेणी २, आवलि ३, पक्ति ४, आलि ५ स्त्री० । (७) पक्तिमें वा अपक्ति में बद्ध वृक्षादि समूह का एक नाम—राजि १ स्त्री० बहुवचन । (८) प्रफुल्लितवृक्ष के पाच नाम—व्याक्रोश १, विकच २, फुल्ल ३, स्फुट ४, विकसित ५ पु० । (९) छोटी शाखावाला शाखोट साहर वृक्ष का एक नाम—क्षुप १ पु० । (१०) शाखा

आमे शलौटुः शुष्केतु वानं सत्ये फले त्रिषु ।

विकसन्ती तु कलिकौ कुड्मलो लोऽस्त्रियाम् ॥१६॥

वृक्षादेर्वल्कलाज्जातो रसोनिर्यास इष्यते ।

प्रसून कुसुमं पुष्प सुमं सुमनसः स्त्रियः ॥१७॥

रजः परागः पुष्पाणां मकरन्दो रसः स्मृतः ।

फले स्याज्जाम्बव जम्बु वृक्षे जम्बूः स्त्रिया मता ॥१८॥

पुष्पे जातिः फले व्रीहिः विदारी पाटलः पुमान् ।

वासन्ती मालती जातिश्चम्बेली^० तूपजातिका ॥१९॥

पत्र रहित वृक्ष के तीन नाम—शङ्कु १, स्थाणु २, ध्रुव ३ पु० ।

(११) अपक्व फल को 'शलौटु' कहते हैं पु० । (१२) सुखे फल

का एक नाम—'वान' नपु० । (१३) खिले हुए कली के तीन

नाम—कलिका १ स्त्री०, कुड्मल २ पु०, मुकुल ३ पु० नपुं० ।

हिन्दी—(१) वृक्षादि त्वचा से निकाले गये रस का एक

नाम—निर्यास १ पु० । (२) पुष्प के पाच नाम—प्रसून, १, कुसुम

२, पुष्प ३, सुम ४ नपुं०, सुमनस् ५, बहुवचन स्त्री० । (३)

पुष्प के रजस् का एक नाम—पराग १ पु० । (४) पुष्प के रस

का एक नाम—मकरन्द १ पु० । (५) जम्बूफल के दो नाम—

जाम्बव १ जम्बु २ नपुं० । (६) जम्बूवृक्ष का एक नाम—

जम्बू १ स्त्री० । (७) जाति (जूही) पुष्प स्त्री०, व्रीहि पु०,

विदारी स्त्री० (८) गुलाब का एक नाम—पाटल १ पु० । (९)

मालती लतापुष्प के तीन नाम—वासन्ती १, मालती २, जाति

वार्षिकी मल्लिकाश्वेता हेमै पुष्पा तु यूथिका ।
 चन्द्रवलयतिमुक्ता च वासन्ती माधवी लता ॥२०॥
 लाक्षा पुष्पातु सेवन्ती शतपुष्पा सहा ।
 चाम्पेयैश्चम्पको हेम पुष्पको भ्रमरातिथिः ॥२१॥
 बकुलौ मुकुलो वृद्धं बकुलस्तु बुको वसुः ।
 माध्यैः कुन्दो मुकुन्दस्तु पालक्यां कुन्दकुन्दरु ॥२२॥
 पुंनागस्तिलको नीर्प कदम्बौतु हरिप्रिये ।

(जाती) ३ स्त्री० । (१०) चम्बेली के पाच नाम—चम्बेली १, उपजातिका २, वार्षिकी ३, मल्लिका ४, श्वेता ५ स्त्री० । (११) जूही के दो नाम— हेमपुष्पा १, यूथिका २ स्त्री० । (१२) कुन्द वनस्पति के पाच नाम—चन्द्रवल्ली १, अतिमुक्ता २ वासन्ती ३ माधवी ४ लता ५ स्त्री० ।

हिन्दी—(१) कटहरो चम्पा के चार नाम—लाक्षापुष्पी १ सेवन्ती २ शतपुष्पा ३ महासहा ४ स्त्री० । (२) चम्पा पुष्प के चार नाम— चाम्पेय १ चम्पकर हेमपुष्पक ३ भ्रमरातिथि ४ पु० (३) मौलसरी के दो नाम—बकुल १ मुकुल २ पु० । (४) बकुल पुष्प के तीन नाम—वृद्धबकुल १, बुक २, वसु ३ पु० । (५) कुन्द पुष्प के दो नाम—माध्य १, कुन्द २ पु० नपु० । (६) पालक शाक के तीन नाम— मुकुन्द १, कुन्द २, कुन्दरु ३ पु० । (७) पुंनाग (सन्देशरा) के दो नाम—पुनाग १, तिलक २ पु० । (८) कदम्ब के तीन नाम—नीप १, कदम्ब २, हरिप्रिया ३ पु० । (९) कर्णिकार कठचंपा के दो नाम—कर्णिकार १, परिव्याघ २

कणिकारः परिव्याधः लिङ्कुचे लकुचोडहुः ॥२३॥
 केतकी पांशुला च स्त्री केतकः क्रककच्छदः ।
 अशोकौ वञ्जुलः पुंसि स्यात्पुंनागे तुङ्गकेसरौ ॥२४॥
 झिंटी सैरीयकः सैव रक्त कुरवको मतः ।
 दासी वाणाद्वयो रार्तगलो नीला भवेद्यदि ॥२५॥
 महासहा तथाऽऽम्लानो झिण्टी भेदे बुधैःस्मृतौ ।
 पीते कुरूपटकः शोणे भवेत्कुरवकः स च ॥२६॥
 बन्धुजीवोज्वरघ्नश्च बन्धूको बन्धुजीवकः ।
 पारिजातो निम्बभेदे ओडूपुष्पे जर्पाजवा ॥२७॥

पु० । (१०) बडहर के तीन नाम--लकुच १ लकुच २ डहु ३
 पु० । (११) केतकी पुष्प के चार नाम--केतकी १ पासुला २ स्त्री०
 केतक ३, क्रककच्छद ४ पु० । (१२) अशोकवृक्ष के दो नाम--
 अशोक १ वञ्जुल २ पु० । (१३) पुनाग के तीन नाम--पुनाग
 १ तुङ्ग २ केसर ३ पु० ।

हिन्दी—१ झिंटी के सामान्य दो नाम--झिण्टी १ स्त्री०
 सैरीयक (२) पु० । २ रक्त कुरवक का एक नाम--कुरवक १ पु०
 (३) नीलकुरवक के तीन नाम--दासी १ स्त्री०, वाणा २ पु० स्त्री।
 आर्तगल ३ पु०। (४) कटमरेया (जो कि झिंटी का भेद है) के
 सामान्य दो नाम--महासहा १ स्त्री०, अम्लान २ पु०। (५) पीत
 झिण्टी के एक नाम--कुरूपटक १ पु०। (६) रक्त झिण्टी के एक
 नाम--कुरवक १ पु०। (७) दीपहरिया पुष्प के चार नाम--बन्धुजीव
 १, ज्वरघ्न २ बन्धूक ३, बन्धुजीवक ४ पु०। (८) निम्बविशेष

तुलसी पावनी वृन्दा मरुन्मैखको समौ ।
 गन्धोत्कटो दमनकोवर्षरी वनवर्षरी ॥२८॥
 अव्यथाऽतिचरा पद्मा सारदा स्थल पद्मिनी ।
 आम्रो रसालो माकन्दः सहकरोऽति सौरभः ॥२९॥
 राजाम्नाः कलभाम्नाः स्यात्कोशाम्नास्तु सुकेशक ।
 पक्वस्याऽस्य रसो घर्मशुष्क आम्रातकैः स्मृत ॥३०॥
 आम्रातके पीतन स्यात्समौ दाडिम्बदाडिमौ ।

का एक नाम--पारिजात १ पु०। (९) जपापुष्प अडहुल के दो नाम--जपा १ जवा २ खी०। १० तुलसी के तीन नाम--तुलसी १, पावनी २, वृन्दा ३ खी०। (११) मरुभा के दो नाम--मरुत् १ मरुवक २ पु०। (१२) वनतुलसी के चार नाम--गन्धोत्कट १ दमनक २ पु०, वर्षरी ३, वनवर्षरी ४ खी०।

हिन्दी--(१) स्थलकमलिनी के पाच नाम--अव्यथा १, अतिचरा २, पद्मा ३ सारदा ४, स्थलपद्मिनी ५ खी०। (२) आम के पाच नाम--आम्र १, रसाल २, माकन्द ३, सहकार ४ अतिसौरभ ५ पु०। (३) रस विना आम के दो नाम--राजाम्र १ कलभाम्र २ पु०। (४) रसवाले आम के दो नाम--कोशाम्र १ सुकेशक २ पु०। (५) पके हुए आम रस को धूप में सुखाकर जो पापड बनता है उसका एक नाम--आम्रातक १ पु०। (६) अत्राडा (अमडा) के दो नाम--आम्रातक १, पीतन २ (कपीतन) पु०। (७) दाडिम के दो नाम--दाडिम्ब १ दाडिम २ पु०। (८) केठे के तीन नाम--रम्भा १ कदली २ मोचा ३

रम्भायां कदली मोचा- नारिकेलौ जटाफल ॥३१॥
 स्त्री खैर्जूरो च खर्जूर "छोहारा तन्प्रभेदभाक् ।
 स्याद् वातादस्तुं वादामो वदामः सुफलश्च सः ॥३२॥
 नागर्ङ्गोनागरूको नारङ्गो नागरोऽपि च ।
 बीजैपूरे मातुलङ्ग कपोतो रुचकस्तथा ॥३३॥
 जम्बीरो जम्भरो जम्भो जम्भलश्चेत्यमी समाः ।
 निम्बूकं निम्बुकं क्लोत्रे निम्बुनिम्बू उभे स्त्रियाम् ॥३४॥
 चुक्रमम्लं तिन्तिडीक वृक्षाम्लं च द्वयोसमी ।
 काल स्कन्धास्तन्दुकः स्या त्किम्पाकस्तु विषद्रुमः ॥३५॥

स्त्री० ।-(१) नारियल के दो नाम—नारिकेल १ जटाफल २ पु० ।
 (१०) खजूर के दो नाम—खजूरी १ स्त्री०, खर्जूर २ पु० ।
 इसके भेद का एक नाम—छोहारा १, स्त्री० । वादाम के चार
 नाम—वाताद १ वादाम २ वदाम ३ सुफल ४ पु० ।-

हिन्दी—(१) नारगी के चार नाम—नागरङ्ग १, नागरूक २,
 नारङ्ग ३, नागर ४, पु० । (२) विजौरा के चार नाम—बीजपूर १,
 मातुलङ्ग २, कपोत ३, रुचक ४, पु० । (३) जम्बीर के चार नाम—
 जम्बीर १, जम्भिर २, जम्भ ३, जम्भल ४ पु० । (४) कागजो नीबू
 के चार नाम—निम्बूक १, निम्बुक २, नपुं०, निम्बु ३, निम्बू ४, स्त्री ।
 (५) इमली के चार नाम—चुक्र १, अम्ल २, तिन्तिडीक ३, वृक्षाम्ल
 ४ पु० नपु० । (६) तेदू के दो नाम—कालस्कन्ध १, तिन्दुक २-
 पु० । (७) विषवृक्ष के दो नाम—किम्पाक १, विषद्रुम २, पु० । (८)
 मधूक(महुड़ा) के चार नाम—मधुवार १, मधूक २, पोल ३, गुडफल -

मधुर्वारो मधुकः स्यात् पीलु गुंडपलो मतः ।
 इम आक्षोट आखोट आखरोटः पुमंसकाः ॥३६॥
 गुवाकः पूग गूवाकौ क्रमुक खपुरः क्रमुः ।
 तृणराजः तलस्तालः कपित्थं तु कपिप्रियम् ॥३७॥
 कारुकः कर्मरङ्गः स्यात् करंम्लः करमर्दनः ।
 विकंकृतो यज्ञवृक्षो ग्रन्थिलः स्वादुकण्टकः ॥३८॥
 राजादनं प्रियाळोऽपि प्रियाळः क्षीरिणीतरौ ।
 त्रियेतैकफलं सूत्वा तदनन्नासमुच्यते ॥३९॥
 सीताफलं स्यादातृप्यं लवनी स्त्री मृदूफलम् ।

४ पु० । (९) अखरोट के तीन नाम—आक्षोट१, आखोट२, आखरोट३ पु० । (१०) सुपारी(सोपारी) के छ नाम—गुवाक१, पूग२, गूवाक३, क्रमुक४, खपुर५, क्रमु ६ पु० ।

हिन्दी—(१) तालवृक्ष के तीन नाम—तृणराज१, तल२, ताल३, पु० । (२) कैथ के दो नाम—कपित्थ१, कपिप्रिय२, नपु० । (३) कमरख (जिसके फल खड़े फाँक वाले लम्बे होते हैं) के दो नाम—कारुक१, कर्मरङ्ग२ पु० । (४) करोदा के दो नाम—कराम्ल१, करमर्दन२ पु० । (५) विककत (कटेर) के चार नाम—विककत२, यज्ञवृक्ष२, ग्रन्थिल३, स्वादुकण्टक४ पु० । (६) स्त्रीरी (रायण) के चार नाम—राजादन१ पु० नपु० प्रियाळ२, पियाळ३पु०, क्षीरिणी४ स्त्री० । (७) अनानास (जिसका एक ही फल होता है और उसी फल के ऊपर दूसरा झाड़ रहता है) का एक नाम—अनन्नास२ नपु० । (८) मरीफा (आँता) के पाच नाम—सोता-

तथा रामफल प्रोक्तं स्यात्पिंस्त तु निकोचकम् ॥४०॥

तूतं स्तूदस्तिन्दूकः स्या लघुद्राक्षा तु काकली ।

स्वाद्दी मधुरसा द्राक्षा मृद्धीका गोस्तनीति च ॥४१॥

लताम्रं तुवरं तद्वद् दृढबीजं च फेरुकम् ।

वैटे जटालो न्यग्रोधो बहुपाद् दीर्घजीवनः ॥४२॥

विप्रश्चैत्यद्रुमोऽश्वत्थः पिपः कुञ्जराः ।

जैटी स्यात्पर्कटि प्लक्ष काकोदुम्बरिका तु सः ॥४३॥

उदुम्बरो वा क्षीरीवा शिरीषस्तु कपीतन ।

शिर्षपा सारिणीपीता गजभक्षा तु को ॥४४॥

फल१, आतृप्य२, मृदूफल३, रामफल४ नपुं०, लवना५ स्त्री० ।

(९) पिस्ता के दो नाम—पिस्त१, निकोचक२ नपु० । (१०) तूत के तान नाम—तूत१, तूद२, तिन्दुक३ पु० । (११) किसमिस के दो नाम—लघुद्राक्षा१, काकली२ स्त्री० ।

हिन्दी—(१) दाख के पाच नाम—स्वाद्दी१, मधुरसा२, द्राक्षा३, मृद्धीका४, गोस्तनी५ स्त्री० । (२) जाम्फल के चार नाम—लताम्र१, तुवर२, दृढबीज३, फेरुक४ नपुं० । (३) वटवृक्ष के पाच नाम—वट१, जटाल२, न्यग्रोध३, बहुपात्४, दीर्घजीवन५ पु० । (४) पीपल वृक्ष के पाच नाम—विप्र१, चैत्यद्रुम२, अश्वत्थ३, पिप्पल४, कुञ्जराशन५ पु० । (५) पीपर (पाकड़ि) वृक्ष के तीन नाम—जटि (जटिन्)१ पु०, पर्कटी२ स्त्री० प्लक्ष३ पु० । (६) उदुम्बर के तीन नाम—काकोदुम्बरिका१ स्त्री०, उदुम्बर२, क्षीरी (क्षीरिन्)३ पु० । (७) शिरीष के दो नाम—शिरीष१, कपी,

सौलोऽश्वकर्णक सर्जः तत्प्रभेदे तु सर्जकः ।
 जीवकोऽसनबन्धूक पुष्पाविन्द्रद्रुमोऽर्जुनः ॥४५॥
 खैदिरो रक्तसारः स्यात् प्लोहैशत्रौ तु रोहितः ।
 तुलयौ बबूलबबूलौ स्यादरिष्टे तु केनिल ॥४६॥
 इन्द्रस्तापसो वृक्षः पुत्रजीवस्तु गर्भदः ।
 मण्डुकपर्णी मञ्जिष्ठा स्यात्पलाशस्तु किंशुकः ॥४७॥
 स्थिरायुः पूरणीमोचा पिच्छला शाल्मलिर्द्वयोः ।

तनर पु० । (८) शाशम के तीन नाम—शिशपा १, सारिणी २, पीता
 ३ स्त्री० । (९) कुन्दुरुष्क के दो नाम—गजभक्षा (गजमेक्ष्या) १,
 सलकोर स्त्री० । (१०) साल (शालवृक्ष) के चार नाम—साल १,
 अश्वकर्णक २, सर्ज ३, सर्जक ४ पु० ।
 हिन्दी—(१) इन्द्रद्रुम के पाच नाम—जीवक १, असन २,
 बन्धूकपुष्प ३, इन्द्रद्रुम ४, अर्जुन-५, पु० (२) खैर- (कथा) वृक्ष
 के दो नाम—खादर १, रक्तसार-२-पु० । (३) रोहितक (रोहिड)
 के दो नाम—लोहशत्रु-१, रोहित २-पु० । (४) बबूल के तीन
 नाम—बकूल १, बबूल, बबूर ३-पु० । (५) गीठा के दो नाम—
 अरिष्ट १ नपु०, फेनिल २ पु० । (६) इगुद (हिगोरा) के दो
 नाम—इङ्गुद १ पु० स्त्री०, तापसवृक्ष २ पु० । (७) पितोक्षिया
 के दो नाम—पुत्रजीव १, गर्भद २-पु० । (८) मञ्जिल के दो
 नाम—माण्डुकपर्णी १, मञ्जिष्ठा २ स्त्री० । (९) पलाश (साखडा)
 के दो नाम—पलाश १, किंशुक २-पु० । (१०) शाल्मलि
 (सीमल) के पाच नाम—स्थिरायु (स्थिरायुष) १, पूरणी २,

तापिच श्र तमालः स्यात् कालस्कन्धस्तमोऽपि च ॥४८

धवैलश्च धवोगौरः कैरीर क्रकचौ समौ ।

भूतावासस्तु श गेटो-वरुणे सेतु सेतुकौ ॥४९॥

शैम्यैकाऽल्पा समीरोऽन्यः शिवा सक्तुः शिशमी ।

शमी शिम्बाफलं यस्या अग्निगर्भा- गितरुः ॥५०॥

करवीरः शतप्राशो रथद्रुस्तिनिशे त ।

शारदः-सप्तपर्णःस्याद् विशालत्वगयुक्छदः ॥५१॥

मृगनाभौ मृगमदः कस्तूरी च द्रुमेष्वपि ।

मोचा -३, पिच्छिल ४-स्त्री०, शालमलि ५ स्त्री० पु० ।-(११)

तमाल के चार-नाम-तापिच्छ १, तमाल २, कालस्कन्ध ३,

तम ४ पु० । (१२) धावडा के तीन नाम-धवल-१, धव-२

गौर ३ पु० । (१३) करील के दो नाम-करीर-१, क्रकच

२ पु० ।

हिन्दी-(१) शाखोट के दो नाम-भूतावास १, शाखोट

२ पु० । (२) वरण (पट्टासाग) के तीन नाम-वरुण (वरण)

१, सेतु २, सेतुक ३ पु० । (३) शमी (खेजड़ी) के तीन नाम

शमी १, अल्पा २ स्त्री०, समीर ३ पु० । (४) शमी के तीन नाम

शिवा १, सक्तुफला २ शमी ३ स्त्री० । (५) फली के दो नाम-

शिम्बा १, शमीर, स्त्री० । (६) खेजड़ी विशेष के दो नाम-

अग्निगर्भा १, शमी २ स्त्री० । (७) करवीर के दो नाम-करवीर

१, शतप्राश २ पु० । (८) तिनिश के दो नाम-रथद्रु १, तिनिश

२ पु० । (९) सप्तपर्ण (छतवती) के चार नाम-शारद १, सप्त-

घनसारस्तु कर्पूरश्चन्द्रः स्त्री हिमतालुका ॥५२॥

पुलिके स्यादर्कमूला सुनन्दा च विषापहा ।

कुङ्कुमं केसरे रक्त-चन्दनन्तु कुचन्दनम् ॥५३॥

श्रीखण्डे चन्दन गन्ध-सारं पाटीरमस्त्रियाम् ।

देवदारुविन्द्रदारुस्यात् क्लीवेऽगैरुक्कजोङ्गकम् ॥५४॥

धूपवृक्षश्च सरल स्तगरश्च महोरगः ।

पद्मक पद्मकाष्ठे स्यात् समौ कौशिकगुग्गुलौ ॥५५॥

पर्ण २, विशालत्वक् ३, अयुक्छद ४ पु० । (१०) (कस्तूरी के तीन नाम—मृगनाभि १, मृगमद २ पु०, कस्तूरी ३ स्त्री० कस्तूरी ओषधीवृक्ष का फल भी है जिसे लता कस्तूरी कहते हैं) । (११) कपूर के चार नाम—घनसार १, कर्पूर २, चन्द्र ३ पु०, हिम-वालुका ४ स्त्री । (१२) पुलिक (इसरगत) के चार नाम—पुलिक १, पु०, अर्कमूला २, सुनन्दा ३, विषापहा ४ स्त्री० ।

हिन्दी—(१) कुकुम के दो नाम—कुङ्कुम १ नपु०, केशर २ पु० नपु । (२) रक्तचन्दन के दो नाम—रक्तचन्दन १, कुचन्दन २ नपु । (३) श्रीखण्ड के चार नाम—श्रीखण्ड १, गन्ध-सार २, चन्दन ३, पाटीर ४ पु० नपु० । (४) देवदारु के दो नाम—देवदारु १, इन्द्रदारु २ नपु० । (५) अगर के दो नाम—अगरु (अगर) १, जोङ्गक २ नपु० । (६) धूपवृक्ष के चार नाम—धूपवृक्ष १, सरल २, तगर ३, महोरग ४ पु० । (७) पद्मकाष्ठ के दो नाम—पद्मक १, पद्मकाष्ठ २ नपु० । (८) गुग्गुल के दो नाम—कौशिक १, गुग्गुल २ पु० । (९) धूप के पाच

रालं सर्जरसो देव धूपो धूनक धूपने ।
 श्रीवासे तिलपर्णः स्यात् पालङ्के कुन्दु कुन्दुरु ॥५६॥
 जातीफलं जातिफलं लवङ्गं तु लवङ्गकम् ।
 जातीकोषा जातिपत्री स्थूलैला गर्भसम्भवा ॥५७॥
 कङ्कालकं कोषफलं केशरो नागकेशरः ।
 त्वक्पत्रम् स्यादारुसिता सूक्ष्मैश्च द्राविडिस्त्रुटिः ॥५८॥
 तेजपत्रे पत्रकं स्यात् पाकरञ्जनमित्यपि ।
 लोर्मश जटिलाऽपिस्याज्जटामांसी तपस्विनी ॥५९॥

नाम—राल १, सर्जरस, देवधूप ३ पु०, धूनक ४, धूपन ५
 नपु० । (१०) धूप विशेष के दो नाम—श्रीवास १, तिलपर्ण २,
 पु० । (११) पालङ्क शाक के तीन नाम—पालङ्क १, कुन्दु २,
 कुन्दुरु ३ पु० । (१२) जायफल के दो नाम—जातीफल
 १, जातिफल २, नपुं० । (१३) लोग के दो नाम—लवङ्ग
 (देवकुसुम) १, लवङ्गक २, नपु० ।

हिन्दी—(१) जावत्री के दो नाम—जातीकोषा १, जाति-
 पत्री २, स्त्री० । (२) बड़ी इलायची के दो नाम—स्थूलैला १,
 गर्भसम्भवा २ स्त्री० । (३) कवाव चीनी के दो नाम—कङ्कालक
 कोषफल २ नपुं० । (४) नागकेशर के दो नाम—केशर १, नाग-
 केशर २ पुं० । (५) दालचीनी के दो नाम—त्वक्पत्र १,
 नपुं०, दारुसिता २ स्त्री० । (६) छोटी इलायची के तीन नाम—
 सूक्ष्मैला १, द्राविडि २, त्रुटि ३ स्त्री० । (७) तेजपात के तीन
 नाम—तेजपत्र १, पत्रक २, पाकरञ्जन ३, नपु० । (८) जटा-

प्रियङ्गुः फलि ती गुन्द्रा गौरी^{१०} गोरोचनेऽस्त्रियाम् ।

उंशीरे नलदं व्याघ्र-नैखे व्याडायुधं स्मृतम् ॥६०॥

शैलेयैर्मश्मनो जातं कन्दं पुष्पं मधुद्रवः ।

मुस्ता नगरमुस्ता स्त्री वन्य कैवर्तमुस्तकम् ॥६१॥

शखिनी चोरपुष्पी स्यात् तस्कैरश्वोरके-पुमान् ।

कुण्ठ-तु जरणं रामं कंचुरे कल्पकः स्मृतः ॥६२॥

गन्धिनी तालपर्णीस्याद् दैत्या-गन्धकुटी मुरा ।

मासी के पाच नाम—लोमशा १, जटिला २, जटा-३, मासी ४, तपस्विनी ५ स्त्री० । (९) प्रियंगु के तीन नाम—प्रियंगु १, फलिनी २, गुन्द्रा ३ स्त्री० । (१०) गोरोचन के दो नाम—गौरी १, गोरोचना २-स्त्री० । (११) खसखस की जड़ के दो नाम—उशीर १-पु० नपुं० । नलद २ नपु० । (१२) व्याघ्रनख (सुगन्धित) विशेष के दो नाम—व्याघ्रनख १, व्याडायुध २ नपु । (१३) शिलाजीत के चार नाम—शैलेय नपु०, अश्मकन्द-२, अश्मपुष्प ३ पु० नपुं०, मधुद्रव ४ पुं० ।

हिन्दी—(१)- नागरमोथा के पाच नाम—मुस्ता १, नगरमुस्ता २ स्त्री०, वन्य ३, कैवर्त ४, मुस्तक ५ नपु० । (२) शखपुष्पी के दो नाम—शखिनी १, चोरपुष्पी २ स्त्री० । (३) चौर पुष्पौषधि के दो नाम—तस्कर १, चोरकर २ पु० । (४) कूठ पुष्प के तीन नाम—कुष्ठ १, जरण २, राम ३ नपु० । (५) कंचूर के दो नाम—(पीले रंग के द्रवविशेष) कंचूर १, कल्पकर २ पु० । (६) मुरा औषधि के पाच नाम—गन्धिनी १, तालपर्णी २, दैत्या ३, गन्धकुटी ४, मुरा ५ स्त्री० ।

उक्त खसफलक्षीर माफूक महिफेनकम् ॥६३॥
 उच्यन्ते खसखीजानि ते खाखसतिला अपि ।
 एला वालुकमैरेयं स्पृक्का देवी लघुर्लता ॥६४॥
 शौण्डी कृष्णोपकुल्याच मागधी पिप्पली कणा ।
 नली नटी कपोताङ्घ्रिः पुदिनो वान्तिहारकः ॥६५॥
 हरीतक्य भयापथ्या कायस्था श्रेयसी शिवा ।
 विभीतकः कलिद्रुर्ना भूतावासो बहेडुक ॥६६॥
 द्वयो रामलंको घात्री स्त्रिया तिक्त फलाऽमृता ।

(७) अफोम के तीन नाम—खसफलक्षार१, माफूकर२, अहिफेनक३ नपु० । (८) खसखस के दो नाम—खसबोज१ नपु० खाखसतिल२ पु० । (९) वालुका गन्धद्रव्य के तीन नाम—एला१ स्त्री०, वालुकर२, ऐरेय३ नपु० । (१०) स्पृक्का (अस्थर) के चार नाम—स्पृक्का१, देवी२, लघु३, लता४ स्त्री० । (११) सामान्य पिप्पली के छ नाम—शौण्डी१, कृष्णा२, उपकुल्या३, मागधी४, पिप्पली५, कणा६ स्त्री० ।

हिन्दी—(१) मालकगुनी के तीन नाम—नटी१, नली२ स्त्री०, कपोताङ्घ्रि३ पु० । (२) पोदीना के दो नाम—पुदिन१, वान्तिहारकर२ पु० । (३) हर्डे (हिमज) के छ नाम—हरीतकी१, अभयार२, पथ्या३, कायस्था४, श्रेयसी५, शिवा६ स्त्री० । (४) बेहेडा के चार नाम—विभीतक१, कालीद्रु२, भूतावास३, बहेडुक४ पु० । (५) आवला के चार नाम—आमलक१ पु० नपु०, घात्री२, तिक्तफला३, अमृता४ स्त्री० । (६) अदरस के दो नाम—आर्द्रक१,

आद्रकं शृङ्गवेरं स्या-दथ शृण्ठी महौषधम् ॥६७॥
 कोलक कृष्णमरिच मरीचे शिग्रजं सिते ।
 श्रेयंसी कपिवल्लीच वशिरो गजपिप्पली ॥६८॥
 ऊषेण पिप्पली मूल ग्रन्थिलं चटकाशिरः ।
 कर्णामूलगुणंचन्यं चविका गुदजापहम् ॥६९॥
 चविकायाः फल प्राज्ञैः कथ्यते गजपिप्पली ।
 अतिच्छत्रा सितच्छत्राऽवाक्पुष्पी कारवीमिसि ॥७०॥
 मधुरा शतपुष्पा च शालेयो वनजो यदि ।
 मिश्रेयोऽसौशीतशितच्छत्रा मधुरिकामिसिः ॥७१॥
 शतपुष्पा त्वहिच्छत्रा चित्रके व्यालपाठिनौ ।

शृगवेर २ नपु० । (७) सोठ के दो नाम-शृण्ठी १ स्त्री०, महौषध
 २ नपु० । (८) कालो मिर्च के दो नाम-कोलक १, कृष्णमरीच
 (मरीच) २ नपु० । श्वेत मिर्च के दो नाम-श्वेतमरीच १, शिग्रज
 २ नपु० । (१०) गजपिप्पली के चार नाम-श्रेयसी १, कपिवल्ली
 २ स्त्री०, वशिर ३ पु०, गजपिप्पली ४ स्त्री० । (११) पिप्पल के
 चार नाम-ऊषण १, पिप्पलीमूल २, ग्रन्थिल ३, चटकाशिर (स्) ४
 नपु० ।

हिन्दी-(१) पिपरामूल के चार नाम-कर्णामूल १, गुण २, चन्य
 ३ नपु०, चविका ४ स्त्री० । (२) शोफ (वरियाली) के सात नाम
 -अतिच्छत्रा १, सितच्छत्रा २, अवाक्पुष्पी ३, कारवी ४, मिसि ५,
 मधुरा ६, शतपुष्पा ७ स्त्री० । (३) वनशोफ के छ नाम-शालेय १,
 मिश्रेय २, शीतशित ३ पु०, छत्रा ४, मधुरिका ५, मिसि ६ स्त्री० ।

चन्द्रिका चन्द्रशुरोऽपि पशुमेहनकारिका ॥७२॥
 मेथिका मेथिनी मेथी कार्लाऽजैज्यपि जीरक ।
 धान्यकं तुवर प्रोक्त-मजैमोदा यवानिका ॥७३॥
 वैचा तीक्ष्णोग्रगन्धाया पारसोकवैचा तथा ।
 द्वीपान्तरवचा चाऽपि कुलिञ्जनमितः पृथक् ॥७४॥
 हपुषा पुष्पवस्ता च पराऽश्वत्थ फलामता ।
 फिरङ्गजा चोपचीनी विडङ्गं बहिकृल्लघु ॥७५॥

(४) सोमा के दो नाम—शतपुष्पा १, अहिच्छत्रा २ स्त्री० । (५) चित्रक के तीन नाम—चित्रक १, व्याल २ पाठी (पाठिन्) ३ पु० । (६) अशोलिया (चनसूर) के तीन नाम—चन्द्रशूर १ पु०, चन्द्रिका २, पशुमेहनकारिका ३ स्त्री० । (७) मेथी के तीन नाम—मेथिका १, मेथिनोर, मेथी ३ स्त्री० । [८] कृष्ण जीरा के एक नाम—कृष्णा १ स्त्री० । [९] श्वेत जीरा के दो नाम—अजाजी १ स्त्री, जीरक २ पु० । [१०] घाना के दो नाम—धान्यक १, तुवर २ नपु० । [११] अजमाइन के दो नाम—अजमोदा १, यवानिका २ स्त्री० ।

हिन्दी—(१) सफेद वच के तीन नाम—वचा १, तीक्ष्णा २, उग्रगन्धा ३ स्त्री० । (२) खुरसानी वच का एक नाम—पारसोक वचा २ स्त्री० । (३) चोपचीनी का एक नाम—द्वीपान्तरवचा १ स्त्री० । (४) महाभरी का एक नाम—कुलिञ्जन १ पुं० । (५) पलाशो वचा के दो नाम—हपुषा १, पुष्पवस्ता २ स्त्री० । (६) अश्वत्था (फारसदेशीया) के दो नाम—फिरङ्गजा १,

यर्वजतु तवक्षीर त्वक्क्षीरी वंशलोचना ।

निचुँलः सिन्धुफेनः स्या-दिज्ज लोहिज्जलस्तथा ७६

मधुँकं मधुयष्टी च यष्टीमधु मधुश्रवा ।

आरग्वधे तु संपाक व्याधिघातसुवर्णकाः ॥७७॥

कटुँका कटुकी कट्वी चिरतिक्तः किरातकः ।

कुटँजः कौटकः कौटः कलिँङ्गेन्द्रयवौ समौ ॥७८॥

मदनो मुचुकुन्दः स्या द्रास्ना तु सुरसा रसा ।

चोपचानो २ स्त्री० । (७) वाइभिरिग (वावडिंग) के तीन नाम-विडङ्ग १, वहिकृत् २, लवु ३ नपु० । (८) वार्लिश के दो नाम-यवज १, तवक्षीर २ नपु० । (९) वशलाचन के दो नाम-त्वक्क्षीरी १, वंशलोचना २ स्त्री० । (१०) समुद्र फेन के चार नाम—निचुञ्ज १, सिन्धुफेन २, इज्जञ्ज ३, हिज्जल, ४, पु० । (११) जेटोमध के चार नाम—मधुक १ नपु० मधुयष्टी २, स्त्री०, यष्टोमधु ३ नपुं०, मधुश्रवा ४ स्त्री० । (१२) अमलतास (सोनामक्खी) के चार नाम—आरग्वध १, सपाक २, व्याधिगत ३, सुवर्णक ४ पु० ।

हिन्दी—(१) कुटकी के तीन नाम—कटुका १, कटुकी २, कट्वी ३ स्त्री० । (२) चिरायता के दो नाम—चिरतिक्त १, किरातक २ पु० । (३) कुटज (कुरैया) के तीन नाम—कुटज १, कौटक २, कौट ३ पु० । (३) इन्द्रयव के दो नाम—कलिङ्ग १, इन्द्रयव २ पु० । (५) मदनवृक्ष (मयनफल नामवाले) के दो नाम—मदन १, मुचुकुन्द २, पु० । (६) रासना के तीन नाम—रास्ना १, सुरसा २,

मत्स्याक्षी च वयस्था च ब्राह्मी च सोमवल्ली ॥७९॥
 स्वर्णक्षीरी हिमावत्यां समे काफल कट्फले ।
 घोषा कर्कटशृङ्गी स्याद् घातकी घातपुष्पिका ॥८०॥
 मञ्जिष्ठा विकसा भण्डी कुसुम्भं ग्राम्यकुङ्कुमम् ।
 पुमानलक्तोयावश्च स्त्री लाक्षा जतु न द्वयोः ॥८१॥
 हरिद्राकाञ्चनी पीता निशाहा वरवर्णिनी ।
 दार्वी दारुहरिद्राया बाकुची सोमराजिका ॥८२॥
 काश्मीरं पौष्करे मूले दद्रुधनैश्चक्रमर्दनः ।

रसा३ स्त्री० । (१) ब्राह्मी के चार नाम—मत्स्याक्षी१, वयस्था२, ब्राह्मी३, सोमवल्ली४ स्त्री० । (२) स्वर्णक्षीरी (सत्यानाशी) के दो नाम—स्वर्णक्षीरी१, हिमवती२ स्त्री० । (३) कायफल के दो नाम—काफल१, कट्फल२ नपु० । (४) काकडासिंगी के दो नाम—घोषा१, कर्कटशृङ्गा२ स्त्री । (५) घाव के दो नाम—घातकी१, घातपुष्पिका २ स्त्री० । (६) मजोठा के तीन नाम—मञ्जिष्ठा१, विक्रमा२, भण्ड ३ स्त्री० । (७) ग्राम्यकुसुम के दो नाम—कुसुम१, ग्राम्यकुङ्कुम२ नपु० । (८) महावर के चार नाम—अलक्त१, यावर पुं०, लाक्षा३ स्त्री० जतु४ नपुं० । (९) हल्दी के पांच नाम—हरिद्रा १, काञ्चनी २, पीता३, निशाहा ४, वरवर्णिनी ५ स्त्री० । (१०) दारुहल्दी के दो नाम दार्वी१, दारुहरिद्रा २ स्त्री० । (११) बाकुची (बावची) के दो नाम—बाकुची१, सोमराजिका२ स्त्री० । (१२) पुष्करमूल के दो नाम—काश्मीर१, पौष्कर२ नपुं० । (१३) पुआड़ (पुन्नाड) के दो नाम—दद्रुधन१, चक्रमर्दन२ नपुं० ।

द्वयो भल्लातकोभल्लः वीरवृक्षो हरुष्करः ॥८३॥
 जया च विजया भङ्गा गञ्जा स्त्री च रसः पुमान् ।
 सर्जिकारः सर्जिका च यवक्षारो यवाग्रजः ॥८४॥
 सैन्धवं मणिमन्थं च विडं द्राविडं भासुरम् ।
 साम्भरं रौमलवणं रुच्यं सौवर्चलं लघु ॥८५॥
 लवणोदधि सजातं सामुद्रं वशिरं च तत् ।
 औद्धिदं पाशुलवणं यज्जातं भूमितः स्वयम् ॥८६॥
 सौभाग्यं टकणं क्षारो नवसारो नसादरः ।

- (१) भिञ्जावा के चार नाम—भल्लातक१, भल्लर, पु० स्त्री०, वीरवृक्ष३, अरुष्कर४ पु० । (२) भङ्ग के तीन नाम—जया१, विजया२, भङ्गा३ स्त्री० । (३) गाजा का एक नाम—गञ्जा १, स्त्री० । (४) चरस का एक नाम—चरस १ पु० । (५) सज्जीस्वार के दो नाम—सर्जिकार१ पु०, सर्जिकार स्त्री० । (६) जवखार के दो नाम—यवक्षार१, यवाग्रज२ पु० । (७) सेधानमक के दो नाम—सैधव१, मणिमन्थ२ नपुं । (८) काला नमक के तीन नाम—विड१, द्राविड२, भासुर३ नपुं । (९) साम्भरे नमक के दो नाम—साम्भर१, रौमक२ नपु । (१०) नमक के तीन नाम—रुच्य१, सौवर्चल२, लघु३ नपुं । (११) सामुद्री नमक के दो नाम—सामुद्र१, वशिर२ नपु० । (१२) स्वारा नमक के दो नाम—औद्धिद१, पाशुलवण २ नपु० । (१३) टकणस्वार (सुहागा) के दो नाम—सौभाग्य१, टकणर २ नपु० । (१४) नसादर के दो नाम—नवसार१, नसादर२ पु० ।

सूर्यक्षार स्तीक्ष्णरसः सर्वक्षारो मलापनुत् ॥८७॥

ताम्बूल्येवतु ताम्बूल वल्ली स्यान्नागवलयपि ।

मालूरः श्रीफलो विल्वो गम्भारी मधुपर्णिका ॥८८॥

अमोघा पाटलाकृष्ण वृन्तासैव फलेरुहा ।

अग्निमन्थस्तु कणिका श्रीपर्ण गणिकारिका ॥८९॥

मयूरः कारवीदीप्य खराश्वालोचमस्तकः ।

ध्रुवा स्थिरा शालपर्णी लाङ्गली तोयपिप्पली ॥९०॥

वार्ताकी बृहती सिंही कासैघ्नी कण्टकारिका ।

-
- (१) सोडा नमक के दो नाम—सूर्यक्षार १, तीक्ष्णरस २ पु० । (२) कास्टीक सोडा के दो नाम—सर्वक्षार १, मलापनुत् २ पु० । (३) ताम्बूल (पान) के तीन नाम—ताम्बूली १, ताम्बूलवल्ली २, नागवल्ली ३ स्त्री० । (४) विल्ववृक्ष के तीन नाम—मालूर १, श्रीफल २, विल्व ३ पु० । (५) खभारी के दो नाम—गम्भारी १, मधुपर्णिका २ स्त्री० । (६) पाडली के चार नाम—अमोघा १, पाटला २, कृष्णवृन्ता ३, फलेरुहा ४ स्त्री० । (७) अरणी के चार नाम—अग्निमन्थ १ पु०, कणिका २ स्त्री०, श्रीपर्ण ३ नपु०, गणिकारिका ४ स्त्री० । (८) मोरशिखा के पांच नाम—मयूर १ पु०, कारवी २ स्त्री०, दीप्य ३ पु०, खराश्वा ४ स्त्री० लोचमस्तक ५ पु० । (९) शालपर्णी (शालपर्णी) के तीन नाम—ध्रुवा १, स्थिरा २, शालपर्णी ३, स्त्री० । (१०) जलपिप्पली के दो नाम—लाङ्गली १, तोयपिप्पली २ स्त्री० । (११) वैगन के तीन नाम—वार्ताकी १, बृहती २, सिंही ३ स्त्री० । (१२) कटेरी के दो नाम—कासैघ्नी १, कण्टकारिका २ स्त्री० ।

गोकण्टको गोक्षुरको जीवन्ती स्यान्मधुव्रता ॥९१॥

वनमुद्रा मुद्रपर्णी माषपर्णी तु पर्णिनी ।

एरण्डको व्याघ्रपुच्छः स्यान्मन्दारोऽर्कद्रुमो मत ॥९२॥

स्तुहा स्नुही भूरिदुग्धा सत्तला सातलाऽमला ।

वज्रवल्यास्थि संहारी कालिकारी तु लाङ्गली ॥९३॥

करवीरो दिव्यपुष्पो हयमारोऽश्वमारकः ।

कनकोमत्तधत्तूर धूर्तधत्तूर धुस्तुराः ॥९४॥

वासकोऽटरुषो वासो वरतिक्तस्तु पर्पटः ।

१२ निम्बो नियमनो नेता पित्तुमन्दः शुक्रप्रियः ॥९५॥

- (१) गोखरु के दो नाम—गोकण्टक१, गोक्षुरकर पु० । (२) जीवन्तिका के दो नाम—जीवन्ती१, मधुव्रता२ स्त्री० । (३) वनमठ (मोट) के दो नाम—वनमुद्रा१, मुद्रपर्णी२ स्त्री० । (४) माषपर्णी के दो नाम—माषपर्णी१, पर्णिनी२ स्त्री० । (५) एरण्डिया के दो नाम—एण्ड१, व्याघ्रपुच्छ२ पु० । (६) आकडा के दो नाम—मन्दार१, अर्कद्रुम२ पु० । (७) थूहर के आठ नाम—स्तुहा१, स्नुही२, मूरिदुग्धा३, सत्तला४, सातला५, अमला६, वज्रवल्ली ७, अस्थिसंहारी ८ स्त्री० । (८) जलपिप्पली के दो नाम—कलिकारी १, लाङ्गली २ स्त्री० । (९) कणेर के चार नाम—करवीर दिव्यपुष्प२, हयमार ३, अश्वमारक ४ पु० । (१०) घथूरे के पाच नाम—कनक१, मत्तधत्तूर२, धूर्त ३, धत्तूर४, धुस्तुर५ पु० । (११) अडूसा (वासक) के तीन नाम—वासक१, अटरुष (अटरुषक)२, वास३ पु० । (१२) निम्ब (लीमडा) के सात नाम—वरतिक्त१, पर्पट२, निम्ब३, नियमन४, नेता (नेतृ)५, पित्तुमन्द६, शुक्रप्रिय७ पु० ।

पाकेरिः काञ्चनालञ्च काञ्चनो यमलच्छदः ।
 कर्बूदारः कोविदारो विष्णुक्रान्ताऽपराजिता ॥९६॥
 शोभाञ्जनः शिग्रुस्यो मुखमोदः शुभाञ्जनः ।
 निर्गुण्डीन्द्राणिका सिन्धु—वारकः सिन्दुकस्तथा ॥९७॥
 कुटैजः कुटकः शक्रः करंजः कलिमारकः ।
 वल्लीकण्टकरञ्जः स्यात्काकजङ्घा तु रक्तिका ॥९८॥
 गुञ्जाऽथ श्वेतगुञ्जाया स्याच्चूडालाभिरिण्टिका ।
 आत्मगुप्तातु दुःस्पर्शा कपिकच्छूश्च कण्डुरा ॥९९॥

(१) कच नार के छ नाम—पाकारि१, काञ्चनाल२, काञ्चन३, यमलच्छद४, कर्बूदार५, कोविदार६ पु० । (२) विष्णुक्रान्ता पुष्प के दो नाम विष्णुक्रान्ता१, अपराजिता२ स्त्री० । (३) सुहिजन (सरगवा) के पाच नाम—शोभाञ्जन१, शिग्र२, उग्र३, मुखमोद४, शुभाञ्जन५ पु० । (४) सिनुवार (स्यौंठी) के चार नाम—निर्गुण्डी १, इन्द्राणिका २ स्त्री०, सिन्धुवारक ३ सिन्दुक ४ पु० । (५) तुरैया के तीन नाम—कुटज १, कुटक २, शक्र ३ पु० । (६) काटेवाले करंज के चार नाम—करञ्ज १, कलिमारक २, कण्टकरञ्ज ३ पु०, वल्ली ४ स्त्री० । (७) काकजघा (काकमाची) के दो नाम—काकजघा १, रक्तिका २ स्त्री० । (८) घोंचली (गुजा) का एक नाम—गुञ्जा १ स्त्री० । (९) श्वेत गुञ्जा के तीन नाम—श्वेतगुञ्जा १, चूडाला २, भिरिण्टिका ३ स्त्री० । (१०) कवाच (खुजलाहट उतन्न करने वाला तृण) के चार नाम—आत्मगुप्ता १, दुःस्पर्शा २, कपिकच्छू ३, कण्डुरा ४ स्त्री० ।

समौ वेतसवानीरौ निचुलो हिज्जलोऽम्बुजे ।

वाट्यालका बलाया स्या-दङ्कोटस्तु निकोचकः ॥१००॥

गाङ्गेरुकी नागबला पुत्रकन्दा तु लक्ष्मणा ।

कृष्णाभावनकार्पासी नलपोटगलौ समौ ॥१०१॥

वंशस्तृणध्वजोवेषु स्त्वचिसारो बृहत्तृणः ।

वंगोऽसौ कीचिको यः स्या-द्रन्ध्रस्वानोऽनिलोद्धतेः १०२

स्थूलदण्डः सुरद्रुश्च देवनालो महानले ।

द्वयोर्मुञ्जः शरो वाणो गुन्द्रोरच्छः पटेरकः ॥१०३॥

- (१) वेत के दो नाम—वेतस १, वानीर २ पु० । (२) स्थल वेतस के तीन नाम—निचुल १, हिज्जुल २, अम्बुज ३ पु० । (३) बलियार (बला) के दो नाम—वाट्यालका १, बला २ स्त्री० । (४) अकोल (डेर) के दो नाम—अङ्कोट १, निकोचक २ पु० । (५) बला के दो नाम—गाङ्गेरुकी १, नागबला २ स्त्री० । (६) लक्ष्मणा कन्द के दो नाम—पुत्रकन्दा १, लक्ष्मणा २ स्त्री० । (७) विनौले के दो नाम—कृष्णभा १, वनकार्पासी २ स्त्री० । (८) काश [इक्षुगन्धा] के दो नाम—नल १, पोटगल २ पु० । (९) वास के पाच नाम—वंश १, तृणध्वज २, वेणु ३, त्वचिसार ४, बृहत्तृण ५ पु० । (१०) वासुरी वाले के दो नाम—कीचक १, रन्ध्रस्वान २ पु० । (११) मृज के दश नाम—स्थूल, दण्ड १, सुरद्रु २, देवनाल ३, महानल ४ पु०, मुञ्ज ५ स्त्री० पु०, शर ६, वाण ७ गुन्द्र ८, रच्छ ९, पटेरक १० ।

काशकाशः पुमान्काशी षीकाकाशाः स्त्रियामिमाः ।
 गुन्द्रैरके समे दर्भो वहिः क्लीवे कुशोऽस्त्रियाम् ॥१०४॥
 कर्तृण श्यामकं पौरं स्याद्भूतीकं तु भूतृणम् ।
 बल्वज्जा दृढपत्री स्यात्पण्यन्धा कङ्कनी दला ॥१०५॥
 सुनाला चणिका दुग्धा शूली तु महिषीप्रिया ।
 अनन्ता दुर्भरा दुर्वा गोलोमी शकुलादनी ॥१०६॥
 भूकूष्माण्डी विलाडो च विदारी वाजिवल्लभा ।
 अन्याक्षीरविदारीस्या-दिक्षुगन्धा पयोलता ॥१०७॥

(१) काम के पाच नाम—काशकाश १, पु०, काशी २, इषीका ४,
 काशा ४, स्त्री० । (२) काश विशेष के दो नाम—गुन्द्र १, एरक २
 नपु । (३) कुश के तीन नाम—दर्भ १ पु०, वहिष् २ नपु, कुश ३
 स्त्री० । (४) रौहिष (रोहिस) तृण के तीन नाम—कर्तृण १, श्या-
 मक २ पौर ३ नपु० । (५) रौहिषविशेष के दो नाम—भूतीक
 १ भूतृण २ नपु० । (६) बल्वज (वगेर) के आठ नाम—बल्वज १,
 बहुवचन पुं०, दृढपत्री २ पु०, पण्यगन्धा ३, कङ्कनी ४, दला
 ५, सुनाला ६, चणिका ७, दुग्धा ८ स्त्री (७) शूली (तृणविशेष)
 के दो नाम—शूली १, महिषोप्रिया २ स्त्री० । (८) दुर्वा
 के तीन नाम—अनन्ता १, दुर्भरा २ दुर्वा ३ स्त्री० । (९) श्वेत-
 दुर्वा के दो नाम—गोलोमी १, शकुलादनी २ स्त्री० । (१०)
 श्वेतकुष्माण्ड (कुम्हडा) के चार नाम—भूकूष्माण्डी १ विलाडी २,
 विदारी ३, वाजिवल्ला ४ स्त्री० । (११) कृष्णादिवर्णयुक्त भूकूष्माण्डी
 के तीन नाम—क्षीरविदारी १, इक्षुगन्धा २, पयोलता ३, स्त्री०

जीमूतः कुक्कुटो वेणी देवदाली गरागरी ।

कर्कटी च खरस्पर्शा विषघ्नी गरनाशिनी ॥१०८॥

अशोघ्नी मुसलीताली तालमूली च तालिका ।

नारायणी वरी दिव्या शतमूली शतावरी ॥१०९॥

अश्वगन्धा हयावल्या पाठास्याद्विद्धकर्णिका ।

रेचनी सुवहाश्यामा दन्तीतु श्वेतघण्टिका ॥११०॥

जयपालश्च जैपालो विशालात्विन्द्रवारुणी ।

कल्याणी स्वर्णपात्री स्यादरेचिका मलधारिणी ॥१११॥

(१) देवदालो (कुकुडवेष्ट-जोकि कुष्माण्ड का ही एक भेद है) के नौ नाम-जीमूत १, कुक्कुट २ पु०, वेणी ३, देवदाली ४, गरागरी ५, कर्कटी ६, खरस्पर्शा ७ विषघ्नी ८ गरनाशिनी ९, खी० । (२) तालमूली के पाच नाम-अशोघ्नी १, मुसली २, तालो ३, तालमूली ४, तालिका ५ खी० । (३) शतावरी के पाच नाम-नारायणी १, वरी २, दिव्या ४, शतमूली ४, शतावरी ५ स्त्री० । (४) अश्वगन्धा के तीन नाम-अश्वगन्धा १, ह्या २, बल्या ३ खी० (५) पाठा-ओषधी के दो नाम-पाठा १, विद्धकर्णी २, स्त्री० । (६) प्रियङ्गु के तीन नाम-रेचनी १, सुवहा २, श्यामा स्त्री० । (७) दन्ती (वज्रदन्ती के दो नाम-दन्ती १, श्वेतघण्टिका २ खी० । (८) जमालगोटा के दो नाम-जयपाल १, जैपाल २ खी० । (९) इन्द्रवारुणी के दो नाम-विशाला १, इन्द्रवारुणी २ खी० । (१०) सनायपत्ती के चार नाम-कल्याणी १, स्वर्णपात्री २, रेचिका ३, मलधारिणी ४ खी० ।

रञ्जनी नीलिका नीला काला नीली च नीलिनी ।

दुरालभा समुद्रान्ता यवासो बहुकण्टकः ॥११२॥

अपामार्गश्चमत्कारः श्वेते रक्ते क्षवा स्मृतः ।

काण्डेक्षुः कोकिलाक्षः स्यादिक्षु गन्धे क्षुर क्षुरौ ११३

कन्या घृतकुमारी स्या-देलीयः कृष्णबोलकः ।

पार्टलिः पाण्डुफल्यां स्याद् वनप्सा तु ज्वरापहा ११४

नीलांसौ नीलिनी श्यामा राजपर्णी प्रसारिणी ।

थनेन्ता सारिवा गोपी भृङ्गरौजस्तु मार्कवः ॥११५॥

- (१) नीली औषधि के छ नाम—रञ्जनी १, नीलिका २, नीला ३, काला ४ नीली ५, नीलिनी ६ स्त्री० । (२) घमासा के दो नाम—दुरालभा १, समुद्रान्ता २ स्त्री० । (३) यवास के दो नाम—यवास १, बहुकण्टक २ पुं० । (४) अपामार्ग (आम्बी झाडा, चिर-चिरी) श्वेत के दो नाम—अपामार्ग १, चमत्कार २ २ पुं० । (५) रक्तचिरचिरी के एक नाम—क्षव १, पु० (६) ताल मरवाना के पाच नाम—काण्डेक्षु १, कोकिलाक्ष २, इक्षुगन्धा ३, इक्षुर ४, क्षुर ५ पुं० । हिन्दी—(७) घृतकुमारि के चार नाम—कन्या १, घृतकुमारी स्त्री०, एलीय ३, कृष्णबोधक ४ पुं० । (८) रक्तलोघ्र के दो नाम—पार्टलि १, पाण्डुफली २ स्त्री० । (९) वनप्सा के दो नाम—वनप्सा १, ज्वरापहा २ स्त्री । (१०) राजपर्णी के पाच नाम—नीला १, नीलिनी २ श्यामा ३, राजपर्णी ४, प्रसारिणी ५ स्त्री । (११) उत्पलशारिवा (गुलीसर) के तीन नाम—अनन्ता १, सारिवा २, गोपी ३, स्त्री० । (१२) भृङ्गराज (भङ्गरोइवा) के दो नाम—भृङ्गराज १, मार्कव २, पु० ।

शणपुष्पी पीतपुष्पी त्रायमाणा तु पालिनी ।
 शंखिनी यवतिक्ता स्या-ल्लिङ्गिनी^१ शिवमल्लिका ११६
 गोकर्णो मोरटा मूर्वा काकमाची तु वायसी ।
 काकजघा तु काकाक्षी मेषशृङ्गी विषाणिका ॥११७॥
 गुडूची त्वमृता सोमा सोमवल्ली त्रिदोषहा ।
 वन्दा जीवन्तिका वृक्ष-रुहावृक्षादनी स्मृता ॥११८॥
 लज्जावती तु लज्जालुः स्पर्शलज्जा प्रसारिणी ।

(१) झुनझुनिया (वनशण सदृश कलिकावली) औषधि के दो नाम—जणपुष्पी १, पीतपुष्पी २ स्त्री० । (२) त्रायमाण औषधि के दो नाम—त्रायमाणा १, पालिनी २ स्त्री० । (३) शाखहुली (चोरवल्ली) के दो नाम—शंखिनी १, यवतिक्ता स्त्री० । (४) शिवलिङ्गी के दो नाम—लिङ्गिनी १, शिवमल्लिका २ स्त्री० । (५) मुहार के तीन नाम—गोकर्णो १, मोरटा २, मूर्वा ३ स्त्री० । (६) कवप्रिया (पीलुडी जातवाली) के दो नाम—काकमाची १, वायसी २ स्त्री० । (७) काकजघा (अघेडी कौवा ठोठी) के चार नाम—काकजघा १, काकाक्षी २, मेषशृङ्गी ३ विषाणिका ४ स्त्री० । (८) गिलोय के पाच नाम—गुडुची १ अमृता २ सोमा ३ सोमवल्ली ४, त्रिदोषहा स्त्री० । कचूर (९) (वृक्ष के ऊपर की) औषधि के चार नाम—चन्दा १, जीवन्तिका २, वृक्षरुहा, ३, वृक्षादनी ४ स्त्री० । (१०) लज्जावती (लजविज्जी) के चार नाम—लज्जावती १, लज्जालु २, स्पर्शलज्जा ३, प्रसारिणी ४ स्त्री० ।

द्रोणपुष्पी फलेपुष्पाऽऽदित्यभक्ता सुवर्चला ॥११९॥

वन्ध्या कर्कोटकी नागा-राति सर्पविषापहा ।

मार्कण्डिका पीतपुष्पी मार्कण्डी मृदुरेचनी ॥१२०॥

देवदाली कोषफला लाङ्गली जलपिप्पली ।

भूम्यामली विषघ्नीस्याद्ब्राह्मी मण्डूकपर्णिका ॥१२१॥

गोजिह्वा दार्विका गोभी छिक्कनी छिक्कके समे ।

रक्तपुष्पीबलानाग-दमनी विषमर्दिनी ॥१२२॥

मूषाकर्णी मूषिका च द्रवन्ती शम्बरीवृषा ।

(१) दनूफ (गुल्म) के दो नाम—द्रोणपुष्पी १ फलपुष्पा २ स्त्री ।

(२) सूर्यमुखी पुष्प के दो नाम—आदित्यभक्ता १ फलेपुष्पा स्त्री० ।

(३) हुरहुड़ का एक नाम—सुवर्चला १ स्त्री० । (४) तीन काँकडी

(बाँझ ककोडा) के चार नाम—वन्ध्या १, कर्कोटकी २, नागराति ३, सर्पविषापहा ४ स्त्री० । (५) सनामकई (सनाय) के चार

नाम—मार्कण्डिका १, पीतपुष्पा २, मार्कण्डी ३, मृदुरेचनी ४

स्त्री । (६) घघरवेल के चार नाम—देवदाली १, कोषफला २,

लाङ्गना ३ जलपिप्पली ४ स्त्री० । (७) भूम्यामल का (अमरोडा)

के चार नाम—भूम्यामली १, विषघ्नी २, ब्राह्मी ३, मण्डूकपर्णिका

(८) गोजिह्वा (वनगोभी) के तीन नाम—गोजिह्वा १, दार्विका २,

गोभी, स्त्री० । (९) नाक छिक्कनी के दो नाम—छिक्कनी १, छिक्किका

२ स्त्री० । (१०) नागदौन के चार नाम—रक्तपुष्पी १, बला ३

नागदमनी ३, विषमर्दिनी ४ स्त्री० । (११) मूषाकर्णी के पांच

नाम—मूषाकर्णी १, मूषिका २, द्रवन्ती ३, शम्बरी ४, वृषा ५ स्त्री० ।

शिखिनी वह्नि चूडाच स्यान्मयूर शिखा शिखा ॥१२३॥
 ब्रह्मदण्डजदण्डी स्त्री रेवट्चीनी तु गन्धिनी ।
 चहि स्त्री चविका चाहा तमाखुस्ताम्रकुट्टकः ॥१२४॥
 ईषद्गोल स्निग्धबीज सुधामूली तु जीवनी ।
 शिलीन्ध्र गोमयच्छत्रं स्यादहिच्छत्रमित्यपि ॥१२५॥
 कीटारिः कीटमारी स्त्री सर्पदंष्ट्रा विषापहा ।
 उष्ट्रकण्ठस्तु कण्टालु मेदिका नखरञ्जनी ॥१२६॥
 सञ्जीवनी रुदन्ती स्यात्पर्पोटी चिरपोटिका ।

(१) मोरशिखा के चार नाम—गिम्बिनी १, वह्निचूडा २, मयूरशिखा ३, शिखा ४ स्त्री०। (२) उटकगारा के दो नाम—ब्रह्मदण्डी १, अजदण्डी २ स्त्री०। (३) रेवतचानी के दो नाम—रेवट्चीनी १, गन्धिनी २ स्त्री०। (४) चाय के तीन नाम—चहि १, चविका २, चाहा ३ स्त्री०। (५) तम्बाकु के दो नाम—तमाखु १, ताम्रकुट्टक २ पु०। (६) मफगोल के दो नाम—ईषद्गोल १, स्निग्धबीज २ नपु०। (७) सालममिशरी के दो नाम—सुधामूली १, जीवनी २ स्त्री०। (८) गोवरच्छत्ता के तीन नाम—शिलीन्ध्र १, गोमयच्छत्र २, अहिच्छत्र ३ नपु०। (९) कीडामारी के चार नाम—कीटारि १ पु०, कीटमारी २, सर्पदंष्ट्रा ३, विषापहा ४ स्त्री०। (१०) ऊँट कटीरा के दो नाम—उष्ट्रकण्ठ १, कण्टालु २ पु०। (११) मेहदी के दो नाम मेदिका १, नखरञ्जनी २ स्त्री०। (१२) लाणा के दो नाम—सञ्जीवनी १, रुदन्ती २ स्त्री०। (१३) पटक्रीना (वनसोखा) के दो नाम—पर्पोटी १, चिरपोटिका २ स्त्री०।

चिचोडकं चिचोडंस्या-दजगन्धातु कावरी ॥१२७॥

पुमान्स्यादण्डखर्जूरः स एवैरण्डचिर्भिटः ।

॥ वनस्पतिवर्ग समाप्त ॥

(१) चिचोट के दो नाम-चिचोडक १, चिचोड २ नपुं० । (२) तिलवन के दो नाम-अजगन्धा १, कावरी २ स्त्री० । (३) पतीता (अणरनेवा) के दो नाम-अण्डखर्जूर १, एरण्डचिर्भिट २ पुं० ।

॥ वनस्पतिवर्ग समाप्त ॥

गिखिनी वहि चूडाच स्यान्मयूर गिखा गिखा ॥१२३॥
 ब्रह्मदण्डयजदण्डी स्त्री रेवट्चीनी तु गन्धिनी ।
 चहि स्त्री चविका चाहा तमाखुस्ताम्रकुट्टकः ॥१२४॥
 उषद्वोल स्निग्धबीज मुधामूली नु जीवनी ।
 गिलीन्ध्र गोमयच्छत्र म्यादहिच्छत्रमित्यपि ॥१२५॥
 क्रीटारिः क्रीटमारी स्त्री सर्पदंष्ट्रा विषापहा ।
 उष्ट्रकण्ठस्तु कण्ठालु मेदिका नखरञ्जिनो ॥१२६॥
 मञ्जीवनी उदन्ती स्या-तर्पपोटी चिरपोटिका ।

- (१) मोरगिखा के चार नाम—गिम्बिनो १, वहिचूडा २, मयूरगिखा ३, शिखा ४ ली०। (२) उटकगारा के दो नाम—ब्रह्मदण्डी १, अजदण्डी २ ली०। (३) रेवतचानी के दो नाम—रेवट्चीनी १, गन्धिनी २ ली०। (४) चाय के तीन नाम—चहि १, चविका २, चाहा ३ ली०। (५) तम्बाकु के दो नाम—तमाखु १, ताम्रकुट्टक २ पु०। (६) मफगोल के दो नाम—उषद्वोल १, स्निग्धबीज २ नपु०। (७) सालममिशरो के दो नाम—मुधामूली १, जीवनी २ ली०। (८) गोवरछत्ता के तीन नाम—गिलीन्ध्र १, गोमयच्छत्र २, अहिच्छत्र ३ नपु०। (९) क्रीडामारी के चार नाम—क्रीटारि १ पु०, क्रीटमारी २, सर्पदंष्ट्रा ३, विषापहा ४ ली०। (१०) ऊँट कटीरा के दो नाम—उष्ट्रकण्ठ १, कण्ठालु २ पु०। (११) मेहदी के दो नाम—मेदिका १, नखरञ्जनी २ ली०। (१२) लाणा के दो नाम—सञ्जीवनी १, उदन्ती २ ली०। (१३) पटकोना (वनमोखा) के दो नाम—पर्पोटी १, चिरपोटिका २ ली०।

चिचोडकं चिचोडंस्या-दजगन्धातु कावरी ॥१२७॥

पुमान्स्यादण्डखर्जूरः स एवैरण्डचिभिटः ।

॥ वनस्पतिवर्ग समाप्त ॥

(१) चिचोट के दो नाम—चिचोडक १, चिचोड २ नपु० । (२) तिलवन के दो नाम—अजगन्धा १, कावरी २ स्त्री० । (३) पतीता (अणरनेवा) के दो नाम—अण्डखर्जूर १, एरण्डचिभिट २ पु० ।

॥ वनस्पतिवर्ग समाप्त ॥

—०॥अथ धान्यादिवर्गः प्रारभ्यते॥०—

धान्येस्तम्बकरित्रीहिः कलमे शालितण्डुलौ ।

समौ गोधूमगोधूमौ यवकस्तु यवो मतः ॥१॥

जूर्णलो यावनालश्च जूर्णो यवयवोऽपिच ।

स्त्री वर्जरी वर्जरिका नाली स्यात्पुसि साजकः ॥२॥

पुंसि भुक्तिप्रदोमुद्रो हरिन्मुद्गस्तु शारदः ।

माषे पित्र्यो धान्यवीरो मकुष्ठस्तु मकुष्ठके ॥३॥

वर्वटश्चवलो राज-माषश्चपल इत्यपि ।

निष्पावो वल्लको वाजि-मन्थस्तु चणकश्चणः ॥४॥

हिन्दो- (१) सामान्य धान्य के तीन नाम-धान्य १ नपुं०, स्तम्बकरि २, त्रीहि ३ पु० । (२) गेहू के दो नाम-गोधूम १, गोधूम २, पु० । (३) जौ के दो नाम-यवक १, यव २ पु० । (४) जनेर के (जुआर) के चार नाम-जूर्णल (जूर्नल) १, यावनाल २, जूर्ण ३, यवयव ४ पु० । (५) बजरी के चार नाम-वर्जरी १, वर्जरिका २, नाली ३ स्त्री०, साजक ४ पु० । (६) मूग के दो नाम-भुक्तिप्रद १, मुद्ग २ पु० । (७) हरे मूग के दो नाम-हरिमुद्ग १, शारद २ पु० । (८) उर्द के तीन नाम-माष १ पित्र्य २, धान्यवीर ३ पु० । [९] मठ के दो नाम-मकुष्ठ १, मकुष्ठक २ पु० । (१०) चवला के चार नाम-वर्वट १, चवल २, राज-माष ३, चपल ४ पु० । (११) भेंटमास के दो नाम-निष्पाव १, वल्लक २ पु० । (१२) चना के तीन नाम-वाजिमन्थ १, चणक २, चण ३ पु० ।

द्वयोमसूरमसुरौ तुवरीत्वाढकी स्त्रियाम् ।

कलायो मुण्डचणकः खञ्जकारिस्तु सण्डिकः ॥५॥

कुलत्थिस्तु कुलत्थेः स्यात्तिलस्तैलसमन्वितः ।

निष्फले तिलपिञ्जः स्यादारण्ये जतिलो मतः ॥६॥

राजितु राजिका कृष्णे सिद्धार्थः श्वेतसर्षपः ।

क्षुमोमे अतसी कंजौ प्रियङ्गुः स्युः स्त्रियामिमाः ॥७॥

चीनकैः काक कङ्कुश्च मण्डूकैस्तु मलीयसः ।

मुनिधान्यं तु नीवारः स्त्रिया मोडी तथौडिका ॥८॥

- हिन्दी— (१) मसूर के दो नाम—मसूर १, मसुर २ पु० ।
 (२) अरहर के दो नाम—तुवरी १, ओढकी २ स्त्री० । (३) वट-
 ला के दो नाम—कलाय १, मुण्डचणक २ पु० । (४) खञ्जकारी
 के दो नाम—खञ्जकारी १, सण्डिक २ पु० । (५) कुलत्थ (कुरथी)
 के दो नाम—कुलत्थि १, कुलत्थ २ पु० । (६) तिलका, तेलहीन
 [निस्सार] तिलका, अरण्य तिलका क्रमश एक एक नाम—तिल,
 तिलपिञ्ज, जतिल पु० । (७) राई [रैची] के दो नाम—राजी १,
 राजिका २ स्त्री० । (८) सरसो [सरसिया] के दो नाम—सिद्धार्थ
 १, श्वेतसर्षप २ पु० । (९) अतसी के तीन नाम—क्षुमा १, उमा
 २, अतसी ३ स्त्री० । (१०) कौनी [कौ गुणी] के दो नाम—
 कङ्गु १, प्रियङ्गु २ स्त्री० । (११) चीने के दो नाम—काककङ्कु
 १, चीनक २ पु० । (१२) मँडुआ के दो नाम—मण्डुक १ नपुं०
 मलीयस २ पु० । [१३] जगली धान्य के चार नाम—मुनिधान्य
 १ नपुं०, नीवार २ पु०, ओडी ३, ओडिका ४ स्त्री० ।

श्यामाकः श्यामकः श्यामाः कोरदूषस्तु कोद्रवः ।
 स्यान्मक्कायो महाकायः स्त्रीर्गवेधुर्गवेधुका ॥९॥
 शाकराद् वास्तु वास्तुकं लोणा लोण्यौ तु धोलिका ।
 अम्लं रसाम्ल पत्राम्ले तुल्यौ वार्षिक मारिषौ ॥१०॥
 कञ्चटः कञ्चुकीद्वेस्त उपोती स्यादपोदका ।
 रसोनी लथुनोऽरिष्ट कलम्बी तु कलम्बिका ॥११॥
 नाडीकः पट्टशाकः स्यान्मत्स्याक्षी हिलमोचिका ।

हिन्दी— [१] सामा के तीन नाम—श्यामाक १, श्यामकर, श्याम ३ पु० । [२] कोदो के दो नाम—कोरदूष १, कोद्रव २ पु० । [३] मक्का [मकइ] के दो नाम—मक्काय १ महाकाय २ पु० । [४] गरहेडुआ [वनैया गेहुँ] के दो नाम—गवेधु १, गवेधुका २ स्त्री० । [५] बथुआ के तीन नाम—शाकराद् [शाकराजू] १ पु, वास्तु २, वास्तुक ३ नपु० । [६] नोनाया शाक के तीन नाम—लोणा १, लोणी २, धोलिका ३ स्त्री० । [७] चूका [पथरचूर] के तीन नाम—अम्ल १, रसाम्ल २, पत्राम्ल ३ नपु० । [८] मरुसा के दो नाम—वार्षिक १, मारिष २ पु० । [९] अरिक्ञ्चन [चौलाड-अरुआ के पत्ते जैसे पत्ते के दो नाम—कञ्चट १ पु०, कञ्चुकी २ स्त्री० । [१०] पोईके दो नाम—उपोती १, उपोदका २ स्त्री० । [११] लहसेन के तीन नाम—र ोन १, लथुन २ पु०, अरिष्ट ३ नपु० । [१२] कलमी [करभी] के दो नाम—कलम्बी १, कलम्बिका २ स्त्री० । [१३] तिक्त शाक के दो नाम—नाडीक १, पट्टशाक २ पु० । [१४] सरहौ ची के दो नाम—मत्स्याक्षी १, हिलमोचिका २ स्त्री० ।

प्रलेम्बिका स्त्री करली शितिवारस्तु कुक्कुटः ॥१२॥
 एर्वारुः कर्कटी मूत्र फलातोयफला स्त्रियाम् ।
 त्रपुष कण्टकिफलं सुधावासः सुशीतलम् ॥१३॥
 चिर्भिटं स्याच्चिर्भटिका कुम्भसी कट्फला स्त्रियाम् ।
 कृष्णबीजं कलिन्देस्या तद्भेदस्तु दशाङ्गुलम् ॥१४॥
 कोषातकी सुघोषा स्त्री जालिनी राजिमत्फला ।
 घण्टाली शोधनी क्ष्वेडं तिक्तकोशातकी स्त्रियाम् ॥१५॥
 श्वेतराजिश्चिचिण्डः स्यात्पटोलं कुलकौ समौ ।

हिन्दी—(१) करैला के दो नाम—प्रलेम्बिका १, करली २
 स्त्री० । (२) शिरियारि के दो नाम—शितिवार १, कुक्कुट २ पु० ।
 (३) काकडो के चार नाम—एर्वारु १, कर्कटी २, मूत्राफला ३,
 तोयफला ४ स्त्री० । (४) कर्कटीविशेष के चार नाम—त्रपुष १,
 कण्टकिफल २ नपु०, सुधावास ३ पु०, सुशीतल ४, नपु० ।
 (५) काचर के चार नाम—चिर्भिट १ नपु०, चिर्भटिका २,
 कुम्भसी ३, कट्फला ४ स्त्री० । (६) तरबूज के दो नाम—कृष्ण-
 बीज १, नपु०, कलिन्द २ पु० । (७) खर्बुजा का एक नाम—
 दशाङ्गुल १ नपु० । (८) तोरई के चार नाम—कोषातकी १,
 सुघोषा २, जालिनी ३, राजिमत्फला ४ स्त्री० । (९) झिंगा के
 दो नाम—घण्टाली १, शोधनी २ स्त्री० । (१०) कडवी तोरई के
 दो नाम—क्ष्वेडा १ तिक्तकोशातकी २ स्त्री० । (११) चिचेडा-
 फल के दो नाम—श्वेतराजि १ स्त्री०, चिचिण्ड २ पु० । (१२)
 परवल के दो नाम—पटोल १, कुलक २ पु० ।

शितिवारः शितिवरः स्वस्तिकः सुनिषण्णकः ॥१६॥

श्रीवारकः सूचिपत्रः पर्णकः कुक्कुटः शिखी ।

विम्बं विम्बफल तुण्डी-केरी तुण्डी समाऽसमा ॥१७॥

कैकोटकी पीतपुष्पी कारवेल्लः कठिल्लकः ।

भिण्डी भिण्डा पुमान् भिण्डः शिम्बिनी शिम्बिके समे ॥१८॥

बाकुची कालमेषी च शिम्बी तु फलिनी मता ।

वारिकण्टक शृङ्गाटके स्त्री सघाटिका मता ॥१९॥

गृञ्जनं गाजर क्लीवे पलाण्डु मुखदूषणः ।

हिन्दी—(१) सुनिसण्ण (सुसना) के नौ नाम—शितिवार १ शितिवर २, स्वस्तिक ३, सुनिषण्णक ४, श्रीवारक ५, सूचिपत्र ६, पर्णक ७, कुक्कुट ८, शिखी (शिखिन्) ९, पु० । (२) विम्ब (तिलकोड) के तान नाम—विम्ब १, विम्बफल २ नपु०, तुण्डिकेरी ३ स्त्री० । (३) गिलोडे का एक नाम—तुण्डी स्त्री० । (४) किकोडा (ककोडा) के दो नाम—कैकोटकी १, पीतपुष्पी २ स्त्री० । (५) करेला के दो नाम—कारवेल्ल १, कठिल्लक २ पु० । (६) भिण्डी के तीन नाम—भिण्डी १, भिण्डा २ स्त्री०, भिण्ड ३ पु० । (७) पहाडी सिम के दो नाम—शिम्बिनी १, शिम्बिका २ स्त्री० । (८) गवारफली के दो नाम—बाकुची १, कालमेषी २ स्त्री० । (९) फली के दो नाम—शिम्बी १, फलिनी २ स्त्री० । (१०) सिंघाडे के तीन नाम—वारिकण्टक १, शृङ्गाटक २ नपु०, सघाटिका ३, स्त्री० । (११) गाजर के दो नाम—गृञ्जन १, गाजर २ नपु० । (१२) प्याज (डुगली) के दो नाम—पलाण्डु १, मुखदूषण २ पु० ।

वानेयं स्थूलमूलं स्यान्मूलकं हस्तिदन्तकम् ॥२०॥
 ओल्लैओलःपुंसि पिण्डी तकस्तु स्वादुकन्दकः ।
 आरवे स्यादारवी स्त्री राजालु स्वारु रारुकः ॥२१॥
 कोलकन्दे पुटालुर्ना हस्तिकन्दोऽति कन्दके ।
 स्तम्भालु धरणीकन्द स्तुल्ये रक्तालुकाऽऽलुके ॥२२॥
 सुकन्दः स्यात्तु वाराही कन्द क्लीवे महौषधम् ।
 कन्दौलुकं सुकन्दं स्यात् शोथैत्रीतु पुनर्नवा ॥२३॥
 पुष्पैर्गोभी पत्रगोभी ग्रन्थिगोभी च गोभिका ।

हिन्दो—(१) मलगम के दो नाम—वानेय १, स्थूलमूल २ नपु० । (२) मूलीके दो नाम—मूलक १, हस्तिदन्तक २ नपु० । (३) सूरण के दो नाम—ओल्ल १, ओल २ पु० । (४) तैकुना के दो नाम—पिण्डीतक १, स्वादुकन्द २, पु० । (५) अरुवी (जिस के पत्ते अरिकञ्चन है), के दो नाम—आरव १, आरवो २ पुंस्त्री० । (६) आरु (मोटा अरवीकण्डा) के दो नाम—राजालु (१) आरु २, आरुक ३ पुं० । (७) कोलकन्द (रक्तवर्ण स्वभार) के दो नाम—कोलकन्द १, पुटालु २ पु० । (८) सफेद खमहार के चार नाम—हस्तिकन्द १, अतिकन्द २, स्तम्भारु ३, धरणीकन्द ४ पु० । (९) सकरकन्द के दो नाम—रक्तालुका १, आलुका २ स्त्री० । (१०) वाराहीकन्द (सुथनी उत्तर बिहार में होता है) के तीन नाम—सुकन्द १, वाराहीकन्द २ महौषध ३ नपु० । (११) आलु के दो नाम—कन्दालुक १, सुकन्द २ नपु० । (१२) पुनर्नवा (गदह पुडैना, गजपुडैना) के दो नाम—शोथत्री १, पुनर्नवा २, स्त्री० । (१३) गोभी के चार नाम—पुष्पगोभी १, पत्र-

कासमर्दनकासारि मखान्नं वारिजं फलम् ॥२४॥
 कटुवीरा तीव्रशक्तिर्द्वे रक्तमरिचे स्त्रियाम् ।
 गुडकन्दः कसेरुः स्यात्कशेरुश्च कसेरुकः ॥२५॥
 पूषाऽपूपौ पिष्टकोऽपि वाटिकाऽङ्गारकर्पटी ।
 दुग्धं क्षीरं पयश्चाऽपि पर्यस्यं तु भवेद्दधि ॥२६॥
 नव प्रसूते र्धेनोर्यत् प्रकृत्या स्फुटितं पयः ।
 पीयूषं मग्नियोगेन-घनीभूतं किलाटकः ॥२७॥
 अपक्वमेव नश्येत क्षीरंशाकं तु तत्पय ।
 हीनं तद् द्रव भागेन तर्कपिण्ड उदाहृतः ॥२८॥

गोभी २, ग्रन्थिगोभी ३, गोभिका ४ स्त्री० ।

हिन्दी—(१) कसोदी के दो नाम—कासमर्दन १, कासारि २ पु० । (२) मखाने के दो नाम—मखान्न (मखान) १, वारिज २ नपु० । (३) लालमिर्च के दो नाम—कटुवीरा १, तीव्रशक्ति २ स्त्री० । (४) केशौर के चार नाम—गुडकन्द १, कसेरु २, कशेरु ३, कसेरुक ४ पु० । (५) पूषा के तीन नाम—पूप १, अपूप २, पिष्टक ३, पु० । (६) वाटी के दो नाम—वाटिका १, अङ्गारकर्पटी २ स्त्री० । (७) दूध के तीन नाम—दुग्ध १, क्षीर २, पयस् ३ नपु० । (८) दही के दो नाम—पयस्य १, दधि २ नपु० । (९) तत्काल व्याई गाय का दूध का एक नाम—पीयूष (स्विरसा) १ नपु० । (१०) खड़ी का एक नाम—किलाटक १ पु० । (११) छेना का एक नाम—क्षीरशाक १ नपु० । (१२) दधिसार का (श्रोत्रण्ड) एक नाम—तर्कपिण्ड १ पु० नपु० ।

नष्टदुग्धस्य यन्नीरं मोरंटोजेज्जटोऽब्रवीत् ।

ह्रीवे हैयङ्गवीन तु नवनीत नवोद्घृतम् ॥२९॥

दध्नः स्निग्धो घनोभागे उपरिष्टः सैरः स्मृतः ।

मस्तु स्याद् दधिजं मण्डं तैक्रघोले तु छच्छिका ३०

घृतमाज्यं हविः सर्पिर्गव्यादि दधिज स्मृतम् ।

यस्तिळादि समूद्भूत स्नेहस्तत्तैल मुच्यते ॥३१॥

मर्यने स्यान्मधूच्छिष्टं मधुनि क्षौद्रमाक्षिके ।

गुडंमूल पुमानिक्षु स्तद्भेदाः "पौण्ड्रकादयः ॥३२॥

हिन्दी—(१) फाडे गये दूध के पानी का एक नाम—मोरट
१ पु० (जेज्जट का मत है) । (२) मक्खन के दो नाम—हैयङ्गवीन
१, नवनीत २, नपु० । (३) मलाई का एक नाम—सर पु० ।
(४) दहोसे निकले पानी का एक नाम—मस्तु १ नपु० । (५)
छाछ (छास) के दो नाम—तक्र १, नपु० छच्छिका २ स्त्री० ।
(६) घी के चार नाम—घृत १, आज्य २, हविष ३, सर्पिष् ४
नपु० । (७) तेल के दो नाम—स्नेह १ पु०, तैल २ नपु० ।
(८) मोम के दो नाम—मयन १, मधूच्छिष्ट २ नपुं० । (९)
शहद के तान नाम—मधु १, औद्र २, माक्षिक ३ नपु० । (१०)
ईक्षु के दो नाम—गुडमूल १ नपुं०, इक्षु २ पु० । (११) ईक्षु
विशेष के तेरह नाम—पुण्ड्र १, इक्षु २, कर्कट ३, वश ४,
कान्तार ५, वेणुनिःसृत ६, पौण्ड्रक ७ रमाल ८, सुकुमारक
९ पुण्ड्रक १०, सेव्य ११, अतिरस १२, मधु १३ पु० ।

यन्त्रैर्निष्पीडितस्येक्षो विकारो यो रसे स्मृतः ।

पको रसो यदा गाढो राव इत्युच्यते बुधैः ॥३३॥

ततो गाढतरे क्लीवं फाणित गुडइष्यते ।

अस्त्री खण्डोऽति गाढस्यान्मत्स्यण्डी स्त्री सिता भवेत्

एकैकं नाम वक्ष्येऽथ पोलिकान्तं पृथक् पृथक् ।

संयावो मठक पक्क वटी च तिलपर्पटी ॥३५॥

मित्रिया पाटलजम्बूःस्यात् शट्टकं ^{१२}मुद्गमोदकः ।

^{१३}यूषःपुमान् स्त्रिया ^{१४}लोप्त्री चूर्णिका ^{१५}दुग्धकूपिका ॥

- (१) रस का एक नाम-रस १ पु० । (२) अग्निसयोग से पकाये गये रस का एक नाम-राव १ पु० । (३) राव से और अधिक पाक होने पर दो नाम- फाणित १ नपु०, गुड २ पु० । (४) चीनी का एक नाम-खण्ड १ अस्त्री० । (५) मिसरी के दो नाम-मत्स्यण्डी १, सिता २ स्त्री० । (६) हलुआ के एक नाम-सयाव १ पु० । (७) माठा (पेठा) का एक नाम-मठक १ पु० । (८) पकौड़ी का एक नाम पक्कवटी १ स्त्री० । (९) तिल पापड का एक नाम-तिलपर्पटी १ स्त्री० । (१०) गुलाब जामुन का एक नाम-पाटलजम्बू १ स्त्री० । (११) चासनो का एक नाम-शट्टक १ नपु० । (१२) मोतीचूर लड्डू का एक नाम-मुद्गमोदक १ पु० । (१३) दूध के मावा का एक नाम-यूष १ पुं० । (१४) लाई का (ममड़ा और गुड़ का लड्डू) एक नाम-लोप्त्री १ स्त्री० । (१५) चुरमे का एक नाम-चूर्णिका १ स्त्री० । (१६) पेडा का एक नाम-दुग्धकूपिका स्त्री । (१५)

कलाकन्दः कुण्डलिनी वटाका घृतपूरकः ।
 काथः प्रहेलकश्चम्लै-पानीयं शर्करोदकम् ॥३७॥
 स्फुटित चलिकं पेष्ठा स्त्रियां सेवनमोदकः ।
 पूर्णपोली वेष्टमिका पर्पटी वटकेस्तथा ॥३८॥
 काञ्जीयवटक खानपानं सेविश्च पोलिका ।

- (१) कलाकन्द का एक नाम—कलाकन्द १ पु० । (२) जलेवी का एक नाम—कुण्डलिनी १ स्त्री० । (३) बड़ा का एक नाम—वटाका १ स्त्री० । (४) घेवर का एक नाम—घृतपूरक १ पु० । (५) अदहन का एक नाम—काथ १ पु० । (६) दोपहर के पीछे का भोजन का एक नाम—प्रहेलक १ पु० । (७) मसाठे सयुक्त खट्टे पानी का एक नाम—अम्लपानीय १ नपु । (८) शर्बत का एक नाम—शर्करोदक १ नपु० । (९) भूँजा (चवाणा) का एक नाम—स्फुटित १ नपु । (१०) घीमें गूदे हुए आटे का एक नाम—चलिक १ नपुं० । (११) पेठा का एक नाम—पेष्ठा १ स्त्री० । (१२) सेव के लड्डू का एक नाम—सेवनमोदक १ पु० । पूर्णपोली का एक नाम—पूर्णपोला १ स्त्री० । (१३) वेष्टन रोटी के एक नाम—वेष्टमिका १ स्त्री० । (१४) पापड़ का एक नाम पर्पटी १ स्त्री । (१५) चिछे (बड़ा) के एक नाम—वटक १ पु० । (१६) दहीबड़ा का एक नाम—काञ्जीयवटक १ नपुं । (१७) खान पान के एक नाम—खानपान नपु६ । (१८) सेव का एक नाम—सेवि १ पु० । (१९) पुलाक का एक नाम—पोलिका १ स्त्री० ।

यन्त्रैर्निष्पीडितस्येक्षो विकारो यो रसे स्मृतः ।

पको रसो यदा गाढो राव इत्युच्यते बुधैः ॥३३॥

ततो गाढतरे क्लीवं फाणित गुडइष्यते ।

अस्त्री खण्डोऽति गाढस्यान्मत्स्यण्डी स्त्री सिता भवेत्

एकैकं नाम वक्ष्येऽथ पोलिकान्त पृथक् पृथक् ।

सयावो मठक पक्क वटी च तिलपर्पटी ॥३५॥

स्त्रिया पाटलजम्बूः स्यात् शङ्कैर्मुद्गमोदकः ।

यूषः पुमान् स्त्रिया लोप्त्री चूर्णिका दुग्धकूपिका ॥

- (१) रस का एक नाम-रस १ पु० । (२) अग्निसंयोग से पकाये गये रस का एक नाम-राव १ पु० । (३) राव से और अविक्र पाक होने पर दो नाम- फाणित १ नपु०, गुड २ पु० । (४) चीनी का एक नाम-खण्ड १ अस्त्री० । (५) मिसरी के दो नाम-मत्स्यण्डी १, सिता २ स्त्री० । (६) हलुआ के एक नाम-सयाव १ पु० । (७) माठा (पेठा) का एक नाम-मठक १ पु० । (८) पकौड़ी का एक नाम पक्कवटी १ स्त्री० । (९) तिल पापड का एक नाम-तिलपर्पटी १ स्त्री० । (१०) गुलाब जामुन का एक नाम-पाटलजम्बू १ स्त्री० । (११) चासनो का एक नाम-शङ्क १ नपु० । (१२) मोतीचूर लड्डू का एक नाम-मुद्गमोदक १ पु० । (१३) दूध के मावा का एक नाम-यूष १ पु० । (१४) लाई का (ममड़ा और गुड का लड्डू) एक नाम-लोप्त्री १ स्त्री० । (१५) चुरमे का एक नाम-चूर्णिका १ स्त्री० । (१६) पेडा का एक नाम-दुग्धकूपिका स्त्री० । (१५)

कलाकन्दः कुण्डलिनी वटाका घृतपूरकः ।
 काथः प्रहेलकश्चम्ल-पानीयं शर्करोदकम् ॥३७॥
 स्फुटित चलिकं पेष्ठा स्त्रियां सेवनमोदकः ।
 पूर्णपोली वेष्टमिका पर्पटी वटकस्तथा ॥३८॥
 काञ्जीयवटक खानपानं सेविश्च पोलिका ।

- (१) कलाकन्द का एक नाम—कलाकन्द १ पु० । (२) जलेवी का एक नाम—कुण्डलिनी १ स्त्री० । (३) बड़ा का एक नाम—वटाका १ स्त्री० । (४) घेवर का एक नाम—घृतपूरक १ पु० । (५) अदहन का एक नाम—काथ १ पु० । (६) दोपहर के पीछे का भोजन का एक नाम—प्रहेलक १ पु० । (७) मसाठे सयुक्त खट्टे पानी का एक नाम—अम्लपानीय १ नपु । (८) शर्बत का एक नाम—शर्करोदक १ नपु० । (९) भूजा (चवाणा) का एक नाम—स्फुटित १ नपु । (१०) घोंघे गूदे हुए आटे का एक नाम—चलिक १ नपु० । (११) पेठा का एक नाम—पेष्ठा १ स्त्री० । (१२) सेव के लड्डू का एक नाम—सेवनमोदक १ पु० । पूर्णपोली का एक नाम—पूर्णपोली १ स्त्री० । (१३) वेष्टन रोटो के एक नाम—वेष्टमिका १ स्त्री० । (१४) पापड का एक नाम पर्पटी १ स्त्री । (१५) चिछे (बड़ा) के एक नाम—वटक १ पु० । (१६) दहीबड़ा का एक नाम—काञ्जीयवटक १ नपु । (१७) खान पान के एक नाम—खानपान नपु६ । (१८) सेव का एक नाम—सेवि १ पु० । (१९) पुलक का एक नाम—पोलिका १ स्त्री० ।

ओदं नोऽस्त्री भक्तमन्न मन्धोऽपि च नपुंसकम् ।३९।
 दालिर्दालीव्यञ्जनं तु शाको लप्सी तु लप्सिका ।
 निष्ठानं तेमनं चूर्णं क्षोदश्च वटिका वटी ॥४०॥
 धारदृ वेशनं पिष्ट दालिकायां तु पिष्टिका ।
 प्रातराशः कल्पजग्धिः शङ्कुली पुरिका पुरी ॥४१॥
 समौ तु ग्रास कवलौ लेहोऽऽहारौ तु जेमनम् ।
 स्यादुद्गरणमुद्गारः कचोरी तु कचोरिका ॥४२॥

- (१) ओदन के चार नाम—ओदन १ अस्त्री०, भक्त २, अन्न ३, अन्धस् ४ नपु० । (२) दाल के दो नाम—दालि १, दाली स्त्री० । (३) व्यञ्जन के दो नाम व्यञ्जन १, शाक २ पु० । (४) लापसी के दो नाम—लप्सी १, लप्सिका २ स्त्री० । (५) व्यञ्जन विशेष (कढी आदि) के दो नाम—निष्ठान १, तेमन २ नपु० । (६) ब्याटे के दो नाम—चूर्ण १, क्षोद २ पु० । (७) वडी के दो नाम—वटिका १, वटी २, स्त्री० । (८) वेशन के दो नाम—धारदृ १ वेशन २ नपु० । (९) दाल ढोकली के एक १ नाम—पिष्टिका १ स्त्री० (१०) प्रात कालीक लघु भोजन के दो नाम—प्रातराश १ पु०, १, पु० कल्पजग्धि २ स्त्री० । (११) पुडी के तीन नाम—शङ्कुली १ पुरिका ३ पुरी ३ स्त्री० । (१२) ग्रास के दो नाम ग्रास १ कवल २ पु० । (१३) भोजन के तीन नाम—लेह १, आहार २ पु०, जेमन ३ नपु० । (१४) उद्गार के दो नाम—उद्गरण १ नपु०, उद्गार २ पु० । (१५) कचौरी के दो नाम—कचोरी १, कचोरिका २ स्त्री० ।

क्षुद् बुभुक्षा क्षुधा तुल्यास्त्वद् पिपासा तृषास्तथा ।
 सपीतिः सहपानं स्यात्स्त्रिया सग्धिः सहाशनम् ॥४३॥
 भुक्तशिष्ट मथोच्छिष्टं फेला भुक्तोज्झिते स्त्रियाम् ।
 चुलुकश्चुलु गण्डूषौ तृप्तौ सौहित्यं तर्पणे ॥४४॥
 स्याद् धरद्वः शिलाचक्र तस्य दण्डेतु हस्तकम् ।
 चक्रेला चक्रिका द्वेस्तः साधनी वेलिनी स्त्रियाम् ४५
 शिलापुत्रः शिलालोष्टो षर्षणालस्तु पेषणी ।

- (१) भुख के तीन नाम—क्षुध् १, बुभुक्षा २ क्षुधा ३ स्त्री० ।
 (२) प्यास के तीन नाम—त्वद् १ पिपासा ३ तृषा ३ स्त्री० ।
 (३) साथ २ पाने के दो नाम—सपीति १ स्त्री०, सहपान २ नपु० । (४) साथ २ भोजन के दो नाम—सग्धि १ स्त्री०, सहाशन २ नपु । (५) भोजन करके जो शेष बचे उसके दो नाम—भुक्तशिष्ट (रसोइ में बचे) १, उच्छिष्ट (याली में बचे) २ त्रिलिङ्ग । (६) पहले भोग चुके अब छोड़े हैं ऐसे विषय का एक नाम—फेला १ स्त्री० । (७) चुलुक के तीन नाम—चुलुक १ चुलु २ गण्डूष ३ पु० । (८) तृप्ति के दो नाम—सौहित्य १, तर्पण २ नपु० । (९) चक्री के दो नाम—धरद्व १ पु०, शिलाचक्र २ नपु० । (१०) चक्री के दण्ड का एक नाम—हस्तक १ नपुं । (११) चक्रेला के दो नाम—चक्रेला १ चक्रिका २ स्त्री० (१२) वेलिनी के दो नाम—साधनी १, वेलिनी २ स्त्री० । (१३) शिला के ऊपर हल्दी आदि जिस पत्थर के टुकड़े से पिसे जाय उस छोटे टुकड़े के दो नाम—शिलापुत्र १, शिलालोष्ट २ पु० । (१४) जिस पर पीसा जाय उस पत्थर के दो नाम—षर्षणाल १ पु०, पेषणी २ स्त्री० ।

क्लीबे महानस पाक-स्थान रसवती स्त्रियाम् ॥४६॥

पौरोगैवोऽधिकार्यस्य सूपकारस्तु पाचकः ।

भवेत्कान्दविकोऽनेक भोज्यवस्तु विधायकः ॥४७॥

हसन्त्यङ्गारशकटी हसन्त्यङ्गारधानिका ।

अङ्गारस्तूलमुकाऽलाते मणिकाऽलिजरः समौ ॥४८॥

अम्बरीष पुमान् भ्राष्ट कर्करीतु गलन्तिका ।

चुल्लिश्चुल्ली स्त्रिया क्लीबेऽश्मन्त मुद्धानमित्यपि ४९

स्वेदनो स्त्री द्वयोःकन्दुः घटः कुटनिपावपि ।

(१) पाक घर के तीन नाम—महानस १ पाकस्थान
 २ नपु० रसवती ३ स्त्री० । (२) पाक घर के अधिकारी
 का एक नाम—पौरोगव १ पुं० । (३) रसोइया के दो नाम—
 सूपकार १, पाचक २ पु० । (४) हल्लुआइ के एक नाम—
 कान्दविक १, पु० । (५) शगडी के चार नाम—हसनी १,
 अङ्गारशकटी २ हसन्ती ३, अङ्गारधानिका ४ स्त्री० । (६) जलते
 अंगारे के तीन नाम—अङ्गार १ पु०, उल्मुक २, अलात ३ नपुं० ।
 (७) बड़े मोटे घड़े का दो नाम—मणिक १, अलिञ्जर २ पु० ।
 (८) जिस बर्तन में चने आदि भूजे जाय (भाड) उस कडाही
 के दो नाम—अम्बरीष १ नपु० भ्राष्ट २ पु० । (९)
 झाड़े के दो नाम—कर्करी १, गलन्तिका २ स्त्री० । (१०)
 चुल्ली के चार नाम—चुल्ली १, चुल्लि २ स्त्री०, अश्मन्त ३,
 उद्धान ४ नपु० । (११) कड़ाही के दो नाम—स्वेदनो १ स्त्री०,
 कन्दु २ पु० स्त्री० । (१२) घट के चार नाम—घट १, कुट २
 निप ३ पु० स्त्री०, कलश (कलस) ४ त्रिलिङ्ग ।

कलशः पिठरः कुण्डं स्थाल्युखात्रिषु न स्त्रियाम् ॥५०॥

शरावः पत्रभेदेस्या तथैव वर्द्धमानकः ।

स्यात्कैटोरं कटोरी स्त्री कटोरात् महत्यसौ ॥५१॥

दुग्धादीना हियत् पान-भाजनं सा कुंपी स्त्रियाम् ।

अस्त्रीकंसः पानपात्र, मृजीक पिष्टपाचनम् ॥५२॥

पात्रमात्रेऽमत्र पात्र भाण्डा न्यावपनं तथा ।

भाजनं दर्विकम्बी तु स्त्री तर्दुर्दारुमुष्टिकः ॥५३॥

पिधानपात्रे तु प्रोक्ता बुदञ्चनमुदञ्चनी ।

- (१) हडी के चार नाम—पिठर १, कुण्ड २, स्थाली ३ उखा (उषा) त्रिलिङ्ग । (२) शराव के दो नाम—शराव १ वर्द्धमानक २ पु० नपु० । (३) कटोरी के दो नाम—कटोर १ नपु०, कटोरी २ स्त्री० । (४) बडे कटोरे का एक नाम—कटोरा १ स्त्री० । (५) दुग्धादि पान भाजन का एक नाम—कुपी १ स्त्री० । (६) ग्लास के दो नाम—कस १ पु०, पानपात्र २ नपु० । (७) तवा के दो नाम—ऋजीक १, पिष्टपाचन नपु० । (८) भाण्डमात्र के पाच नाम—अमत्र १ पात्र २ भाण्ड ३ आवपन ५ भाजन ५ नपु० । (९) दर्वी (काल्छुत्रो) के दो नाम—दर्वि (दर्वी) १ कम्बि (कम्बी) २ स्त्री० । (१०) चाटु (लकड़ी की करछुली) के दो नाम—तर्दु १ दारुमुष्टिक २ पु. (११) पिधानपात्र (ढांकनी) के दो नाम—उदञ्चन १ नपु०, उदञ्चनी २ स्त्री० ।

चर्मणः स्नेहपात्रं स्यात्कुतूः सा कुतूपोऽल्पिका ॥५४॥

पर्णपात्रे करङ्कोना पर्णधान्युपहन्तिका ।

उपस्करो वेपवारो राज्यवत्स्तु रसालिका ॥५५॥

॥ इति धान्यादिवर्ग समाप्त ॥

(१) सीदडे के एक नाम—कुतू १ स्त्री० । (२) छोटे सीदडे के एक नाम—कुतुप १ पु० । (३) पर्णपत्र (पतराला पडिया) के तीन नाम—करङ्क १ पु०, पर्णधानी २ उपहन्तिका ३ स्त्री० । (४) वेसवार (दाल अथवा शाक के मसाले) के दो नाम—उपस्कर १ वेपवार (वेसवार) २ पु० ।

॥०॥ इति धान्यादिवर्ग समाप्त ॥०॥

॥ ० ॥ अथ पशुवर्गः प्रारभ्यते ॥ ० ॥

मृगधूर्तक गोमायु-फेरवाः फेर-जम्बुकौ ।

शृगालो वञ्चकः क्रोष्टा भूरिमायः शिवा स्त्रियाम् ॥१॥

अच्छो भल्लुक भालुकौ-ऋक्षो भल्लश्च भाल्लुकः ।

खड्गी च गण्डकः खड्गो लुलायो महिषस्तथा ॥२॥

कासारः सैरिभोवाह-द्विषच्च गोधिकात्मजे ।

गौधेयैश्चापि गौधेरो गौधारश्च त्रयोमताः ॥३॥

भूदारः सूकरः कोलो वराहः क्रोड घोणिनौ ।

घृष्टिर्दंष्ट्री किरः पोत्री स्तब्धरोमा किटिस्तथा ॥४॥

व्याघ्रे द्वौ द्वीपि शार्दूलौ स्यात्तरक्षु मृगादने ।

हिन्दा—(१) सियाल के दश नाम—मृगधूर्तक १, गोमायु २, फेरव ३, फेर ४, जम्बुक ५, शृगाल ६, वञ्चक ७, क्रोष्टा- (क्रोष्टु) ८, भूरिमाय ९, पु०, शिवा १० स्त्री० । (२) रीछ के छ नाम—अच्छ १, भल्लुक २, भालुक ३, ऋक्ष ४, भल्ल ५, भाल्लुक ६ पु० । (३) गेडा के तीन नाम—खड्गिन् १, गण्डक २, खड्ग ३ पु० । (४) महिष के पाच नाम—लुलाय १, महिष २, कासार ३, सौरिभ ४, वाहद्विषन् (वाहद्विषत्) ५ पु० । (५) चन्दन गोह के तीन नाम—गौधेय १, गौधेर २, गौधार ३ पु० । (६) सूकर के बारह नाम—भूदार १, सूकर २ (शूकर), कोल ३, वराह ४, क्रोड ५, घोणिन् ६, घृणि ७, दंष्ट्रिन् ८, किर ९, पोत्रिन् १०, स्तब्धरोमन् ११, किटि १२ पु० । (७) व्याघ्र के तीन नाम—व्याघ्र १, द्वीपिन् २, शार्दूल ३ पु० । (८) व्याघ्र विशेष के दो नाम—तरक्षु १, मृगादन २ पु० ।

सिंह पञ्चाननः कण्ठी-रवः पञ्चनखो हरिः ॥५॥

पुण्डरीको मृगेन्द्रश्च केसरी मृगसूदनः ।

वानरो मर्कटोवाऽपि वनोक्ता अपि कथ्यते ॥६॥

प्लवंगः प्लवगः क्रीशः शाखामृग वलीमुखौ ।

विलालओतु माजारी आखुभुग् वृषदशकः ॥७॥

शल्यस्तु शल्लकी श्ववित्-तल्लोम्नि शल्ल शलम् ।

ईहामृगा वृकः कोके कुरङ्ग हरिणो मृगः ॥८॥

रङ्कु रेणो रुरु न्यङ्कु कृष्णसारश्च शम्बरः ।

हिन्दो—(१) सिंह क नौ नाम सिंह १, पञ्चानन २, कण्ठीरव ३, पञ्चनख ४, हरि ५, पुण्डरीक ६, मृगेन्द्र ७, केसरी (केशरिन्) ८, मृगसूदन ९ पु० । (२) वानर के आठ नाम—वानर १, मर्कट २, २, वनोक्त ३, प्लवग ४, प्लवग ५, क्रीश ६, शाखामृग ७, वलीमुख ८ पु० । (३) विलो के पाच नाम—विलाल १, ओतु २ माजार ३, आखुभुक् (आखुभुज्) ४, वृषदशक ५ पु० । (४) स्याहा (माही) के तीन नाम—शल्य १, शल्लकी २, श्ववित् (श्वविधू) ३ पु० । (५) स्याही के रोम (जो काटे हो होते हैं) के दो नाम—(शल्लकी स्त्री०) शल्ल १, शल २ नपु० । (६) वृक (बाघ से नीची, कुक्कुर से ऊची जात वाले 'हुराड' के तीन नाम—ईहामृग १ वृक २ कोक ३ पु० । (७) मृग के तीन नाम—कुरङ्ग १, हरिण २ मृग ३ पु० । (८) मृग विशेषके नौ नाम—रङ्कु ३, रेण २, रुरु ३, न्यङ्कु ४, कृष्णसार ५, शम्बर ६,

गोकर्णो रोहितश्चैव चमूरुश्चेति द्वादश ॥९॥

गवयः सममरो रामो गन्धर्वः शरभः शशः ।

खनक स्यादधोगन्ता पुध्वजो वृष उन्दुरः ॥१०॥

मूपकोऽप्याखु रुन्दुश्च गिरिका वालमूषिका ।

दिवान्धा दीर्घतुण्डोच गन्धास्या तुच्छुन्दरी ॥११॥

मुसली गृहगोधाया सरटः कृकलासकः ।

वृश्चिकेऽलिद्रुणद्रोणाः पत्रिश्येनौ शशादनः ॥१२॥

भवेत्कलरवः पुंसि पारावतकपोतकौ ।

कौशिको-लूक-काकारि दिवान्ध धूक पेचकाः ॥१३॥

गोकर्ण ७, रोहित ८, चमूरु ९, पु० । (१) अलग २ जात वाले के नाम—गवय १, समर २, राम ३, गन्धर्व ४, शरभ ५, शश ६ पु० । (२) चूहों के दश नाम—खनक १, अधोगन्ता (अधो-गन्त) २, पुध्वज ३, वृष ३ उन्दुर ५, मूपक ६, आखु ७, उन्दु ८ पु०, गिरिका ९, वालभूषिका १० लो० । (३) लु-लुदरी के चार नाम—दिवान्धा १, दीर्घतुण्डो २, गन्धास्या ३, लुलुन्दरी ४ ली० । (४) पल्ली के दो नाम—मुसली १, गृहगोधा २ लो० । (५) सरट के दो नाम—सरट १, कृकलास २ पु० । (६) वृश्चिक (वीली) के चार नाम—वृश्चिक १, अलि २, रुण ३, द्रुण ४ पु० । (७) बाज पक्षी के तीन नाम—पत्री (पत्रिन्) १, श्येन २, शशादन ३ पु० । (८) कवूतर के तीन नाम—कलरव १, पारावत २, कपोत ३ पु० । (९) उल्लक (उल्ल) के छ नाम—कौशिक १, उल्लक २, काकारि ३, दिवान्ध ४, धूक ५ पेचक ६ पु० ।

खञ्जनः खञ्जरीटौ द्वौ चाषश्चासः किकीदिविः ।
 शारङ्गश्चातकः स्तोको दावर्वाघाटे शतच्छदः ॥१४॥
 भृङ्गे कलिङ्ग घूम्याटौ गोमय स्थानवासिनौ ।
 कृकवाकुस्ताम्रचूडश्चरणायुध कुक्कुटौ ॥१५॥
 कर्करेटौ कर्करेटुः स्यात्करटुः कर्कराटुकः ।
 कृकणे क्रकरः कीरे शुकः परंभृते पिकः ॥१६॥
 वनप्रियः कोकिलोऽपि कौके ध्वाक्षश्च वायसः ।
 बलिभुक्करटाऽरिष्ट बलिपुष्ट सकृत्प्रजाः ॥१७॥

(१) खजन के दो नाम—खजन १, खञ्जरीट २ पु० । (२) नीलकण्ठ पक्षी के तीन नाम—चाष १, चास २, किकीदिवि ३ पु० । (३) चातक पक्षी के तीन नाम— शारङ्ग १, चातक २, स्तोक ३ पु० । (४) काठहोरा के दो नाम— दावाघाट १, शतच्छद २ पु० । (५) भृङ्ग के तीन नाम—भृङ्ग १ कलिङ्ग २, घूम्याट ३ पु० । (६) मुरगा के चार नाम—कृकवाकु १, ताम्रचूड २, चरणायुध ३, कुक्कुट ४ पु० । (७) अशुभवादी पक्षी के चार नाम—करेट १, कर्करेटु २, करटु ३, कर्कराटुक ४ पु० । (८) अशुभ पक्षी के दो नाम—कृकण १, क्रकर २ पु० । (९) शुग्गा (पोपट) के दो नाम—कोक १, शुक २ पु० । (१०) कौयल के चार नाम—परभृत १, पिक २, वनप्रिय ३, कोकिल ४ पु० । (११) कौआ (कागडा) के नौ नाम—काक १, ध्वाक्ष २, वायस ३, बलिभुक् ४, करट ५, अरिष्ट ६, बलिपुष्ट ७, सकृत्प्रजा ८, आत्मघोष ९ पु० ।

आत्मघोषोऽथ चटकेः कलविद्धः स्त्रिया तु सः ।
 चटका तदपत्येऽपि चैटकेरः पुमान् यदि ॥१८॥
 दात्यूहः कालकण्ठेऽपि काँकोलो द्रोणवायसः ।
 दाक्षाय्यः कथितो गृध्रेऽथ चिल्लौऽऽतायिनौ समौ ॥१९॥
 क्रौञ्चे क्रुड् स्याद्वके कव्वः सारसे पुष्कराह्वयः ।
 रथोद्गश्चक्रवाकः स्यात् कोकश्च कुररैस्त्वयम् ॥२०॥
 उत्क्रोशे मानसौकास्तु चक्राङ्गो हंस उज्ज्वलन् ।
 मरालः कलहंसोऽपि कादम्बो राजहंसकः ॥२१॥

- (१) चटक (ग्राम चटक) पक्षी के दो नाम—चटक १, कलविद्ध २ पु० । (२) चटक के स्त्री तथा स्त्री जाति अपत्य का एक नाम—चटका १ स्त्री० । (३) पुरुष जो अपत्य हो उसका एक नाम—चाटकेर २ पु० । (४) घनछूहा (काली चिडिया) के दो नाम—दात्यूह १, कालकण्ठ २ पु० । (५) काले काठ के दो नाम—काकोल १, द्रोण २ पु० । (६) गीध के दो नाम—दाक्षाय्य १, गृध्र २ पु० । (७) चोल के दो नाम—चिल्ल १, आतायी (आतायिन्) २ पु० । (८) क्रौञ्च के दो नाम—क्रौञ्च १, क्रुड् (क्रुञ्च) २ पु० । (९) बक के दो नाम—बक १, कव्व २ पु० । (१०) सारस के दो नाम—सारस १, पुष्कराह्वय (पुष्कर) २ पु० । (११) चक्रवाक के तीन नाम—रथाङ्ग १, चक्रवाक २, कोक ३ पु० । (१२) पक्षीविशेष के दो नाम—कुरर १, उत्क्रोश २ पु० । (१३) हंस के तीन नाम—मानसौका (मानसौकम्) १, चक्राङ्ग २, हंस ३ पु० । (१४) कलहंस के चार नाम—मराल १, कलहंस २, कादम्ब ३, राजहंस ४ ये श्वेत राजहंस चोच १०

रक्तोऽङ्घ्रि चञ्चुभिर्योऽथ मलिनो मल्लिकेक्षणः ।
 धार्तराष्ट्रो यदा नीलो ज्ञायते लक्ष्मभिः क्रमात् ॥२२॥
 लक्ष्मणा सारसस्य स्त्री हंसस्य वरटा मता ।
 जतुकाऽजिनपत्रायां परोष्णी तैलपायिका ॥२३॥
 वर्वणा मक्षिका नीला विशिष्टा मधुर्मक्षिका ।
 सरधा मधुदानिषु पुत्तिका वा पतङ्गिका ॥२४॥
 वनमक्ष्यां मतोदंशो दंशी तज्जाति रत्निका ।
 ततोऽपि क्षुद्रदंशे तु मंशो मशक इत्युभौ ॥२५॥
 अन्यः शुल्लेशुलः कीटः खट्वाकोटस्तु मत्कुणः ।

चंगुलों से लाहित न होकर कृष्ण हो तो इन्हे 'मल्लिकेक्षण' तथा नील चञ्चु नरणो से 'धार्तराष्ट्र' समझना पु० । (१) सारस की स्त्री का एक नाम—लक्ष्मणा १, स्त्री० । (२) हंस की स्त्री का एक नाम—वरटा १ स्त्री० । (३) चामचिरिया (चमगादड़) के दो नाम—जतुका १, अजिनपत्रा २ स्त्री० । (४) तलचिटा के दो नाम—परोष्णी १, तैलपायिका २ स्त्री० । (५) मक्षिका (मक्खी) के तीन नाम—वर्वणा १, मक्षिका २, नीला ३ स्त्री० । (६) मधुमाखा के दो नाम—मधुमक्षिका १, सरधार २ स्त्री० । (७) छोटी मधुमक्षिका के दो नाम—पुत्तिका १, पतङ्गिका २ स्त्री० । (८) वनमक्षिका के एक नाम—दश १ पु० । (९) छोटी वनमक्षिका के एक नाम—दशी स्त्री० । (१०) मच्छर के दो नाम—मश १, मशक २ पु० । (११) शुल्लेशुल का एक नाम—शुल्लेशुल १ पु० । (१२) खट्वाकीट (माकड़) का एक नाम—मत्कुण १ पु० ।

स्याच्छिखण्डः पुमान्बर्हं पिच्छ च स्यान्नपुंसकम् ।
 खंगो द्विजो विहङ्गश्च विहङ्गम विहायसौ ॥३१॥
 विहगः शकुनिः पक्षी शकुन्तिः शकुनोऽण्डजः ।
 पतन् पत्ररथः पित्सन् नगौका नभ संगमः ॥३२॥
 गरुत्मान् पतंगः पत्री शकुन्तो नीडजोऽपि विः ।
 पतत्रिविष्किरो वाजी पतत्री विकिरः पुमान् ॥३३॥
 विशेषाः कुक्कुभो मद्गु जीर्व जीवश्च कोरकः ।
 हारीतस्तित्तिरिः कोयष्टिकष्टिभकः प्लवः ॥३४॥
 लावः कारण्डवो वर्तकः पुमान् वर्तिकादयः ।
 पक्षतिः पक्षमूल स्त्री त्रोटिश्चञ्चुः स्त्रियामिमे ॥३५॥

हिन्दी—(१) मयूर पीछ के तीन नाम—शिखण्ड १ पु०, बर्ह २
 पिच्छ ३ नपु० । (२) पक्षी के सत्ताइस नाम—खग १ द्विज २
 विहगम ४ विहाया (विहायस्) ५ विहग ६ शकुनि ७ पक्षी
 (पक्षिन्) ८ शकुन्ति ९ शकुन १० अण्डज ११ पतन् (पतत्)
 १२ पत्ररथ १३ पित्सन् (पित्सत्) १४ नगौका (नगौकस्) १५
 नभसगम १६ गरुत्मान् (गरुत्मत्) १७ पतंग १८ पत्री (पत्रिन्)
 १९ शकुन्त २० नीडज २१ वि २२ पतत्रि २३ विष्किर २४
 वाजी (वाजिन्) २५ पतत्री (पतत्रिन्) २६ विष्किर २७ पु० ।
 (३) इन पक्षियों के मध्य प्रसिद्ध पक्षी के नाम—कुक्कुभ १ मद्गु २
 जीवजीव ३ चकोरक ४ हारीत ५ तित्तिरि ६ कोयष्टिक ७ टिट्टि-
 भक ८ प्लव ९ लाव १० कारण्डव ११ वर्तक (वर्तिक) १२ पु०
 वर्तिका (वर्तिका) १३ शारिका १४ आदि स्त्री० । (४) पक्षियों के
 पक्षमूल के एक नाम—पक्षति १ स्त्री० । (५) चोच के दो नाम—
 त्रोटि १ चञ्चु (चञ्चु) २ स्त्री० ।

तनूरुहं पतत्रश्च पत्रं पक्षच्छदौ गरुत् ।
 डयनोड्डीनसडीन प्रडीनानि नभोगतिः ॥३६॥
 क्रोषैः क्रोशं स्त्रिया पेगी पेशिश्चाण्डं नपुसके ।
 निवासे पक्षिगेहे च कुलायो नीडमस्त्रियाम् ॥३७॥
 शिशौ डिम्भोऽर्भकः पोतः शावक पृथुकोऽपि च ।
 युगले तु युग युगं द्वन्द्वं स्त्री पसयो युतौ ॥३८॥
 मिथुन च समूहे तु निवहो व्यूह संचयो ।
 संघात स्तोमनिकर समुदाय चयत्रजाः ॥३९॥
 संदोह विसरत्राता ओघः समुदयो गण ।

हिन्दी--(१) पक्षियों के पक्ष के छ नाम—तनूरुह १ पतत्र
 २ पत्र ३ नपुं०, पक्ष ४ छद ५ गरुत् ६ पु० । (२) पक्षियों
 के आकाश में उड़ने का चार नाम—डयन १ उड्डीन २ सडीन
 ३ प्रडीन ४ नपु९ । (३) अंडों के पाँच नाम—क्रोष १ क्रोश
 २, नपुं० पु०, पेगी ३ पेशि ४ स्त्री०, अण्ड ५ नपु० (४) पक्षि-
 गृह के दो नाम—कुलय १ पु०, नीड नपु०पु० । (५) बच्चों के
 छ नाम—शिशु १ डिम्भ २ अर्भक ३ पोत (पाक) ४, शावक
 ५ पृथुक ६ पु० । (६) युग (जुगलजोडा) के तान नाम—युगल
 १ युग २ युग ३ नपु० । (७) स्त्री पुरुष जोड़े के दो नाम—
 द्वन्द्व १ मिथुन २ नपु० । (८) समूह के बाइस नाम—ममूह
 १ निवह २ व्यूह ३ संचय ४ संघात ५ स्तोम ६ निकर ७
 समुदाय ८ चय ९ व्रज १० संदोह ११ विसर १२ त्रात १३
 ओघ १४ समुदय १५ गण १६ समवाय १७ वार १८ पुं०

समवाय स्तथा वारः सहति स्त्री नपुंसकम् ॥४०॥
 निकुरम्बं कदम्बं च वृन्दं वेर्गः समैः स्मृतः ।
 सजातीयैः कुल सर्वं सार्थैः स्याता तु जन्तुभिः ॥४१॥
 समजः पशुवृन्देना तिरश्चा यूथं मस्त्रियाम् ।
 अन्येषा तु समाजोऽथ निकायः सह धर्मिणाम् ॥४२॥
 धान्यादेरुत्करः पुञ्जराशीना कूटमस्त्रियाम् ।
 शौकैतत्तिर मायूर कापोतादि स्वके गणे ॥४३॥
 छेकां वा गृह्यकागेहाऽऽसक्ता ये पक्षिणो मृगाः ।

॥ इति पशुवर्गः समाप्तः ॥

सहति १९ स्त्रि०, निकुरम्ब २० कदम्ब २१ वृन्द २२ नपु० ।

(१) प्राणि वा अप्राणि के समूह को 'वर्ग' कहते है ।
 (२) सजातीय समुदाय को 'कुल' कहते हैं नपु० । (३)
 समुदाय को 'सघ' तथा 'सार्थ' कहते है पु० । (४) पशुसमुदाय
 को 'समज' कहते हैं पु० । (५) पक्षि समुदाय को 'यूथ' कहते हैं
 पु नपु० । (६) पशु भिन्न मनुष्यदेव आदि के समुदाय को 'समाज'
 कहते हैं पु० । (७) एक धर्म वाले समुदाय को 'निकाय' कहते
 है पु० । (८) धान्य आदि के ढेर को 'उत्कर' १ पुञ्ज २ राशि ३
 पु०, कूट ४ पु० नपु० । (९) शुक, तित्तिर, मायूर, कपोत आदि
 के अपने अपने समुदाय को क्रमश - शोक, तैत्तिर, मायूर,
 कापोत आदि कहते हैं नपु० । (१०) जिन पशु पक्षियों को मनु-
 ष्यो के घर मे रहने का अभ्यास (आसक्ति) है उन उन मृगप-
 क्षियों को 'छेक' और 'गृह्यक' कहते हैं पु० ।

॥००॥ इति पशुवर्ग समाप्त ॥००॥

॥ अथ मानववर्गः प्रारभ्यते ॥

मानेवो मनुजो मर्त्यो मनुष्यो मानुषो नरः ।

ना पुमान् पुरुषः किञ्च ^१पुरुषोऽथाऽबला वधूः ॥१॥

नारी सीमन्तिनी योषा योषित् स्त्री वनिता तथा ।

स्याद्वामा महिलै तस्या प्रभेदा भीरुङ्गना ॥२॥

कामिनी ललना कान्ता मानिनी वामलोचना ।

प्रमदा रमणी रामा सुन्दरी च नितम्बिनी ॥३॥

^३उत्तमा तु वरारोहा या प्रोक्ता वरवर्णिनी ।

मत्तकाशिन्यपि स्यात्सा भामिनी कोपने सम ॥४॥

^४महिषी साभिषेका स्याद् राज्ञोऽन्या ^५भोगिनीमता ।

हिन्दी—(१) मनुष्य के दश नाम—मानव १ मनुज २ मर्त्य ३ मनुष्य ४ मानुष ५ नर ६ ना (नृ) ७ पुमान् (पुंस) ८ पुरुष ९ पुरुष १० पुं० । (२) स्त्री के बाइस नाम—अबला १ वधू २ नारी ३ सीमन्तिनी ४ योषा ५ योषित् ६ स्त्री ७ वनिता ८ वामा ९ महिला १० भीरु ११ अङ्गना १२ कामिनी १३ ललना १४ कान्ता १५ मानिनी १६ वामलोचना १७ प्रमदा १८ रमणी १९ रामा २० सुन्दरी २१ नितम्बिनी २२ स्त्री० । (३) उत्तम स्त्री के चार नाम—उत्तमा १ वरारोहा २ वरवर्णिनी ३ मत्तकाशिनी ४ स्त्री० । (४) क्रोधवती के दा नाम—भामिनी १ कोपना २ स्त्री० । (५) जिसके साथ राजा राज्याभिषेक करे उस स्त्री का एक नाम महिषी १ स्त्री० । (६) अन्य राजपत्नियों का एक नाम—भोगिनी १ स्त्री० ।

१अध्यूढा चाधिविन्ना च कृतसापत्निका तु या ॥५॥
 पत्नी पाणिगृहीती स्याद् द्वितीया सहधर्मिणी ।
 जाया भार्या बहुत्वे तु पुंसि दाराः कुटुम्बिनी ॥६॥
 पुण्ड्र्युथ सती साध्वी सुचरित्रा पतिव्रता ।
 स्वयंवरा तु वर्यास्यात् सैव प्रोक्ता पतिवरा ॥७॥
 कुलजा कुलसंपन्ना कुलस्त्री कुलपालिका ।
 कुमारी दारिका कन्या दुहिता च समा इमाः ॥८॥
 तरुणी युवतिः प्रोक्ता स्नुषायां तु जैनी वधूः ।

(१) अनेक भार्यावालो के प्रथम परिगृहीता के तीन नाम—
 अध्यूढा १ अधिविन्ना २ कृतसापत्निका (कृतसपत्निका, कृतस-
 पत्निका) ३ स्त्री० । (२) नोति के साथ जिस स्त्री से विवाह हो उस
 स्त्री के दो नाम—पत्नि १ पाणिगृहीती २ स्त्री० । (३) दूसरे स्त्री के
 ती। नाम— सहधर्मिणी १ जाया २ भार्या ३ स्त्री० । (४) 'दारा'
 नित्य पुलङ्ग हैं और बहुवचनात है । (५) पति पुत्रादि सयुक्त स्त्री
 के दो नाम— कुटुम्बिनी १ पुरन्त्री (पुरन्त्रि) २ स्त्री० । (६) सुच-
 रित्रा स्त्री के चार नाम— सती १ साध्वी २ सुचरित्रा ३ पतिव्रता
 ४ स्त्री० । (७) जो स्वयं पति को चुनले उसके तीन नाम— स्व-
 यंवरा १ वर्या २ पतिवरा ३ स्त्री० । (८) कुलाङ्गना के चार नाम
 कुलजा १ कुलसंपन्ना २ कुलस्त्री ३ कुलपालिका ४ स्त्री० । (९)
 कन्या के चार नाम—कुमारी १ दारिका २ कन्या ३ दुहिता ४
 स्त्री० । (१०) तरुण अवस्थावाली स्त्री के दो नाम—तरुणि १ युवति
 (युवती) २ स्त्री० । (११) पुत्रवधू के दो नाम—जनी १ वधू २ स्त्री० ।

सुवासिनी चिरण्टी स्यात्पार्श्वस्था प्रतिवेशिनी ॥९॥

पुश्चली पाशुला स्वैरिण्यसती कुलटोच्यते ।

विश्वस्ता विधवा रण्डा वीरा स्वामि सुतान्विता ॥१०॥

पतिवर्त्नी सनाथा स्यात्पलिक्री जरती मता ।

किञ्चिद्विज्ञा भवेत् प्राज्ञा प्राज्ञा तृत्कृष्ट धी युता ॥११॥

जातिः शूद्रस्य शूद्रां स्याद् भार्या शूद्री प्रकीर्तिता ।

स्यादाभोरी गोपपत्नी पोटां भ्रमश्रादि चिह्निनी ॥१२॥

उपाध्याय्यप्युपाध्याया स्वयं विद्योपदेशिका ।

- (१) विवाहिता के दो नाम-- सुवासिनी १ चिरण्टी २ स्त्री० । (२) पडोस के स्त्री के दो नाम-- पार्श्वस्था १ प्रतिवेशिनी २ स्त्री० । (३) कुलटा के पाच नाम-- पुश्चली १ पाशुला २ स्वैरिणी ३ अमती ४ कुलटा ५ स्त्री० । (४) विधवा के तीन नाम-- विश्वस्ता १ विधवा रण्डा ३ स्त्री० । (५) पतिपुत्र सयुक्ता का एक नाम-- वीरा १ स्त्री० । (६) गर्भिणी जीवद्वर्तिका का एक नाम--पतिवर्त्नी (अन्तर्वर्त्नी) १ स्त्री० । (७) वृद्धा के दो नाम--पलिका १ जरती २ स्त्री० । (८) किञ्चित् विज्ञा स्त्री का एक नाम प्राज्ञा १ स्त्री० । (९) उत्कृष्ट बुद्धिमती का एक नाम--प्राज्ञा १ स्त्री० । (१०) शूद्र के जाति का एक नाम--शूद्रा १ स्त्री० । (११) शूद्रपत्नी का एक नाम--शूद्री १ स्त्री० । (१२) अहोर पत्नी के दो नाम--आभोरी १ गोपपत्नी २ स्त्री० । (१३) जिस स्त्री को दाढी मूछ निकले उसका एक नाम--पोटा १ स्त्री० । (१४) विद्योपदेशिका के दो नाम--उपाध्यायी १ उपाध्याया (उपाध्याय पत्नी को उपाध्यायानी, उपाध्यायी भी कहते हैं) २ स्त्री० ।

आचार्याणी तु पुंयोगाद् आचार्या विदुषी स्वयम् ॥१३॥
 अर्याण्यर्या जातिमात्रे क्षत्रिया क्षत्रियाण्यपि ।
 जातापत्या प्रसूता च प्रयाता च प्रसूतिका ॥१४॥
 कोटवी नग्निका नग्ना वीरमातरि वीरसूः ।
 वीरपत्नी भवेद् वीर-भार्या दूर्तिस्तु दूतिका ॥१५॥
 साऽसिकनीयाऽवरोधस्तथा युवती दूतिकापदे ।
 स्ववशा परमेश्मस्तथा सैरन्ध्री शिल्पकारका ॥१६॥
 वेश्या वाराङ्गना रूपा जीवा च गणिका जनैः ।

(१) आचार्य पत्नी अर्थ में 'आचार्याणी' और स्वयं विदुषी को 'आचार्या' कहा जाता है स्त्री० । (२) वैश्यपत्नी अर्थ में 'अर्या' और जाति मात्र में 'अर्याणी, अर्या' स्त्री० । (३) क्षत्रिय जाति अर्थ में 'क्षत्रिया' और क्षत्रिय पत्नी अर्थ में 'क्षत्रिया' स्त्री० । (४) प्रसूतिका स्त्री के चार नाम जातापत्या १ प्रसूना २ प्रयाता ३ प्रसूतिका ४ स्त्री० । (५) नग्न स्त्री के तीन नाम—कोटवा १ नग्निका २ नग्ना ३ स्त्री० । (६) वीरमाता के दो नाम—वीरमाता १ वीरसू २ स्त्री० । (७) वीरपत्नी के दो नाम—वीरपत्नी १ वीरभार्या स्त्री० । (८) दूती के दो नाम—दूति (दूती) १ दूतिका २ स्त्री० । (९) राजमहल में जो युवती दूती है उसका एक नाम—असिकी १ स्त्री० । (१०) शिल्पकला निपुण स्त्री का एक नाम—सैरन्ध्री (सैरिन्ध्री) १ स्त्री० । (११) वेश्या के चार नाम—वेश्या १ वाराङ्गना २ रूपाजीव ३ गणिका ४ स्त्री० ।

सत्कृता वारमुख्यास्याद् शम्भली कुट्टनी समे ॥१७॥
 आत्रेयी मलिनी पुष्पवत्य वि ऋतुमत्यपि ।
 रजस्वला तथोदक्या स्त्री धर्मिण्या मथोर^१जः ॥१८॥
 पुष्पमार्तव मेतस्माद् श्रद्धालु दोहदार्थिनी ।
^२गर्भिण्यापन्न सत्त्वायामन्तर्वत्नी च गुर्विणी ॥१९॥
 निष्कला विगताऽऽर्ताया गणिकादेस्तु संहतौ ।
 गाणिक्यं गर्भिक तद्वद् यौवतं च नपुंसकम् ॥२०॥
 सौभागिनेय आख्यातः सुभगायाः परस्त्रियाः ।

(१) जिस गणिका को जनता सत्कार दे उसका एक नाम—वारमुख्या १ स्त्री० । (२) कुट्टनी के दो नाम—सम्भली (शम्भली) १ कुट्टनी २ स्त्री० । (३) रजस्वला के आठ नाम—आत्रेयी १ मलिनी २ पुष्पवती ३ अवि (अवी) ४ ऋतुमती ५ रजस्वला ६ उदक्या ७ स्त्रीधर्मिणी ८ स्त्री० । (४) स्त्री ऋतु के तीन नाम—रजस् १ पुष्प २ आर्तव ३ नपुं० । (५) सन्तानार्थिनी के दो नाम—श्रद्धालु १ दोहदार्थिनी २ स्त्री० । (६) गर्भवती के चार नाम—गर्भिणी १ आपन्नसत्त्वा २ अन्तर्वत्नी ३ गुर्विणी ४ स्त्री० । (७) जिसके ऋतुकाळ बोल गये उसके दो नाम—निष्कला १ विगतार्ता २ स्त्री० । (८) गणिका १ गर्भिणी ५ युवती ३ समूहों के पृथक् पृथक् एक एक नाम—गाणिक्य १ गार्भिक २ यौवत ३ नपुं० । (९) भाग्यवती के पुत्र का एक नाम—सौभागिनेय १ पुं० ।

पारस्त्रेण्य एवं य कानीनोऽनूढ कन्यका ॥२१॥

तस्याः सुतो विमातुस्तु वैमात्रेयः पितृष्वसुः ।

पैतृष्वस्त्रेय पैतृष्व स्त्रीयौ मातृष्वसुस्तथा ॥२२॥

भवेद्बान्धव्यकिनेयाऽपि कौलटेरश्च बन्धुलः ।

कौलटेय सुतेऽसत्या अपि चेद् भिक्षुकी सती ॥२३॥

तस्याः कौलटिनेयः स्यात्कौलटेयः स्वआत्मजः ।

आत्मजन्मा सुतः सुनुः पुत्रस्तनय आत्मजान् ॥२४॥

प्राहुर्दुहितं स्त्रीत्वे तौकाऽपत्ये तयोः समे ।

स्वस्माज्जातः सवर्णाया सुरे^०स्यः स्यात्तथोरसः ॥२५॥

- (१) परस्त्रो पुत्र का एक नाम—पारस्त्रेण्य १ पु० । (२) अनूढा कन्या के पुत्र का एक नाम—कानीन १ पु० । (३) अपरमाता के पुत्र का एक नाम—वैमात्रेय १ पु० । (४) पिता के भगिनो के पुत्र के दो नाम—पैतृष्वस्त्रेय १, पैतृष्वस्त्रोय २ पु० । (५) मासी के पुत्र के दो नाम—मातृष्वस्त्रेय १, मातृष्वस्त्रोय २ पु० । (६) कुलटा के पुत्र के चार नाम—बान्धवकिनेय १, कौलटेर २, बन्धुल ३, कौलटेय ४ पु० । (७) भिक्षुकी जो पतिव्रता हो उसके दो नाम—कौलटिनेय १, कौलटेय २ पु० । (८) पुत्र के पाच नाम—आत्मजन्मा (आत्मजन्मन्) १, सुत २, सुनु ३, पुत्र ४, तनय ५ पु० इनके स्त्रीलिङ्ग रूप में आत्मजा १, आत्मजन्मा २, सुता ३, सूनु ४, पुत्री ५, दुहिता ६, तनया ७ ए रूप होंगे । (९) पुत्र पुत्री दोनों के बोधक के दो नाम—तोक १, अपत्य २, नपु । (१०) अपने से सवर्णा स्त्री में हुए पुत्र के दो नाम—उरस्य १, औरस २ पु० ।

तातः पिता च जनके माता तु जननी प्रसूः ।

जनयित्री ननन्दा स्याद्भर्तुः स्वस्य तु या स्वसा ॥२६॥

भगिनी पुत्र पुत्री तु पौत्री नप्त्री सुता सुता ।

मातुली मातुलानो स्याद्भ्रातृजाया प्रजावती ॥२७॥

यातरो भ्रातृवर्गस्य भार्याः स्युस्तु परस्परम् ।

दम्पत्योर्जननीश्चश्रुं जनकः श्वशुरो मिथः ॥२८॥

पत्नीभ्राता भवेच्छयैलः स्वामिभ्राता तु देवरैः ।

स्यान्पितृव्यैः पितृभ्राता मातुरेप च मातुलैः ॥२९॥

- हिन्दो—(१) पिता के तीन नाम—नात १, पिता २, जनक ३ पु० । (२) माता के तीन नाम—जननी १, प्रसू २, जनयित्री ३ स्त्री० । (३) पति के भगिनी (बहन) का एक नाम—ननन्दा (ननान्दा, ननान्द) १ स्त्री० । (४) बहन के दो नाम—स्वसा (स्वसृ) १, भगिनी २ स्त्री० । (५) पुत्र के पुत्री का एक नाम—पौत्री १ स्त्री० । (६) लडकी के लडकी का एक नाम—नप्त्री १ स्त्री० । (७) मामा के पत्नी के दो नाम—मातुली १, मातुलानी २ स्त्री० । (८) भ्रातृपत्नी (भाभी) के दो नाम—भ्रातृजाया १, प्रजावती २ स्त्री० । (९) भ्रातृवर्गों की पत्नी एक दूसरे को 'याता (यातृ) कहती है स्त्री० । (१०) पति पत्नी के पत्नी पति के माता को 'श्वश्रु' कहते हैं स्त्री० । (११) पिता को 'श्वशुर' कहते हैं पु० । (१२) पत्नी के भाई का एक नाम—श्याल १ पु० । (१३) पति के छोटे भाई का एक नाम—देवर १ पु० । (१४) पिता के भाई का एक नाम—पितृव्य १ पु० । (१५) माता के भाई का एक नाम—मातुल १ पु० ।

जामाता कन्यका कान्तो भागिनेयः स्वसुः सुतः ।

मातामहो मातृतातः पितृतातः पितामहः ॥३०॥

प्रमातामह आख्यातः पिता मातामहस्य य ।

पिता पितामहस्य स्यात्प्रपितामह नामवान् ॥३१॥

उभयो पितरौवृद्ध विशेषणविशेषितौ ।

सर्नाभिस्तु सपिण्ड स्याद्वन्धु संघस्तु बन्धुता ॥३२॥

संगोत्रे बान्धवोवन्धु ज्ञाति स्व स्वजनोऽपि च ।

सहोदरे सगर्भ्य स्यात्सोदर्य सहजस्तथा ॥३३॥

(१) कन्या के पति का एक नाम—जामाता (जामातृ)

१ पु० । (२) बहन के पुत्र का एक नाम—भागिनेय १ पु० ।

(३) माता के पिता का एक नाम—मातामह १ पु० । (४) पिता

के पिता का एक नाम—पितामह १ पु० । (५) मातामह के पिता

का एक नाम—प्रमातामह १ पु० । (६) पितामह के पिता का

एक नाम—प्रपितामह १ पु० । (७) प्रमातामह के पिता का एक

नाम—वृद्धप्रमातामह १ पु० , प्रपितामह के पिता का एक

नाम—वृद्धप्रपितामह १ पु० । (८) सात पोढ़ों के मन्थवालों

के दो नाम--सनाभि १, सपिण्ड २ पु० । (९) बन्धुसमुदाय

का एक नाम- बन्धुता १ स्त्री० । (१०) समान गोत्र वालों

के छ नाम--सगोत्र १, बान्धव २, बन्धु ३, स्व ४, स्वजन ५,

ज्ञाति ६ स्त्री० । (११) सगे भाई के पाच नाम--सहोदर १,

सगर्भ्य २, सोदर्य ३, सहज ४ पु० ।

उपभर्तरिजार स्यात् पत्यौ भर्ता प्रियो धवः ।
 जारजो गोलक पत्यौ-मृते कुण्डस्तु जीविते ॥३४॥
 भ्रात्रीयो भ्रातृजो भ्रातृ-पुत्रे भ्रातृव्य इत्यपि ।
 जर्पती दंपती जाया-पती स्त्री पुरुषाबुभौ ॥३५॥
 गर्भाशयो जरायु द्वौ गर्भवेष्टन चर्मणः ।
 कुक्षिस्थस्य भवेद्भ्रूणो गर्भो वैजननस्तु यः ॥३६॥
 स्रुतिमासस्त्वृतीयस्तु शण्डैः क्लीबो नपुंसकः ।
 प्रकृति स्थैविर वृद्ध संघोऽपि स्याच्च वार्धकम् ॥३७॥

- (१) जार के दो नाम- उपभत्ता (उपपति) १, जार २ पु० ।
 (२) पति के चार नाम--पति १, भर्ता (भर्तृ) २, प्रिय ३, धव ४ पु० । (३) पतिके मर जाने पर जारज पुत्र का एक नाम--गोलक १ पु० । (४) पति के सत्ता में जारज पुत्र को 'कुण्ड' कहते हैं पु० । (५) भाई के पुत्र के चार नाम- भ्रात्रीय १, भ्रातृज २, भ्रातृपुत्र ३, भ्रातृव्य ४ पु० । (६) जोड़े स्त्री पुरुष के तीन नाम--जर्पती १, दंपती २ जायापती ३ पु० । (७) गर्भ-वेष्टन चर्मकोथलो के दो नाम--गर्भाशय १ जरायु २ पु० । (८) गर्भ के दो नाम--भ्रूण १ गर्भ २ पु० । (९) प्रसव महिने का एक नाम--वैजनन १ पु० । (१०) नपुंसक के तीन नाम--शण्ड (शण्ड, षण्ड) १ क्लीब २ नपुंसक ३ पुं० । (११) वृद्धों के भाव तथा कर्म के दो नाम--स्थाविर १ वार्धक २ नपुं, वार्धक शब्द का प्रयोग वृद्ध संघ में भी होता है ।

शिरोजातस्य पलितं शुक्लता विस्रसा जरा ।
 डिम्भोत्तानशया बाला स्तनपाऽपि स्तनन्धयी ॥३८॥
 बाले माणवकोहार भेदे कुपुरुषेऽपि च ।
 स्थविरे प्रवया वृद्धो वयःस्थे तरुणो युवा ॥३९॥
 अतिवृद्धे द्वयोज्यायान् ज्येष्ठेस्त पूर्वजाऽग्रजौ ।
 यविष्ठश्च कनिष्ठश्च जघन्येऽवरजाऽनुजौ ॥४०॥
 वलिनी वलिभद्रश्च जरसाश्लथ चर्मणि ।
 सुकेशो केशिकः केशी ह्रस्वै खर्वौ तु वामनः ॥४१॥

- (१) शिर के बाल पक जाने का एक नाम—पलित १ नपु० ।
 (२) वृद्धावस्था के दो नाम—विस्रसा १ जरा २ स्त्री० । (३)
 बालक के पाच नाम—डिम्भ १ उत्तानशय २ बाल ३ स्तनप ४
 स्तनन्धयी ५ पुं० । (४) बाल अर्थ में 'माणवक' शब्द का प्रयोग
 होता है, हारभेद मे तथा 'कुपुरुष' मे भी पु० । (५) वृद्ध के
 तीन नाम—स्थविर १ प्रवया (प्रवयस्) २ वृद्ध (जीनजरन् जीर्ण)
 ३ पुं० । (६) युवा पुरुष के तीन नाम—वयस्थ १ तरुण २
 युवा(युवन्) ३ पुं० । (७) अतिवृद्ध तथा ज्येष्ठ अर्थ में 'ज्यायान्'
 होता है पु० । (८) ज्येष्ठ अर्थ मे 'पूर्वज, अग्रज' का
 प्रयोग होता है पु० । (९) छोटे भाई के चार नाम—यविष्ठ १
 कनिष्ठ २ अवरज ३ अनुज ४ पु० । (१०) वृद्धावस्था के कारण
 सकुचित चमड़े के दो नाम—वलिनी १ वलिभद्र २ पु० । (११)
 सुन्दर केशवालो के तीन नाम—सुकेश १ केशिक २ केशी (केजिन्)
 ३ पु० । (१२) वामन के तीन नाम—ह्रस्व १ खर्व २ वामन
 ३ पु० ।

अवभ्रटोऽवटीटोऽवनाटो यो नतनासिकः ।

न्यूनाङ्गे स्यादपोगण्डः खरैणा स्त्रीक्षणनासिकः ॥४२॥

दुबलाऽमासलौ तुलयौ बलिन्यंसत्रमासलौ ।

सञ्जुः सइतजानुः स्यात्प्रञ्जु रिरञ्जानुक. ॥४३॥

स्यात्कृतनासिका विग्रः खुरैणाः स्थूञ्जनासिकः ।

एकैक्षे कननः काणः केकरो बलिरस्तथा ॥४४॥

स्यादेडेो वधिरे कुब्जे न्युब्जो गडुल इत्युभौ ।

रोगाद्यै रूषिते हस्ते कुणि मुण्डेस्तु मुण्डिते ॥४५॥

(१) चिपटी नाकवालों के चार नाम—अवभ्रट १ अवटीट—

२ अवनाट ६ नतनासिक ४ पु० । (२) स्वाभाविक न्यूनाधिक

अङ्गवालो का एक नाम—अपोगण्ड (पोगण्ड, विकलाङ्ग) १

पु० । (३) तीखा नाकवाले का एक नाम—खरण (खरणसू)

१ पु० । (४) दुबले के दो नाम—दुबल १ अमासल २ पु० ।

(५) बलवान् के दो नाम—असल १ मासल २ पु० । (६) सटी

हुई जंघावालो के एक नाम—सञ्जु १ पु० । (७) अलग २

जंघावाले के एक नाम—प्रञ्जु १ पु० । (८) कटी नाकवाले

का एक नाम—विग्र १ पु० । (९) मोटी नाकवाले का एक

नाम—बुग्णा (खुग्णा) १ पु० । (१०) एक आखवाले के पांच

नाम—एकैक्ष १ कनन २ काण ३ केकर ४ बलिर ५ पु० ।

(११) बहेरे के दो नाम—एड १ वधिरे २ पु० । (१२) कुब्जे

के तीन नाम—कुब्ज १ न्युब्ज २ गडुल ३ पु० । (१३) रोगादि

से जनक हाथ विगडे है एक नाम—कुणि १ पु० । (१४) खण्डित

केजवाले का एक नाम—मुण्ड १ पु० ।

शिरोजातस्य पलितं शुक्लता विस्रसा जरा ।
 डिम्भोत्तानशया बाला स्तनपाऽपि स्तनन्धयी ॥३८॥
 बाले माणवकोहार भेदे कुपुरुषेऽपि च ।
 स्थविरे प्रवया वृद्धो वयस्ये तरुणो युवा ॥३९॥
 अतिवृद्धे द्वयोज्यायान् ज्येष्ठेस्त पूर्वजाऽग्रजौ ।
 यविष्ठश्च कनिष्ठश्च जघन्येऽवरजाऽनुजौ ॥४०॥
 वलिनी वलिभद्रश्च जरसाश्लथ चर्मणि ।
 सुकेशो केशिकः केशी ह्रस्व खर्वौ तु वामनः ॥४१॥

- (१) शिर के बाल पक जाने का एक नाम—पलित १ नपु० ।
 (२) वृद्धावस्था के दो नाम—विस्रसा १ जरा २ स्त्री० । (३) बालक के पांच नाम—डिम्भ १ उत्तानशय २ बाल ३ स्तनप ४ स्तनन्धयी ५ पुं० । (४) बाल अर्थ में 'माणवक' शब्द का प्रयोग होता है, हारभेद में तथा 'कुपुरुष' में भी पु० । (५) वृद्ध के तीन नाम—स्थविर १ प्रवया (प्रवयस्) २ वृद्ध (जीनजरन् जीर्ण) ३ पुं० । (६) युवा पुरुष के तीन नाम—वयस्थ १ तरुण २ युवा(युवन्) ३ पुं० । (७) अतिवृद्ध तथा ज्येष्ठ अर्थ में 'ज्यायान्' होता है पु० । (८) ज्येष्ठ अर्थ में 'पूर्वज, अग्रज' का प्रयोग होता है पु० । (९) छोटे भाई के चार नाम—यविष्ठ १ कनिष्ठ २ अवरज ३ अनुज ४ पु० । (१०) वृद्धावस्था के कारण सकुचित चमड़े के दो नाम—वलिनी १ वलिभद्र २ पु० । (११) सुन्दर केगवालो के तीन नाम—सुकेश १ केशिक २ केशी (केशिन्) ३ पु० । (१२) वामन के तीन नाम—ह्रस्व १ खर्व २ वामन ३ पु० ।

अवभ्रटोऽवटीटोऽवनाटो यो नतनासिकः ।

न्यूनाङ्गे स्यादपोगण्डः खुरैणा स्तीक्ष्णनासिकः ॥४२॥

दुर्वलाऽमासलौ तुल्यौ बलिन्यंसञ्जमासत्रौ ।

सञ्जुः सङ्गतजानुः स्यात्प्रञ्जु विरञ्जानुक. ॥४३॥

स्यात्कृतनासिका विप्रः खुरैणाः स्थूञ्जनासिकः ।

एकैक्षे कननः काणः केकरो बलिरस्तथा ॥४४॥

स्यादेडो वधिरं कुब्जे न्युब्जो गडुल इत्युभौ ।

रोगाद्यैर्दूषिते हस्ते कुणि मुण्डेस्तु मुण्डिते ॥४५॥

(१) चिपटी नाकवालों के चार नाम—अवभ्रट १ अवटीट-

२ अवनाट ६ नतनासिक ४ पु० । (२) स्वाभाविक न्यूनाधिक

अङ्गवालो का एक नाम—अपोगण्ड (पोगण्ड, विकलाङ्ग) १

पु० । (३) तोखा नाकवाले का एक नाम—खरण (खरणसू)

१ पु० । (४) दुबळे के दो नाम—दुर्वल १ अमांसल २ पु० ।

(५) बलवान् के दो नाम—असल १ मासल २ पु० । (६) सटी

हुई जंघावालो के एक नाम—सञ्जु १ पु० । (७) अञ्ज २

जंघावाले के एक नाम—प्रञ्जु १ पु० । (८) कटी नाकवाले

का एक नाम—विप्र १ पु० । (९) मोटी नाकवाले का एक

नाम—खुरैणा (खुरण) १ पु० । (१०) एक आखवाले के पांच

नाम—एकैक्ष १ कनन २ काण ३ केकर ४ बलिर ५ पु० ।

(११) बहेरे के दो नाम—एड १ वधिर २ पु० । (१२) कुब्जे

के तीन नाम—कुब्ज १ न्युब्ज २ गडुल ३ पु० । (१३) रोगादि

से जनक हाथ विगडे है एक नाम—कुणि १ पु० । (१४) खण्डित

केशवाले का एक नाम—मुण्ड १ पु० ।

स्वाता खण्डग खोष्णा वृध्वन्तुस्तूर्ध्वजानुके ।
 पङ्गुः श्रोणश्च निर्जङ्घे त्रिष्वेते पल्कितात्परे ॥४६॥
 देहोऽस्त्री दिग्रहःकायः पुंसि मूर्तिस्तनुः स्त्रियाच् ।
 शरीर वर्ष्म गात्राणि वपुः क्लीब कलेवरम् ॥४७॥
 समाः परिणयोद्वाह विवाहोपयमास्तथा ।
 पाणीपीडनमानन्दपटस्तूढारुवरे नवे ॥४८॥
 'छत्रामपिः स्त्री मौलित्रे स्याद्वरः परिणेतारि ।
 ज्येष्ठेऽनूढे कृतोद्वाहः परिवेत्ताऽनुजः स्मृतः ॥४९॥

(१) अकड गये याँव वाले के तीन नाम—खञ्ज ?

शरीर २ खोण ३ पु० । (२) ऊँची जङ्घावाले का एक नाम—ऊर्ध्व
 त्रि(ऊर्ध्वजानुक) ? पु० । (३) वृद्धावस्था के बिना जङ्घाहीनके
 तीन नाम—पङ्गु १ श्रोण २ निर्जङ्घ ३ त्रिलिङ्ग । (४) शरीर के
 दश नाम—देह १ पु० नपुं०, दिग्रह २ काय ३ पु०, मूर्ति ४
 तनु (तनु) ५ स्त्री०, शरीर ६ वर्ष्म ७ गात्र ८ वपु ९ (वपुः)
 कलेवर १० नपुं० । (५) विवाह के पाच नाम—परिणय १ उद्वाह
 २ विवाह ३ उपयम ४ पाणोपटन ५ नपुं० । (६) वैवाहिक वस्त्र
 का एक नाम—आनन्दपट १ पु० । (७) वरराजा के मौर के दो
 नाम—छत्रामपि १ स्त्री० मौलित्र २ नपुं० । (८) परिणेतार के दो
 नाम—पर १ परिजेता (परिजेतु) २ पु० । (९) ज्येष्ठ नाम यदि
 कर्त्तव्य वृत्तै दुष्ट दयि छोटे रुद्र विवाहित हो तो उत्त छोटे नाम
 का नाम—परिवेत्ता (परिवेत्तु) १ स्त्री० ।

तज्ज्येष्ठः 'परिवृत्तिः स्याद् व्यवायः पुसि मैथुनम् ।
 तिलकस्तिलचिन्हे स्याज्जङ्गुले पिप्लु कालकौ ॥५०
 चिकित्सा रुग्प्रतीकारः आरोग्याऽनामये समे ।
 औषध भेषज क्रिञ्च भैषज्य मगद पुमान् ॥५१॥
 व्याध्यामयगदाः रोगो-पनापी रुग्जा स्त्रियाम् ।
 यक्ष्मा शोषः क्षत्रो राज-रोगाः स्त्रीक्षुत् क्षत्रः क्षुतम् ॥
 पीनसः स्यात्प्रतिश्यायः पादस्कोटे त्रिपादिका ।

(१) छोटे विवाहित हो वड़े भाइ के रहते हुए तो वड़े भाइ का नाम-परिवृत्ति १पु (२) मैथुन के दो नाम व्यवाय १ पु मैथुन २ नपुं (३) जरीर में तिल जैसी कालिका का एक नाम तिलक १ पु (४) जरीर शामिका (लहसन) के तीन नाम जङ्गु १ पिप्लु २ कालक ३ पु. । (५) रोग-निवारण प्रक्रिया के दो नाम-चिकित्सा १ स्त्री०, रक्तीप्रकार २ नपुं । (६) नोरोगिता के दो नाम-आरोग्य १, अनामय २ नपुं० । (७) औषध १, भेषज २, भैषज्य ३ नपुं०, अगद ४ पु० । (८) रोग के सात नाम-व्याधि १, आमय २, गद ३, रोग ४, उन्माप ५ पु०, रूग् (रुजू) ६, रुजा ७ स्त्री० । (९) राजरोग के तीन नाम-यक्ष्मा १ (यक्ष्मन्), शोष २, क्षत्र ३, पु० । (१०) छिन्ना के तीन नाम-क्षुत् १ स्त्री०, क्षत्र २ पु०, क्षुत् २ वयुं० । (११) नासा रोग के दो नाम-पीनस १, प्रतिश्याय २ पु० । (१२) चरम (दौरो) के क्रियारे का फटना उम के दो नाम-पादस्कोट १ पु०, त्रिपादिका २ स्त्री० ।

खर्जूः कण्डूश्च कण्डूया शोफं शोथौ समावुभौ ॥५३॥
 पुसि स्यात्क्ष्वैथुः कासः कच्छू पामा विचर्चिका ।
 पिटकश्चापि विस्फोट स्त्रिषु सिध्मं क्लिलासकम् ॥५४॥
 त्वक्पुष्पी श्वित्रकुष्ठे द्वे कोठो मण्डलकं पृथक् ।
 त्रेणोऽस्त्री-र्म-मरुः क्लीब मथैनाडीव्रणः पुमान् ॥५५॥
 वमिः प्रच्छदिकावन्ति-मूत्रकृच्छेऽश्मरी स्त्रियाम् ।
 मूत्राघाते निबन्धो नाग्रहणीतु प्रवाहिका ॥५६॥
 सालित्य रोगे शैशघ्न स्तार्पैरोगे ज्वरः पुमान् ।

(१) खुजलाहट के तीन नाम—खर्जू १, कण्डू २, कण्डूया ३ स्त्री० । (२) शोथ रोग के दो नाम—शोफ १, शोथ २ पु० । (३) कास रोग के दो नाम—क्ष्वथु १, कास २ पु० । (४) खुजली अथवा दिनाय के तीन नाम—कच्छू १, पामा २, विचर्चिका २ स्त्री० । (५) फोडा के दो नाम—पिटक १, विस्फोट २ त्रिलिङ्ग । (६) सिड्हुली के तीन नाम—सिध्म १, क्लिलासक २ नपु०, त्वक्पुष्पी ३ स्त्री० । (७) श्वेत कुष्ठ के दो नाम—श्वित्र १, कुष्ठ २ नपु० । (८) मण्डलाकृति कोद के दो नाम—कोठ १ पु०, मण्डलक २ नपु० । (९) व्रण के तीन नाम—व्रण १ पु० नपु, ईर्म २ अरुप् ३ नपु० । (१०) जिससे विकार प्रवाहित हो उस व्रण को 'नाडीव्रण' कहते हैं पु० । (११) वमन होने के तीन नाम—वमि १, प्रच्छदिका २, वान्ति ३ स्त्री० । (१२) बहुमूत्र के दो नाम—मूत्रकृच्छ १ नपु, अश्मरी २ स्त्री० । (१३) मूत्राघात के दो नाम—मूत्राघात १ निबन्ध २ पु० । (१४) सग्रहणी के दो नाम—ग्रहणी १, प्रवाहिका २ स्त्री० । (१५) सालित्यरोग जिससे बाल उड़ जाते हैं उसके दो नाम—सालित्य १, केशन्न २ पु० । (१६) ज्वर के दो नाम—ताप १, ज्वर २ पु० ।

प्रमेहे स्यु मूर्त्रमेह मधुमेहादयो मित्राः ॥५७॥
 अर्गो दुर्नामक क्लीवं महामार्या विमूत्रिका ।
 भगन्दरादयोऽप्येवं व्याधिभेदा उदाहृताः ॥५८॥
 आतुरो व्याधितो रोगी स्यादुल्लाघस्तु निर्गदः ।
 भिषग् वघ्याऽगदकार रोगहारि चिकित्सकाः ॥५९॥
 चिल्लो विल्लश्च पिल्लश्च क्लिन्ने नेत्रे च तद्वति ।
 अतिसारोऽप्यतीसारी वातरोगी तु वातकी ॥६०॥
 अन्धो नेत्रविहीनः स्यादुन्मत्तोन्मादिनौ समौ ।

(१) प्रमेह के दो नाम—मूर्त्रमेह १, मधुमेह २ पु० ।

(२) ममा के दो नाम—अर्गम् १, दुर्नामक २ नपु । (३)

महामारी के दो नाम—महामारा १, विमूत्रिका २ स्त्री० । (४)

रोग विशेष के एक नाम—भगन्दर १ पु० । (५) रोगी के

तीन नाम—आतुर १, व्याधित २, रोगी (रोगिन्) ३ पु० ।

(६) रोग निर्मुक्त हाने के दो नाम—उल्लाघ १, निर्गद २ पु० ।

(७) वैद्य के पाच नाम—भिषक् (भिषजू) १, वैद्य २, अगदकार ३,

रोगहारी (रोगहारिन्) ४, चिकित्सक ५ पु० । (८) पानी भरे

हुए नेत्र के और ऐसे नेत्रवालो के तीन नाम—चिल्ल १, विल्ल २,

पिल्ल ३ पु० । (९) दस्त रोग रोगी का एक नाम—अतिसार

अतोसारी (अतासारिन्) पु० । (१०) वात रोग रोगीका एक

नाम—वातकी (वातकीन्) १ पु० । (११) नेत्रहीन के दो नाम—

अन्ध १, नेत्रविहीन २ पु० । (१२) पागल के दो नाम—उन्मत्त

१, उन्मादी (उन्मादिन्) २ पु० ।

मूच्छलो मूर्च्छिते न्युब्जो भुग्ने शोषिणि तु क्षयी ॥६१॥
 खल्व्वाटे खलतिव्याधे वृद्धनाभौ च तुन्दिलः ।
 श्लेष्मा कफः श्लेष्मलस्तु श्लेष्मणः कफिनि स्मृतः ॥६२॥
 सकुष्ठ कुष्ठिनौ तुलयौ त्रिलिङ्गा मातुरादयः ।
 दद्रुणोऽसृग्धरा चर्म तरल पिशिताऽमिषे ॥६३॥
 मास क्रव्य च पललं शोणिते रुधिराऽसृजौ ।
 क्षतज लोहित रक्त मस्र मश्रुणि लोहिते ॥६४॥

(१) मूर्च्छित के दो नाम—मूर्च्छल १, मूर्च्छित २ पु०
 (२) रोग से कुबड हुए के दो नाम—न्युब्ज (कुब्ज) १, भुग्न २ पु० । (३) क्षयरोगी के दो नाम—शोषी १, क्षय (इन्) २ पु० । (४) जिनके शिर से बिना रोग के बाल उड गये है उनके दो नाम—खलवाट १ पु०, खलति २ स्त्री० । (५) बड़े पेट वाले के एक नाम—तुन्दिल १ पु० । (६) कफ के दो नाम—श्लेष्मा (श्लेष्मन्) १, कफ २ पु० । (७) कफवाले के तीन नाम—श्लेष्मल १, श्लेष्मण २, कफी (कफिन्) ३ पु० । (८) कुष्ठ-रोगी के दो नाम—सकुष्ठ १, कुष्ठी (कुष्ठिन) २ पु० । आतुरादि त्रिलिङ्ग हैं (९) रोग विशेष (दिनाय) वाले का एक नाम—दद्रुण १ पु० । (१०) चमडे के दो नाम—असृग्धरा १ स्त्री०, चर्म (चर्मन्) २ नपु० । (११) मास के छ नाम—तरल १, पिशित २, आमिष ३, मास ४, क्रव्य ५, पलल ६ नपु० । (१२) शोणित के सात नाम—शोणित १, रुधिर २, असृक् (असृज्) ३, क्षतज ४, लोहित ५, रक्त ५, अम्र ७ नपु० 'अम्र' अश्रु लोहित अर्थ

बुक्काऽग्रमास स्त्री गुल्मः प्लोहामेदो^३ वसात्रया ।
 मायुः पुंसि भवेत्पित्तं स्नायुस्तु वस्नसा स्त्रियाम् ॥६५॥
 कालखण्डं यकृतक्लीवे तिलकं क्लोम फुफ्फुसे ।
 गोर्दं गोर्दं च मस्तिष्कं क्लीवे किंष्ट्रे मलोऽस्त्रियाम् ॥६६॥
 क्लीवे पुंरी तदन्त्रे च लौला तु स्यन्दिनी स्त्रियाम् ।
 स्यात्पिण्डजैषुं श्रोत्रमल सिंघाणं नासिकामलम् ॥६७॥
 दूषिकां स्त्रीनेत्रमल कुंलय कीकसमस्थिनि ।

(१) हृदय के बीच के मास के दो नाम-बुक्का १
 स्त्री०, अग्रमास २ नपु पु० । (२) प्लोहा के दो नाम-गुल्म
 १, प्लोहा (प्लोहन) २ पु० । (३) चरबी के तीन नाम-मेद
 (अकारान्त) १ पु०, वसा २, वपा ३, स्ना सान्त मेदस् नपु० ।
 (४) पित्त के दो नाम-मायु १ पु०, पित्त २ नपु ।
 (५) अङ्ग प्रत्यङ्ग सन्धि बन्धन के दो नाम-स्नायु १, वस्नसा २
 स्त्री० । (६) यकृत (पकाशय) के दो नाम-कालखण्ड १, यकृत
 २ नपु० । (७) हृदय के अन्तर्गत अल काथली के तीन नाम-
 तिलक १, क्लोम २, फुफ्फुम ३ नपु० । (८) मस्तिष्क के तीन
 नाम-गोर्द १ गोर्दं २ मस्तिष्क ३ नपु । (९) मल के दो नाम-
 किंष्ट्र १ नपु मल २ पु नपु० । (१०) आत के दो नाम-पुरीतत्
 १, अन्त्र २ नपु । (११) लार के दो नाम-लौला १, स्यन्दिनी
 २ स्त्री० । (१२) कान में जो मल हो उसके दो नाम-पिञ्जुष १,
 श्रोत्रमल २ नपु । (१३) नासा मल के दो नाम-सिंघाण १,
 नासिकामल २ नपु । (१४) नेत्रमल के दो नाम-दूषिका १ स्त्री,
 नेत्रमल २ पु० । (१५) अस्थिमात्र के तीन नाम-कुंलय १, कीकस
 २, अस्थि ३ नपु० ।

प्रस्रावः पु सि मूत्रस्याद् रेचनं तु विरेचने ॥६८॥

उच्चारणवस्करौ पुसि गूथं च शमलं शकृत् ।

विष्ठा विट् च स्त्रियामेव वर्चस्कं न स्त्रिया क्वचित् ॥६९॥

कङ्कालः पुसि कायाऽस्थि पृष्ठाऽस्थि स्त्री कसेरुका ।

स्यात्पर्शुका स्त्री पार्श्वस्थि कॅरोटिः स्त्री शिरोऽस्थि ॥७०॥

हृदये शीर्ष शिरोमूर्ध-मौली पुस्यस्त्रि मस्तकम् ।

चक्षु रक्षोक्षण नेत्र नयन लोचन समम् ॥७१॥

दृग् दृष्टिश्च स्त्रिया हृदये श्रौत्र तु श्रवण श्रवः ।

(१) मूत्र के दो नाम-प्रस्राव १ पु०, मूत्र (नृजल) २ नपु ।

(२) जुलाव के दो नाम--रेचन १, विरेचन २ नपु । (३)

विष्ठा के आठ नाम-उच्चार १, अवस्कार २ पु०, गूथ ३,

शमल ४, शकृत् ५ नपु, विष्ठा ६, विट् (विष् विश) ७ स्त्री०,

वर्चस्क ८ पु० नपु । (४) चमडा मांस आदि से रहित शरीर

के समस्त अस्थि सघ के दो नाम--कङ्काल १ पु०, कायास्थि

२ नपु । (५) पीठ के हड्डी के दो नाम--पृष्ठास्थि १ नपु ,

कसेरुका २ स्त्री० । (६) पार्श्व के हड्डी के दो नाम--पर्शुका

१ स्त्री०, पार्श्वस्थि २ नपु० । (७) माथे के हड्डी के दो

नाम--करोटि १ स्त्री०, शिरोस्थि २ नपु । (८) शिर के

पाच नाम-शीर्ष १, शिरस् २ नपु०, मूर्धन ३, मौली ४ पु०,

मस्तक ५ पु० नपु० । (९) नेत्र के आठ नाम--चक्षुषू

१, अक्षि २, ईक्षण ३, नेत्र ४, नयन ५, लोचन ६, नपु०,

दृग् (दृश्) ७, दृष्टि ८ स्त्री० । (१०) कान के छ नाम--श्रौत्र

१, श्रवण २, श्रवस् ३ नपु०, शब्दग्रह ४, कर्ण ५ पु०,

श्रुति ६ स्त्री० ।

पुसि शब्दग्रहः कर्णः श्रुतिः स्त्रीलिङ्गमुच्यते ॥७२॥

कटाक्षोऽपाङ्गवेष्टाया नेत्रान्तोऽपाङ्ग उच्यते ।

तारकाऽक्षः कृष्णगोले भ्रूमध्यं कूर्चमस्त्रियाम् ॥७३॥

भ्रूः स्त्रिया चक्षुषो रूद्ध्वं मोष्ठान्ते सृक्कि सृक्णी ।

गण्डः कपोलः पुष्टयोष्ठे त्वधरोरदनच्छदः ॥७४॥

ओष्ठात्पर स्याच्चिबुकं कपोलस्तु हनुः स्त्रियाम् ।

क्लीवमास्थ्यं मुखं तुण्ड वदनं वक्त्र माननम् ॥७५॥

जभौ जृभा स्त्रिया जृम्भःपुं सि क्लीवे तु जृंभणम् ।

जिह्वा रसज्ञा रसना समे काकुद तालुनी ॥७६॥

- (१) इसारे का एक नाम—कटाक्ष १ पु० । (२) नेत्रान्त का एक नाम—अपाङ्ग १ पु० । (३) कनोनिका का एक नाम—तारका स्त्री० । (४) भौहो के सधि (मध्य) का एक नाम—कूर्च १ पु० नपु० । (५) नेत्रो से ऊपर घनुषाकार लोमराजिका—एक नाम—भ्रू १ स्त्री० । (६) ओष्ठ के अन्त के दो नाम—सृक्कि १, सृक्कन् २ नपु० । ७ कपोल के दो नाम—गण्ड १ कपोल २ पु० । (८) अध ओष्ठ के तीन नाम—ओष्ठ १ अधर २ रदनच्छद ३ पु० । (९) अधरोष्ठ के नीचे भाग (टुइडी) के दो नाम—चिबुक १ नपुं० हनु २ स्त्री० । (१०) मुख के छ नाम—आस्थ्य १ मुख २ तुण्ड ३ वदन ४ वक्त्र ५ मानन ६ नपुं० । (११) जंभाई के चार नाम—जभा १ जृभा २ स्त्री, जृम्भ ३ पु०, जृंभण ४ नपु० । (१२) जिह्वा के तीन नाम—जिह्वा १ रसज्ञा २ रसना ३ स्त्री० । (१३) तालु के दो नाम—काकुद १ तालु २ नपुं० ।

ललाटमलिकं भालं घ्राणं घोणाऽपि नासिका ।
 ग्रीवाऽग्रोगलकण्ठौ च ग्रीवात् कन्धरा स्त्रियाम् ॥७७॥
 कृकाटिकाऽवटुर्घाटा गलवृद्धिर्गडुः पुमान् ।
 प्रसृतिः स्त्रीकरेकुब्जे युक्तयोर्नाऽब्जलिस्तयोः ॥७८॥
 पाणिः शयः करः पुंसि तच्छाखा त्वङ्गुलिः स्त्रियाम् ।
 पुस्यङ्गुलिस्तर्जनी स्त्री सैव ख्याता प्रदेशिनी ॥७९॥
 मध्यमाऽनामिका किञ्च कनिष्ठेति क्रमादसौ ।
 हस्ताघातश्चपेटा स्त्री करं द्विः करतालिका ॥८०॥

- (१) ललाट के तीन नाम—ललाट १ अलिक २ भाल ३ नपु० । (२) नाक के तीन नाम—घ्राण १ नपु०, घोणा २ नासिका (नासा) ३ स्त्री० । (३) कण्ठ के दो नाम—गल १ कण्ठ २ पु० । (४) गर्दन के दो नाम—ग्रीवा १ कन्धरा २ स्त्री० । (५) कण्ठ के उन्नत प्रदेश के तीन नाम—कृकाटिका १ अवटु १ घाटा ३ स्त्री० । (६) गलवृद्धि के दो नाम—गलवृद्धि १ स्त्री०, गडु २ पु० । (७) हाथ को सकुचित करने का एक नाम—प्रसृति १ स्त्री० । (८) दोनों हाथों को सकुचित करने का एक नाम—अब्जलि १ पु० । (९) हाथ के तीन नाम—पाणि १ शय २ कर ३ पु० । (१०) अंगुलि का एक नाम—अङ्गुलि (अङ्गुली) १ स्त्री० । (११) अगूठे का एक नाम—अङ्गुष्ठ १ पु० । (१२) दूसरी अंगुली के दो नाम—तर्जनी १ प्रदेशिनी २ स्त्री० । (१३) तीसरी का एक नाम—मध्यमा १ स्त्री० । (१४) चौथी का एक नाम—अनामिका १ स्त्री० । (१५) पाचवीं का एक नाम—कनिष्ठिका १ स्त्री० । (१६) हस्ताघात का एक नाम—चपेटा १ स्त्री० । (१७) चुटकी के दो नाम—करद्वि १ करतालिका २ स्त्री० ।

कफोणिः ' कूर्परस्तुल्यः प्रगण्डैः कूर्परोपरि ।

'प्रकोष्ठ रतदधः पुंसि भुज्जवाहु द्वयोः समौ ॥८१॥

मै-योऽस्त्री मध्यम क्लीवं पृष्ठं स्यात्कायपार्श्वम् ।

पुंसि कक्षो बाहुमूलं तदधः पार्श्वमस्त्रियाम् ॥८२॥

असं स्कन्धौ समौ तस्य सैन्धिर्जत्रु नपुंसकम् ।

स्त्री नपुंसकयोः क्रोडैः मुरो वक्षो भुजान्तरे ॥८३॥

स्तनाग्रः चूचुकं न स्त्री वक्षोर्जैस्तु कुचः स्तनः ।

कुक्षिः पुंस्युदर तुन्दं क्लीव जठरमस्त्रियाम् ॥८४॥

(१) कूणी के दो नाम—कफोणि १ कूर्पर २ पु० । (२) कूणी से ऊपर का एक नाम—प्रगण्ड १ पु० । (३) कूणी से नीचे सधि का एक नाम—प्रकोष्ठ १ पु० । (४) भुजा के दो नाम—भुज १ बाहु २ पु० स्त्री० । (५) शरीर के मध्यदेश के दो नाम—मध्य १ पु० नपु० मध्यम २ नपु० । (६) पृष्ठ के दो नाम—पृष्ठ १ कायपार्श्वम २ नपु० । (७) काख के दो नाम—कक्ष १ पु०, बाहुमूल २ नपु० । (८) पार्श्व (बागल) के एक नाम—पार्श्व १ पु० नपु० । (९) कन्धे के दो नाम—अस १ स्कन्ध २ पु० । (१०) शरीर सधि स्थान के दो नाम—सन्धि १ पु०, जत्रु २, नपु० । (११) गीद का एक नाम—क्रोड १ स्त्री० नपु० । (१२) छाता के दो नाम—उरस् १ वक्षस् २ नपु० । (१३) स्तन के अग्रभाग के दो नाम—स्तनाग्र १ पु०, चूचुक २ पुन० पु० । (१४) स्तन के तीन नाम—वक्षोज १ कुच २ स्तन ३ पु० । (१५) पेट के चार नाम—कुक्षि १ पु०, उदर २ तुन्द ३ नपु०, जठर ४ पु० नपु० ।

ललाटमलिकं भालं घ्राणं घोणाऽपि नासिका ।
 ग्रीवाऽग्नोगलकण्ठौ च ग्रीवात् कन्धरा स्त्रियाम् ॥७७॥
 कृकाटिकाऽवदुर्घाटा गलवृद्धिर्गडुः पुमान् ।
 प्रसृतिः स्त्रीकरेकुब्जे युक्तयोर्नाऽब्जलिस्तयोः ॥७८॥
 पाणिः शयः करः पुंसि तच्छाखा त्वङ्गुलिः स्त्रियाम् ।
 पुस्यैङ्गुष्ठस्तर्जनी स्त्री सैव ख्याता प्रदेशिनी ॥७९॥
 मध्यमाऽनामिका किञ्च कनिष्ठेति क्रमादसौ ।
 हस्ताघातश्चपेटा स्त्री करं द्विः करतालिका ॥८०॥

- (१) ललाट के तीन नाम—ललाट १ अलिक २ भाल ३ नपु० । (२) नाक के तीन नाम—घ्राण १ नपु०, घोणा २ नासिका (नासा) ३ स्त्री० । (३) कठ के दो नाम—गल १ कण्ठ २ पु० । (४) गर्दन के दो नाम—ग्रीवा १ कन्धरा २ स्त्री० । (५) कण्ठ के उन्नत प्रदेश के तीन नाम—कृकाटिका १ अवदु १ घाटा ३ स्त्री० । (६) गलवृद्धि के दो नाम—गलवृद्धि १ स्त्री०, गडु २ पु० । (७) हाथ को सकुचित करने का एक नाम—प्रसृति १ स्त्री० । (८) दोनों हाथों को सकुचित करने का एक नाम—अब्जलि १ पु० । (९) हाथ के तीन नाम—पाणि १ शय २ कर ३ पु० । (१०) अंगुलि का एक नाम—अङ्गुलि (अङ्गुली) १ स्त्री० । (११) अगूठ का एक नाम—अङ्गुष्ठ १ पु० । (१२) दूसरी अंगुली के दो नाम—तर्जनी १ प्रदेशिनी २ स्त्री० । (१३) तीसरी का एक नाम—मध्यमा १ स्त्री० । (१४) चौथी का एक नाम—अनामिका १ स्त्री० । (१५) पाचवीं का एक नाम—कनिष्ठिका १ स्त्री० । (१६) हस्ताघात का एक नाम—चपेटा १ स्त्री० । (१७) चुटकी के दो नाम—करद्वि १ करतालिका २ स्त्री० ।

कफोणिः ' कूर्परस्तुल्यः प्रगण्डैः कूर्परगेपरि ।

प्रकोष्ठ रतदधः पुंसि भुर्जवाहु द्वयोः समौ ॥८१॥

मैव्योऽस्त्री मध्यम क्लीवं पृष्ठं स्यात्कायपश्चिमम् ।

पुंसि कक्षो बाहुमूलं तदधः पार्श्वमस्त्रियाम् ॥८२॥

असं स्कन्धौ समौ तस्य सन्धिर्जत्रु नपुंसकम् ।

स्त्री नपुंसकयोः क्रोडं सुरो वक्षो भुजान्तरे ॥८३॥

स्तनाग्रः चूचुकं न स्त्री वक्षोर्जैस्तु कुचः स्तनः ।

कुक्षिः पुंस्युदरं तुन्दं क्लीव जठरमस्त्रियाम् ॥८४॥

(१) कूणी के दो नाम—कफोणि १ कूर्पर २ पु० । (२) कूणी से ऊपर का एक नाम—प्रगण्ड १ पु० । (३) कुणी से नीचे सधि का एक नाम—प्रकोष्ठ १ पु० । (४) भुजा के दो नाम—भुज १ बाहु २ पु० स्त्री० । (५) शरीर के मध्यदेश के दो नाम—मध्य १ पु० नपु० मध्यम २ नपु० । (६) पृष्ठ के दो नाम—पृष्ठ १ कायपश्चिम २ नपु० । (७) काख के दो नाम—कक्ष १ पु०, बाहुमूल २ नपु० । (८) पार्श्व (वगल) के एक नाम—पार्श्व १ पु० नपु० । (९) कंधे के दो नाम—अस १ स्कन्ध २ पु० । (१०) शरीर सधि स्थान के दो नाम—सन्धि १ पु०, जत्रु २, नपु० । (११) गोद का एक नाम—क्रोड १ स्त्री० नपु० । (१२) छाती के दो नाम—उरस् १ वक्षस् २ नपु० । (१३) स्तन के अग्रभाग के दो नाम—स्तनाग्र १ पु०, चूचुक २ पु० नपु० । (१४) स्तन के तीन नाम—वक्षोज १ कुच २ स्तन ३ पु० । (१५) पेट के चार नाम—कुक्षि १ पु०, उदर २ तुन्द ३ नपु०, जठर ४ पु० नपु० ।

योनिर्द्वयो भगं शिशने शेफो मेहू च मे.नम् ।

मुष्केऽण्डकोश वृषणा बुर्पस्थो भग शिशनयोः ॥८५॥

स्यान्नितम्बः पुंसि पश्चात् स्त्रीकटया जघन पुरः ।

पृष्ठवशाद्धोगर्तदेशः क्लीव कुकुन्दरम् ॥८६॥

श्रोणिः कटिः स्त्रिया वास्तिर्द्वयो मूत्राशयः पुमान्

क्लोवेऽपान गुद पुंसि पायुररुस्तु सक्थनि ॥८७॥

जानू रूपवर्णी तुल्ये जघातु प्रसृता स्त्रियाम् ।

(१) भग के दो नाम—योनि १ स्त्री० पु०, भग २ नपु० । (२) पुरुष के जाननेन्द्रिय के चार नाम—शिश्र १ शेफर २ (जैत्र, जेफ पु०) २ मेहू ३ मेहन ४ पु नपु । (३) अण्डकोश के तीन नाम—मुष्क १ अण्डकोष २ वृषण ३ पु० । (४) स्त्री तथा पुरुष दोनों के जननेन्द्रिय का एक नाम—उपस्थ १ पु० । (५) स्त्रीके नितम्ब का एक नाम—नितम्ब १ पु० । (६) पुरुषका का एक नाम—जघन १ नपु० । (७) पृष्ठवश (मेरु-दण्ड) के नीचे के गर्त (खड्ढा) का एक नाम—कुकुन्दर (गुण वृक्ष पु०) १ नपु० । (८) कटि के दो नाम—श्रोणि १ कटि २ स्त्री० । (९) मूत्राशय के दो नाम—वस्ति १ स्त्री० पु०, मूत्राशय २ पु० । (१०) गुदा के तीन नाम—अपान १ गुद २ नपु, पातु ३ पु० । (११) जघा के ऊपरी भाग के दो नाम—ऊरु १ पु०, सक्थि २ नपु० । (१२) कटि प्रदेश से नीचे चरणतल से ऊचे जो मध्य सन्धि है उसके दो नाम—जानु १ ऊर्ध्व २ पु० नपु० । (१३) जघा के दो नाम—जघा १ स्त्री० २ स्त्री० ।

ऊरोः सन्धिर्वङ्क्षणः स्यात्पादाग्रप्रपदे समे ॥८८॥

क्रमः पादः पदङ्घ्रिश्च चरणोऽस्त्री समा इमे ।

नखरोऽपि नखोऽस्त्री, ना करेरुह पुनर्भवौ ॥८९॥

पञ्चशास्त्रकरेऽङ्गुष्ठे तर्जन्यादि चतसृभिः ।

साक तते तत्तदन्तर्देशाः स्युः क्रमशस्त्वमे ॥९०॥

प्रादेशतालगोकर्णा वितस्ति द्वादशाङ्गुल ।

द्वयोश्चपेटः प्रतलः पुसि पाणौ तताऽङ्गुलौ ॥९१॥

वामश्च दक्षिण पाणिः सहतौ विततौ यदि ।

तयोर्यः प्रतलः सस्याद् नाम्ना सहतलः स्मृतः ॥९२॥

(१) कटिदेश समिप उरुसन्धि का एक नाम—वह्ण १ पु० । (२) चरण के अग्रभाग के दो नाम—पादाग्र १ प्रपद २ नपुं० । (३) चरण के पाच नाम—क्रम १ पाद २ पद ३ अङ्घ्रि ४ पु०, चरण ५ पु० नपुं० । (४) नख के चार नाम—नखर १ नख २ पु नपु०, करेरुह ३ पुनर्भव ४ पु० । (५) पञ्चाङ्गुलि वाले हाथ के अङ्गुष्ठ को तर्जनी के साथ फैलाकर जा माप होगा उसको 'प्रादेश' १ पु०, मध्यमा के साथ 'ताल' २ पु० अनामिका के साथ 'गोकर्ण' ३ पु०, कनिष्ठिका के साथ 'वितस्ति' ४ स्त्री० पु० दशागुल ५ पु० । (६) एक हाथ के अङ्गुलियो को प्रसारित किया जाय उसके दो नाम—चपेट १ पुं० स्त्री, प्रतल २ पु० । (७) दाहिने और वाम दानों बाहु को साथ करके यदि विस्तृत किया जाय तो उस माप के दो नाम—प्रतल १ सहतल (सह्तल) २ पु० ।

योनिर्द्वयो भगं शिशने शेफो मेहू च मेहनम् ।

मुष्केऽण्डकोश वृषणा बुर्षस्थो भग शिशनयोः ॥८५॥

स्यान्नितम्बः पुंसि पश्चात् स्त्रीकटया जघन पुरः ।

पृष्ठंशादधोर्गतदेशः क्लीव कुकुन्दरम् ॥८६॥

श्रोणिः कटिः स्त्रिया वास्तिर्द्वयो मूत्राशयः पुमान्

क्लोवेऽपान गुदं पुसि पायुर्रुस्तु सक्थनि ॥८७॥

जानूँ रूपवर्णी तुल्ये जंघांतु प्रसृता स्त्रियाम् ।

(१) भग के दो नाम—योनि १ स्त्री० पु०, भग २ नपु० । (२) पुरुष के जाननेन्द्रिय के चार नाम—शिश्र १ शेफस् २ (जेव, जेफ पु०) २ मेहू ३ मेहन ४ पु नपु । (३) अण्डकोश के तीन नाम—मुष्क १ अण्डकोष २ वृषण ३ पु० । (४) स्त्री तथा पुरुष दोनों के जननेन्द्रिय का एक नाम—उपस्थ १ पु० । (५) स्त्रीके नितम्ब का एक नाम—नितम्ब १ पु० । (६) पुरोभाग का एक नाम—जघन १ नपु० । (७) पृष्ठवश (मेरु-दण्ड) के नीचे के गर्त (खड्ढा) का एक नाम—कुकुन्दर (गुण वृक्ष पु०) १ नपु० । (८) कटि के दो नाम—श्रोणि १ कटि २ स्त्री० । (९) मूत्राशय के दो नाम—वस्ति १ स्त्री० पु०, मूत्राशय २ पु० । (१०) गुदा के तीन नाम—अपान १ गुद २ नपु, पायु ३ पु० । (११) जघा के ऊपरी भाग के दो नाम—ऊरु १ पु०, सक्थि २ नपु० । (१२) कटि प्रदेश से नीचे चरणतल से ऊचे जो मध्य सन्धि है उमके दो नाम—जानु १ ऊरुपर्व २ पु० नपु० । (१३) जघा के दो नाम—जघा १ सृप्रन २ स्त्री० ।

ऊरोः सन्धिवर्द्धक्षणेः स्यात्पादाग्रप्रपदे समे ॥८८॥

क्रमः पादः पदङ्घ्रिश्च चरणोऽस्त्री समा इमे ।

नखरोऽपि नखोऽस्त्री, ना करेरुह पुनर्भवौ ॥८९॥

पञ्चशास्त्रकरेऽङ्गुष्ठे तर्जन्यादि चतसृभिः ।

साक तते तत्तदन्तर्देशाः स्युः क्रमशस्त्वमे ॥९०॥

प्रादेशंतालगोकर्णा वितस्ति द्वादशाङ्गुल ।

द्वयोश्चपेटैः प्रतलः पुंसि षण्णौ तताऽङ्गुलौ ॥९१॥

वामश्च दक्षिण पाणिः सहतौ विततौ यदि ।

तयोर्यः प्रतलः सस्याद् नाम्ना सिंहतलः स्मृतः ॥९२॥

(१) कटिदेश समिप उरुसन्धि का एक नाम— वङ्गण १ पु० । (२) चरण के अग्रभाग के दो नाम— पादाग्र १ प्रपद २ नपुं० । (३) चरण के पाच नाम—क्रम १ पाद २ पद ३ अङ्घ्रि ४ पु०, चरण ५ पु०नपुं० । (४)नख के चार नाम—नखर १ नखर २ पु नपु०, करेरुह ३ पुनर्भव ४पु० । (५)पञ्चाङ्गुलि वाले हाथ के अङ्गुष्ठ को तर्जनी के साथ फैलाकर जा माप होगा उसको 'प्रादेश' १ पु०, मध्यमा के साथ 'ताल' २ पु० अनामिका के साथ 'गोकर्ण' ३ पु०, कनिष्ठिका के साथ 'वितस्ति' ४ स्त्री० पु० दशागुल ५ पु० । (६)एक हाथ के अङ्गुलियों को प्रसारित किया जाय उसके दो नाम—चपेट १ पुं०स्त्री, प्रतल २ पु० । (७) दाहिने और वाम दानों चाटु को साथ करके यदि विस्तृत किया जाय तो उम माप के दो नाम— प्रतल १ सिंहतल (सहतल) २ पु० ।

केगं शिरोरुहो बालः कचश्चिकुर कुन्तलौ ।

केशवेशस्तु कवरो धम्मिल्लः संयतः कचः ॥९३॥

केगर्षाशी शिखा चूडा तापसाना जटा मता ।

अलरुः कुटिलो बाल स्तद्वृन्द कैश्यंकशिकौ । ९४॥

स्त्रोणा शिरः स्थिता वेणिः प्रवेणि र्जटिकाऽऽकृतिः ।

बाहो रङ्गद केयूरे भूषण तन्नपुंसकम् ॥९५॥

रशना मेखला काञ्ची कटिसूत्र च शृङ्खलम् ।

मञ्जीरो नूपुरो न स्त्री हसकश्च पुमानयम् ॥९६॥

किङ्किणी क्षुद्रवण्टा स्यात्तूलं रूतमुभे समे ।

हिन्दी— (१) केश के छ नाम— केग १ शिरोरुह २ बाल ३ कच ४ चिकुर ५ कुन्तल ६ पु० । (२) विन्यस्त केश का एक नाम— कवरो १ स्त्री० । (३) रचना विशेष से बद्ध केश का एक नाम— धम्मिल्ल १ पु० । (४) चोटी के तीन नाम— केगर्षाशी १ शिखा २ चूडा ३ स्त्री० । (५) तापसो के जटा का एक नाम— जटा १ स्त्री० । (६) घूँस वाल का एक नाम— अलरु १ पु० । (७) केशसमूह के दो नाम— कैश्य १ कैशिक २ नपु० । (८) स्त्री चोटी के दो नाम— वेणि १ प्रवेणि २ स्त्री० । (९) बाहू के भूषण के दो नाम— अङ्गद १ केयूर २ नपु० । (१०) कटि सूत्र के पांच नाम— रशना १ मेखला २ काञ्ची ३ स्त्री०, कटिसूत्र ४ अङ्गद ५ नपु० । (११) पटभूषण (पाजती) के तीन नाम— मञ्जीरो १ नूपुर २ पु० नपु०, हसक ३ पु० । (१२) क्षुद्रवण्टिका (मुँस) के दो नाम— किङ्किणी १ क्षुद्रवण्टिका २ स्त्री० । (१३) रूत के दो नाम— तूल १ रूत २ नपु० ।

वस्त्रयोनिः कृमी रोम त्वक् फलं त्रिषु ते दश ॥९७॥

कार्पास बादर फालं कौशेयं कृमिकोशजम् ।

वाल्कं क्षौमं राङ्गवन्तु मृगरोमोद्भवाम्बरम् ॥९८॥

नववस्त्रं निष्प्रवाणि तन्त्रकाऽनाहते अपि ।

ह्रीवे तद्भ्रमनीयं तद् यद् धौताऽऽच्छादनद्वयम् ॥९९॥

क्षौमे दुकूलं, पत्रोर्णं धौतं कौशेयवाससि ।

तसरं त्रसरौ दिव्यं सूत्रनिर्मितमम्बरम् ॥१००॥

दर्शाः स्त्रिया भूमनि स्युर्वस्त्रस्य प्रान्तयोर्द्वयोः ।

पटच्चरं जीर्णवस्त्रं कन्थां स्त्री स्यूतवाससि ॥१०१॥

(१) वस्त्र चार वस्तुओ से होता है— कृमिकोश १ रोम २ त्वक् ३ फल ४ । (२) कपास से बनाये गये वस्त्र के तीन नाम— कार्पास १ बादर २ फाल ३ नपुं० । (३) कृमिकोप से निर्मित वस्त्र के दो नाम— कौशेय १ कृमिकोशज २ नपुं० । (४) अतसी आदि के त्वचा से निर्मित वस्त्रो के दो नाम—वाल्क १ क्षौम २ नपुं० । (५) मृगलोम से निर्मित वस्त्र के दो नाम— राङ्गव १ मृगरोमोद्भव २ नपुं० । (६) छेद भोग क्षालन हीन वस्त्र के चार नाम नववस्त्र १ निष्प्रवाणि २ तन्त्रक ३ अनाहत ४ नपुं० । (७) पहनने ओढने के वस्त्र का एक नाम—उद्भ्रमनीय १ नपुं० । (८) रेशम के वस्त्र का एक नाम— दुकूल १ नपुं० । (९) कृमिकोप निर्मित वस्त्र का एक नाम—पत्रोर्ण १ नपुं० । (१०) चमक्रीले सूतो से बने कपड़े के दो नाम—तसर १ त्रसर २ नपुं० । (११) कपड़े के किनारे का एक नाम—दर्शा १ बहुवचन स्त्री० । (१२) पुराने कपड़ों का एक नाम—पटच्चर १ नपुं० । (१३) पुराने वस्त्रो को एक साथ सीकर रक्खा जाय अथवा रजाई का एक नाम—कन्था १ स्त्री० ।

जोर्णवस्त्रे खण्डिते तु कर्पटो लवतकः समौ ।
 स्त्रियां मशहरी स्यूत वस्त्रे मशकवारणे ॥१०२॥
 स्यात्स्त्रिया चीरिकाकच्छा कौपीनं मलमल्लकम् ।
 रल्लकः कम्बलः पुसि वरागिः स्थूलवाससि ॥१०३॥
 सुचेलः शोमने वस्त्रे निचोलः प्रच्छदः पटः ।
 सख्यानमुत्तरासङ्गोऽथोत्तरीयेष्वधोऽशुकम् ॥१०४॥
 परिधानो-पसख्यानाऽन्तरीयाण्यथ चोलैकः ।
 कृपासकः स्त्रियामूर्ध्नि वस्त्रं स्यादवगुण्ठनम् ॥१०५॥

(१) पुगने कपडे का टुकरा अथवा रुमाल के दो नाम—
 कर्पट १ लवतक (नक्तक) ३ पु० । (२) मच्छरदानो के एक
 नाम— मशहरी १ ला० । (३) कलिया (जंधिया) के दो
 नाम—चीरिका १ कच्छा २ स्त्री० । (४) लंगोटी के
 दो नाम—कौपीन १ मलमल्लक २ नपु० । (५) कम्बल के दो
 नाम—रल्लक १ कम्बल २ पु० । (६) खदर (मोटे कपडे) का
 एक नाम—वरागि (वरामि) १ पु० । (७) सुन्दर वल का एक
 नाम—सुचेल १ पु० । (८) दोला आदि को ढकने का जो
 कपडा है उसके दो नाम—निचोल १ प्रच्छदपट २ पु० । (९)
 शरीर के ऊपरी (उत्तराय) वस्त्र के दो नाम—सख्यान १ नपु०,
 उत्तगसङ्ग २ पु० । (१०) शरार के नीचे जो पहने जाय
 (अधोवस्त्र) उसके चार नाम—अधोऽशुक १ परिधान २
 उपसख्यान ३ अन्तराय ४ नपु० । (११) चाली के दो नाम—
 चोलक १ कृपासक २ पु० । (१२) घुँट का एक नाम—
 अवगुण्ठन १ नपु० ।

चण्डातकं तु स्याच्छ्लेष्ठ स्त्रीणामर्द्धोरुकेऽवरे ।

बहुमूल्ये तूर्णवस्त्रे स्याद् द्विशैलो द्वयोरयम् ॥१०६॥

नीशैरो ना प्रावरणे शोतवातादि वारणे ।

चैलं माच्छादन वस्त्रं वासो वसनमंशुकम् ॥१०७॥

दूष्या पटकुटी साऽल्पाऽर्धुकुटीरः पुमानयम् ।

विताने चन्द्रकोल्लोचौ काण्डपट्टे तु कोणिका ॥१०८॥

परदाया जवनिक्का तिरस्करिणिकाऽपि सा ।

स्यादुद्धर्तनमुत्सादो मार्जना तु मृजास्त्रियाम् ॥१०९॥

(१) लहंगा का एक नाम—चण्डातक १ नपु० । (२)

दुशाले का एक नाम—द्विशाल १ पु०नपुं० । (३) ठण्डी

और हवा से बचाव के लिये शरीर ढाकने के कपड़े (गोदड़ी)

के दो नाम—नीशार १ पु०, प्रावरण २ नपुं० । (४) सामा-

न्यरूप से कपड़ों के छ नाम—चैल १ आच्छादन २ वस्त्र ३

वासस्त्र ४ वसन ५ अंशुक ६ नपुं० । (५) तम्बू के दो नाम—

दूष्या १ पटकुटी २ स्त्री० । (६) राउटी का एक नाम—अश-

कुटीर १ पु० । (७) चन्दोवा के तीन नाम—वितान १ पु०नपुं०,

चन्द्रक २ उल्लोच ३ पु० । (८) कनात के दो नाम—काण्डपट्ट

१ पु०, कोणिका २ स्त्री० । (९) पर्दे के दो नाम—जवनिक्का

१ तिरस्करिणी (तिरस्करिणिका) २ स्त्री० । (१०) उवटन के

दो नाम—उद्धर्तन १ नपुं० उत्साद २ पु० । (११) शरीर साफ

करने के दो नाम—मार्जना १ मृजा २ स्त्री० ।

परिकर्माङ्ग संस्कारे स्नानेत्वाप्लाव आप्लवः ।

चर्चास्त्री स्थासकः पत्रालेखा पत्राङ्गुली समे ॥१११॥

विशेषकं स्यात्तिलकेऽनुबोधस्तु प्रबोधने ।

यावालक्तौ जतुक्लीवे लाक्षाया स्यादथाऽगुरु ॥१११॥

वशिकं जोङ्गकं च स्यान्न द्वयो रथ यावनः ।

सिहोऽथ यक्षधूपस्तु रालः सर्जरसः पुमान् ॥१११॥

कालीयकं जायकं स्यात्कुङ्कुमाऽग्निशिखे समे ।

(१) शरीर शोभाकार क्रिया के दो नाम—परिकर्म १ नपु., अङ्गसंस्कार २ पु० । (२) स्नान के तीन नाम—स्नान १ नपु०, आप्लाव २ आप्लव ३ पु० । (३) चन्दनादि देह विलेपन के दो नाम—चर्चा १ स्त्री०, स्थासक २ पु० । (४) कपोल आदि में चन्दनादि से निर्मित चित्र के दो नाम—पत्र लेखा १ पत्राङ्गुली २ स्त्री० । (५) तिल के दो नाम—विशेषक १ तिलक २ पु० नपु० । (६) जगाने का या विस्मृत को याद करने के दो नाम—अनुबोध १ पु०, प्रबोधन २ नपु० । (७) नखरजन के चार नाम—याव १ अलक्तक २ पु०, जतु ३ नपु०, लाक्षा ४ स्त्री० । (८) अगुरु (अगर) के तीन नाम—अगुरु १ वशिक २ जोङ्गक ३ नपुं । (९) लोहवान धूपके दो नाम—यावन १ मिद्ध २ पु० । (१०) यक्ष धूपके तीन नाम—यक्षधूप १ राल २ सर्जरस ३ पु० । (११) सुगन्ध द्रव्य विशेष के दो नाम—कालीयक १ जायक २ नपु० । (१२) कुङ्कुम के दो नाम—कुङ्कुम १ अग्निशिख २ नपु० ।

कालागुरुणि मङ्गल्या श्रीवासः सरलद्रवः ॥११३॥

वृकधूपोऽनेकवस्तु कृते धूपे मनोहरे ।

कर्पूरो घनसारः स्याच्चन्द्रः स्त्री हिमवालुका ॥११४॥

पाटीरश्चन्दनोगन्ध-सारो मलयजः समाः ।

केशराऽगुरु कर्पूर कस्तूरी कोलकैः कृतम् ॥११५॥

मिश्रितं सर्वमेकत्र प्रोच्यते यक्षकर्मः ।

त्रिलेपनं वर्णकं स्याद्वर्तिगात्राऽनुलेपनी ॥११६॥

पिष्टार्तः पटवासोऽपि वासयोगोऽथ वासितम् ।

(१) मल्लिका पुष्प जैसा गन्धवाले के दो नाम—कालागुरु, १ नपु०, मङ्गल्या २ स्त्री० । (२) देवदारु रस निर्मित धूप के दो नाम—श्रीवास १ सरलद्रव २ पु० । (३) अनेक मनोहर समिश्रण से निर्मित धूप का एक नाम—वृकधूप १ पु० । (४) कर्पूर के चार नाम—कर्पूर १ घनसार २ चन्द्र ३ पु०, हिमवालुका ४ स्त्री० । (५) श्रीखण्ड चन्दन के चार नाम—पाटीर १ चन्दन २ गन्धसार ३ मलयज ४ पु० । (६) केशर अगुरु कपूर कस्तूरी कोलक इनको एक करके बनाये गये धूप का एक नाम—यक्षकर्म १ पु० । (७) शरीर के अनुलेप के लिये घिसा पिसा गया सुगन्धित द्रव्य के चार नाम—त्रिलेपन १ वर्णक २ नपु०, वर्ति ३ गात्रानुलेपनी ४ स्त्री० । (८) जिससे वस्त्र सुगन्धित हो जाय, उस चूर्ण के तीन नाम—पिष्टार्त १ पटवास २ वासयोग ३ पु० (चूर्ण पु० नपु०) । (९) कस्तूरी आदि द्रव्य से जो भावित हो चुका हो उसका एक नाम—वासित १ त्रिलिङ्ग ।

भाविते त्रिषु, माल्यादेः संस्कारस्त्वधिवासनम् ॥११७॥
 न्यस्तामूर्ध्नि भवेन्माल्यं मालास्रक् कुसुमावलिः ।
 गर्भकैः केशमध्यस्थ ललाटस्थ ललामकम् ॥११८॥
 प्रभ्रष्टकं शिखान्यस्ते प्रालम्ब कण्ठलम्बनि ।
 रचनाया परिस्पन्दः समा वापीड शेखरौ ॥११९॥
 शय्याया शयन तल्पं स्यादाभोगंस्तु पूर्णता ।
 तूलतल्प तल्पभेदे गेन्दुकः कन्दुकः पुमान् ॥१२०॥
 उपधाने तूपवर्हो—च्छोर्षो, खट्वा तु खट्विका ।

(१) कार्यारम्भ से पूर्व ही कार्ययोग्य वस्तुओं का सकलन कर लेना अधिवासन ३ नपु० । (२) माला के तीन नाम—माल्य १ नपु०, माला २ स्रक् (स्रजू) ३ स्त्री० । (३) केश मध्य में लगाई गई माला का एक नाम—गर्भक १ पु० । (४) ललाट के उपर तिलक आदि का एक नाम—ललामक १ नपुं० । (५) चोटी पर लटकता माला का एक नाम—प्रभ्रष्टक १ नपुं० । (६) कण्ठ में लटकती माला का एक नाम—प्रालम्ब १ नपु० । (७) शिल्प आदि रचना के दो नाम—रचना १ स्त्री०, परिस्पन्द (परिस्पन्द) २ पु० । (८) शिखा सलग्न वर्ह माल्य के दो नाम—वापीड १ शेखर २ पु० । (९) शय्या के तीन नाम—शय्या १ शयन २ तल्प ३ नपुं० । (१०) प्रत्येक सामान का परिपूर्णता का एक नाम—आभोग १ नपु० । (११) गद्दी का एक नाम—तूलतल्प १ नपुं० । (१२) गेन्द के दो नाम—गेन्दुक १ कन्दुक २ पु० । (१३) तकिया के तीन नाम—उपधान १ नपु० उपवर्ह २ उच्छोर्ष ३ पु० । (१४) खटला के दो नाम—खट्वा १ १ खट्विका २ स्त्री० ।

निवार गण सूत्राद्याः खट्वावेष्टन साधने ॥१२१॥
 पल्यैङ्कमश्च पर्यङ्काः सनिवारे तमङ्गक ।
 प्रदीप दीपौ सदृशौ विष्टरैः पीठ मासनम् ॥१२२॥
 पतद्ग्रहे प्रतिग्राहः सम्पुटे^६ तु समुद्रकः ।
 या स्यात्कंकतिका सैव ककती च प्रसाधनी ॥१२३॥
 सिक्थकं स्यान्मधूच्छिष्ट सिक्थिका तस्य वर्तिका ।
 दीपज्वालादीपशिखा दीपार्चिस्तु नपुंसकम् ॥१२४॥
 दीपधानी स्त्रियां दीपा-धारे दीपद्रुमः पुमान् ।

(१) खटला बनाने की डोरो के तीन नाम—निवार १
 शण २ सूत्र ३ पु०नपुं० । (२) पलङ्ग के तीन नाम—पल्यङ्क
 १ मञ्च २ पर्यङ्क ३ पु० । (३) दीपक के दो नाम—प्रदीप
 १ दीप २ पु० । (४) आसन के तीन नाम—विष्टर १ पु०,
 पीठ २ आसन ३नपु० । (५) पिकदानी के दो नाम—पतद्ग्रह
 १ प्रतिग्राह २ पु० । (६) उबूसा आदि के दो नाम—सम्पुट
 १ समुद्रक २पु० । (७) कधी के तीन नाम—ककतिका १,
 कंकती २ प्रसाधनी ३ स्त्री० । (८) मोम के दो नाम—सिक्थक
 १ मधूच्छिष्ट २ नपु० । (९) मोमबत्ती का एक नाम—सिक्थिका
 १ स्त्री० । (१०) दीपज्वाला के तीन नाम—दीपज्वाला १ दीप-
 शिखा २ स्त्री०, दीपर्चिष् ३ नपुं० । (११) दीपक के आधार
 के दो नाम—दीपधानी १ स्त्री०, दीपाधार २ (दीपद्रुम) पु० ।

दीपावली दीपमाला दीपालि दीप शृङ्खला ॥१२५॥

व्यजनं स्यात्तालवृन्तं तुल्ये कज्जल काजले ।

समा अमीस्युर्मकुरं मुकुराऽऽदर्श दर्पणाः ॥१२६॥

पुंसि दीपध्वजो दीप-कीट्ट स्याद्दीपकज्जलम् ।

॥ इति मानववर्गः समाप्तः ॥

(१) दीप समूह के चार नाम—दीपावली १ दीपमाला २ दीपालि ३ दीपशृङ्खला ४ स्त्री० । (२) पक्षे के दो नाम—व्यजन १ तालवृन्त २ नपु० । (३) आर्द्रकज्जलके दो नाम—कज्जल १ काजल २ नपु० । (४) ऐनक के चार नाम—मकुर १ मुकुर २ आदर्श ३ दर्पण ४ पु० । (५) दीप कज्जल के तीन नाम—दीपध्वज १ पु०, दीपकीट्ट २ दीपकज्जल ३ नपु० ।

॥००॥इति मानववर्ग समाप्त ॥००॥

॥ अथ वंशवर्गः प्रारभ्यते ॥

वंशोऽन्वयोऽन्ववायश्च सन्तानोऽभिजनः कुलम् ।

गोत्रं च जननं स्त्री स्यात्सन्ततिः क्षत्रियौदयः ॥१॥

वर्णाः ब्राह्मणं विद् शूद्रा राजवीजी तु राज्ञजः ।

सज्जने साधु सम्याऽर्यं कुलीनाश्च महाकुलः ॥२॥

चारी गृहीवानप्रस्थो भिक्षुश्चतुष्टयम् ।

चत्वार आश्रमा अस्त्री वर्णी स्याद्ब्रह्मचारिषु ॥३॥

विप्रं ब्राह्मणभूदेवाऽग्रजन्म द्विजवाडवाः ।

ज्ञोर्विश्चित्कृती धीमान् सख्यावान्प्रज्ञ उच्यते ॥४॥

कवि पण्डित दोषज्ञ सुधी विद्वन्मनीषिणः ।

हिन्दी—(१) वंश के नौ नाम—वंश १ अन्वय २ अन्ववाय ३ सन्तान ४ अभिजन ५ पु०, कुल ६ गोत्र ७ जनन ८ नपु०, सन्तति ९ स्त्री० । (२) वर्ण के चार नाम—ब्राह्मण १ क्षत्रिय २ वैश्य ३ शूद्र ४ पु० । (३) राजवंश का एक नाम—राजज १ पु० । (४) सज्जन के छ नाम—सज्जन १ साधु २ सम्य ३ आर्य ४ कुलीन ५ महाकुल ६ पु० । (५) ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थ भिक्षु इन चतुष्टयो के पृथक् पृथक् चार आश्रम हैं पु० नपु० । (६) ब्राह्मण चारी को 'वर्णी' कहते हैं पु० । (७) ब्राह्मण के छ नाम विप्र १ ब्राह्मण २ भूदेव ३ अप्रजन्मा ४ द्विज ५ वाडव ६ पु० । (८) पण्डित के बीस नाम—ज्ञ १ विपश्चित् २ कृति ३ धीमान् ४ सख्यावान् ५ प्रज्ञ ६ कवि ७ पण्डित ८ दोषज्ञ ९ सुधी १० विद्वान् ११ मनीषी १२ सन् १३ कोविद १४ बुध १५ धीर

सन् कोविदो बुधो धीरः सूरिः प्राज्ञो विचक्षणः ॥५॥

दूरदर्शी श्रोत्रियेस्तु छान्दसो वेदपारगः ।

स्याद्वादी स्यादार्हकोऽथ वेदान्त्युपनिषद्विदि ॥६॥

मीमांसको यो मीमासा ज्ञानवान्सांख्यैकापिलौ ।

वैशेषिकज्ञः काणादी न्यायो नैयायिक स्तथा ॥७॥

सौर्गतः शून्यवादीस्या च्चार्वकाद्यास्तु तद्भिदाः ।

उपेत्याऽधीयते यस्मा दुर्षाध्यायो गुरुस्तु यः ॥८॥

मन्त्रदाता पितावाऽपि यष्टाऽऽदेष्टाव्रती मखे ।

१६ सूरि १७ प्राज्ञ १८ विचक्षण १९ दूरदर्शी २० पु० ।

(१) श्रोत्रिय के तीन नाम—श्रोत्रिय १ छान्दस २ वेदपारग ३ पु० (२) जैन के दो नाम—स्याद्वादी १ आर्हक (आर्हत) २ पु० । (३) उपनिषदवेत्ता के दो नाम—वेदान्ती १ उपनिषद्वित् २ पु० । (४) मीमासा जानने वाले के दो नाम—मीमांसक १, मीमासाज्ञानवान् २ पु० । (५) सांख्य के दो नाम—सांख्य १, कापिल २ पु० । (६) वैशेषिक वेत्ता के दो नाम—वैशेषिकज्ञ १, काणादी २ पु० । (७) न्यायवेत्ता के दो नाम—न्यायी १, नैयायिक २ पु० । (८) शून्यवादी विशेष के दो नाम—सौर्गत १, शून्यवादी २ पु० । (९) शून्यवादी विशेष के एक नाम—चार्वक आदि पु० । (१०) जिनके यहा जाकर पढा जाय उनके एक नाम—उपाध्याय (अध्यापक) १ पु० । (११) मन्त्रदाता के एक नाम—गुरु १ (पिता आदि ऋषे को भी गुरु कहते हैं) पु० । (१२) यज्ञमान के पांच नाम—यष्टा १, आदेष्टा २, व्रती ३, राजक ४, यज्ञमान ५ पु० ।

याजको यजमानश्च यायजूकोऽतियाजकः ॥९॥

इष्टवान् विधिना यज्वा तथा स आसुतीबलः ।

अनूचानः प्रवचने साङ्गेऽधीती गणिर्मतः ॥१०॥

अनुयोगकृदाचार्यः उपाध्यायस्तु पाठकः ।

एक ब्रह्मव्रताचारा मिथः सब्रह्मचारिणः ॥११॥

सतीर्थ्यास्त्वेक गुरुका आग्नीध्रा अग्निदीपकाः ।

छात्रान्तेवासिशिष्याः स्यु वेदार्थं गुरु सेवकाः ॥१२॥

उपेक्षात्वादिम ज्ञानं ज्ञात्वाऽऽरम्भ उपक्रमः ।

(१) अतियज्ञशील के दो नाम—यायजूक १, अतियाजक २ पु० । (२) सविधि यज्ञ करने वाले के दो नाम—यज्वा १, आसुतीबल २ पु० । (३) प्रवचन कर्त्ता का एक नाम—अनूचान १ पु० । (४) साङ्गमूल (वेद) के अध्येता के दो नाम—साङ्गेऽधीती १, गणि २ पु० । (५) व्याख्याता के दो नाम—अनुयोगकृत् १, आचार्य २ पु० । (६) उपाध्याय के दो नाम—उपाध्याय १, पाठक २ पु० । (७) समान शास्त्रा के अध्येताओं के पारस्परिक का एक नाम—सब्रह्मचारी । (८) एकही गुरु से पढने वालों के दो नाम—सतीर्थ्य १, एकगुरुक २ पु० । (९) ऋत्विक् (ऋत्विजू) के दो नाम—आग्नीध्र १, अग्निदीपक २ पु० । (१०) अध्ययन हेतुक गुरुसेवको के तीन नाम—छात्र १, अन्तेवासी २, शिष्य ३ पु० । (११) आदि ज्ञान का एक नाम—उपज्ञा १ स्त्री० । (१२) समझकर आरम्भ किया जाय उमका एक नाम—उपक्रम १ पु० ।

संत्रं बर्हिर्वितानं च सस्तरः क्रतुरध्वरः ॥१३॥
 मखो यज्ञः सवो यागो गोष्ठी तु परिषत्सभा ।
 समज्या समितिः संसद् आस्थान सदसी अपि ॥१४॥
 स्थण्डिल चत्वर सम्ये सामाजिक सभासदौ ।
 भूमि र्या संस्कृता वेदि र्युपैः स्याद् यज्ञकीलकः ॥१५॥
 सधनाऽऽवरणं कुम्वा निर्मन्थ्यं त्वरणि द्वयोः ।
 परमान्न पायंसं च स्यात्क्षीरान्ने नपुसकम् ॥१६॥
 दान वितरणं त्याग उत्सर्गश्च विसर्जनम् ।
 स्पर्शनं चाऽथयाञ्चौ स्याद् याचना च गवेषणा ॥१७॥

(१) यज्ञ के दश नाम—मत्र १, बर्हिषु २ नपु०, वितान ३ पु.नपु०, सस्तर ४, क्रतु ५, अध्वर ६, मख ७, यज्ञ ८, सव ९, याग १० पु० । (२) सभा के आठ नाम—गोष्ठी १, परिषत् २, सभा ३, समज्या ४, समिति ५, संसद् ६ स्त्री०, आस्थान ७, सदस् ८ नपु० । (३) समान भूमि के दो नाम—स्थण्डिल १, चत्वर २ नपु० । (४) सभासद् के तीन नाम—सम्य १, सामाजिक २, सभासद् ३ पु । (५) शुद्ध भूमि का एक नाम—वेदी १ स्त्री० । (६) यज्ञस्तम्भ के दो नाम—यूप १, यज्ञकीलक २ पु० । (७) आवरण बाड (घेरावा) का एक नाम कुम्वा १ स्त्री० । (८) अरणि के दो नाम—निर्मन्थ्य १ नपु०, अरणि २ स्त्री० । (९) दूधपाक के दो नाम—परमान्न १, पायस २ नपु० । (१०) दान के छ नाम—दान १, वितरण २, विसर्जन ३, स्पर्शन ४ नपु०, त्याग ५, उत्सर्ग ६ पु० । (११) याचना के पांच नाम—याञ्चा १, याचना २, गवेषणा ३, अन्वेषणा ४, प्रार्थना ५ स्त्री० ।

अन्वेषणा प्रार्थना च भवेत्प्राघुणिकस्तु सः ।

अभ्यागतः प्राघुणकोऽतिथिः प्राघुणकस्तथा ॥१८॥

आतिथेयं त्वाऽतिथेय्या तथाऽऽवेशिक मित्यपि ।

अर्घ्यार्थमैर्य पादार्थं पाद्यं त्रिषु त्रयोदश ॥१९॥

अर्हणाऽर्चा सपर्याऽपचिति पूजाः समार्थकाः ।

शुश्रूषोपासना सेवा परिचर्या निगद्यते ॥२०॥

योगसार्गे स्थितिश्र्वर्याऽऽटानु पर्यटन भ्रमः ।

मुने भवोऽथवा कर्म मौनं नोभाषण विदुः ॥२१॥

परिपाटीत्वानुपूर्वी पर्यायाऽनुक्रमावपि ।

पर्युपशमना पर्योसवना पर्युषणा तथा । २२॥

- (१) अतिथि के पाच नाम--प्राघुणिक १, अभ्यागत २, प्राघुणक ३, अतिथि ४, प्राघुणक ५, पु० । (२) मेहमानी (आताथेयी) के दो नाम--आतिथेय १, आवेशिक २ पु० (आतिथेयी स्त्री०) । (३) पाने का पानी का एक नाम--अर्य्य पु० नपु० । (४) पदप्रक्षालन जल का एक नाम--पाद्य पु० नपु० । (५) सेवा के नाम--अर्हणा १, अर्चा २, सपर्या ३, अपचिति ४, पूजा ५, शुश्रूषा ६, उपासना ७, सेवा ८, परिचर्या ९ स्त्री० । (६) ध्यान मौनादि का एक नाम--चर्या १ स्त्री० । (७) पर्यटन के तीन नाम--अटा (अटाग्या) स्त्री० । (८) मुनि-कर्म के दो नाम--मौन १, नोभाषण (अभाषण) २ नपु० । (९) अनुक्रम के चार नाम--परिपाटी १, आनुपूर्वी (आनुपूर्व्य नपुं०), २ स्त्री०, पर्याय ३, अनुक्रम ४ पु० । (१०) पर्युषण के चार नाम--पर्युपशमना १, पर्योसवना २, पर्युषणा ३ स्त्री० आष्टाहिक ४ नपुं० ।

सत्रं बर्हिर्वितानं च सस्तरः क्रतुरध्वरः ॥१३॥

मखो यज्ञः सवो यागो गोष्ठी तु परिषत्सभा ।

समज्या समितिः संसद् आस्थान सदसी अपि ॥१४॥

स्थण्डिल चत्वर सम्ये सामाजिक सभासदौ ।

भूमि र्या संस्कृता वेदे र्युपैः स्याद् यज्ञकीलकः ॥१५॥

सधनाऽऽवरणं कुम्भा निर्मन्थ्यं त्वरणि द्वयोः ।

परमान्न पायंसं च स्यात्क्षीरान्ने नपुसकम् ॥१६॥

दान वितरणं त्याग उत्सर्गश्च विसर्जनम् ।

स्पर्शनं चाऽधयाञ्चै स्याद् याचना च गवेषणा ॥१७॥

(१) यज्ञ के दश नाम—मत्र १, बर्हिषु २ नपु०, वितान ३ पु.नपु०, सस्तर ४, क्रतु ५, अध्वर ६, मख ७, यज्ञ ८, सव ९, याग १० पु० । (२) सभा के आठ नाम—गोष्ठी १, परिषत् २, सभा ३, समज्या ४, समिति ५, संसद् ६ स्त्री०, आस्थान ७, सदस् ८ नपु० । (३) समान भूमि के दो नाम—स्थण्डिल १, चत्वर २ नपु० । (४) सभासद् के तीन नाम—सम्य १, सामाजिक २, सभासद् ३ पु । (५) शुद्ध भूमि का एक नाम—वेदो १ स्त्री० । (६) यज्ञस्तम्भ के दो नाम—यूप १, यज्ञकीलक २ पु० । (७) आवरण वाड (घेरावा) का एक नाम कुम्भा १ स्त्री० । (८) अरणि के दो नाम—निर्मन्थ्य १ नपु०, अरणि २ स्त्री० । (९) दूधपाक के दो नाम—परमान्न १, पायस २ नपु० । (१०) दान के छ नाम—दान १, वितरण २, विसर्जन ३, स्पर्शन ४ नपु०, त्याग ५, उत्सर्ग ६ पु० । (११) याचना के पांच नाम—याञ्चा १, याचना २, गवेषणा ३, अन्वेषणा ४, प्रार्थना ५ स्त्री० ।

अन्वेषणा प्रार्थना च भवेत्प्राघुणिकस्तु सः ।
 अभ्यागतः प्राघुणकोऽतिथिः प्राघुणकस्तथा ॥१८॥
 औत्तिथेयं त्वाऽत्तिथेय्या तथाऽऽवेशिक मित्यपि ।
 अर्घार्थमैर्य पादार्थं पाद्यं त्रिषु त्रयोदश ॥१९॥
 अर्हणाऽर्चा सपर्याऽपचिति पूजाः समार्थकाः ।
 शुश्रूषोपासना सेवा परिचर्या निगद्यते ॥२०॥
 योगसार्गे स्थितिश्चर्याऽऽटातु पर्यटन भ्रमः ।
 मुने भौवोऽथवा कर्म मौनं नोभाषण विदुः ॥२१॥
 परिपाटीत्वानुपूर्वी पर्यायाऽनुक्रमावपि ।
 पर्युपशमना पर्योसवना पर्युषणा तथा । २२॥

(१) अतिथि के पाच नाम--प्राघुणिक १, अभ्यागत २, प्राघुणक ३, अतिथि ४, प्राघुणक ५, पु० । (२) मेहमानी (आताथेयी) के दो नाम--आतिथेय १, आवेशिक २ पु० (आतिथेयी स्त्री०) । (३) पाने का पानी का एक नाम--अर्घ्य पु० नपु० । (४) पदप्रक्षालन जल का एक नाम--पाद्य पु० नपु० । (५) सेवा के नाम--अर्हणा १, अर्चा २, सपर्या ३, अपचिति ४, पूजा ५, शुश्रूषा ६, उपासना ७, सेवा ८, परिचर्या ९ स्त्री० । (६) ध्यान मौनादि का एक नाम--चर्या १ स्त्री० । (७) पर्यटन के तीन नाम--अटा (अटाय्या) स्त्री० । (८) मुनि-कर्म के दो नाम--मौन १, नोभाषण (अभाषण) २ नपु० । (९) अनुक्रम के चार नाम--परिपाटी १, आनुपूर्वी (आनुपूर्व्य नपुं०), २ स्त्री०, पर्याय ३, अनुक्रम ४ पु० । (१०) पर्युषण के चार नाम--पर्युपशमना १, पर्योसवना २, पर्युषणा ३ स्त्री० आष्टाहिक ४ नपुं० ।

पर्वण्याष्टाहिके पक्षे-भवं तु पाक्षिकं स्मृतम् ।
 पर्वसंवत्सरी नाम्ना सावत्सरिकमुच्यते ॥२३॥
 उपात्ययोऽतिपातः स्यात्समेऽभ्युत्थान गौरवे ।
 सावद्येभ्यस्तु कर्मम्यो निवृत्तिर्व्रतमस्त्रियाम् ॥२४॥
 पृथगात्मता विवेकः स्यादुपवास उपोषणम् ।
 पारणै तस्य निस्तार एकभक्त सकृद्भुजि ॥२५॥
 सदाचाराऽध्ययनयो रुत्कर्षो ब्रह्मवर्चसम् ।
 परिव्रौण मश्करी भिक्षुः सन्न्यासीन्यथ तापसैः ॥२६॥
 तपस्वी संयमी तु स्याद् दान्तो वाच्यमो मुनिः ॥

(१) पक्षी के दो नाम--पक्षेभव (पक्षभव) १ , पाक्षिक
 २ नपु० । (२) सवत्सरी के दो नाम--सम्बत्सरी १ स्त्री०,
 साम्बत्सरिक २ नपु० । (३) मयादा उच्छ्वसन के दो नाम--उपा-
 त्यय १ अतिपात २ पु० (४) सत्कार करने के दो नाम--अभ्यु-
 त्थान १ गौरव २ नपु० । (५) साऽवद्य कर्मों से निवृत्ति का एक
 नाम--वन १ पु० नपु० । (६) विवेक के दो नाम--पृथगात्मता १
 स्त्री०, विवेक २ पु० । (७) उपवास के दो नाम--उपवास १ पु०,
 उपोषण २ नपु० । (८) पारणा के एक नाम--पारणा १ स्त्री० ।
 (९) एक सन्य भोजन का एक नाम एकभक्त १ नपु० । (१०)
 सदाचार और अध्ययन में उत्कर्षता का एक नाम ब्रह्मवर्चस पु०
 नपु० । (११) सन्न्यासी के चार नाम--परिव्राट् १ मश्करी २
 भिक्षु ३ सन्न्यासा ४ पु० । (१२) तापस के दो नाम--तापस १
 तपस्वी २ पु० । (१३) मुनि के नौ नाम--सयमी १ दान्त २
 वाच्यम ३ मुनि ४

संयतश्च व्रती साधु निर्द्वन्द्वो विरजस्तमाः ॥२७॥

पाखण्डः स्त्री पुमान्वाऽपि वैडाल व्रतिको मतः ।

कुण्डी क्रमण्डुलः पात्र-मासन व्रतीना वृत्ती ॥२८॥

भैक्षं भिक्षा चयः कृत्तिः स्त्रिया मजिन चर्मणी ।

अक्षरै लुचनं लोचः क्षरै वपनमुण्डने ॥२९॥

उत्कचः केश शून्येस्याद् यम इन्द्रिय निग्रहः ।

प्रतिमा नियमश्चाऽभि-ग्रहो ज्ञेयः समार्यकः ॥३०॥

ब्रह्मत्व मायुज्य ब्रह्मभूयं यथा तथा ।

देवभावस्तु देवत्वं देवभूय क्रमादनु ॥३१॥

पण्डितत्वं च मूर्खत्वं तत्तत्सायुज्य मथ्यताम् ।

सयत ५ व्रती ६ साधु ७ निर्द्वन्द्व ८ विरजस्तमा ९ पु० ।

(१) ढोंगी के दो नाम- पाखण्ड १ वैडालव्रतिक २ पु० ।

(२) सन्यासी के पात्र के दो नाम- कुण्डी १ स्त्री०, कसण्डल

२ पु० नपु० । (३) व्रती के आसन का एक नाम- वृत्ती १

स्त्री० । (४) भिक्षा समुदाय का एक नाम- भैक्ष १ नपु० ।

(५) चमडे के तीन नाम- कृत्ति १ स्त्री०, मजिन २ चर्म (चर्मन्)

३ नपु० । (६) लोच के दो नाम- लुचन १ लोच २ पु० ।

(७) बाल बनाने के दो नाम- वपन १ मुण्डन २ नपु० ।

(८) केश शून्यता का एक नाम- उत्कच १ पु० । (९) इन्द्रिय

निग्रह का एक नाम- यम १ पु० । (१०) नियम के तीन नाम

प्रतिमा १ स्त्री०, नियम २ अभिग्रह ३ पु० । (११) ब्रह्मभाव में

ब्रह्मत्व- ब्रह्मसायुज्य- ब्रह्मभूय जैसे देवत्व देवसायुज्य देवभूय के

क्रम पाछे पण्डितत्व मूर्खत्वादि तत् तत् सायुज्य भा कह सकते है

सन नपु० ।

उपवीतं यज्ञसूत्रं प्रोद्धृते दक्षिणे करे ॥३२॥

अस्त्रोऽध्यायस्त्रयध्यायो वन्दनात्प्रभिवादनम् ।

पुंसि ग्रन्थे पद्धतिः स्त्री कृतिः कल्पितवाङ्मये ॥३३॥

सिद्धान्त आगमः पुंसि शास्त्र शासनमेव च ।

तन्त्रं प्रवचनं सूत्रेऽथाऽऽकारो बाह्यमिद्वितम् ॥३४॥

कर्मिष्ठ कर्मनिष्ठौ द्वौ त्रिषु पुण्यादि कर्तरि ।

अभ्यासे खुरली योग्या सङ्केतं स्त्रिवृद्धिते पुमान् ॥३५॥

स्यात्कागजं करगलं मेषो स्त्री लेखरञ्जिका ।

(१) यज्ञोपवीत के दो नाम—उपवीत १ यज्ञसूत्र २ नपुंसक ।

(२) पाठ विशेष के दो नाम—अस्त्रोऽध्याय १ अनव्याय २ पु० । (३) वन्दना के दो नाम—वन्दना १ स्त्री०, अभिवादन २ नपु० । (४) ग्रन्थ अर्थ में 'पद्धति' पु०, मार्ग अर्थ में स्त्री० । (५) निजो कन्यना से विगचित ग्रन्थ का एक नाम—कृति १ स्त्री० । (६) सूत्र के सात नाम—सिद्धान्त १ आगम २ पु०, शास्त्र ३ शासन ४ तन्त्र ५ प्रवचन ६ सूत्र ७ नपु० ।

(७) बाहिरी डगारा के दो नाम—आकार १ पु०, इद्वित २ नपु० । (८) पुण्य क्रिया करने वालों के दो नाम—कर्मिष्ठ १ कर्मनिष्ठ २ त्रिद्विज । (९) युद्ध कला शिक्षण के तीन नाम—अभ्यास १ पु०, खुरली २ योग्या ३ स्त्री० । (१०) इद्वित का एक नाम—सङ्केत १ पु० । (११) कागज के दो नाम—कागज १ करगल २ नपु० । (१२) स्याही के दो नाम—मेषी १ लेखरञ्जिका २ स्त्री० ।

सञ्चः पत्रे पुमान् सञ्ची पत्रिकाद्वे स्त्रियामिमे ॥३६॥
 पट्टैः शाणिः शिलापट्टः खटिका कठिनी खटी ।
 पुंसि विद्यालयः पाठ-शाला स्त्री पाठवेश्मनि ॥३७॥
 मार्जन्यूर्णामयी याऽऽस्ते सा रजोहरण नना ।
 सैवाऽलि । पुंसि गोच्छः पुञ्जनी च प्रमार्जिका ॥३८॥
 रजोहरणदण्डस्थ वस्त्र नैषधमुच्यते ।
 क्लीवं प्रार्वरणं पुंसि प्रावारः शाटिका स्त्रियाम् ॥३९॥
 ऊर्ध्ववस्त्रमधोवस्त्रे चोलपट्ट इति स्मृतः ।
 वद्धे खण्डवस्त्रे स्यात्स्त्रियां मुखर्वस्त्रिका ॥४०॥
 श्रमणोपासकः श्राद्धः श्रावकश्च समा इमे ।

(१) समाचार पत्र के तीन नाम—सञ्च १ पु० (पत्र नपु०),
 सञ्ची २ पत्रिका ३ स्त्री० । (२) सिलेट (पाटी) के तीन नाम—
 पट्ट १ शाणि २ शिलापट्ट ३ पु० । (३) खडी के तीन नाम—
 खटिका १ कठिनी २ खटी ३ स्त्री० । (४) पाठ भवन के दो
 नाम—विद्यालय १ पु०, पाठशाला २ स्त्री० (पाठशालम् नपु०) ।
 (५) रजोहरण का एक नाम—रजोहरण १ नपु० । (६)
 पुंजनी के तीन नाम—गोच्छ १ पु०, पुञ्जनी २ प्रमार्जिका ३
 स्त्री० । (७) रजोहरण दण्ड के वस्त्र का एक नाम—नैषध
 नपु० । (८) जैन साधु के शरीर के उपरि वस्त्र के तीन नाम—
 प्रार्वरण १ नपु०, प्रावार २ पु०, शाटिका ३ स्त्री० । (९) जैन
 साधु के परिधानीय वस्त्र का एक नाम—चोलपट्ट १ पु० । (१०)
 सदोरक मुहपत्ती का एक नाम—मुखवस्त्रिका (मुखपत्रिका) १
 स्त्री० । (११) श्रावक के तीन नाम—श्रमणोपासक १ श्राद्ध २
 श्रावक ३ पु० ।

आषाढी मवर्धि मत्वा पञ्चादशदिन पञ्चमी ॥४१॥
संवत्सरी पर्युषण पर्वाऽन्तः शास्त्रसंमतः ।

इति वशवर्गः समाप्तः

(१) आषाढपूर्णिमा के दूसरे दिन से गिनने पर पचासवा दिन की पञ्चमी तिथि को 'संवत्सरी' हो ऐसा शास्त्र का पाठ है स्त्री०, समवायाङ्ग सूत्र में इसी दिन को पर्युषण का अन्तिम दिन मानते हैं ।

॥०॥ इति वशवर्ग समाप्त ॥०॥

॥०॥ अथ क्षत्रियवर्गः प्रारभ्यते ॥०॥

मूर्धाभिषिक्त राजन्य विराट् क्षत्रिय बाहुजाः ।

नृपे पार्थिव राट्क्षमाभृद् राज भूप महीक्षितः ॥१॥

सर्वभौमः समुद्रान्त धरेशे चक्रवर्तिनि ।

मण्डलेश्वर ऊर्व्येक देशशास्ताऽथ राजकम् ॥२॥

राजन्यक भवेदेशं सचिवोऽमात्य मन्त्रिणौ ।

महामात्रः प्रधानं स्याद् द्वाः स्थो दौवारिकस्तथा ॥३॥

द्वारपालः प्रतोहारो द्वारपो वेत्रधारकः ।

प्रहरी यामिकौ द्वौस्तः प्राड्विपाकोऽक्षदर्शकः ॥४॥

प्रस्तोता धर्मकृत्यस्य पुरोहिते पुरोधसौ ।

हिन्दी—(१) क्षत्रिय के पाच नाम—मूर्धाभिषिक्त १ राजन्य
२ विराट् ३ क्षत्रिय ४ बाहुज ५ पु० । (२) राजा के सात-
नाम—नृप १ पार्थिव २ राट् ३ क्षमाभृत् ४ राजा ५ भूप ६ मही-
क्षित् ७ पु० । (३) समुद्र पर्यन्त पृथिवी के तीन नाम—सर्वभौमह
१ समुद्रान्त २ धरेश ३ चक्रवर्ती ४ पु० । (४) पृथिवी के एकके
देश शासक का एक नाम—मण्डलेश्वर १ पु० । (५) राजसमूह
के दो नाम—राजक १ राजन्यक २ नपुं० । (६) मन्त्रियो के
तीन नाम—सचिव १ अमात्य २ मन्त्री ३ पु० । (७) बड़ा प्रधान
मन्त्री का एक नाम—महामात्र १ पु० । (८) द्वारपाल (दरवान)
के छ नाम—द्वा स्थ १ दौवारिक २, द्वारपाल ३ प्रतोहार ४
द्वारप ५ वेत्रधारक ६ पु० । (९) चौकोदार के दो नाम—प्रहरी
१ यामिका २ पु० । (१०) वकील बैरिष्ठर के दो नाम—प्राड्वि-
पाक १ अक्षदर्शक २ पु० । (विवादानुगतं पृष्ठा पूर्ववाक्य प्रय-
त्नत । विचार्यति येनाऽसौ प्राड्विपाकस्ततः सृजन् ॥) (११)
पुरोहित के दो नाम—पुरोहित १ पुरोधस् २ पु० ।

स्याद्गर्वनरः कर्म-मन्त्री तदवरस्तु यः ॥५॥

स कर्मेशनरः तर्प्पाऽधीशस्तु करकूटनः ।

न्यायाधीशस्त्वक्षपाटो धार्मिकोऽथ मनस्विपः ॥६॥

विवादाधिपतिः स्थेयः प्रान्तेशो मध्यदेशराट् ।

सेककोऽथ्यऽनु जीवीस्यात्कोट्टपाले तु मुद्रकः ॥७॥

मुखंतारो मुख्यतरः स्यान्मनेस्वा तु मुद्रकः ।

औद्धाटिकः पुलीशस्तु पुरीशो यामिकाधिपे ॥८॥

पुस्युद्धाटः स्त्रिया स्थानी यामिकाधिपति स्थलम् ।

(१) गवर्नर का का एक नाम—गर्वनर १ पु० । (१)

इनके अधिकार में काम करने वाले का एक नाम—कर्ममन्त्री १ पु० । (2) शिक्षामन्त्री आदि) (३) कर्मेश्वर का एक नाम—कर्मेशनर १ पु । (४) कलेक्टर के दो नाम—तर्प्पा-

ऽधीश १ करकूटन २ पु । (५) जज के तीन नाम—न्यायाधीश १ अक्षपाट २ धार्मिक ३ पु । (६) मुन्सिफ का एक नाम—मनस्विप १ पु । (७) मजिस्ट्रेट के चार नाम—विवादाधिपति १ स्थेय २ प्रान्तेश ३ मध्यदेशराट् ४ पु । (८) सेवक के तीन नाम—सेवक १ अर्थी २ अनुजीवी ३ पु । (९)

कोतवाल के दो नाम—कोट्टपाल १ कोट्टप २ पु । (१०) मुखतार के दो नाम—मुखतार १ मुख्यतर २ पु । (११) मुन्शी (मोहरिर) के दो नाम—मनस्वी १ मुद्रक २ पु । (१२) हवलदार का एक नाम—औद्धाटिक १ पु । (१३) पुलीश के दो नाम—पुलीश १ पुरीश २ (यामिकाधिपति) पु । (१४) थाने के तीन नाम उद्धाट १ पु, स्थानी २ स्त्री, यामिकाधिपति स्थल ३ नपु ।

नैष्किको रजताध्यक्षः कोशाध्यक्षस्तु कोशपः ॥९॥
 धनपालो धनाध्यक्षः स्वर्णाध्यक्षस्तु भौरिकः ।
 प्रशस्त कर्मकर्तृणा मानदानेऽभिनन्दनम् ॥१०॥
 अर्धकारिण्यधिकृताऽध्यक्षाऽधिपति मालिकाः ।
 जयपत्र लब्धिपत्र समौ मध्यस्थ साक्षिणौ ॥११॥
 माध्यस्थं साक्षिता प्रातिभाव्य लग्नकृते समे ।
 यदावेदनपत्र तत् प्रार्थनादलमुच्यते ॥१२॥
 प्रमाणपत्र यत्तस्याद् व्यवस्थापत्रमित्यपि ।
 अभियोगस्तु राजादिष्वपराधनिवेदनम् ॥१३॥

(१) चान्दो क रुपैया छापने छपवाने वाले अधिकारी के दो नाम—नैष्किक १ रजनाऽयक्ष २ पु । (२) खजाञ्ची के दो नाम—कोशाध्यक्ष १ कोशप २ पु. । (३) धान्य सरक्षण अधिकारी के दो नाम—धनपाल १ धनाध्यक्ष २पु. । (४) सुवर्ण विभागके अधिकारी का एक नाम—भौरिक १ पु । (५) सम्मान देने का एक नाम—अभिनन्दन १ नपुं । (६) अधिकार के पाच नाम अधिकारी १ अधिकृत २ अध्यक्ष ३ अधिपति ४ मालिक ५ पु । (७) दिया हुआ न्यायपत्र के दो नाम—जयपत्र १ लब्धिपत्र २ पु । (८) साक्षी के दो नाम—मध्यस्थ १ साक्षी २ पु । (९) पाशके वक्तव्यता के दो नाम—माध्यस्थ १ नपु, साक्षिता २ स्त्री । (१०) जमानत के दो नाम—प्रातिभाव्य १ नपु, लग्नकृता २ स्त्री । (११) आवेदन पत्र के दो नाम—आवेदन पत्र १ प्रार्थनादल २ नपु । (१२) प्रमाणपत्र के दो नाम प्रमाणपत्र १ व्यवस्थापत्र नपु । (१३) मुकदमा के तीन नाम—अभियोग १ पु । अपराध २ निवेदन ३ पु ।

शंङ्गा तत्त्वाभियोगाभ्यां तद्भेदो द्विविधो मतः ।
 अभियोगस्य दार्थाभ्याऽन्वेषणे त्वभियोजनम् ॥१४॥
 कारौ स्त्री बन्धनाऽगार बन्धा तु प्रग्रहः पुमान् ।
 अवेदकोऽभियोक्ताऽभियोगोवादी च वादकः ॥१५॥
 अभियुक्तः प्रतिद्वन्द्वी प्रतिवादी विवादकः ।
 कक्षावेक्षकं शुद्धान्त-पालाऽन्तर्वेशिकाः समाः ॥१६॥
 कञ्चुकी सौविदल्लः स्यात् षण्ढ वर्षवरावपि ।

(१) मुकदमा के दो नाम—अभियोग १ तत्त्वाभि-
 योग २ पु । (२) इन्क्वायरी (तहाककात) का एक नाम—
 अभियोजन १ नपु । (३) जेल के दो नाम—कारा १ स्त्री, बन्ध-
 नाऽगार (बन्धनालय) २ नपु. । (४) राज्यरक्षा के पुलिस अथवा
 सेना द्वारा जो पकड़ लिये गये हो, चाहे इनके ऊपर मुकदमा
 चलाया गया हो अथवा चलने वाला हो, लेकिन जमानत नहीं हुई
 हो, इनके दो नाम—बन्दी १ स्त्री प्रग्रह २ पु. । (५) मुकदमा
 दायर करने वाला (मुद्दई) के पाँच नाम—आवेदक १ अभियोक्ता
 २ अभियोगी ३ वादी ४ वादक ५ पु । (६) मुद्दालह (जिसके
 उपर मुकदमा दायर किया गया है) के चार नाम—अभियुक्त १
 प्रतिद्वन्द्वी २ प्रतिवादी ३ विवादक ४ पु । (७) राजा के अन्त
 पुर सरक्षक के सात नाम—कक्षावेक्षक १ शुद्धान्तपाल २
 अन्तर्वेशिक (अन्तर्वेशिक) ३ कञ्चुकी ४ सौविदल्ल ५
 षण्ढ ६ वर्षवर ७ पु. ।

आस्थानी राजधानी स्त्री हास्यकारी विदूषकः ॥१७॥

भाण्डागारः कोपकोशी रक्षी स्याद्राजरक्षकः ।

घण्टायन्त्र घटीनाली यामनाली यमेरुका ॥१८॥

स्वेदेशान्तरितो राजा मित्र शत्रुरितोऽन्यदृक् ।

उदासीनस्तृतीयः स्यात्पार्ष्णिग्राहोऽनुपृष्ठगः ॥१९॥

समौ स्निग्ध वयसौ स्तः क्लीबे मित्र मर्या मुहुत् ।

शत्रुस्तु शात्रवाऽमित्राऽद्विताऽरि रिपु वैरिणः ॥२०॥

परप्रतीप प्रत्यर्थि विपक्षाऽराति चिद्विपः ।

दुर्हृद् द्वेषि द्विषद् दस्यु सपत्न परिपन्थिनः ॥२१॥

- (१) राजधाना के दो नाम—आस्थानी १ राजधान, २ स्त्री ।
 (२) विदूषक के दो नाम हास्यकारी १ विदूषक २ पु । (३) खजाना के तीन नाम—भाण्डागार (भाण्डार) १ कोप २ कोश ३ पु (४) राज्याधिकृत सरक्षक के दो नाम—रक्षी (रक्षिन्) १ राजरक्षक २ पु । (५) घडियाल के पाच नाम—घण्टायन्त्र १ नपु, घाटी २ नाली ३ यामनाली ४ यमेरुका ५ स्त्री (६) अपने अपने देश के पडोसो राजा तीन प्रकार के होते है—मित्र १ नपु० शत्रु २ पु, उदासीन ३ पु । (७) लडते समय अपने पोछे से होने वाले अचानक हमले को रोकने वाले योद्धाओ के दो नाम—पार्ष्णिग्राह १ अनुपृष्ठक २ पु । (८) मित्र के पाच नाम—स्निग्ध १ वयस्य २ सख्य ३ सुहृद् ४ पु० मित्र ५ नपुं । (९) शत्रु के उन्नीस नाम—शत्रु १ शात्रव २ अमित्र ३ अद्वित ४ अरि ५ रिपु ६ वैरी ७ पर ८ प्रतीप ९ प्रत्यर्थि १० विपक्ष ११ अराति १२ विद्विद् १३ दुर्हृद् १४ द्वेषी १५ द्विषत् १६ दस्यु १७ सपत्न १८ परिपन्थी १९ पु ।

शंङ्का तत्त्वाभियोगाभ्यां तद्भेदो द्विविधो मतः ।
 अभियोगस्य शार्थाध्याऽन्वेषणे त्वभियोजनम् ॥१४॥
 कारौ स्त्री बन्धनाऽगार बन्धा तु प्रग्रहः पुमान् ।
 अवेदकोऽभियोक्ताऽभियोगीवादी च वादकः ॥१५॥
 अभियुक्तः प्रतिद्वन्द्वी प्रतिवादी विवादकः ।
 कक्षावेक्षकं शुद्धान्त-पालाऽन्तर्वेशिकाः समाः ॥१६॥
 कञ्चुकी सौविदलः स्यात् षण्ढ वर्षवरावपि ।

(१) मुकदमा के दो नाम-गणभियोग १ तत्त्वाभि-
 योग २ पु । (२) इन्क्वायरी (तहाककात) का एक नाम-
 अभियोजन १ नपु । (३) जेल के दो नाम-कारा १ स्त्री, बन्ध-
 नाऽगार (बन्धनालय) २ नपु । (४) राज्यरक्षा के पुलिम अथवा
 सेना द्वारा जो पकड़ लिये गये हों, चाहे इनके ऊपर मुकदमा
 चलाया गया हो अथवा चलने वाला हो, लेकिन जमानत नहीं हुई
 हो, इनके दो नाम-बन्दी १ स्त्री प्रग्रह २ पु । (५) मुकदमा
 दायर करने वाला (मुद्दई) के पाँच नाम-आवेदक १ अभियोक्ता
 २ अभियोगी ३ वादी ४ वादक ५ पु । (६) मुदालह (जिमके
 उपर मुकदमा दायर किया गया है) के चार नाम-अभियुक्त १
 प्रतिद्वन्द्वी २ प्रतिवादी ३ विवादक ४ पु । (७) राजा के अन्त-
 पुर सरक्षक के सात नाम-कक्षावेक्षक १ शुद्धान्तपाल २
 अन्तर्वेशिक (अन्तर्वेशिक) ३ कञ्चुकी ४ सौविदल ५
 षण्ढ ६ वर्षवर ७ पु ।

आस्थानो राजधानो स्त्री हास्यकारी विदूषकः ॥१७॥

भाण्डागारः कोपकोशो रक्षी स्याद्राजरक्षकः ।

वण्टायन्त्र घटीनाली यामनाली यमेरुका ॥१८॥

स्वेदेशान्तरितो राजा मित्रं जञ्जुरितोऽन्यदृक् ।

उदासीनस्तृतीयः स्यात्पाणिग्राहोऽनुपृष्ठगः ॥१९॥

समो स्निग्ध वयसो स्तः क्लीबे मित्रं मर्या गृहन् ।

जञ्जुस्तु जात्रवाऽमित्राऽहिताऽरि रिपु वैरिणः ॥ २०॥

परप्रतीप प्रत्यर्थि विपक्षाऽराति विद्विषः ।

दुर्हृद् द्वेषि द्विषद् दम्यु सपत्न परिपन्थिनः ॥२१॥

(१) राजधाना के दो नाम—आस्थानो १ राजधानो २ स्त्री ।

(२) विदूषक के दो नाम हास्यकारी १ विदूषक २ पु । (३)

खजाना के तीन नाम—भाण्डागार (भाण्डार) १ कोप २ कोश

३ पु (४) राज्याधिकृत सरक्षक के दो नाम—रक्षी (रक्षिन) १

राजरक्षक २ पु । (५) घडियाल के पाच नाम वण्टायन्त्र १ नपु,

घाटी २ नाली ३ यामनाली ४ यमेरुका ५ स्त्री (६) अपने

अपने देश के पड़ोसी राजा तीन प्रकार के होते हैं—मित्र १ नपु०

शत्रु २ पु, उदासीन ३ पु। (७) लड़ते समय अपने पीछे से होने

वाले अचानक हमले को रोकने वाले योद्धाओं के दो नाम—

पाणिग्राह १ अनुपृष्ठक २ पु । (८) मित्र के पाच नाम—स्निग्ध

१ वयस्य २ सख्य ३ सुहृद् ४ पु० मित्र ५ नपु । (९) शत्रु के

उन्नीस नाम—जञ्जु १ जात्रव २ अमित्र ३ अहित ४ अरि ५ रिपु

६ वैरी ७ पर ८ प्रतीप ९ प्रत्यर्थि १० विपक्ष ११ अराति १२

विद्विद् १३ दुर्हृद् १४ द्वेषी १५ द्विषत् १६ दम्यु १७ सपत्न

१८ परिपन्थी १९ पु ।

आप्तो विश्वसितो गुप्तैचरे चारचरस्पशाः ।

स्त्री मैत्री मित्रता मैत्र्य सख्य साप्तपदीनकम् ॥२२॥

उष्ट्र सपादन स्वस्याऽऽराध्यादेरनुवर्तनम् ।

सैत्री सदाव्रतीदानी सिद्धान्तज्ञस्तु तान्त्रिकः ॥२३॥

दैवज्ञो गणको ज्योति-विद् भविद् ज्योतिषी स्मृतः ।

सामुद्रिकस्त्रीक्षणिको दूतः सन्देशहारकः ॥२४॥

विविक्तं विजनैज्ञान्ताः उपाशु च रहोऽव्ययः ।

रहस्य त्रिषु तज्जाते युक्तौ क्लीब समञ्जसम् ॥२५॥

हिन्दी—(१) विश्वास पात्र के दो नाम-आप्त १ विश्वसित २ पु ।

(२) गुप्तचर (खोपिया पुलंग) के चार नाम गुप्तचर १ चार २ चर ३ स्पश ४ पु । (३) मित्रता (दोस्ती) के चार नाम-मैत्री

१ मित्रता २ स्त्री, मैत्र्य ३ सख्य ४ नपु (यह मित्रभाव 'साप्त-पदीन' सात कदम साथ २ चलने पर बन जाता है) । (४)

आराध्य गुरुवर्ग के मनोवाञ्छित सपादन का एक नाम-अनुवर्तन

१ नपु (अनुगोच पु) । (५) दानी के तीन नाम-मत्री १ सदाव्रती

२ दानी ३ पु (६) ज्ञात्तवेत्ता के दो नाम-सिद्धान्तज्ञ १ तान्त्रिक

२ पु । (७) ज्योतिष शास्त्र ज्ञाता के पांच नाम-दैवज्ञ १ गणक २

ज्योतिर्वित् ३ भवित् ४ ज्योतिषी (ज्योतिषिक) ५ पु, । (८)

हस्तरेखा आदि के ज्ञाता के दो नाम-सामुद्रिक १ ईक्षणिक २

पु । (९) दूत के दो नाम-दूत १ सन्देशहारक २ पु (१०) एकान्त

के पाँच नाम-विविक्त १ विजन २ एकान्त ३ पु उपाशु ४

रहस्य ५ अव्यय । (११) गुप्तवातो का एक नाम-रहस्य १ नपु ।

(१२) न्याययुक्त वार्ता का एक नाम-सामञ्जस २ नपु ।

धर्माधिकरणे धर्मासनं नीति वितर्दिकाः ।
 स्त्रियां न्यायालयः पुंसि तथा कचहरीत्यपि ॥२६॥
 स्याद्द्वार्णिकोऽक्षरकरो लेखकोऽक्षरजीवकः ।
 तथैवाऽक्षर चञ्चुश्च लोकेऽक्षर चणोमतः ॥२७॥
 स्यात्कागद करगल स्त्रिया स्याल्लिपिधानिका ।
 तथा पुस्युक्षरन्यासोऽक्षरधिः पत्रिका स्त्रियाम् ॥२८॥
 लिपि लिङ्गिः स्त्रियां लेखेऽक्षरन्यासोऽक्षराङ्गकम् ।
 जननीत्वक्षरस्य स्याल्लेखन्यक्षरतूलिका ॥२९॥
 कलमोऽथ मसीधानी मसीपात्रं मसिप्रसूः ।
 नीतिः स्त्रियां न्यायकल्पौ शासनं तु निदेशनम् ॥३०॥

- (१) न्यायालय के पाच नाम—धर्माधिकरण १ धर्मासन २ नपुं, नीतिवितर्दिका ३ स्त्री न्यायालय ४ पु, कचहरो ५ स्त्री ।
 (२) लेखक (लैआ, नकलनवीस) के छ नाम—वार्णिक १ अक्षरकर २ लेखक ३ अक्षरजीवक ४ अक्षरचञ्चु ५ अक्षरचण ६ पु० । (३) कागज के छ नाम—कागद १ करगल २ नपुं० अक्षरन्यास ३ अक्षरधि ४ पु०, लिपिधानिका ५ पत्रिका ६ स्त्री
 (४) लेख (लखान) के पाच नाम—लिपि १ लिङ्गि २ स्त्री०, लेख ३ अक्षरन्यास ४ पु०, अक्षराङ्गक ५ नपु० । (५) लेखनी (होल्डर) के तीन नाम—लेखनी १ अक्षरतूलिका २ स्त्री कलम ३ पु० । (६) दावात खड्ढिया के तीन नाम—मसीपात्र १ नपु०, मसीधानी २ मसीप्रसू ३ स्त्री० । (७) नीति के तीन नाम—नीति १ स्त्री, न्याय २ कल्प ३ पु । (८) आज्ञा के तीन नाम—शासन १ निदेशन २ नपु., आज्ञा ३ पु ।

स्त्रियामाज्ञाऽपरोधे तु मन्तु रागो नपुसकम् ।
 मन्त्रः स्यादषडक्षीणो भ्रैष औचित्य पातनम् ॥३१॥
 त्रिषु त्वौपयिकं न्याय्यं युक्तं बलि करौ समौ ।
 स्यात्तदात्व तु तत्कालः समे उदानं बन्धने ॥३२॥
 गलहस्तोऽर्धचन्द्रः स्याद् धारा दण्डप्रणालिका ।
 स्यादुद्धन्धनमुत्प्राश शूलदण्डस्तु शूलिका ॥३३॥
 प्रक्रियैतवधिकारोऽस्त्रि शूलक घटादिजः करः ।

- (१) अपराध के तीन नाम—अपराध १ मन्तु २ पु, आगस ३ नपु. । (२) गुप्तमन्त्र का एक नाम—अषडक्षण १ पु । (३) उचित से नीचे पड़ने का एक नाम—भ्रैष १ नपु । (४) न्यायासिद्ध के तीन नाम—औपयिक १ न्याय्य २ युक्त ३ त्रिभिर्द्वि । (५) टेक्सकर के दो नाम—बलि १ कर २ पु. । (६) तत्काल (वर्तमान) काल के दो नाम—तदात्व १ नपु । तत्काल २ पु. (७) बन्धन के दो नाम—उदान १ बन्धन २ नपु । (८) अगूठा और तर्जनी अगुली को फैलाकर किसी के गले पर रख के धकेलना 'अर्धचन्द्र' है पु । (९) न्याय कानून के दो नाम—वारा १ दण्डप्रणालिका २ स्त्री । (१०) फासी के दो नाम—उद्धन्धन १ पु, उत्प्राश २ पु । (११) शूलीदण्डके दो नाम—शूलदण्ड १ पु शूलिका २ स्त्री । (१२) राजा आदि के छतधारण आदि काम को सभालने के दो नाम—प्रक्रिया १ स्त्री, अधिकार २ पु.नपु । (१३) नदि आदि पार उतार ने के टिकट का एक नाम—शुल्क १ पु.नपु ।

आयतिः स्युत्तरेकाले चमैर चामर समे ॥३४॥

सुदायो यौतुके देये सज्जन सैन्यरक्षणे ।

उपग्राह्योपचारौ द्वा वुत्कोच उपहारकः ॥३५॥

उपदानं कौशलिक ढौकनाऽऽमिष प्राभृतम् ।

उपायन तथा लञ्चा पदा दाने स्वयं कृते ॥३६॥

पु स्युर्दकः फलं भावि सद्यः सान्दष्टिकं तु यत् ।

हैमं सिहासन तुल्ये भद्रासन नृपासने ॥३७॥

भृङ्गारः पु सि झारी स्त्री झरीका कनकालुका ।

- (१) उत्तर (आगल) काल का एक नाम—आयति १ स्त्री । (२) चामर के दो नाम—चमर १ चामर २ नपु । (३) कन्या विवाह में व्रतभिक्षादि में देय द्रव्य के दो नाम—सुदाय १ यौतुक २ नपु (४) सेना के पहरेदार का एक नाम—सज्जन [उपरक्षण] नपु । (५) रिशवत के बारह नाम—उपग्राह्य १ उपचार २ उत्कोच ३ उपहार ४ पु, उपदान [उपप्रदान] ५ कौशलिक ६ ढोक । ७ आमिष ८ प्राभृत ९ उपायन १० नपु, लञ्चा ११ उपदा १२ (६) भावी फल का एक नाम उदर्क १ पु । (७) सद्य फल (व्यापार आदि) का एक नाम—सान्दष्टिक १ नपुं । (८) सुवर्णमिहासन का एक नाम—मिहासन १ नपु । (९) मणि घटित नृपासन के दो नाम—भद्रासन १ नृपासन २ नपु । (१०) सुवर्ण जलपात्र के चार नाम—भृङ्गार १ पु झारी २ झरीका ३ कनकालुका ४ स्त्री ।

वारायन्त्र मपांयन्त्रे वस्तिः स्याद्वेचके पुमान् ॥३८॥
 स्याद्वेश्यालम्पटः काम-कूटः कूर्चं तु कूर्चकम् ।
 वेत्रासनं समावेदी चाऽऽसन्दी कथितास्त्रियाम् ॥३९॥
 स्यादासंज्ञस्तु सम्बन्ध आसनं तू-पवेशनम् ।
 नागदन्ताश्च भूमन्येव पुंसि स्याद्वटककटः ॥४०॥
 चक्राऽभ्यासश्चक्रशिला तत्स्थान तु खल्लूरिका ।
 शिविर कटक षण्ठे निवेशोऽप्यथ कुञ्जरः ॥४१॥
 द्विपो दन्तावलो दन्ती द्विरदो वारणो गजः ।
 इभः स्तम्बे रमो नागः करी हस्ती मतङ्गजः ॥४२॥

(१) फेहारा का एक नाम-धारायन्त्र [जलयन्त्र] १
 नपु । [२] पिचडारो का एक नाम-वस्ति १ पु. । [३]
 वेश्यागामी के दो नाम-वेश्यालम्पट १ कामकूट पु ।
 [४] व्रुम के दो नाम-कूर्च १ कूर्चक २ नपु । [५] कुरशी
 के तीन नाम-वेत्रासन १ नपु समावेदी २ आसन्दी ३
 स्त्री । [६] सम्बन्ध के दो नाम-आमङ्ग १ सम्बन्ध २ पु । [७]
 आसन के दो नाम-आसन १ उपवेशन २ नपु । [८] खेटी
 [खूटी जिस पर कपड़े टांगे जाय] के दो नाम-नागदन्त [बहुवचन]
 १ घटककट २ पु । [९] चक्र चलाने की शिक्षा के दो नाम-
 चक्राभ्यास १ पु., चक्रशिला २ स्त्री । [१०] चक्रशिक्षा स्थान
 का एक नाम-खल्लूरिका १ स्त्री । [११] सेना निवेश [छावनी]
 के तीन नाम-शिविर १ कटक २ नपु, निवेश ३ पु । [१२]
 हाथी के उन्नोम नाम-कुञ्जर १ द्विप २ दन्तावल ३ दन्ती ४
 द्विरद ५ वारण ६ गज ७ इभ ८ स्तम्बेरम ९ नाग १० करी

मातङ्गोऽनेरुपः पञ्ची कुम्भी करीट सिन्धुरौ ।

मदोत्क्रेयो मदोन्मत्तो मत्तो मदकलः समाः ॥४३॥

यूथेशो यूथनाग स्यात्कल्लभोऽति शिशुः करी ।

उद्धन्तो निर्मदो यूथे हास्तिक गजता स्त्रियाम् ॥४४॥

हस्तिगण्डः कटोऽस्य म्त्री हस्तिनी करिणीवशा ।

इषीका नेत्रगोल स्या-ललाट स्याच्चवग्रहः ॥४५॥

शुण्डादण्डः करस्तज्जो जलौणुर्वमथुः पुमान् ।

११ हस्ती १२ मतङ्ग १३ मातङ्ग १४ अनेकप १५ पञ्ची १६
कुम्भी १७ करीट १८ सिन्धुर १९ पु ।

हिन्दी—(१) मदमस्त हाथी के चार नाम—मदोत्कट १
मदोन्मत्त २ मत्त ३ मदकल ४ पु० । (२) यूथ मे प्रधान हाथी
के दो नाम—यूथेश १ यूथनाग २ पु० । (३) हाथी के बच्चों
का दो नाम—कलभ १ करिपोत २ पु० । (४) मदहोन हाथी
के दो नाम—उद्धान्त १ निर्मद २ पु० । (५) गजसमूह के दो
नाम—हास्तिक २ नपु गजता २ स्त्री० । (६) गजकपोल के
दो नाम—हस्तिगण्ड १ कट २ पु० । (७) हथिनी के तीन नाम—
हस्तिनी १ करिणी २ वशा ३ स्त्री० । (८) नेत्रगोलक के दो
नाम—इषीका (ईषिक) १ स्त्री०, नेत्रगोल २ नपु० । (९) गज
ललाट का एक नाम—अवग्रह १ पु० । (१०) हाथी के शुण्डादण्ड
से निकलते पानी के दो नाम—जलाणु १ वमथु २ पु० ।

दानं मदः शिरः पिण्ड कुम्भोऽस्याभ्यन्तरं त्रिदुः ॥४६॥
 आसनं स्कन्ध देशोऽस्य बिन्दुजालं तु पद्मकम् ।
 अङ्कुशोऽस्त्री सृणिः स्त्री रयात्कशार्था तोत्र वैणुकौ ॥४७॥
 निर्गडोऽस्त्र्यन्दुकोनाऽन्दुः स्त्री नना शृखलं भवेत् ।
 कल्पना सज्जना कक्ष्या-दूष्ये तूदरबन्धनी ॥४८॥
 कुर्थो वर्णः परिस्तोमः प्रवेण्यास्तरण त्रिषु ।
 आहवो पालितोऽन्येतु द्वयोरेव कुर्थं त्रिदुः ॥४९॥
 झल्लोऽञ्जला तथाऽऽस्फाले हस्तिनी कर्णं चालने ।

(१) गजमद के दो नाम—दान १ नपु० मद २ पु० । [२] गजजिर
 पिण्ड का एक नाम—कुम्भ १ पु० । (३) कुम्भद्वय के भातर
 मस्तिष्क को त्रिदु' कहने है पु० । (४) हाथी के कन्धे का एक
 नाम—आसन १ नपु० । (५) हाथी के माथे पर जो रक्त-
 बिन्दु समूह है उसके दो नाम—बिन्दुजाल १ पद्मक २
 नपु० । (६) अकुश के दो नाम—अकुश १ पु०=पुं०, सृणि २
 स्त्री० । [७] चावूक के तीन नाम—कशा १ स्त्री०, तोत्र २
 वैणुक ३ पु० । (८) हस्तिबन्धन वेडी के चार नाम—निगड
 १ पु० नपु० अन्दुक २ पु० अन्दु ३ स्त्री० शृङ्खला ४ स्त्री० ।
 (९) चढने के लिये हाथी को सजने के दो नाम कल्पना १ सजना
 २ स्त्री० । (१०) हाथी के पेटकम रस्सा के तीन नाम—
 कक्ष्या १ दूष्या २ उदरबन्धनी (रज्जु) ३ स्त्री० । (११)
 हाथी के झल के पांच नाम—कुय १ (वोपालित मते तु त्रिलिङ्ग,
 अन्यमते तु पु नपु) वर्ण २ परिस्तोम ३ पु प्रवेणी ४ स्त्री०
 आस्तरण ५ नपु । (१२) हस्तिनी के कर्णचालन के तीन नाम—
 झलञ्जला १ स्त्री, आस्फाल २ पु हस्तिनीकर्णचालन ३ नपु ।

आलानं बन्धनस्तम्भः स्याद् वारो गजबन्धनी ॥५०॥

हस्तिशाला वरण्डस्तु पुमान् स्त्री गजवेदिका ।

हस्तिपाघोरणौ तुल्यौ वीत फल्गु हयद्विपम् ॥५१॥

अश्व स्तुरङ्ग तुरग हयवाजि तुरङ्गमाः ।

घोट घोटकगन्धर्व सप्तिवाहाऽर्व सैन्धवाः ॥५२॥

पीतिर्विनीतः सजाता शिक्षा यस्य स आहवे ।

भिन्नो जह्यान्नयः संज्ञा मार्जानेयस्तु सत्कुलः ॥५३॥

काम्बोजा वाहिकास्तद्वत् पारसीका वनायुजाः ।

सवेगो जर्वनः पृष्ठैश्च स्थौरिणौ भारवाहके ॥५४॥

- (१) गजबन्धन स्तम्भ के दो नाम-आलान १ नपु बन्धनस्तम्भ २ पु । (२) गजबन्धनशाला (हथिसाल) के तीन नाम-वारो १ गजबन्धनी २ हस्तिशाला ३ स्त्री । (३) हाथी के घोड़े के दो नाम वरण्ड १ पु., गजवेदिका २ स्त्री । (४) महावत के दो नाम-हस्तिप (हस्तिपक) १ आघोरण २ पु. । (५) कर्णाक्षम (नाकाम) हाथी घोड़े के दो नाम-वत १ फल्गु २ नपु. । (६) घोड़े के चौदह नाम-अश्व १ तुरङ्ग २ तुरग ३ हय ४ वाजी ५ तुरङ्गम ६ घोटक ७ गन्धर्व ८ सप्ति ९ वाह ११ अर्वा १२ सैन्धव १३ पीति १४ पु. । (७) शिक्षित घोड़े के एक नाम-विनीत १ पु. । (८) उत्तमकुल घोड़े के दो नाम आजातीय (आकीर्ण) १ सत्कुल २ पु. । (९) भिन्न २ देश के घोड़े का पृथक् २ नाम-काम्बोज वाहिक, पारसीक, वनायुज पु. । (१०) अधिक वेगशाली घोड़े के एक नाम-जवन १ पु. । (११) भारवाहो घोड़े के दो नाम-पृष्ठश्च १ स्थौरी २ पु. ।

दानं मदः शिरः पिण्ड कुम्भोऽस्याभ्यन्तरं त्रिदुः ॥४६॥

आसनं स्कन्धदेशोऽस्य बिन्दुजालं तु पञ्चकम् ।

अङ्कुशोऽस्त्री सृणिः स्त्री स्यात्कशार्था तोत्रवैणुको ॥४७॥

निर्गडोऽस्यन्दुकोनाऽन्दुः स्त्री नना शृखलं भवेत् ।

कल्पना सञ्जना कक्ष्या-दूष्ये तूदरबन्धनो ॥४८॥

कुर्थो वर्णः परिस्तोमः प्रवेण्यास्तरण त्रिषु ।

आहवो पालितोऽन्येतु द्वयोरेव कुयं त्रिदुः ॥४९॥

झल्लः झल्ला तथाऽऽस्फाले हस्तिनी कर्ण चालने ।

- (१) गजमद के दो नाम—दान १ नपु०, मद २ पु० [२] ग शिर पिण्ड का एक नाम—कुम्भ १ पु० । (३) कुम्भद्वय के भीतर मस्तिष्क को 'विदु' कहने है पु० । (४) हाथी के कन्धे का एक नाम—आसन १ नपु० । (५) हाथी के माथे पर जो रक्त-बिन्दु समूह है उसके दो नाम—बिन्दुजाल १ पञ्चक २ नपु० । (६) अङ्कुश के दो नाम—अङ्कुश १ पु० नपु०, सृणि २ स्त्री० । [७] चावूक के तीन नाम—कशा १ स्त्री०, तोत्र २ वैणुक ३ पु० । (८) हस्तिबन्धन वेडी के चार नाम—निर्गड १ पु० नपु० अन्दु २ पु० अन्दु ३ स्त्री० शृखला ४ स्त्री० । (९) चढ़ने के लिये हाथी की सजने के दो नाम कल्पना १ सञ्जना २ स्त्री० । (१०) हाथी के पेटकम रस्सा के तीन नाम—कक्ष्या १ दूष्या २ उदरबन्धनी (रज्जु) ३ स्त्री० । (११) हाथी के झल के पाँच नाम—कुयं १ (बोपालित मते तु त्रिलिङ्ग, अन्यमते तु पु नपु) वर्ण २ परिस्तोम ३ पु प्रवेणी ४ स्त्री० आस्तरण ५ नपु । (१२) हस्तिनी के कर्णचालन के तीन नाम—झलझला १ स्त्री०, आस्फाल २ पु हस्तिनीकर्णचालन ३ नपु ।

आलानं बन्धनस्तम्भः स्याद् वारो गजबन्धनी ॥५०॥

हस्तिशाला वरण्डस्तु पुमान् स्त्री गजवेदिका ।

हस्तिपाऽघोरणौ तुल्यौ वीत फल्गु हयद्विपम् ॥५१॥

अश्व स्तुरङ्ग तुरगं हयवाजि तुरङ्गमाः ।

घोट घोटकगन्धर्व सप्तिवाहाऽर्व सैन्धवाः ॥५२॥

पीतिर्विनीतः सजाता शिक्षा यस्य स आहवे ।

भिन्नो जह्यान्नयः संज्ञा मार्जानेयस्तु सत्कुलः ॥५३॥

काम्बोजा वाहिकास्तद्वत् पारसीका वनायुजाः ।

सवेगो जर्वनः पृष्ठे च स्थौरिणौ भारवाहके ॥५४॥

- (१) गजबन्धन स्तम्भ क दो नाम-आलान १ नपु बन्धनस्तम्भ २ पु । (२) गजबन्धनशाला (हथिसाल) के तीन नाम-वारो १ गजबन्धनी २ हस्तिशाला ३ स्त्री । (३) हाथी के होड़े के दो नाम वरण्ड १ पु , गजवेदिका २ स्त्री । (४) महावत के दो नाम-हस्तिप (हस्तिपक) १ आघोरण २ पु. । (५) कर्याक्षम (नाकाम) हाथी घोड़े के दो नाम-वत १ फल्गु २ नपु. । (६) घोड़े के चौदह नाम-अश्व १ तुरङ्ग २ तुरग ३ हय ४ वाजी ५ तुरङ्गम ६ घोटक ७ गन्धर्व ८ सप्ति ९ वाह ११ अर्वा १२ सैन्धव १३ पीति १४ पु । (७) शिक्षित घोड़े के एक नाम-विनीत १ पु. । (८) उत्तमकुल घोड़े के दो नाम आजानेय (आकीर्ण) १ सत्कुल २ पु । (९) भिन्न २ देश के घोड़े का पृथक् २ नाम-काम्बोज वाहिक, पारसीक, वनायुज पु । (१०) अधिक वेगशाली घोड़े के एक नाम-जवन १ पु । (११) भारवाहो घोड़े के दो नाम - पृष्ठच १ स्थौरी २ पु ।

दानं मदः शिरः पिण्ड कुम्भोऽस्याभ्यन्तरं विदुः ॥४६॥
 आसनं स्कन्धदेशोऽस्य बिन्दुजालं तु पद्मकम् ।
 अङ्कुशोऽस्त्री सृणिः स्त्री स्यात्कशार्था तोत्रवैणुकौ ॥४७॥
 निर्गडोऽस्त्र्यन्दुकोनाऽन्दुः स्त्री नना शृङ्खलं भवेत् ।
 कल्पना सञ्जना कक्ष्या-दूष्ये तूदरबन्धनी ॥४८॥
 कुर्थो वर्णः परिस्तोमः प्रवेण्यास्तरण त्रिषु ।
 आहवो पालितोऽन्येतु द्वयोरेव कुथं त्रिदुः ॥४९॥
 झल्लेऽञ्जल्ला तथाऽऽस्फाले हस्तिनी कर्णचालने ।

(१) गजमद के दो नाम—दान १ नपु०, मद २ पु० [२] ग शिर
 पिण्ड का एक नाम—कुम्भ १ पु० । (३) कुम्भद्वय के भीतर
 मस्तिष्क को 'विदु' कहने है पु० । (४) हाथी के कन्धे का एक
 नाम—आसन १ नपु० । (५) हाथी के माथे पर जो रक्त-
 बिन्दु समूह है उसके दो नाम—बिन्दुजाल १ पद्मक २
 नपु० । (६) अकुश के दो नाम—अकुश १ पु० नपु०, सृणि २
 स्त्री० । [७] चावुक के तीन नाम—कशा १ स्त्री०, तोत्र २
 वैणुक ३ पु० । (८) हस्तिबन्धन वेडा के चार नाम—निगड
 १ पु० नपु० अन्दुक २ पु० अन्दु ३ स्त्री० शृङ्खला ४ स्त्री० ।
 (९) चढने के लिये हाथी को सजने के दो नाम कल्पना १ सञ्जना
 २ स्त्री० । (१०) हाथी के पेटकम रस्सा के तीन नाम—
 कक्ष्या १ दूष्या २ उदरबन्धनी (रज्जु) ३ स्त्री० । (११)
 हाथी के झल के पाच नाम—कुथ १ (वोपालित मते तु त्रिलिङ्ग,
 अन्यमते तु पु नपु) वर्ण २ परिस्तोम ३ पु प्रवेणी ४ स्त्री०
 आस्तरण ५ नपु । (१२) हथिनो के कर्णचालन के तीन नाम—
 झलञ्जला १ स्त्री, आस्फाल २ पु हस्तिनीकर्णचालन ३ नपु ।

आलानं बन्धनस्तम्भः स्याद् वारो गजबन्धनी ॥५०॥

हस्तिशाला वरण्डस्तु पुमान् स्त्री गजवेदिका ।

हस्तिपाण्डघोरणौ तुल्यौ वीत फल्गु हयद्विपम् ॥५१॥

अश्व स्तुरङ्ग तुरगे हयवाजि तुरङ्गमाः ।

घोट घोटकगन्धर्व सप्तिवाहाऽर्व सैन्धवाः ॥५२॥

पीतिर्विनीतः सजाता शिक्षा यस्य स आहवे ।

भिन्नो जह्यान्नयः संज्ञा मार्जानेयस्तु सत्कुलः ॥५३॥

काम्बोजा वाहिकास्तद्वत् पारसीका वनायुजाः ।

सवेगो जर्वनः पृष्ठेय स्थौरिणी भारवाहके ॥५४॥

- (१) गजबन्धन स्तम्भ के दो नाम-आलान १ नपु बन्धनस्तम्भ २ पु । (२) गजबन्धनशाला (हथिसाड) के तीन नाम-वारो १ गजबन्धनी २ हस्तिशाला ३ स्त्री । (३) हाथी के होड़े के दो नाम वरण्ड १ पु., गजवेदिका २ स्त्री । (४) महावत के दो नाम-हस्तिप (हस्तिपक) १ आघोरण २ पु. । (५) कर्याक्षम (नाकाम) हाथी घोड़े के दो नाम-वत १ फल्गु २ नपु. । (६) घोड़े के चौदह नाम-अश्व १ तुरङ्ग २ तुरग ३ हय ४ वाजी ५ तुरङ्गम ६ घोटक ७ गन्धर्व ९ सप्ति १० वाह ११ अर्वा १२ सैन्धव १३ पीति १४ पु. । (७) शिक्षित घोड़े के एक नाम-विनीत ९ पु. । (८) उत्तमकुल घोड़े के दो नाम आजानेय (आकीर्ण) १ सत्कुल २ पु । (९) भिन्न २ देश के घोड़े का पृथक् २ नाम-काम्बोज वाहिक, पारसीक, वनायुज पु । (१०) अधिक वेगशाली घोड़े के एक नाम-जवन १ पु । (११) भारवाहो घोड़े के दो नाम - पृष्ठेय १ स्थौरी २ पु ।

शुक्लाश्वे पुसिकर्कः स्याद् रथ्यस्तु रथवाहकः ।
 आश्वीन येन चैकाहा गम्यो गम्येत तत् त्रिषु ॥५५॥
 घोट्ट्यश्वा वडवा वामो वाडैव वडवारणः ।
 अश्वस्य नामिका प्रोथ धारापञ्च गतिर्यथा ॥५६॥
 प्लुतमास्फन्दित धौरि तक वल्गितरेचकं ।
 हेषां हेषा च जब्देस्त्री कश्यं मध्ये नपुसकम् ॥५७॥
 गलदेशो निर्गोलोऽथाऽऽश्वीय माश्वं ह्योच्चयः ।
 खुरः पुसि शफ क्लीवे पुच्छेग्र वालधिः पुमान् ॥५८॥

- (१) मफेद घोड़े के एक नाम—कर्क १ पु. । (२) रथ में चलने वाले घोड़े के एक नाम—रथ्य १ पु (३) जिस घोड़े से एक दिन में ही गन्तव्य देश जाया जा सके उस घोड़े का एक नाम—आश्वीन १ त्रिलिङ्ग । (४) घोड़ों के चार नाम घोट १ अश्वा २ वडवा ३ वामा ४ वा । (५) घोड़ी समुदाय के दो नाम—वाडव १ नपु, वडवग २ पु । (६) घोड़ा के नासिका के एक नाम—प्रोथ १ नपु । (७) घोड़े की चाल के दो नाम—धारा १ गति २ स्त्री । (८) इनके पाच भेद—प्लुत १ आस्फन्दित २ धौगितक ३ वल्गित ४ रेचक ५ नपु । (९) अश्व शब्द के दो नाम—हेषा १ हेषा २ स्त्री । (१०) घोड़े के पंठ [मध्यदेश के एक नाम—कश्य १ नपु (११) घोड़े के गलसमीप देश का एक नाम—निगोल १ पु (घण्टाबन्ध समोपस्थो निगोल कथितो बुधै । तस्मिन्नेव मणिर्नाम रोमज शुभ-कृन्मत ।)] (१२) अश्व समूह के दो नाम—आश्वीय १ आश्व २ नपु । (१३) खुर के दो नाम—खुर १ पु, शफ २ नपु । [१४] पुच्छ के आगे भाग के दो नाम—पुच्छग्र १ नपु, वालधि २ पु ।

लाङ्गूल लाङ्गुलं लूम पूच्छेऽथ कविका स्त्रियाम् ।
 दन्तालिका खलिनोऽस्त्री वल्गा स्त्री प्रग्रहः पुमान् ॥५९॥
 यो युद्धार्थो रथश्चक्री शताङ्गः स्यन्दनश्च सः ।
 सुखेन भ्रमणार्थो यः सस्यात्पुष्परथो रथः ॥६०॥
 स्त्रीणां रथे पुमान् कर्णी रथः प्रवहणं तथा ।
 क्लीवेऽनैः शकटो नस्त्री गन्त्री गान्त्री च गाडिका ॥६१॥
 ताम्रयान चतुर्दोली पाल्यङ्गी शिविके समे ।
 प्रेक्षा हिन्दोलयो दोला दोली तु खर्वयोस्तयोः ॥६२॥
 वस्त्राद्यावृत याने स्यात् त्रिषु वास्त्रादयः स्मृताः ।
 सा-यैकील तु पद्यानं कारयानन्तु मुष्टिलम् ॥६३॥

हिन्दा- [१] पुच्छ के चार नाम-लाङ्गूल १ लाङ्गु २ लूम
 ३ नपु, पुच्छ ४ नपुं । [२] लगाम के पांच नाम-कविका १
 दन्तालिका २ स्त्री, खलीन ३ पु नपु, वल्गा ४ स्त्री प्रग्रह ५
 पु । [३] युद्धार्थ रथ के तीन नाम-चक्री १ शताङ्ग २
 स्यन्दन ३ पु, । [४] भ्रमणार्थ रथ के एक नाम-पुष्परथ १ पु ।
 [५] स्त्री के रथ के दो नाम-कर्णी १ पु, प्रवहण २ नपु
 [६] गाडो के पांच नाम-अनस् १ नपु, शकट २ पु नपु, गन्त्री
 ३ गान्त्री ४ गाडिका ५ स्त्री । [७] पालखी के चार नाम-
 ताम्रयान १ नपुं, चतुर्दोली २ पाल्यङ्गी ३ शिविका ४ स्त्री ।
 [८] दोला कहने से प्रेक्षा (पालखी) और हिन्दोला (हिडोला)-
 झूला स्त्री । [९] छोटे पालखी हिडोला के एक नाम-दोली
 १ स्त्री । [१०] बन्नादि से ढके हुए सवार। का एक नाम-वाह
 १ त्रिलिङ्ग । [११] साइकल के दो नाम-साध्यकील १ पद्यान २
 नपु । [१२] कार मोटर के दो नाम-कारयान १ मुष्टिल २ नपु ।

व्योमयान वायुयान वाष्पयानं तु वह्नयनः ।

स्थेशन विश्रमस्थानं गुप्तवाटी तु गुर्वटी ॥६४॥

चिटिकाऽथो वेशपत्रं तद् द्रष्टा चिटिकेत् त्रिषु ।

वाष्पयान प्रकोष्ठे तु काम्यपीठ प्रकोष्ठकम् ॥६५॥

अथ लौहपथो लौह-कर्म तन्मार्ग उच्यते ।

उपरिष्ठाज्जलादेर्यो मर्गः स पुंलमुच्यते ॥६६॥

प्रधिः पुंसि स्त्रिया नेमिः चक्रभू स्पशि दारुणि ।

पिण्डिका तु स्त्रिया नाभिश्चक्र मध्यस्थ पिण्डिके ॥६७॥

[१] हवाई जहाज के दो नाम—व्योमयान १ वायुयान
२ नपु । (२) रेलगाडी के दो नाम—वाष्पयान १ वह्नयनस २
नपु । (३) रेल रुकने की जगह (स्टेशन) के दो नाम—स्टेशन
१ विश्रमस्थान [विश्रमस्थान] नपु । [४] घूंगटी के दो नाम—
गुप्तवाटी १ गुर्वटी २ स्त्री । (५) टिकिट का एक नाम—चिटिका १
स्त्री० । (६) प्लेट फार्म टिकिट का एक नाम—वेशपत्र १ नपु० ।
(७) टिकिटकचेक्टर का एक नाम—चिटिकेत् १ त्रिलिङ्ग । (८) रेल
गाडी के डब्बे के दो नाम—काम्यपीठ १ प्रकोष्ठक २ नपु० । (९)
रेलगाडी का पटरा (लेन) के दो नाम—लौहपथ १ पु०, लौहवर्त्म २
नपु० । (१०) जलादीके ऊपर से जो लौहकाष्ठ आदि का मार्ग है
उसका एक नाम—पुल १ नपु० । (११) गाडी के चक्र से लेकर पृथ्वी
तक सम्बन्धित काष्ठ के दो नाम—प्रधि १ पु०, नेमि
२ स्त्री० । (१२) रथचक्र के बीच में जो मण्डलाकार है,
उसके दो नाम—पिण्डिका १ स्त्री०, नाभि २ नपु० ।

समे रथाङ्गचक्रे तत् कीले त्वाणि रणिर्द्वयोः ।
 काष्ठेऽथः स्थेऽनुकैर्पोऽथ वरूथो रथवेष्टनः ॥६८॥
 यानमात्रे स्मृत युग्यं यानं पत्र च वाहनम् ।
 वृषादिस्कन्धसंसक्तो युगः प्रासङ्ग ईरितः ॥६९॥
 अश्वादि बन्धने काष्ठे कूर्वरश्च युगन्धरः ।
 रथाऽवयवमात्रे तु रथाङ्गाःऽपस्करावुभौ ॥७०॥
 अस्त्रीवैनीतकं तत्स्यान्नसाक्षाद् वाहनञ्चयत् ।
 रथाऽऽरोही रथी योद्धा सेनापालस्तु सैनिकः ॥७१॥

- (१) गाड़ी के चक्र के दो नाम- रथाङ्ग १ चक्र २ नपुं० ।
 (२) गाड़ी के कील के दो नाम आणि १ अणि २ स्त्री०पुं० ।
 (३) गाड़ी के चक्रधार काष्ठ के ऊपर रक्खे गए, जो कि गाड़ी नीचे है, उन दोनों काष्ठ का एक नाम-अनुत्कर्ष १ पुं० । (४) गाड़ी पर लदा गया सामान जिस घेड़े से रोका गया नीचे नहीं पड़ता है उस आवरण के दो नाम- वरूथ १ रथवेष्टन २ पुं० ।
 (५) यान मात्र के (प्रत्येक सवारीके) चार नाम- युग्य १ यान २ पत्र ३ वाहन ४ नपुं० (६) गाड़ी के जो काष्ठ बैल के कन्धे पर रक्खा जाय उस काष्ठ के दो नाम-कूर्वर १ युगन्धर २पुं० ।
 (७) रथ के प्रत्येक अवयव को "रथाङ्ग और उपस्कर" कहते हैं पुं० । (८) जो साक्षात् वाहन न हों उनका एक नाम- वैनीतक १ पुं० नपुं० । (९) रथ पर बैठने वालों के तीन नाम-रथारोही १ रथा २ योद्धा ३ पुं० । (१०) सेनापाल के दो नाम सेनापाल १ सैनिक २ पुं० ।

अश्ववारोऽश्ववाहोऽश्वसादोऽश्वारोह सादिनौ ।
 अश्वारोहश्च सादी च स्युः सप्तैतेऽश्ववाहकाः ॥७२॥
 अश्वशास्त्र शालिहोत्र मश्वशालासु मन्दुरौ ।
 सूतो यन्ता नियन्ता च सारथावथ "सैनिकः ॥७३॥
 सेनासंमिलितः सैन्यः वाणवारस्तु कञ्चुकः ।
 सेनापतिस्तु "सेनानी भट्ट योवौ तु योद्धरि ॥७४॥
 वेधन्या स्फोटनी तुल्ये आस्फोटो बाहुताडनम् ।
 परिधिस्थैः सैन्यनेतृ नेता परिचरोऽपि सः ॥७५॥
 बलीवे सारसनं वाण-वारबन्ध वत्रिका ।

(१) घोड़े को सवारी करने वाले के सात नाम—अश्ववार १
 अश्ववाह २ अश्वसाद ३ अश्वारोह ४ सादी ५ अश्वारोही
 ६ अश्वसादी ७ पु । (२) अश्वशास्त्र के दो नाम—अश्व
 शास्त्र १ शालिहोत्र २ नपुं । (३) अश्वशाला को 'मन्दुरा'
 कहते हैं स्त्री । (४) कोचगान के चार नाम—मृत १ यन्ता
 २ नियन्ता ३ सारथि ४ पु० । (५) सैनिक के तीन नाम
 —सैनिक १ सेनासंमिलित २ सैन्य ३ पु० । (६) सैनिक
 के वर्दी के दो नाम—वाणवार १ कञ्चुक २ पु० । (७)
 सेनापति को 'सेनानी' कहते हैं पु । (८) योद्धा के तीन
 नाम—भट्ट १ योध २ योद्धा ३ पु० । (९) मोती आदि के
 वेधनयन्त्र के दो नाम—वेधनी १ आस्फोटनी २ स्त्री ।
 (१०) बहुताडन का एक नाम—आस्फोट १ पु० । (११) सैन्यनेता
 के शासक के दो नाम परिधिस्थ १ परिचर २ पु । (१२) 'कमर
 बाधने के फीते के एक नाम—सारसन १ नपुं ।

स्याच्छीर्षण्ये शिरस्त्राणे किरीटे मुकुट तथा ॥७६॥

कोटीरं च द्वयो मौलिः शिरोवेष्टनक तु यत् ।

उष्णीषं शीर्षकं क्लीबे तनुत्रे वर्म दंशने ॥७७॥

ककटोरश्छदावस्त्री कवचो जगरोऽपि च ।

नेत्रत्राणं च चक्षुर्मा उपनेत्रो-पचक्षुषी ॥७८॥

क्लीबे कावचिकं तु स्याद् गणे कवचधारिणाम् ।

आडम्बरस्तु सरम्भस्तथैवाऽऽटोप इत्यपि ॥७९॥

व्यूढकङ्कट सन्नद्ध सज्ज दंशितवर्मिताः ।

आमुक्तं प्रतिमुक्तौ द्वावपिनद्धः पिनद्धवत् ॥८०॥

- (१) सैनिक पगडी के दो नाम-शीर्षण्य १ शिर-
 स्त्राण २ नपु. । (२) मुकुट के चार नाम-किरीट १ मुकुट
 २ कोटीर ३ नपुं, मौलि ४ पु, स्त्री । (३) पगडी के
 तीन नाम-शिरोवेष्टन १ उष्णीष (उष्णिष्) २ शीर्षक ३
 नपु । (४) कवच के सात नाम-तनुत्र १ वर्म २ दशन
 ३ नपुं, ककठ ४ उरश्छद ५ कवच ६ जगर ७ पु नपु ।
 (५) चश्मा के चार नाम-चक्षुर्मा १ पु, नेत्रत्राण २ उपनेत्र
 ३ उपचक्षुः ४ नपुं० । (६) कवच धारी समूह का एक नाम-
 कावचिक १ नपुं० । (७) आडम्बर के तीन नाम- आडम्बर १
 सरम्भ २ आटोप ३ पु० । (८) वस्त्रधारी सनद्ध योद्धा के पाच
 नाम-व्यूढकङ्कट १ सन्नद्ध २ सज्ज ३ दशित ४ वर्मित ५ पु० ।
 (९) कवचधारो के चार नाम- आमुक्त १ प्रतिमुक्त २ अपिनद्ध ३
 पिनद्ध ४ पु० ।

गुणाः यानाऽऽसनद्वैध विग्रहोऽऽश्रय सन्धयः ।

त्रिवर्गस्तु क्षैयो वृद्धिः स्थानं दण्डस्तु साहसम् ॥८१॥

दमश्चाऽथोपधाधर्मा-धैर्भृत्यादि परीक्षणम् ।

प्रभावो दण्डज तेजः प्रतापः कोशजं तथा ॥८२॥

उपायाः सामदानं च भेदो दण्डोऽथ शक्तयः ।

तिस्रः स्युर्मन्त्रणोत्साह प्रभाव जनिता इमाः ॥८३॥

राजामन्त्री सुहृत्कोषो राष्ट्र सैन्यं च दुर्गभूः ।

राज्याङ्ग प्रकृतिस्तु स्यात् पुरश्रेणि युत च तत् ॥८४॥

(१) राजाओ मे जो छ गुण होते है वे ए है- यान १ आसन २ द्वैध ३ विग्रह ४ आश्रय ५ सन्धि ६ पु० । (२) त्रिवर्ग के तीन नाम-क्षय १ पु० वृद्धि २ स्त्री०, स्थान ३ नपु० । (३) दण्ड के तीन नाम- दण्ड १ दम २ पु०, साहस ३ नपु० । (४) भृत्यादि की धर्म आदि से परीक्षा का एक नाम-उपधा १ स्त्री० । (५) दण्ड से प्रसिद्ध तेज का एक नाम- प्रभाव १ पु० (६) भरपूर खजाने की प्रसिद्धि का एक नाम- प्रताप १ पु० । (७) ए उपाय चतुष्टय हैं-साम १ दान २ नपु०, भेद ३ दण्ड ४ पु० । (८) राजाओ के पास शक्तियाँ तीन होती हैं- मन्त्रणाशक्ति १ उत्साहशक्ति २ प्रभावशक्ति ३ स्त्री० । (९) राज्याङ्ग सात है-राजा १ मन्त्री २ सुहृत् ३ कोष ४ पु०, राष्ट्र ५ सैन्य ६ नपु०, दुर्गभू ७ स्त्री० [नगर के पृथक् २ दलों के मुखिया के साथ राज्य की प्रजा भी राज्याङ्ग हैं- यों पूर्वोक्त आठ के आठ राज्याङ्ग हैं ।)

सहाय साधनोपायौ विभागः कालदेशयोः ।

प्रतीकारो विपत्तीनां सिद्धिः षड्चाङ्गमिष्यते ॥८५॥

पुंसि भेदोपजापोस्तः क्लीब साम तु सान्त्वनम् ।

अध्वर्गः पथिकः पान्थोऽध्वनीनो यात्रिक त्रिषु ॥८६॥

पदातिः पदिकः पत्तिः पदाजिः पदगस्तथा ।

पादातिश्च गर्वाटः पादात तत्कदम्बकम् ॥८७॥

मन्थरो मन्दगामीस्याज्ज्वालालाऽतिजवौ समौ ।

पुरोगमः पुरोगोऽग्नेमरः प्रष्ठः पुरः सरः ॥८८॥

तरस्वी त्वरितो वेगी रथिको रथिनो रथी ।

(१) सिद्धियो के पाच अङ्ग है- सहाय १ साधनोपाय २ देश-
विभाग कालविभाग ३ विपत्ति प्रतीकार ४ पु०, सिद्धि ५ स्त्री० ।

(२) भेद के दो नाम- भेद १ उपजा २ पु० । (३) साम के
दो नाम- साम [सामन] १ उपशान्त्वन २ नपु० । (४) पथिक
के पाच नाम- अध्वग १ पथिक २ पान्थ ३ अध्वनीन ४ यात्रिक
५ त्रिभिङ्ग । (५) पैदल योद्धा के मात नाम- पदाति १ पादिक
२ पत्ति ३ पदाजि ४ पदग ५ पादातिक ६ गर्वाट ७ पु० । (६)
पदाति समूह का एक नाम- पादान १ पु० । (७) धीरे धीरे
चलने वाले के दो नाम-मन्थर १ मन्दगामी २ पु । (८)
तेज चलनेवालो के दो नाम-ज्वाल १ अतिजव १ पु ।
(९) आगे चलने वालों के पाच नाम-पुरोगम २ पुरोग
२ अग्नेमर ३ प्रष्ठ ४ पुर सर ५ पु । (१०) वेगशाली
के तीन नाम-तरस्वी १ त्वरित २ वेगी ३ पु । (११)
रथारोही के तीन नाम-रथिक १ रथिन २ रथी ३ पु ।

जैत्रं जित्वर जेतारो जिष्णौ बुरैसिलस्त्वसौ ॥८९॥

उरस्वान् सायुगीनस्तु युद्धे शक्तोऽथ धन्वनि ।

धनुष्म धन्वि धानुष्क निषङ्गय स्त्रि धनुर्धरः ॥९०॥

शक्त्यस्त्रभृत् शाक्तोको याष्टीको यष्टियोधनः ।

काण्डीरः काण्डवान् पार-श्वधिकः पर्वधायुधः ॥९१॥

नैस्त्रिंशिकोऽसिधारी स्यात्कौन्तिकप्रासिकौ समौ ।

फलकी ढालिकश्चर्मी पताकी वैजयन्तिकः ॥९२॥

लघुहस्तः शरक्षेप कुशलः सिद्धहस्तकः ।

- (१) जयशूल योद्धा के तीन नाम—जैत्र १ जित्वर २ जेता ३ पु । (२) विशाल छाती वाले के दो नाम—उरसिल १ उरस्वान् २ पु । (३) संग्राम में जिसको देखकर प्रतिपक्षी धरते हों उस योद्धा के एक नाम—सायुगीन १ पु । (४) धनुर्धर के छ नाम—धन्वा १ धनुष्मान् २ धन्वी ३ धानुष्क ४ निषङ्गो ५ पु नपुं, धनुर्धर ६ पु । (५) शक्ति नाम—के अल के धारक का एक नाम—शाक्तीक १ पु । (६) यष्टि [लकड़ी] धारो योद्धा के दो नाम याष्टीक १ यष्टियोधन २ पु । (७) बाणधारी के दो नाम—काण्डीर १ काण्डवान् २ पु । (८) फरशाधारी के दो नाम—पारश्वधिक १ पर्वधायुध २ पु । (९) खड्गधारी के दो नाम—नैस्त्रिंशिक १ अभिधारी २ पु । (१०) मालाधारी के दो नाम—कौन्तिक १ प्रासिक २ पु । (११) ढाल धारण करने वाले के तीन नाम—फलकी १ ढालिक २ चर्मी ३ पु । (१२) पताकाधारी के दो नाम—पताकी १ वैजयन्तिक २ पु । (१३) अशुभ निशानवाज के तीन नाम—लघुहस्त १ शरक्षेप-कुशल २ सिद्धहस्तक ३ पु० ।

वेध्यच्युत शरस्तुस्या दपराद्धेषु रित्यपि ॥९३॥

काण्डैपृष्ठाऽऽयुधीयाऽऽयुधिकाः स्युः शस्त्रजीविनः ।

योग्यो जयस्य जैयैः स्याच्छक्रयो जय्ये इति स्मृतः ॥९४॥

अभ्यमित्रोऽभ्यमित्रोयोऽभ्यमित्रोऽभिगत्रुगे ।

यथेष्टगोऽनुकामीनोऽत्यन्तीनोऽत्यन्तगामिनि ॥९५॥

वीरैः शूरश्च विक्रान्त स्त्रिष्विमे मन्थरादयः ।

नस्त्रिया तौ धनुश्चापौ पुंसीष्वासः शरासनम् ॥९६॥

कोदण्डं कार्मुकं घन्व चन्वार्येतानि न द्वयोः ।

एतत्पार्थस्य गाण्डीव गाण्डिव चाऽस्त्रियामुभे ॥९७॥

लस्तकं धनुषो मध्यं प्रान्ते कोटचटनी-स्त्रियौ ।

(१) निशान से जिसका हाथ चुका हो उसके दो नाम—वेध्यच्युतशर १ अपराद्धेषु २ पु० (२) शस्त्र से जीने वाले के चार नाम—काण्डपृष्ठ १ आयुधीय २ आयुधक ३ शस्त्रजावी ४ पु० । (३) जीतने योग्य का एक नाम—जैय १ पु० । (४) जो जीता जा सके उमका एक नाम—जय्य १ पु० (५) बल से शत्रु समुख जाने वाले के चार नाम—अभ्यमित्र १ अभ्यमित्राय २ अभ्यमित्राण ३ अभिशत्रु ४ पु० । (६) स्वेच्छाचारी के दो नाम—यथेष्टग १ अनुकामीन २ पु० । (७) अतिवेग गामी के दो नाम—अत्यन्तीन १ अत्यन्तगामी २ पु० (८) वीर के तीन नाम—वीर १ शूर २ विक्रान्त ३ पु० [ए मन्थरादि त्रिलिङ्ग है] । (९) धनुष के सात नाम—धनुष १ चाप २ नपु०, इष्वास ३ पु०, शरासन ४ कोदण्ड ५ कार्मुक ६ घन्वन् ७ नपु० । (१०) अर्जुन के धनुष के दो नाम—गाण्डीव १ गाण्डिव २ पु० नपु० । (११) धनुष के मध्य भाग का एक नाम—लस्तक १ नपु० । (१२) धनुष के किनारे के दो नाम—कोटी १ अटनी २ स्त्री

जैत्रं जित्वर जेतारो जिष्णो वुरैसिलस्त्वसौ ॥८९॥

उरस्वान् सायुगीनस्तु युद्धे शक्तोऽथ धन्वनि ।

धनुष्म धन्वि धानुष्क निषङ्गच स्त्रि धनुर्धरः ॥९०॥

शक्तयस्त्रभृत् शाक्तोको याष्टीको यष्टियोधनः ।

काण्डीरः काण्डवान् पार-श्चधिकः पर्वधायुधः ॥९१॥

नैस्त्रिजिकोऽसिधारी स्यात्कौन्तिकप्रासिकौ समौ ।

फलेकी ढालिकश्चर्मी पताकी वैजयन्तिकः ॥९२॥

लघुहस्तः शरक्षेप कुशलः सिद्धहस्तकः ।

(१) जयशोल योद्धा के तीन नाम—जैत्र १ जित्वर २ जेता ३ पु । (२) विशाल छाती वाले के दो नाम—उरसिल १ उरस्वान् २ पु । (३) सग्राम में जिमको देखकर प्रतिपक्षी थरते हो उस योद्धा के एक नाम—सायुगीन १ पु । (४) धनुर्धर के छ नाम—धन्वा १ धनुष्मान् २ धन्वी ३ धानुष्क ४ निषङ्गो ५ पु नपुं, धनुर्धर ६ पु । (५) शक्ति नाम—के अल के धारक का एक नाम—शाक्तीक १ पु । (६) यष्टि [लकड़ी] धारी योद्धा के दो नाम याष्टीक १ यष्टियोधन २ पु । (७) बाणधारी के दो नाम—काण्डीर १ काण्डवान् २ पु । (८) फरशाधारी के दो नाम—पारश्चधिक १ पर्वधायुध २ पु । (९) खड्गधारी के दो नाम—नैस्त्रिजिक १ अभिधारी २ पु । (१०) मालाधारी के दो नाम—कौन्तिक १ प्रासिक २ पु । (११) ढाल धारण करने वाले के तीन नाम—फलकी १ ढालिक २ चर्मी ३ पु । (१२) पताकाधारी के दो नाम—पताकी १ वैजयन्तिक २ पु । (१३) अचुक निशानवाज क तीन नाम—लघुहस्त १ शरक्षेप-कुशल २ सिद्धहस्तक ३ पु० ।

वेध्यच्युत शरस्तुस्या दपराद्धेषु रित्यपि ॥९३॥

काण्डैपृष्ठाऽऽयुधीयाऽऽयुधिकाः स्युः शस्त्रजोविनः ।

योग्यो जयस्य जेयैः स्याच्छक्रयो जय्ये इति स्मृतः ॥९४॥

अभ्यमित्रोऽभ्यमित्रियोऽभ्यमित्रिणोऽभिगत्रुगे ।

यथेष्टगेऽनुकामीनोऽत्यन्तीनोऽत्यन्तगामिनि ॥९५॥

वीरैः शूरश्च विक्रान्त स्त्रिण्विमे मन्थरादयः ।

नस्त्रिया तौ धनुश्चापौ पुसीष्वासः शरासनम् ॥९६॥

कोदण्ड कार्मुक धन्व चन्वार्येतानि न द्वयोः ।

एतत्पार्थस्य गाण्डीव गाण्डिव चाऽस्त्रियामुभे ॥९७॥

लस्तक धनुषो मध्य श्रान्ते कोटचटनी-स्त्रियौ ।

(१) निशान से जिसका हाथ चुका हो उसके दो नाम—वेध्यच्युतगर १ अपराद्धेषु २ पु० (२) शस्त्र से जीने वाले के चार नाम—काण्डपृष्ठ १ आयुधीय २ आयुधिक ३ शस्त्रजोवी ४ पु० । (३) जीतने योग्य का एक नाम—जेय १ पु० । (४) जो जीता जा सके उमका एक नाम—जय्य १ पु० (५) बल से शत्रु समुख जाने वाले के चार नाम—अभ्यमित्र १ अभ्यमित्राय २ अभ्यमित्राण ३ अभिगत्रु ४ पु० । (६) स्वेच्छाञ्जारी के दो नाम—यथेष्टग १ अनुकामीन २ पु० । (७) अतिवेग गामी के दो नाम—अत्यन्तीन १ अत्यन्तगामी २ पु० (८) वीर के तीन नाम—वीर १ शूर २ विक्रान्त ३ पु० [ए मन्थरादि त्रिलिङ्ग है] । (९) धनुष के सात नाम—धनुष १ चाप २ नपु०, इष्वास ३ पु०, शरासन ४ कोदण्ड ५ कार्मुक ६ धन्व ७ नपु० । (१०) अर्जुन के धनुष के दो नाम—गाण्डीव १ गाण्डिव २ पु० नपु० । (११) धनुष के मध्य भाग का एक नाम—लस्तक १ नपु० । (१२) धनुष के किनारे के दो नाम—कोटी १ अटनी २ स्त्री

जैत्रं जित्वर जेतारो जिष्णौ बुरंसिलस्त्वसौ ॥८९॥

उरस्वान् सांयुगीनस्तु युद्धे शक्तोऽथ धन्वनि^१ ।

धनुष्म धन्वि धानुष्क निषङ्ग्य स्त्रि धनुर्धरः ॥९०॥

शक्तयस्त्रभृत् शाक्तोको याष्टीको यष्टियोधनः ।

काण्डीरः काण्डवान् पार-श्वधिकः पर्वधायुधः ॥९१॥

नैस्त्रिजिकोऽसिधारी स्यात्कौन्तिकप्रासिकौ समौ ।

फलकी ढालिकश्चर्मी पताकी वैजयन्तिकः ॥९२॥

लघुहस्तः शरक्षेप कुशलः सिद्धहस्तकः ।

- (१) जयशाल योद्धा के तीन नाम-जैत्र १ जित्वर २ जेता ३ पु । (२) विशाल छाती वाले के दो नाम-उरसिल १ उरस्वान् २ पु । (३) संग्राम में जिमको देखकर प्रतिपक्षी थरति हो उस योद्धा के एक नाम-सांयुगीन १ पु । (४) धनुर्धर के छ नाम- धन्वा १ धनुष्मान् २ धन्वी ३ धानुष्क ४ निषङ्गो ५ पु नपुं, धनुर्धर ६ पु । (५) शक्ति नाम-के अल के धारक का एक नाम-शाक्तो १ पु । (६) यष्टि [लकड़ी] धारो योद्धा के दो नाम याष्टीक १ यष्टियोधन २ पु । (७) बाणधारी के दो नाम-काण्डीर १ काण्डवान् २ पु । (८) फरशाधारी के दो नाम-पारश्वधिक १ पर्वधायुध २ पु । (९) खड्गधारी के दो नाम-नैस्त्रिजिक १ अमिधारी २ पु । (१०) मालाधारी के दो नाम-कौन्तिक १ प्रासिक २ पु । (११) ढाल धारण करने वाले के तीन नाम-फलकी १ ढालिक २ चर्मी ३ पु । (१२) पताकाधारी के दो नाम-पताकी १ वैजयन्तिक २ पु । (१३) अचुक निशानबाज के तीन नाम-लघुहस्त १ शरक्षेप-कुशल २ सिद्धहस्तक ३ पु० ।

वेध्यच्युत शरस्तुस्या अपराद्धेषु रित्यपि ॥९३॥

काण्डपृष्ठाऽऽयुधीयाऽऽयुधिकाः स्युः शस्त्रजीविनः ।

योग्यो जयस्य जेयैः स्याच्छक्रयो जय्ये इति स्मृतः ॥९४॥

अभ्यमित्रोऽभ्यमित्रोयोऽभ्यमित्रोणोऽभिजत्रुगे ।

यथेष्टगोऽनुकामीनोऽत्यन्तीनोऽत्यन्तगामिनि ॥९५॥

वीरैः शूरश्च विक्रान्त स्त्रिण्विमे मन्थरादयः ।

नस्त्रिया तौ धनुश्चापौ पुंसीष्वासः शरासनम् ॥९६॥

कोदण्डं कार्मुकं घन्व चन्वार्येतानि न द्वयोः ।

एतत्पार्थस्य गाण्डीव गाण्डिव चाऽस्त्रियामुभे ॥९७॥

लस्तैकं धनुषो मध्यं प्रान्ते कोटचटनी-स्त्रियौ ।

(१) निशान से जिसका हाथ चुका हो उसके दो नाम—वेध्यच्युतशर १ अपराद्धेषु २ पु० (२) शस्त्र से जीने वाले के चार नाम—काण्डपृष्ठ १ आयुधीय २ आयुधक ३ शस्त्रजात्री ४ पु० । (३) जीतने योग्य का एक नाम—जेय १ पु० । (४) जो जीता जा सके उमका एक नाम—जय्य १ पु० (५) बल से शत्रु समुख जाने वाले के चार नाम—अभ्यमित्र १ अभ्यमित्राय २ अभ्यमित्राण ३ अभिशत्रु ४ पु० । (६) स्वेच्छाचारी के दो नाम—यथेष्टग १ अनुकामीन २ पु० । (७) अतिवेग गामी के दो नाम—अत्यन्तीन १ अत्यन्तगामी २ पु० (८) वीर के तीन नाम—वीर १ शूर २ विक्रान्त ३ पु० [ए मन्थरादि त्रिलिङ्ग है] । (९) धनुष के सात नाम—धनुष १ चाप २ नपु०, इष्वास ३ पु०, शरासन ४ कोदण्ड ५ कार्मुक ६ घन्व ७ नपु० । (१०) अर्जुन के धनुष के दो नाम—गाण्डीव १ गाण्डिव २ पु० नपु० । (११) धनुष के मध्य भाग का एक नाम—लस्तक १ नपु० । (१२) धनुष के किनारे के दो नाम—कोटी १ अटनी २ स्त्री

जैत्रं जित्वर जेतारो जिष्णो बुरसिलस्त्वसौ ॥८९॥

उरस्वान् सायुगीनस्तु युद्धे शक्तोऽथ धन्वनिं ।

धनुष्म धन्वि धानुष्क निषङ्गय स्त्रि धनुर्धरः ॥९०॥

शक्तयस्त्रभृत् शाक्तोको याष्टीको यष्टियोधनः ।

काण्डीरः काण्डवान् पार-श्वधिकः पर्वधायुधः ॥९१॥

नैस्त्रिगिकोऽभिधारी स्यात्कौन्तिकप्रासिकौ समौ ।

फलकी ढालिकश्चर्मी पताकी वैजयन्तिकः ॥९२॥

लघुहस्तः शरक्षेप कुशलः सिद्धहस्तकः ।

(१) जयशाल योद्धा के तीन नाम-जैत्र १ जित्वर २ जेता ३ पु । (२) विशाल छाती वाले के दो नाम-उरसिल १ उरस्वान् २ पु । (३) संग्राम में जिमको देखकर प्रतिपक्षो धरति हो उस योद्धा के एक नाम-सायुगीन १ पु । (४) धनुर्धर के छ नाम- धन्वा १ धनुष्मान् २ धन्वी ३ धानुष्क ४ निषङ्गो ५ पु नपुं, धनुर्धर ६ पु । (५) शक्ति नाम-के अल के धारक का एक नाम-शाक्तीक १ पु । (६) यष्टि [लकड़ी] धारी योद्धा के दो नाम याष्टीक १ यष्टियोधन २ पु । (७) बाणधारी के दो नाम-काण्डीर १ काण्डवान् २ पु । (८) फरशाधारी के दो नाम-पारश्वधिक १ पर्वधायुध २ पु । (९) खड्गधारी के दो नाम-नैस्त्रिगिक १ अभिधारी २ पु । (१०) मालाधारी के दो नाम-कौन्तिक १ प्रासिक २ पु । (११) ढाल धारण करने वाले के तीन नाम-फलकी १ ढालिक २ चर्मी ३ पु । (१२) पताकाधारी के दो नाम-पताकी १ वैजयन्तिक २ पु । (१३) अक्षुक् निशानवाज के तीन नाम-लघुहस्त १ शरक्षेप-कुशल २ सिद्धहस्तक ३ पु० ।

वेध्यैच्युत शरस्तुस्या दपराद्धेषु रित्यपि ॥९३॥

काण्डेपृष्ठाऽऽयुधीयाऽऽयुधिकाः स्युः शस्त्रजीविनः ।

योग्यो जयस्य जैयैः स्याच्छक्रयो जय्यै इति स्मृतः ॥९४॥

अभ्यमित्रोऽभ्यमित्रोयोऽभ्यमित्रोणोऽभिगत्रुगे ।

यथेष्टगेऽनुकामीनोऽत्यन्तीनोऽत्यन्तगामिनि ॥९५॥

वीरैः शरश्च विक्रान्त स्त्रिष्विमे मन्थरादयः ।

नस्त्रिया तौ धनुश्चापौ पुंसीष्वासः शरासनम् ॥९६॥

कोदण्ड कार्मुकं धन्व चचार्यैतानि न द्वयोः ।

एतत्पार्थस्य गाण्डीव गाण्डिव चाऽस्त्रियामुभे ॥९७॥

लस्तैक धनुषो मध्य भ्रान्ते कोट्यटनी-स्त्रियौ ।

(१) निशान से जिसका हाथ चुका हो उसके दो नाम—वेध्यैच्युतशर १ अपराद्धेषु २ पु० (२) शस्त्र से जीने वाले के चार नाम—काण्डपृष्ठ १ आयुधीय २ आयुधक ३ शस्त्रजीवी ४ पु० । (३) जीतने योग्य का एक नाम—जैय १ पु० । (४) जो जीता जा सके उमका एक नाम—जय्य १ पु० (५) बल से शत्रु समुख जाने वाले के चार नाम—अभ्यमित्र १ अभ्यमित्रोय २ अभ्यमित्राण ३ अभिशत्रु ४ पु० । (६) स्वेच्छाचारी के दो नाम—यथेष्टग १ अनुकामीन २ पु० । (७) अतिवेग गामी के दो नाम—अत्यन्तीन १ अत्यन्तगामी २ पु० (८) वीर के तीन नाम—वीर १ शर २ विक्रान्त ३ पु० [ए मन्थरादि त्रिलिङ्ग है] । (९) धनुष के सात नाम—धनुष १ चाप २ नपु०, इष्वास ३ पु०, शरासन ४ कोदण्ड ५ कार्मुक ६ धन्वन् ७ नपु० । (१०) अर्जुन के धनुष के दो नाम—गाण्डीव १ गाण्डिव २ पु० नपु० । (११) धनुष के मध्य भाग का एक नाम—लस्तक १ नपु० । (१२) धनुष के क्रितारों के दो नाम—कोटी १ अटनी २ स्त्री

ज्याघात वारणे गोधा ज्या मौर्वीस्त्री गुणः पुमान् ॥९८॥
 शैरोत्विषु द्वयोर्बाण विशिखाऽऽशुग मार्गणाः ।
 लोहबाणस्तु नाराचो, बाजपक्षावुभौ समौ ॥९९॥
 विषाक्ते लिप्तको लिप्तो निरस्तः प्रहिते त्रिषु ।
 निषङ्गः तूण तूणोरो-पासङ्गे-धुधयः समाः ॥१००॥
 खड्गः कौक्षेय कोरिष्टि तलवारिः कृपाणकः ।
 चन्द्रहासाऽसि निस्त्रिशा ईलिका तु कटीतलः ॥१०१॥
 अज्जल फलक ढाल परिघे परिघातनम् ।

(१) धनुष की डोरी के आघात वारण हेतु निर्मित अगुलित्राण का एक नाम—गोधा १ स्त्री,, ([तल] तला २ नपु० स्त्री० ज्या-घातवारण ३ नपु,) (२) धनुष के डोरी के तीन नाम—ज्या १ [शिञ्जिनी] मौर्वी २ स्त्री, गुण ३ पु, । (३) बाण के छ नाम—शर १ बाण २ विशिख ३ आशुग ४ मार्गण ५ पु० इषु ६ पु० स्त्री, । (४) लोह बाण का एक नाम—नाराच १ पु० । (५) बाण में लगाये गये पक्ष के दो नाम—बाज १ पक्ष २ पु । (६) विषादिग्ध बाण के तीन नाम—विषाक्त १ लिप्तक २ लिप्त ३ पु, । (७) जो बाण हाथ से निकल गये हों उसका एक नाम—निरस्त १ त्रिलिङ्ग । (८) बाण की थैली के पाँच नाम—निषङ्ग १ तूण २ तूणोर ३ उपासङ्ग ४ इषुधि ५ पु० । (९) तलवार के आठ नाम—खड्ग १ कौक्षेयक २ रिष्टि ३ तलवारि ४ कृपाणक ५ चन्द्रहास ६ असि ७ निस्त्रिग ८ पु० । (१०) कटार के दो नाम—ईलिका [करवालि का] १ स्त्री, कटीतल २ पु० । (११) ढाल के तीन नाम—अज्जल १ फलक २ ढाल ३ नपुं। (१२) परिघ (अस्त्र विशेष) के दो नाम परिघ १ पु० परिघातन २ नपु, ।

भिन्दिपालः सृगस्तुल्यो मुद्गरे द्रुघणो घनः ॥१०२॥

मुष्टिः फलस्य संग्राहः सङ्गादीनां तु सात्सर्यैः ।

एषा तीक्ष्णं मुखं धारा मेखला मुष्टिवन्धनम् । १०३॥

कुठारं परशुः पर्शुः कुठारी स्त्री परश्वधः ।

स्त्री वासि स्तक्षणीवास्य-मर्सिपुत्रो छुरी समे ॥१०४॥

शल्यं क्लीवे पुमान् शङ्कु र्वाण ग्रथितमायुधम् ।

शर्वला तोमरो न स्त्री प्रासैः कुन्तश्च भल्लवत् ॥१०५॥

(१) गोफन के दो नाम--भिन्दिपाल १ सृग १ पु ।

(२) गदा के दो नाम--द्रुघण १ घन २ पु० । (३) ढाल

के मूठ का एक नाम--संग्राह १ पु० । (४) तत्रवा आदि के

मूठ का एक नाम--त्सरु १ पु० । (५) शस्त्र अस्त्रो को

धारा (धार) के तीन नाम--तीक्ष्ण १ मुखर २ नपु०,

धारा ३ स्त्री० । (६) मूठ के बधन के दो नाम--मेखला १ स्त्री०,

मुष्टिवन्धन २ नपु० । (७) कुठार के आठ नाम--कुठार १ परशु

२ पर्शु ३ पु०, कुठारी ४ स्त्री०, परश्वध ५ पु०, असि (वासि-

वासी) ६ स्त्री पु०, तीक्ष्ण ७ स्त्री०, वास्य ८ नपु । (८) छुरी के

दो नाम--असीपुत्रो १ छुरो २ नपु । (९) लोह से सयुक्त हथियार

के दो नाम--शल्य १ नपु०, शङ्कु २ पु० । (१०) शस्त्र विशेष

(गैडासा) के दो नाम--शर्वला १ स्त्री०, तोमर २ पु० नपु० ।

(११) भाला के दो नाम--प्रास १ कुन्त २ (भल्ल, भल्लक) पु० ।

ज्याघात वारणे गोधा ज्या मौर्वीस्त्री गुणः पुमान् ॥९८॥
 शैरोत्वेषु द्वयोर्बाण विशिखाऽऽशुग मार्गणाः ।
 लोहबाणस्तु नाराचो, वाजपक्षावुभौ समौ ॥९९॥
 विषाक्ते लिप्तको लिप्तो निरस्तः प्रहिते त्रिषु ।
 निर्पङ्गः तूण तूणोरो-पासङ्गे-धुधयः समाः ॥१००॥
 खड्गः क्रौक्षेय क्रौरिष्टि तलवारिः कृपाणकः ।
 चन्द्रहासाऽसि निस्त्रिशा ईलिका तु कटीतलः ॥१०१॥
 अज्जल फलक ढाल परिघे परिघातनम् ।

(१) धनुष की डोरी के आघात वारण हेतु निर्मित अगुलित्राण का एक नाम—गोधा १ स्त्री,, ([तल] तल २ नपु० स्त्री० ज्याघातवारण ३ नपु,) (२) धनुष के डोरी के तीन नाम—ज्या १ [शिञ्जिनी] मौर्वी २ स्त्री, गुण ३ पु. । (३) बाण के छ नाम—शर १ बाण २ विशिख ३ आशुग ४ मार्गण ५ पु० इषु ६ पु० स्त्री, । (४) लोह बाण का एक नाम—नाराच १ पु० । (५) बाण में लगाये गये पक्ष के दो नाम—वाज १ पक्ष २ पु । (६) विषदिग्ध बाण के तीन नाम—विषाक्त १ लिप्तक २ लिप्त ३ पु, । (७) जो बाण हाथ से निकल गये हों उसका एक नाम—निरस्त १ त्रिलिङ्ग । (८) बाण की थैली के पाँच नाम—निषङ्ग १ तूण २ तूणोर ३ उपासङ्ग ४ इषुधि ५ पु० । (९) तलवार के आठ नाम—खड्ग १ क्रौक्षेयक २ रिष्टि ३ तलवारि ४ कृपाणक ५ चन्द्रहास ६ असि ७ निस्त्रिग ८ पु० । (१०) कटार के दो नाम—ईलिका [करवालि का] १ स्त्री, कटीतल २ पु० । (११) ढाल के तीन नाम—अज्जल १ फलक २ ढाल ३ नपु। (१२) परिघ (अस्त्र विशेष) के दो नाम परिघ १ पु० परिघातन २ नपु, ।

भिन्दिपालः सृगस्तुल्यो मुद्गरे द्रुवैणो घनः ॥१०२॥

मुष्टिः फलस्य सँग्राहः खङ्गादीना तु सात्सरुः ।

एषा तीक्ष्णं मुखं धारा मेखला मुष्टिवन्धनम् । १०३॥

कुठारैः परशुः पर्शुः कुठारी स्त्री परश्वधः ।

स्त्री वासि स्तक्षणीवास्य-मर्सिपुत्री छुरी समे ॥१०४॥

शल्यं क्लीवे पुमान् शङ्कु वर्ण ग्रथितमायुधम् ।

शर्वला तोमरो न स्त्री प्रासैः कुन्तश्च भल्लवत् ॥१०५॥

(१) गोफन के दो नाम-भिन्दिपाल १ सृग १ पु ।

(२) गदा के दो नाम-द्रुघण १ घन २ पु० । (३) ढाल के मूठ का एक नाम-संग्राह १ पु० । (४) तत्रवा आदि के

मूठ का एक नाम-त्सरु १ पु० । (५) शस्त्र अस्त्रो को धारा (धार) के तीन नाम-तीक्ष्ण १ मुखर २ नपु०,

धारा ३ स्त्री० । (६) मूठ के वधन के दो नाम-मेखला १ स्त्री०, मुष्टिवन्धन २ नपु० । (७) कुठार के आठ नाम-कुठार १ परशु

२ पर्शु ३ पु०, कुठारी ४ स्त्री०, परश्वध ५ पु०, असि (वासि-वासी) ६ स्त्री पु०, तीक्ष्ण ७ स्त्री०, वास्य ८ नपु । (८) छुरी के

दो नाम-असीपुत्री १ छुरी २ नपु । (९) लोह से सयुक्त हथियार के दो नाम-शल्य १ नपु०, शङ्कु २ पु० । (१०) शस्त्र विशेष

(गैडासा) के दो नाम-शर्वला १ स्त्री०, तोमर २ पु० नपु० । (११) भाला के दो नाम-प्रास १ कुन्त २ (भल्ल, भल्लक) पु० ।

ज्याघात वारणे गोधा ज्या मौर्वीस्त्री गुणः पुमान् ॥९८॥
 शैरोत्विषु द्वयोर्बाण विशिखाऽऽशुग मार्गणाः ।
 लोहबाणस्तु नाराचो, वाजपक्षावुभौ समौ ॥९९॥
 विषाक्ते लिप्तको लिप्तो निरस्तः प्रहिते त्रिषु ।
 निर्षङ्गः तूण तूणोरो-पासङ्गे-षुधयः समाः ॥१००॥
 स्वङ्गः कौक्षेय कोरिष्टि तलवारिः कृपाणकः ।
 चन्द्रहासाऽसि निस्त्रिंश ईलिका तु कटीतलः ॥१०१॥
 अज्झल फलक ढाल परिघे परिघातनम् ।

(१) धनुष की डोरी के आघात वारण हेतु निर्मित अगुलित्राण का एक नाम—गोधा १ स्त्री,, ([तल] तला २ नपु० स्त्री० ज्या-घातवाग्ण ३ नपु,) (२) धनुष के डोरी के तीन नाम—ज्या १ [शिञ्जिनी] मौर्वी २ स्त्री, गुण ३ पु. । (३) बाण के छ नाम—शर १ बाण २ विशिख ३ आशुग ४ मार्गण ५ पु० इषु ६ पु० स्त्री, । (४) लोह बाण का एक नाम—नाराच १ पु० । (५) बाण में लगाये गये पक्ष के दो नाम—वाज १ पक्ष २ पु । (६) विषदिग्ध बाण के तीन नाम—विषाक्त १ लिप्तक २ लिप्त ३ पु, । (७) जो बाण हाथ से निकल गये हों उसका एक नाम—निरस्त १ त्रिलिङ्ग । (८) बाण की थैली के पाँच नाम—निषङ्ग १ तूण २ तूणोर ३ उपासङ्ग ४ इषुधि ५ पु० । (९) तलवार के आठ नाम—स्वङ्ग १ कौक्षेयक २ रिष्टि ३ तलवारि ४ कृपाणक ५ चन्द्रहास ६ असि ७ निस्त्रिंश ८ पु० । (१०) कटार के दो नाम—ईलिका [करवालिका] १ स्त्री, कटीतल २ पु० । (११) ढाल के तीन नाम—अज्झल १ फलक २ ढाल ३ नपुं। (१२) परिघ (अस्त्र विशेष) के दो नाम परिघ १ पु० परिघातन २ नपु, ।

भिन्दिपालः सृगस्तुल्यौ मुद्गरे द्रुघणो घनः ॥१०२॥

मुष्टिः फलस्य संग्राहः खज्जादीना तु सात्सरुः ।

एषां तीक्ष्णं मुखं धारा मेखला मुष्टिवन्धनम् । १०३॥

कुठारं परशुः पर्शुः कुठारी स्त्री परश्वधः ।

स्त्री वासि स्तक्षणीवास्य-मर्सिपुत्री छुरी समे ॥१०४॥

शल्यं क्लीवे पुमान् शङ्कु वर्ण ग्रथितमायुधम् ।

शर्वला तोमरो न स्त्री प्रासैः कुन्तश्च भल्लवत् ॥१०५॥

(१) गोफन के दो नाम-भिन्दिपाल १ सृग १ पु ।

(२) गदा के दो नाम-द्रुघण १ घन २ पु० । (३) ढाल

के मूठ का एक नाम- संग्राह १ पु० । (४) तत्रवार आदि के

मूठ का एक नाम- सरु १ पु० । (५) शस्त्र अस्त्रो को

धारा (धार) के तीन नाम- तीक्ष्ण १ मुखर २ नपु०,

धारा ३ स्त्री० । (६) मूठ के बधन के दो नाम-मेखला १ स्त्री०,

मुष्टिवन्धन २ नपु० । (७) कुठार के आठ नाम- कुठार १ परशु

२ पर्शु ३ पु०, कुठारी ४ स्त्री०, परश्वध ५ पु०, असि (वासि-

वासी) ६ स्त्री पु०, तीक्ष्णो ७ स्त्री०, वास्य ८ नपु । (८) छुरी के

दो नाम-असीपुत्री १ छुरी २ नपु । (९) लोह से सयुक्त हथियार

के दो नाम-शल्य १ नपु०, शङ्कु २ पु० । (१०) शस्त्र विशेष

(गैडासा) के दो नाम-शर्वला १ स्त्री०, तोमर २ पु० नपु० ।

(११) भाला के दो नाम-प्रास १ कुन्त २ (भल्ल, भल्लक) पु० ।

'कोटिरश्रिः स्त्रियौ कोणोऽक्षवाटो मल्लयुद्धभूः ।

बन्धूकस्तु भुशुण्डी स्त्री तत्प्रभेदे तु नालिका ॥१०६॥

तोपैः पुमान् शतघ्नीस्त्रीचक्र चक्रस्वरूपकम् ।

गोलिका गुलिका गोलो गुटिका च गुटो स्त्रियाम् ॥१०७॥

पृतना वाहिनी सेनाऽनीकिनी ध्वजिनी चमू ।

अनीकमस्त्रियां सैन्य बल चक्रं च पुंसि तु ॥१०८॥

मण्डलाऽऽलीढ वैशाख प्रत्यालीढानि चाऽऽसने ।

स्याद्व्यूहः सैन्यविन्यासोऽथपत्तयादि क्रमो यथा ॥१०९॥

(१) कोण (खोणा) के तीन नाम— कोटि (कोटी) १ अश्रि २ स्त्री०, (अस्त्र, कोण कच अर्थ में पु०, अश्र शोणित अर्थ में नपुं०) कोण ३ पु० । (२) अखाडा (जहा मल योद्धा शिक्षण पाते हों) के दो नाम— अक्षवाट १ पु०, मल्लयुद्धभू २ स्त्री० । (३) बन्धूक के दो नाम— बन्धूक १ पु०, भुशुण्डी २ स्त्री० । (४) पिस्तौल के एक नाम— नालिका [नाली] १ स्त्री० । (५) तोप के दो नाम— तोप १ पु०, शतघ्नी २ स्त्री० । (६) चक्र जैसा आकार वाले शस्त्र का एक नाम— चक्र १ [नानार्थक] नपुं० । गोली के पांच नाम— गोलिका १ गुलिका २ गोलो ३ गुटिका ४ गुटो ५ पु० नपु० । (७) सेना के दश नाम— पृतना १ वाहिनी २ सेना ३ अनीकिनी ४ ध्वजिनी ५ चमू ६ स्त्री, अनीक ७ पु० नपु, सैन्य ८ बल ९ चक्र १० पु० नपुं । (८) धनुर्धरों के आसन के चार नाम— मण्डल १ आलीढ २ वैशाख ३ प्रत्यालीढ ४ नपु । (९) सैन्य रचना के दो नाम— व्यूह १ सैन्यविन्यास २ पु । (१०) पत्ति आदि सैन्य सहाय का कोष्ठक—

'कोटिरश्रिः स्त्रियौ कोणोऽक्षवाटो मल्लयुद्धभूः ।

बन्धूकस्तु भुशुण्डी स्त्री तत्प्रभेदे तु नालिका ॥१०६॥

तोपैः पुमान् शतघ्नीस्त्रीचक्र चक्रस्वरूपकम् ।

गोलिका गुलिका गोलो गुटिका च गुटी स्त्रियाम् ॥१०७॥

पृतना वाहिनी सेनाऽनीकिनी ध्वजिनी चम् ।

अनीकमस्त्रियां सैन्य बल चक्रं च पुंसि तु ॥१०८॥

मण्डलऽऽलीढ वैशाख प्रत्यालीढानि चाऽऽसने ।

स्याद्ग्यूहः सैन्यविन्यासोऽथपत्त्यादि क्रमो यथा ॥१०९॥

(१) कोण (खोणा) के तीन नाम— कोटि (कोटी) १ अश्रि २ स्त्री०. (अस्त्र, कोण कच अर्थ में पु०, अश्र शोणित अर्थ में नपु०) कोण ३ पु० । (२) अखाडा (जहा मल योद्धा शिक्षण पाते हों) के दो नाम— अक्षवाट १ पु०, मल्लयुद्धभू २ स्त्री० । (३) बन्धूक के दो नाम— बन्धूक १ पु०, भुशुण्डी २ स्त्री० । (४) पिस्तौल के एक नाम— नालिका [नाली] १ स्त्री० । (५) तोप के दो नाम— तोप १ पु०, शतघ्नी २ स्त्री० । (६) चक्र जैसा आकार वाले शस्त्र का एक नाम— चक्र १ [नानार्थक] नपु० । गोली के पांच नाम— गोलिका १ गुलिका २ गोलो ३ गुटिका ४ गुटी ५ पु० नपु० । (७) सेना के दश नाम— पृतना १ वाहिनी २ सेना ३ अनीकिनी ४ ध्वजिनी ५ चम् ६ स्त्री, अनीक ७ पु० नपु, सैन्य ८ बल ९ चक्र १० पु० नपु । (८) धनुर्घरों के आसन के चार नाम— मण्डल १ आलीढ २ वैशाख ३ प्रत्यालीढ ४ नपु । (९) सैन्य रचना के दो नाम— ग्यूह १ सैन्यविन्यास २ पु । (१०) पत्ति आदि सैन्य सख्या का कोष्टक—

पत्तिरेकरथा पञ्च पद्माव्यश्वैक कुञ्जरा ।
 सेनासेनामुख गुल्मो वाहिनी पृतना चमूः ॥११०॥
 अनीकिनी त्रिभिर्दिग्भिर्गुणिताऽक्षौहिणी तथा
 सेनापुखादयोऽक्षौहि-ण्यन्ता भेदाश्च भूरिशः ।
 संपत्सपत्ति लक्ष्म्यः श्रीर्विपदा-पद-विपत्तयः ।
 सेनया गत्रु सार्थाऽभि-गमनं त्वभिषेणनम् ॥११२॥
 वृद्धे शूरस्य गत्रुप्रत्युपयानमभिक्रमैः ।
 अभिनिर्याण प्रस्थान प्रयाण गमनानि च ॥११३॥
 ब्रज्या यात्रा गमः पुंसि मागधो वगवर्णकः ।
 संकेतज्ञः सुधीर्वन्दी तथा वैतालिको मतः ॥११४॥
 वेजयन्ती पताका च केतेन त्रिषु तु ध्वजः ।

हिन्दा-(१) सेनामुख आदि अक्षौहिणो पर्यन्त सैन्य
 सङ्घा के अनेक भेद हैं-(२) सपत्ति के चार नाम-सपत् १
 सपत्ति २ लक्ष्मो ३ श्री ४ लो । (३) विपत्ति के तीन
 नाम-विपत् [विपदा] २ आपत् [आपदा] २ विपत्ति ३ लो ।
 (४) गत्रु समुख जाने का एक नाम-अभिषेणन १ नपुं ।
 (५) वोर समुख जाने का एक नाम-अभिक्रम १ पु । (६)
 यात्रा के सात नाम अभिनिर्याण १ प्रस्थान २ प्रयाण ३ गमन
 ४ नपु, ब्रज्या ५ यात्रा ६ स्त्री, गम ७ पु । (७) चारण
 (ब्रह्ममंड) के छ नाम-मागध १ वगवर्णक २ संकेतज्ञ ३ सुधी
 ४ वन्दी ५ वैतालिक ६ पु० । (८) पताका के दो नाम—
 वैजयन्ती १ पताका २ स्त्री० । (९) ध्वजा के दो नाम—
 केतन १ नपुं, ध्वज २ त्रिलिङ्ग ।

पांशुः पुमान्द्वयो रेणु धूलिः स्त्री न द्वयो रजः ॥११५॥
 क्षोदच्चूर्णेऽथ वीराःशंसनं भूर्भूरि भीतिदा ।
 अह पूर्व क्रियाःशंसा स्यादह पूर्विकामिथः ॥११६॥
 आत्मसंभावना दर्पा दाहोपूरिपिका मता ।
 शक्तिः पराक्रमः प्राणः स्थामशौर्ये सहोबलम् ॥११७॥
 तरोद्रविण शुष्माणि विक्रमोऽत्यन्त शक्तिता ।
 चालनोद्धट्टने वीर-पाणं पश्चात्पुरायुधः ॥११८॥
 जन्यमायोधन युद्धं प्रधनाःस्कन्दने मृधम् ।

(१) धूल के चार नाम-पांशु १ पु०, रेणु २ स्त्री पु० धूलि ३ स्त्री, रजस् ४ नपु । (२) आटे के दो नाम-क्षोद १ चूर्ण २ पु० । (३) घोर युद्धभूमि का एक नाम-वीराशंसन १ नपु । (४) पहले मैं करूँगा का एक नाम-अहंपूर्विका १ स्त्री० । (५) सामर्थ्य रहते हुए वीरावेश में उस कार्य को पूरा करने का भार लेने का एक नाम-आहोपुरुषिका १ स्त्री० । (६) पराक्रम के दश नाम-शक्ति १ स्त्री,, पराक्रम २ प्राण ३पु०, स्थामन् ४ शौर्य ५ सहस् ६ बल ७ तरस् ८ द्रविण ९ शुष्मन् १० नपु । (७) अत्यतसचित शक्तिका एक नाम-विक्रम १ पु० । (८) चालन के दो नाम-चालन १ उद्धट्टन २ नपु. । (९) उत्साह बढ़ाने के लिये संग्राम से पहले अथवा परिश्रम दूर करने के लिये युद्ध के बाद जो नारिकेल आदि के जल का पान है उसका एकनाम-वीरपाण १ नपु । (१०) युद्ध के एकतीस नाम-जन्य १ आयोधन २ युद्ध ३ प्रधन ४ आस्कन्दन ५ मृध ६ प्रविदारण ७ ८

प्रविदारण संख्ये च समीकं सम्परायकम् ॥११९॥

अस्त्रियां कलहाऽनीक-रणाः समरविग्रहौ ।

समुदाय समाघाताऽभ्यामर्दाऽभ्यागमाऽऽहवाः ॥१२०॥

सग्राम संप्रहाराऽभि-संपात कलि सयुगाः ।

संस्फोटः स्त्री समित्याऽऽजि समित्सयद्युधः स्मृताः॥१२१॥

बाहुयुद्धं नियुद्ध स्यात्तुमुल भयदो रणः ।

धनुर्वर्णौ तु विस्फारो वृंहितं गजगर्जितम् ॥१२२॥

सिंहनादः स्त्रिया द्वेडा गजसघट्टन घटा ।

मोहोना कश्मलं ह्रीवे मूर्च्छाया मथवीडनम् ॥१२३॥

समीक ९ सम्पराय १० नपुं०, कलह ११ अनीक १२ रण १३
समर १४ विग्रह १५ समुदाय १६ समाघात १७ अभ्यामर्द
१८ अभ्यागम १९ आहव २० सग्राम २१ संप्रहार २२ अभि-
संपात २३ कलि २४ सयुग २५ संस्फोट २६ पु नपुं०,
समिति २७ आजि २८ समित् २९ सयत् ३० युध ३१ स्त्री ।

(१) बाहुयुद्ध के दो नाम—बाहुयुद्ध १ नियुद्ध २ नपुं० । (२)
भयंकर सग्राम का एक नाम—तुमुल (लोभहर्षण) १ नपुं० (विशेषण
होने पर पुं०, जैसे सशब्द स्तुमलोऽभवत्) । (३) धनुष ध्वनि
का एक नाम—विस्फार १ पुं० । (४) हाथी के चिक्कार के दो
नाम—वृंहित १ गजगर्जित २ नपुं० । (५) अभिमान से गरज ने
के दो नाम—सिंहनाद १ पुं०, द्वेडा २ स्त्री० । (६) गज-
सघट्टन (समूह) के दो नाम—गजसंघट्टन १ नपुं०, घटा २ स्त्री
(७) मूर्च्छा के तीन नाम—मोह १ पुं०, कश्मल २ नपुं०, मूर्च्छा
३ स्त्री० ।

अवमर्दो रणध्वाने पटहाऽडम्बरो समौ ।

उत्पात स्तूपसर्गोऽथ मर्यादास्खलनं छलम् ॥१२४॥

छलादाक्रमण यत्त-दभ्यवस्कन्दन मतम् ।

आक्रोशपूर्वके शब्दे 'क्रन्दनं विजये जयः ॥१२५॥

तिरोहितस्तु नष्टः स्याद् युद्धभङ्ग पराजयः ।

पराजितः पराभूतो विजितो निर्जित स्त्रिपु ॥१२६॥

वैरनिर्यातन वैर-शुद्धि वैरविशोधनम् ।

प्रतीकारोऽथ सद्रावोऽपक्रमौ च पलायनम् ॥१२७॥

(१) परसैन्य द्वारा देश के छट पाट के दो नाम-पीडन १ नपुं०, अवमर्द २ पु० । (२) युद्धस्थल मे बाध बजाने के तीन नाम-रणध्वान १ पटह २ आडम्बर ३ पु० (आडम्बर सहारम्भे घनगर्जित तूर्ययो) । (३) उत्पात के दो नाम-उत्पात १ उपसर्ग २ पु० । (४) छल के दो नाम-मर्यादास्खलन १ छल २ नपुं० । (५) छल से आक्रमण का एक नाम-अभ्यवस्कन्दन १ नपु० । (६) निन्दावचनो से उत्तेजित करने का एक नाम-क्रन्दन १ नपुं० । (७) विजय के दो नाम-विजय १ जय २ पु० । (८) छुप गए के दो नाम-तिरोहित १ नष्ट २ पु० । (९) पराजय के दो नाम युद्धभङ्ग (भङ्ग) १ पराजय २ पु० । (१०) हारे हुए के चार नाम पराजित २ पराभूत २ विजित ३ निर्जित ४ त्रि० । (११) वैर-विशोधन (वैर प्रतिबदल) के चार नाम-वैरनिर्यातन १ वैरविशोधन २ नपुं०, वैरशुद्धि ३ स्त्री०, प्रतिकार ४ पु० । (१२) संग्राम से भागने के तीन नाम-सद्राव १ उपक्रम २ पु०, पलायन ३ नपुं० ।

बलात्कारो हठः पुंसि क्लीवं तु प्रसभं भवेत् ।

निधनोऽस्त्री द्वयोर्मृत्यु नाशाऽन्त प्रलयाऽत्ययाः ॥१२८॥

कथाशेषश्च मरण पञ्चत्व पञ्चताऽपि च ।

घाताऽऽलम्भवधोन्माथा निषूदन निर्वर्हणे ॥१२९॥

मारण हननं चोज्जासन प्रमथने अपि ।

प्रमीतः प्राप्तपञ्चत्व परासुः प्रेतसंस्थितौ ॥१३०॥

नामशेषः परेतश्च मृतःस्यु द्वादशः त्रिषु ।

कवन्धोऽस्त्री स यो नृत्य न्निर्मस्तक कलेवर ॥१३१॥

स्त्रियां चित्ताचित्तिचित्या श्मशान तु चितास्थलम् ।

शवोऽस्त्री कुणपः पुंसि शबयानं तु खाटिका ॥१३२॥

(१) हठ (बलजोरी) के तीन नाम—बलात्कार १ हठ २ पु०, प्रसभ ३ नपु० । (२) मृत्यु के सोलह नाम—निधन १ पु० नपुंसक, मृत्यु २ स्त्री० पु०, नाश ३ अन्त ४ प्रलय ५ अत्यय ६ कथाशेष ७ पु०, मरण ८ पञ्चत्व ९ नपु०, पञ्चता १० स्त्री, घात ११ आलम्भ १२ वध १३ उन्माथ १४ पु०, निषूदन १५ निर्वर्हण १६ नपु० । (३) मृतक शव के बारह नाम—मारण १ हनन २ उज्जासन ३ प्रमथन ४ प्रमीत ५ प्राप्तपञ्चत्व ६ परासु ७ प्रेत ८ संस्थित ९ नामशेष १० परेत ११ मृत १२ त्रिलिङ्ग । (४) शरीर मस्तक कट जाने पर युद्धभूमि में तलवार को चलाता हुआ नाच रहा है उसका एक नाम—कवन्ध १ पु० नपु० । (५) चिता के तीन नाम—चिता १ चिति २ चित्या ३ स्त्री० । (६) चितास्थल का एक नाम—श्मशान १ नपु० । (७) शव के दो नाम—शव १ पु० नपु०, कुणप २ पु० । (८) शववाहिनी (खाटली) का एक नाम—खाटिका १ स्त्री० ।

पु भूमन्यसवेः प्राणाः जीवैस्तु प्राणधारणम् ।
 आयुर्जीवनकालः स्याज्जीवातुः पुंसि जीवदः ॥१३३॥
 नीराजैना स्त्रियामारात्रिक मारार्तिकं यथा ।
 अर्हः पूज्ये सपर्याया मर्हणाऽर्हाऽर्हणं तथा ॥१३४॥
 ॥ इति राजन्यवर्गः समाप्तः ॥

(१) प्राण के दो नाम—असु १ प्राण २ पु० बहुवचन ।
 (२) जीने के दो नाम—जीव १ पु०, प्राणधारण २ नपु० । (३) जीवनकाल के दो नाम—जीवातु १ जीवद २ पु० । (४) आरती उतारने के तीन नाम—नीराजना १ स्त्री० नपुं, आरात्रिक २ आरार्तिक ३ नपुं० । (५) पूज्य अर्थ में “अर्ह” पु० । (६) सपर्या के चार नाम—सपर्या १ अर्हणा २ अर्हा ३ स्त्री० अर्हण ४ नपु० ।

॥ इति राजन्यवर्ग समाप्त ॥

॥ अथ वणिग्वर्गः प्रारभ्यते ॥

वणिगू विडर्य वैश्यो रुजा वार्तेपान्तु जीविका ।

पुस्या जीवः स्त्रियां वृत्ति स्तथा जीवनवर्तने ॥१॥

वृत्ति भेदास्तु वाणिज्यं कृषिः स्त्री पशुपालनम् ।

कुसीदं न द्वयो रर्थ प्रयोगो वृद्धिजीविका ॥२॥

पुंस्युद्धार ऋणं, सत्यानृत तु क्रयविक्रयो ।

परिप्राप्त व्यतीहाराद् यन्तदेवाऽऽर्पमित्यक्रमम् ॥३॥

ऋणदातोत्तमर्णः स्या दधमर्णो ग्रहीतरि ।

हिन्दो—(१) वैश्य के पाच नाम—वणिक् १ विश् (विद्-विद्) २ अर्थ ३ वैश्य ४ उरुज ५ पु० । (२) वैश्य के जीविका के छ नाम—वार्ता १ वृत्ति २ जीविका ३ स्त्री०, आजीव ४ पु०, जीवन ५ वर्तन ६ नपु० । (३) जीविका के मुख्य तीन नाम—वाणिज्य नपु०, कृषि २ स्त्री०, पशुपालन ३ नपु० । (४) जिस द्रव्य से व्याज आता हो उसके तीन नाम—कुसीद १ नपु०, अर्थप्रयोग २ पु०, वृद्धिजीविका ३ स्त्री० । (५) कर्जके दो नाम—उद्धार १ पु०, ऋण २ नपु० । (६) खरीद और विक्री इन दोनो का एक ही नाम—सत्याऽनृत १ नपु०, । (७) खरीद और विक्री के एक नाम—क्रय, १ विक्रय पु० । (८) अदल बदल से प्राप्त वस्तु का एक नाम—आपमित्यक्र १ नपु० । (९) ऋणदाता के दो नाम—ऋणदाता १ उत्तमर्ण २ पु० । (१०) ऋण लेनेवाले के दो नाम—अधमर्ण १ ग्रहीता (ग्राहक) २ पु० ।

अथ वार्धुषिको वृद्ध्या जीवस्तद्वत्कुसीदिकः ॥४॥

कर्षकः कृषकः क्षेत्रा जीवः क्षेत्री कृषीवलः ।

स्यात्क्षेत्रं वप्रकेदारावस्त्री सेतुस्तु सवरः ॥५॥

आलिः पाल्यपि शाकस्य क्षत्र स्यात् शाकशाकटम् ।

शाकशाकीन मौमीन मुम्यं यव्यं यवक्यवत् ॥६॥

तैलीनमपि तिल्यं च माषीणं माष्यमुच्यते ।

त्रहेयं चापि शालेयं त्रीहि शाली विवृद्धिमत् ॥७॥

मौद्गीनं भाङ्गीय भाङ्गीने अणवीन मणोस्तथा ।

अणव्यमथ षाष्टिक्यं कौद्रवीणमनुक्रमात् ॥८॥

(१) व्याज पर जीने वाले के तीन नाम वार्धुषिक (वार्धुकि-वार्धु-किन्) १ वृद्धजीव २ कुसीदिक ३ पु० । (२) कृषक (किसान) के पाच नाम—कर्षक १ कृषक २ क्षेत्राजीव ३ क्षेत्री ४ कृषीवल ५ पु० । (३) क्षेत्र (खेत) के तीन नाम—क्षेत्र १ वप्र २ केदार ३ पु० नपु० । (४) खेत के किनारे ईर्द गिर्द मे घेडावा के चार नाम—सेतु १ सवर २ पु०, आलि (आली) ३ पालि (पाली) ४ स्त्री० । (५) भाजी खेत के दो नाम—शाकशाकट १ शाक-शाकीन २ नपु० । (६) अलसी क्षेत्र के दो नाम—औमीन १ उम्य २ नपु० । (७) यव (जौ) क्षेत्र के दो नाम—यव्य १ यवक्य २ नपु० । (८) तिल क्षेत्र के दो नाम—तैलीन १ तिल्य २ नपु० । (९) उड़द क्षेत्र के दो नाम—माषीण १ माष्य २ नपु० । (१०) त्रीहि क्षेत्र का एक नाम—त्रैहेय १ नपु० । (११) शालि क्षेत्र का एक नाम—शालेय १ नपु० । (१२) मुग क्षेत्र का एक नाम—मौद्गीन १ नपु० । (१३) शैण क्षेत्र के दो नाम—भाग्य १ भागीन २ नपु० । (१४) कौनो क्षेत्र के दो नाम—अणवीन १ अणव्य २ नपु० । (१५) साठी क्षेत्र का नाम—षाष्टिक्य १ नपु० । (१६) कोदो क्षेत्र का एक नाम—कौद्रवीण १ नपु० ।

हल्य^१ सीत्यं च कृष्टंस्या त्क्षेत्रं कृष्ट यदेकधा ।
 शम्बाकृतं द्विहल्य च द्विसीत्यं द्विगुणाकृतम् ॥९॥
 त्रिहल्ये तु त्रिसीत्यं स्यात् त्रिगुणाकृतमित्यपि ।
 उप्त्वा कृष्ट भवेदुप्त^२ कृष्टं बीजाकृतं तथा ॥१०॥
 वापे द्रोणोऽऽढकादेः स्यु द्रौणिकाऽऽढकिकादयः ।
 खारीवापोऽपि खारीक स्त्रिष्विमा अमृतादयः ॥११॥
 स्युः कैदारिक कैदार्ये क्षेत्रं कैदारक गणे ।

(१) जो खेत एक बार खेया गया उसके तीन नाम—हल्य
 १ सीत्य २ कृष्ट ३ नपु० । (२) दो बार खेये गये क्षेत्र के चार
 नाम—शम्बाकृत १ द्विहल्य २ द्विसीत्य ३ द्विगुणाकृत ४ नपु० ।
 (३) तिवारे खेडे गए खेत के तीन नाम—त्रिहल्य १ त्रिसीत्य २
 त्रिगुणाकृत ३ नपु० । (४) बीजवपन के साथ खेडे क्षेत्र के दो
 नाम—उप्तकृष्ट १ बीजाकृत २ नपु (५) द्रोण परिमित (दश
 सेटक) मात्रबीज वपन योग्य के दो नाम—द्रौणिक १ द्रोणवाप
 २ अथवा दस सेर अन्नपाक योग्य तपेली आदि वर्तन का
 भी नाम 'द्रौणिक' है त्रिलिङ्ग । (६) आढक (अढाई सेर) मात्र
 बीज बोए जाय ऐसे क्षेत्र के दो नाम—आढकिक १ आढकवाप
 २ आढकिक नाम पाचन स्थापन आदि वर्तन का भी होता है
 त्रिलिङ्ग । (७) खारी (एक मन) वपन योग्य क्षेत्र के दो नाम—
 खारीवाप १ खारीक २, खारी मापक वर्तन पाचन स्थाली आदि
 अर्थ मे खारीक का ही प्रयोग होता है (अमृतादि त्रिलिङ्ग । (८)
 क्षेत्र समूह के चार नाम—कैदारिक १ कैदार्य २ क्षेत्र ३ कैदारक
 ४ नपु० ।

लोष्टोऽस्त्रिया पुमाल्लेष्टुः कुदाल्लेस्त्वदारणम् ॥१२॥

खनित्रैमपि^१ दात्रं तु लवित्रं तत्प्रभेदजम् ।

लोष्टभेदन हेतुत्वा त्कोटिशो लोष्टभेदनः ॥१३॥

आवन्धो योक्त्र योत्रेस्त स्तोत्रं^२ प्राजन तोदने ।

गोदारणं हल सीरो लाङ्गल हलपद्धतिः ॥१४॥

सीता कृषिक^३ फालौ तु निरीश कुटक फलम् ।

हल्यष्टिः स्त्रियामीशा हलीशा युगकीलकम् ॥१५॥

हिन्दी — (१) ढेले के दो नाम—लोष्ट १ पु० नपु०, लेष्ट २ पु० । (२) कोदाली के दो नाम—कुदल १ पु०, अवदारण २, नपु० । (३) खंती (खन्ता) गैनी, खोदने का औजार) का एक नाम—खनित्र १ नपु० । (४) दात्र के दो नाम—दात्र १ लवित्र २ नपु० । (५) हेगा (मेडा चावर) के दो नाम—कोटिश १ लोष्टभेदन २ पु०, । (६) बैल के गले में जुआ (युगकाष्ठ) बांधने के तीन नाम—आवन्ध १ पु०, योक्त्र २ योत्र ३ नपु० । (७) हल जोतने समय में बैल चलाने की छोटी लकड़ी (आड़) के तीन नाम—तोत्र १ प्राजन २ तोदन ३ नपु० । (८) हल के चार नाम—गोदारण १ हल २ लाङ्गल ३ नपु०, सीर ४ पु० । (९) हलपद्धति (सिराउड) के दो नाम—हलपद्धति १ सीता २ स्त्री० । (१०) फाल के पाच नाम—कृषिक १ फाल २ पु०, निरीश ३ कुटक ४ फल ५ नपु० । (११) हगिश के तीन नाम—हल्यष्टि १ ईशा २ हलीषा ३ स्त्री० ।

शम्या मेधिः पुमान् दारु कणमर्दनभूः खलम् ।
 खलिनो च स्त्रिया खल्या खण्टः शङ्कुश्च कीलकम् ॥१६॥
 कुसूलोऽस्त्री स्त्रिया कोष्ठी तुषभेदेऽवगुण्डितम् ।
 धान्यादि गुच्छे काण्डस्तु नाली स्त्री नालमित्यपि ॥१७॥
 अवचूर्णः पलालः स्याद् धान्य काण्डेऽति निष्फले ।
 धान्यैत्वचि वुसं क्लीबे तुष पुंसि कडङ्गरः ॥१८॥
 सस्यस्य शूक किंशारु मञ्जरी कणिशोऽस्त्रियाम् ।

- (१) युगकाष्ठ की खीली का एक नाम—शम्या १ स्त्री० ।
 (२) कणमर्दन के समय में जिस काष्ठ में बौलों को बाँधकर चलाते हैं उस लकड़ी का एक नाम—मेधि १ पु० । (३) कण-
 मर्दन स्थल के तीन नाम—खल १ नपुं० खलनी २ खल्या ३
 स्त्री० (४) शङ्कु (खूँटा) तीन नाम—खण्ट १ शङ्कु २ पु०,
 कीलक ३ नपु० । (५) मिट्टी की कोठी के दो नाम—कुसूल १ पु०
 नपु०, कोष्ठी २ स्त्री० । (६) गूडा (जो कि तुष के बाद चावल
 को विन्यस्त करते समय निकालता है) के दो नाम—तुषभेद १
 पु० अवगुण्डित २ नपु० । (७) धान्य स्तम्भ (सस्य हीन भाग)
 के तीन नाम—काण्ड १ पु०, नाली २ स्त्री०, नाल ३ नपुं० ।
 (८) पलाल के दो नाम—अवचूर्ण १ पलाल २ पु० । (९)
 धान्य त्वचा (भूमा) के चार नाम—धान्यत्वक् १ स्त्री वुस २
 नपु०, तुष ३ कडङ्गर ४ पु० । (१०) तीक्ष्ण (तीखे) अग्रभाग-
 वाले धान्य के दो नाम—शूक १ किंशारु २ पु० नपु० । (११)
 सस्य मञ्जरी के दो नाम—मञ्जरी १ स्त्री०, कणिश २ पु० नपु० ।

स्तम्बो गुच्छ स्तृणादीना शमी शिम्बे स्त्रियामुभे ॥१९॥

मर्दितं निस्तृण धान्य मृद्धमावसितं स्मृतम् ।

राशीकृतं तु पूतं स्यात् तदेव बहुली कृतम् ॥२०॥

पदार्थः पुसि वस्तु स्यात् क्लीबे उरव्य तु पैठरम् ।

समृष्टं शोधिते तुल्या मसृण स्निग्ध चिकणाः ॥२१॥

सुसंस्कृतः प्रयस्तोऽथ समे विजिलं पिच्छिले ।

तूल्यौ प्रणीतसम्पन्नौ त्रिपूरव्याघ्रास्त्रयोदश ॥२२॥

- (१) तृणादि काण्ड के दो नाम— स्तम्ब १ गुच्छ २ पु० नपु० । (२) सस्य फली के दो नाम—शमी १ शिम्बा २ स्त्री० । (३) जो धान्य मर्दित हो गया और उससे तृणादि दूर कर दिये गये हों लेकिन परिष्कृत न हुआ हो, उम धान्य के दो नाम— ऋद्ध १ आवसित २ नपुं० । (४) फोतरा (भूसा) धूली आदि से हीन धान्यराशि के तीन नाम—राशीकृत १ पूत २ बहुलीकृत ३ नपु० । (५) वस्तु मात्र के दो नाम—पदार्थ १ पु०, वस्तु २ नपु० । (६) हड्डो में पके हुए अनाज के दो नाम—उरव्य १ पैठर २ त्रि० । (७) शोधित स्थल के दो नाम—समृष्ट १ शोधित २ त्रि० । (८) चिकने के तीन नाम—मसृण १ स्निग्ध २ चिकण ३ पु० । (९) लौके हुए शाक आदि के दो नाम सुसंस्कृत १ प्रयस्त २ त्रि० । (१०) मण्ड से सयुक्त भात के तथा जल से सयुक्त भाजी शाक के दो नाम—विजिल १ पिच्छिल २ त्रि० । (११) अग्नि सयोग से सिद्ध द्रव्यान्तर सयोग से हीन व्यञ्जनादि के दो नाम—प्रणीत १ सम्पन्न २ त्रि० ।

१ वल्लवाऽऽभीर गोपाला गोपोऽथ २ वृषभो वृषः ।
 बलीवर्दपभो क्षाणा अनड्वासोऽथ गौर्द्वयोः ॥२३॥
 माहेयी ३ सौरभेयुस्त्राऽर्जुन्यध्न्या सुरभिर्गवि ।
 योत्तमा ४ नैचिकी, भेदाः शवैली श्वलादिकाः ॥२४॥
 धेनुना ५ वैर्जुकं गव्या गोत्रा च स्त्री गवीगणः ।
 गोरसो ६ दुग्ध दध्यादिः समे गोकुलगोधने ॥२५॥
 तदाशितं ७ गवीनं गौः पूर्वं यत्राऽऽशिता त्रिषु ।
 वत्साना वात्सकं तद्वदुक्षणामौक्षकमित्यपि ॥२६॥

(१) अहीर के चार नाम—वल्लव १ आभीर २ गोपाल ३ गोप ४ पु० । (२) बैल के सात नाम—वृषभ १ वृष २ बलीवर्द ३ ऋषभ ४ उक्षा (उक्षन्) ५ अनड्वा (अनडुह) ६ पु०, गौ (गो) ७ पु० स्त्री० । (३) गाय के छ नाम—माहेयी १ सौरभेयो २ उस्ता ३ अर्जुनी ४ उध्न्या ५ सुरभि ६ स्त्री० । (४) उत्तमा धेनु के एक नाम—नैचिकी १ स्त्री० । (५) वर्णादि भेद से गाय के दो नाम—शवैली १ श्वला २ आदि अनेक नाम हैं । (६) धेनु समूह के चार नाम—धैनुक १ नपु०, गव्या २ गोत्रा ३ स्त्री०, गवीगण ४ पु० । (७) गोरस के मुख्य तीन नाम—गोरस १ पु०, दुग्ध २ दधि ३ नपु० । (८) गो सघात के दो नाम—गोकुल १ गोघन २ नपु० । (९) जिस तृणादि युक्त स्थल-वन को गाय चर चुकी है उमका एक नाम—आशितगवीन नपु० । (१०) वल्लवे के समूह का एक नाम—वात्सक १ नपु० । (११) बैल समूह का एक नाम—औक्षक नपु० ।

१जरद्रवः स्याद्वृद्धोक्षो महोर्ध्वस्तु महावृषः ।

जातोक्षस्तैरुणः सद्यो जाते तु तर्णकः स्मृतः ॥२७॥

वत्सैः शकृत्करि वाल्ये ६दम्य वत्सतरौ ततः ।

७आर्षभः स्पृष्ट तारुण्ये ८इष्टवरः षण्ड गोपती ॥२८॥

गोस्कन्धः ९स्याद्वहः १०सास्ना स्त्रिया ना गलकम्बलः ।

११प्रासङ्ग्या शाकटा युग्या युगादीनान्तु वोढरि ॥२९॥

एवं हलादि वोढारो १२हालिकाद्या विदेलिमाः ।

- (१) बूढे बैल का एक नाम—जरद्रव १ पु० । (२) बड़े बैल का एक नाम—महोक्ष १ पु० । (३) तरुण बैल का एक नाम—जातोक्ष १ पु० । (४) तत्क्षण उत्पन्न बैल का एक नाम—तर्णक १ पु० । (५) गो के बछड़े के दो नाम—वत्स १ शकृत्करि २ पु० । (६) शिक्षणयोग्य वृष वत्स के दो नाम—दम्य १ वत्सतर २ पु० । (७) अभी अभी जवान होते हुए वृषवत्स का एक नाम—आर्षभ १ पु० । (८) साढिया के तीन नाम—इष्टर षण्ड (षण्ड) २ गोपति ३ पु० । (९) युग कोष्ट से कुचले गए बैल के कन्धा का एक नाम—वह १ पु० । (१०) गाय बैल के गले के नीचे लटकते हुए के दो नाम—सास्ना १ स्त्री०, गलकम्बल २ पु० । (११) जूआ वहन करने वाले बैल के तीन नाम—प्रासङ्ग्य १ शाकट २ युग्य ३ पु० । (१२) हल-वहन करने वाले बैल का एक नाम—‘हालिक’ आदि हैं पु० ।

धुरिणो धूर्वहो धूर्यो धौरेयश्च धुरन्धरः ॥३०॥
 नस्योतो नस्यितः स्यूत-नासिको ये तु केवलम् ।
 वोदारः शकटस्यैक-धुरीणैक धुरौ समौ ॥३१॥
 समोसमीना सागौर्या वर्षे वर्षे प्रसूयते ।
 एकद्वयनवत्सायाः सज्ञा वष्कयिणी गवी ॥३२॥
 नव प्रसूता धेनुः स्यात्सुखदोह्या तु सुव्रता ।
 सुकरा गौरचण्डी स्याद्बहुपत्या परेष्टुका ॥३३॥
 गृष्टिः सकृत्प्रसूताया वशावन्ध्या नगर्भ भाक् ।

हिन्दी- (१) गाडी वहन करने वाले बैल के पाच नाम—
 धुरीण १ धूर्वह २ धूर्य ३ धौरेय ४ धुरन्धर ५ पु० । (२) नाथ
 लगाये गये बैल के तीन नाम— नस्योत १ नस्यित २ स्यूतना-
 सिक ३ पु० । (३) केवल हल में केवल गाडा मे अथवा दाए या
 बाए एक ही युग मे वहने वाले बैल के दो नाम— एकधुरीण १
 एक धुर २ पु० । (४) प्रतिवर्ष व्याने वाली गाय का एक नाम—
 समासमीना १ स्त्री० । (५) जो गाय एक वर्ष का बछडा होने
 पर पुन गर्भवती हो उस गाय का एक नाम— वष्कयिनी १
 स्त्री० । (६) नई व्याई गाय को 'धेनु' कहते है स्त्री० । (७) जिस
 गाय से आसानी के साथ दूध दहे जाय उम गाय के दो नाम—
 सुखदोह्या १ सुव्रता २ स्त्री० । (८) सुशील गाय के दो नाम
 सुकरा १ अचण्डी २ स्त्री० । (९) बहुत बच्चे हो जिसको उस
 गाय के दो नाम— बहुपत्या १ परेष्टुका २ स्त्री० । (१०) पहला
 ही प्रसव जिसको हुआ हो उस गाय का एक नाम— गृष्टि १ स्त्री
 (११) बन्ध्या गाय के दो नाम— वशा १ बन्ध्या २ स्त्री० ।

धेनुष्या पीतदुग्धाया संस्थिता दुग्धबन्धके ॥३४॥

क्रीवे द्वे ऊध आपीने रज्जुः सन्दान दामनी ।

दोर तु दोरकं दोधं दोग्धारो दोह कर्मकृत् ॥३५॥

मन्थास्तु मन्थमन्थान वैशाखाः खञ्जकस्तथा ।

दधिमन्थान पात्रन्तु गर्गरी मन्थनी मता ॥३६॥

भेषडको-रणो-रभ्रोर्णायु-मेढ्राऽविवृणयः ।

वस्ताऽज-च्छागलस्तभा छागी त्वजास्त्रियाम् ॥३७॥

गडेरं गडुरौ पाले चाले मेषस्य गडुलिः [रिः] ।

- (१) ऋणलेने वाले को व्याई गाय इस वर्ष का दूध ऋणदाता को देकर अपने मालिक को ऋण से मुक्त करा सके ऐसे गाय के दो नाम—धेनुष्या १ पीतदुग्धा २ स्त्री० । (२) गाय के ऊधस् (उवारे) के दो नाम—ऊधस् १ आपीन २ नपुं० । (३) पशु आदि के बन्धन डोरी के तान नाम—रज्जु १ (दामनी, दामा) स्त्री० सन्दान २, दाम ३ नपुं० । (४) डोरे के सामान्य दो नाम—दोर १ दोरक २ नपुं० (५) दूध दूहने वाले के दो नाम—दोध १ दोग्धा २ पुं० । (६) रवैया [दधि विलोडन] के पाच नाम—मन्था १ मन्थ ३ मन्थान ३ वैशाख ४ खञ्जक ५ पुं० (७) जिसमे दही विलोवे उस वर्तन के दो नाम—गर्गरी १ मन्थनी २ स्त्री० । (८) मेष [भेड, गाडर] के आठ नाम मेष १ एडक २ उरण ३ उरभ्र ४ ऊर्णायुस् ५ मेढ्र ६ अवि ७ वृष्णि ८ पुं० । (९) छाग (बकरे) के पाच नाम—वस्त १ अज २ छागल ३ छाग ४ स्तम्भ ५ पुं० । (१०) बकरी के दो नाम—छागी १ अजा २ स्त्री० । (११) गाडर (मेष) पाल के दो नाम—गडेर १ गडुर २ पुं० । (१२) भेड चराने वाले के एक नाम—गडुलि (गडुरि) १ पुं० ।

शशोर्णं शशलोमानि ऊर्णायुं मेष कम्बलः ॥३८॥

चिरमेही च वालेय खर रासभ गर्दभाः ।

चक्रोयान् शङ्कुवर्णोऽपि तथा वैशाखनन्दनः ॥३९॥

उष्ट्र-क्रमेलको तुल्यौ करभस्वस्य बालकः ।

नैगमो वाणिजः सार्थवाही वैदेहको वणिक् ॥४०॥

क्रयविक्रयिकः पण्याजोव आपणिकस्तथा ।

वस्तु गृह्णाति मूल्येन क्रयिकः क्रयिकः क्रयी ॥४१॥

विक्रीणीने स विक्रेता तथा विक्रयिकः स्मृतः ।

वणिज्या चाऽपि वाणिज्यं वणिजा कर्म कीर्त्यते ॥४२॥

- (१) शशला के लोम के दो नाम- शशोर्ण १ शशलोमक २ नपु० ।
 (२) मेषादि लोम के दो नाम-ऊर्णायुम् [ऊर्णा स्त्री०] १ मेषकम्बल
 २ [रल्लक पक्षकम्बल को भी कहते हैं] पु० । (३) गर्दहे के
 आठ नाम-चिरमेहा १ वालेश २ खर ३ रासभ ४ गर्दभ ५ चक्रो-
 वान् ६ शङ्कुवर्ण ७ वैशाखनन्दन ८ पु० । (४) ऊँट के दो नाम-
 उष्ट्र १ क्रमेलक २ पु० । (५) ऊँट के [त्रिहायण] वच्चे का
 एक नाम- करभ १ पु० । (६) व्यापारी के आठ नाम- नैगम
 १ वाणिय २ सार्थवाही ३ वैदेहक ४ वणिक् ५ क्रयविक्रयिक ६
 पण्याजाव ७ आपणिक ८ पु० । (७) मूल्य (कीमत) से सामान
 खरीदने वाले के तीन नाम-क्रयिक १ क्रयिक २ क्रयी ३ पु० ।
 (८) बेचने वाले के दो नाम- विक्रेता १ विक्रयिक २ पु० ।
 (९) व्यापार के दो नाम-वाणिज्या १ स्त्री०, वाणिज्य २ नपु० ।

'मूल्येऽर्षोऽवक्रयो वस्नः फलं लाभोऽधिकं तु यत् ।
 वलीवे मूलधनं नीवी स्त्रिया परिपणः पुमान् ॥४३॥
 पुस्याधिर्वन्धक भाटो भाटकः पण आपणः ।
 उपधिर्न्यास निक्षेपो प्रतिदानं तदर्पणम् ॥४४॥
 परिवर्त परावर्त नैमेय निमया अपि ।
 विनिमयव्यतीहारौ परिदानेऽन्यवस्तुनः ॥४५॥
 क्रयं स्यादापणद्रव्यं पण्य विक्रेय वस्तुनि ।
 क्रयं क्रेतव्यमात्रेऽपि पैणिकाऽऽपणिकौ समौ ॥४६॥

(१) मूल्य (कीमत) के चार नाम—मूल्य १ नपुं०, अर्घ २
 अवक्रय (वक्रय) ३ वस्न ४ पु० । (२) नफा (मुनाफा) के तीन
 नाम—फल १ अधिक २ नपुं०, लाभ ३ पु० । (३) मूलधन
 (पूंजी) के तीन नाम—मूलधन १ नपुं० नीवी २ स्त्री०, परिपण
 ३ पु० । (४) गिरवी के दो नाम—आधि १ पु०, बन्धक २ नपु० ।
 (५) भाड़े के दो नाम—भाट १ भाटक २ पु० । (६) दुकान के
 दो नाम—पण १ आपण २ पु० । (७) घरोहर (थापण) के तीन
 नाम—उपधि १ न्यास २ निक्षेप ३ पु० । (८) घरोहर लोटाने
 का एक नाम—प्रतिदान १ नपु० । (९) अदला बदला के
 सात नाम—परीवर्त १ परावर्त २ नेमेय ३ निमय ४ विनिमय
 ५ व्यतीहार ६ पु०, परिदान ७ नपु० । (१०) मूल्य लेकर बेचे
 जाय ऐसे दुकान के सामान का एक नाम—क्रय्य १ नपु० ।
 (११) बेचने योग्य वस्तुओं का एक नाम—पण्य १ नपु० । (१२)
 खरीदने योग्य वस्तु का एक नाम—क्रेय २ नपु० । (क्रय्यआदि
 त्रिलिङ्ग) । (१३) दुकानदार के दो नाम—पणिक २ आपणिक
 २ पु० ।

सत्यङ्कारः स्त्रियां सत्या-कृतिः सत्यापन तथा ।
 धारशोधर्ण शोधौच त्रिषु द्वावृणि धारिणौ ॥४७॥
 ऋणं धारोऽर्थनिष्कोऽस्त्री स्वर्णमुद्राऽथ टङ्कटः^६ ।
 रूप्यं च कार्षिकः कार्पा-पणः स्यात्ताम्रिकः पणः ॥४८॥
 वराटिका कपर्दी स्याद् विशति सातु कौकिणी ।
 तुर्यांशः कुडवः पादोऽथार्ध-प्रस्थोऽर्द्ध शेटकः ॥४९॥
 समौ स्तः शेटकः प्रस्थो द्विशेटी^७ तु द्विशेटिका ।
 आढको भाजनं कंसः पात्र सार्द्धद्विशेटिका ॥५०॥

(१) व्याना (लेन देन की निश्चित बात) के तीन नाम-
 सत्यङ्कार १ नपु०, सत्याकृति २ स्त्री०, सत्यपाल ३ नपु० ।
 (२) लहना तगादा के दो नाम-धारशोध १ ऋणशोध २ पु० ।
 (३) खदुका (जो कि उधार लिए हो) के दो नाम-ऋणी १
 धारी २ पु० । (४) ऋण के दो नाम-ऋण १ नपु०, धार २
 पु० । (५) अशर्फी के दो नाम-निष्क (दीनार) १ पु० नपु०,
 स्वर्ण मुद्रा २ स्त्री० । (६) रूपैया के चार नाम-टङ्कट १ पु०,
 रूप्य २ नपु०, कार्षिक ३ कार्षापण ४ पु० । (७) पैसा के दो
 नाम-ताम्रिक १ पण २ पु० । (८) कौडी के दो नाम-वराटिका
 १ कपर्दी २ स्त्री० । (९) बीस कौडी को एक 'कौकिणी' होता
 है स्त्री० । (१०) चौथाई हिस्से के तीन नाम-तुर्यांश १ कुडव
 २ पाद ३ पु० । (११) अर्धा सेर वजन के दो नाम-अर्धप्रस्थ
 २ अर्धशेट २ पु० । (१२) सेर वजट के दो नाम-शेटक २
 प्रस्थ २ पु० । (१३) दो सेर वजन के दो नाम-द्विशेटी १ द्विशे-
 टिका २ स्त्री० । (१४) ढाई सेर वजन के पांच नाम-आढक १
 कंस २ पु०, भाजन ३ पात्र ४ नपु०, सार्द्धद्विशेटिका ५ स्त्री० ।

दशशेटी घटी पञ्च—प्रस्थी स्यात्प्रश्चशेटिका ।

दशशेटी भवेद् द्रोणैः स्त्रियां खारी मणः पुमान् ॥५१॥

वाहो द्वादश खारी स्याद् वण्टकर्या पृषाकरा ।

अक्षकपर्षौ तु तोलाया मक्ष षोडशमाषकः ॥५२॥

गुर्जानामण्टकं माषो मानार्थे क्रम आदृतः ।

स्वार्पतेय वसुद्रव्य रिक्थक्थ द्रविणानि च ॥५३॥

हिरण्य धुम्न वित्तानि रा अर्थ विभवा वपि ।

एकौ दश शतं तद्वत् सहस्र मयुत तथा ॥५४॥

हिन्दी—(१) धारा (दश सेर वजन) के दो नाम—दशसेटी १, घटी २ स्त्री० । (२) पसेरी (पान सेर) वजन के दो नाम—पञ्चप्रस्थी १, पञ्चशेटी २ (पञ्चशेटिका) स्त्री० । (३) मापविशेष (घाडा दश सेर वजन) का एक नाम—द्रोण १ पु० । (४) एक मन वजन के दो नाम—खारी १ स्त्री०, मण २ पु० । (५) एक गाडी पर सामान्य रूप से बारह मन वजन रक्खा जाता है उस का एक नाम—वाह १ पु० । (६) बटवारा विभाजन करनेवाले के दो नाम—वण्टकरी १, पृषाकरा २ स्त्री० (अंश, भाग पु०) । (७) तोला के तीन नाम—अक्ष १ (सोलह माष [उड़द] का बराबर 'अक्ष' का माप माना गया है) कर्ष २ पु०, तोला ३ स्त्री । (८) आठ माष का बराबर 'गुञ्जा' होती है स्त्री० । (९) घन के बारह नाम—स्वार्पतेय १, वसु २, द्रव्य ३, रिक्थ ४, ऋक्थ ५, द्रविण ६, हिरण्य ७, धुम्न ८, वित्त ९ नपुं०, रा [रै] १०, अर्थ ११, विभव १२ पु० । (१०) व्यवहार के लिए सख्याएं—एक १ त्रि०, दश १० नपु, शत १००, सहस्र १००० पु नपु.,

लक्षं च प्रयुतं कोटिं रर्वुदं चाऽब्जमेव च ।
 खर्वो निखर्वः पद्मोऽपि शङ्कुश्च सागरस्ततः ॥५५॥
 अन्त्यं मध्यं परार्धं च संख्या दशगुणोत्तराः ।
 संख्या संख्येययो विश-त्याद्या एकत्व वाचिनः ॥५६॥
 संख्यायते चेत्संख्यैव द्वित्वाद्यपि तदा भवेत् ।

॥ इति वणिग् वर्गः समाप्तः ॥

अयुत १०००० नपुं०, लक्ष १०००००, प्रयुत १००००००,
 नपु, कोटि १००००००० त्रिलिङ्ग, रर्वुद १००००००००,
 अब्ज नपु १००००००००० खर्व १००००००००००,
 निखर्व पु०, १००००००००००० पद्म १००००००००००
 ०० पु० नपु०, शङ्कु १०००००००००००००००, सागर
 १००००००००००००००० पु०, अन्त्य १००००००००००००-
 ०००००, मध्य १००००००००००००००००००००, परार्ध १०-
 ००००००००००००००००००००० ए संख्याए आगे आगे दश गुणा
 अधिक होती जाती है विशति को लेकर आगे आगे की संख्याए
 एकवचनान्त होती हैं (चाहे संख्या में वा संख्येय में हों) जहाँ
 संख्या ही गिनी जाय वहाँ द्वित्वादि भी हो सके ।

॥ इति वणिग् वर्गः समाप्तः ॥

॥ अन्त्यवर्णवर्गः प्रारभ्यते ॥

शूद्रो जघन्यजाः पद्या वृषला अन्त्यवर्णकाः ।

मूर्धाभिषिक्ता द्रथकृज्जात्यन्ता मिश्रजातयः ॥१॥

क्षत्रियाया द्विजाज्जातो मूर्धावसिक्त उच्यते ।

निषादो यदि शूद्रायां वैश्याया द्विजजो यदि ॥२॥

अम्बष्ठोऽथ निषादेनाऽम्बष्ठ्यायां बुक्कसं सुतः ।

मृतपश्चैष विज्ञेयः क्षत्ता वैश्यासु शुद्रजः ॥३॥

शूद्रायां नृपजश्चोर्ग्रः कर्रणो वैश्यतो यदि ।

क्षत्रियायां तु सूरतः स्याद् भवेद्वैदेहिकेस्तु यः ॥४॥

ब्राह्मण्यां यदि वा शूद्राच्चोण्डालोऽर्याक्षमा भुजोः ।

हिन्दी—(१) शूद्र के पाच नाम—शूद्र १, जघन्यज २, पद्य ३, वृषल ४, अन्त्यवर्णक ५ पु० । (२) मिश्र जातियो में ब्राह्मण से क्षत्रिया में उत्पन्न हुआ का एक नाम—मूर्धाभिषिक्त १ पु० । (३) ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न को 'निषाद' कहते हैं पु० । (४) ब्राह्मण से वैश्या मे उत्पन्न को 'अम्बष्ठ' पु० । (५) अम्बष्ठ में निषाद से उत्पन्न को 'बुक्कस' १ मृतप २ ' पु । (६) शूद्र से वैश्या में उत्पन्न को 'छत्ता' कहते हैं पु । (७) शूद्रा में क्षत्रिय से उत्पन्न का नाम—उग्र १ पु. । (८) शूद्रा में वैश्य से उत्पन्न का नाम—करण १ पु. । (९) वैश्य से क्षत्रिया मे उत्पन्न का नाम—सूत १ पु । (१०) वैश्य से ब्राह्मणी मे उत्पन्न का नाम—वैदेहिक १ पु । (११) ब्राह्मणी में शूद्र से उत्पन्न का नाम—चाण्डाल १ पु ।

माहिष्यः कुलकः शिल्पि मुख्येऽथ कारु^१ शिल्पिनौ ॥५॥

माली तु मालिको माला-कारस्तक्षा तु वर्धकिः ।

काष्ठतद् रथकारश्च माहिष्यात्करणी सुतः ॥६॥

कौटतक्षोऽनधीनस्थो ग्रामतक्षो वशे स्थितः ।

सौचिकस्तुन्नवायोश्च दरजिदरजिस्तथा ॥७॥

शाणकृत्वसिधावः स्यात्कुलालः कुम्भकारकः ।

लेपं कृद्राजकारिश्च पलगण्डः सुधाकरः ॥८॥

अथ चित्रकरो रङ्गराजो रजकधावकौ ।

- (१) वैश्य कन्या मे क्षत्रिय से उत्पन्न का एक नाम—माहिष्य १ पु । (२) शिल्पकारो मे मुखिया का नाम—कुलक १ पु । (३) [चित्रकारे, कारीगर] के दो नाम—कारु १ शिल्पी २ पु । (४) माली के तीन नाम—माली १, मालिक २ मालाकार ३ पु । (५) बढइ के चार नाम—तक्षा [तक्षन्] १ वर्धकि २, काष्ठतद् ३, रथकार ४ पु [ए माहिष्य से करणी मे उत्पन्न हुए है] । (६) स्वतन्त्र बढइ का एक नाम—कौटतक्ष १ पु । (७) ग्रामवासी काममे लगे हुए बढइ का एक नाम—ग्रामतक्ष १ पु । (८) दर्जी के चार नाम—सौचिक १, तुन्नवाय^२, दरजित् ३, दरजि ४ पु । (९) सगलीगर [राराणिआ] के दो नाम—शाणकृत् १, असिधावक २ पु । (१०) कुम्भकार के दो नाम—कुलाल १, कुम्भकार २ पु । (११) पलस्तर [चूना आदि लगाने वाले] करनेवाले कारीगर के चार नाम—लेपकृत् १, राजकारि २, पलगण्ड ३, सुधाकर ४ पु । (१२) चित्रकार के दो नाम—चित्रकर १ रङ्गराज २ पु० । (१३) घोड़ी के दो नाम—रजक १ धावक २ पु० ।

व्योकारो लोहकृत्प्रोक्तः कल्पपालस्तु शौण्डिकः ॥९॥

रुक्मकृत्स्वर्णकारोऽपि कलादः पश्यतोहरः ।

नाडिन्धमः कुविन्दस्तु तन्तुवायोऽथ शौल्विकैः ॥१०॥

ताम्रिक स्ताम्रकुटोऽथ ना काम्बविक शार्ङ्गिकौ ।

चर्मकारस्तु पादकृद्दिवा कीर्तिस्तु नापित ॥११॥

अजाजीवस्तु जावालो देवलो देवजीवकः ।

पाणिर्वेस्तालकृत्तुल्यौ मार्दङ्गिकैर्मृदङ्गिनौ ॥१२॥

भौरिको भारवाहः स्यात् तथा वाहक इत्यपि ।

- (१) लोहार के दो नाम—व्योकार १ लोहकृत् २ पु० । (२) कञ्चार कलाल (दारु बनाने वाले) के दो नाम—कल्पपाल १ शौण्डिक २ पु० । (३) सुनार के पाच नाम—रुक्मकृत् १ स्वर्णकार २ कलाद ३ पश्यतोहर ४ नाडिन्धम ५ पु० । (४) जुलाहे (कपड़ा) बुनने वाले के दो नाम—कुविन्द १ तन्तुवाय २ पु० । (५) ताम्बा के वर्तन बनाने वालों के तीन नाम—शौल्विक १ ताम्रिक २ ताम्रकुट ३ पु० । (६) शंख सीप कम्बुमणि आदि के आभूषण बनाने वाले के दो नाम—काम्बविक १ शार्ङ्गिक २ (कङ्कणादिकृत्) पु० । (७) चमार के दो नाम—चर्मकार १ पादकृत् २ पु० । (८) मृदङ्ग

कुहकं त्विन्द्रजालं च मायाकर्माऽथ शाम्बरी ॥१३॥

माया मायी तु मायावी मायिकश्चेन्द्रजालिकः ।

चारणः कथकस्तद्वत् स्यात्कुशीलव इत्ययम् ॥१४॥

नट शैलालि शैलूष भरतास्तु कृशाश्विनि ।

वेणुध्या वेणुको वैणविकः स्यु वेणुवादके ॥१५॥

कर्मणञ्जवशीकारौ तुल्यौ भाणि प्रहासिनौ ।

भृतको भृतिभुक् कर्मकर वैतनिकाः समा ॥१६॥

भर्जको भ्राष्ट्रिको भ्राष्ट्री स्तोत्रागुरिक जालिकौ ।

(१) मन्त्र यन्त्र तन्त्र वा ओषधि प्रयोगो से असंभव को संभव करने के तीन नाम—कुहका १ इन्द्रजाल २ मायाकर्म ३ नपु. । (२) माया के दो नाम—शाम्बरी १ माया २ स्त्री० । (३) माया करने वाले के चार नाम—मायी १ मायावी २ मायिक ३ इन्द्रजालिक ४ नपु० । (४) चारण के तीन नाम—चारण १ कथक २ कुशीलव ३ पु० । (५) नट के पाच नाम—नट १ शैलालि २ शैलूष ३ भरत कृशाश्वी ५ पु० । (६) वासुरी बजाने वाले के चार नाम—वेणुध्या १ वैणुक २ वैणविक ३ वेणुवादक पु० । (७) ओषधी जड़ीबूटी से वश करने वाले के दो नाम—कर्मणज १ वशीकार २ पु० । (८) हास्य रस के अभिनेता के दो नाम—भाणी (भाणिन्) १ प्रहासी (प्रहासिन्) २ पु । (९) वेतन से काम करने वाले के चार नाम—भृतक १ भृतिभुक् २ कर्मकर ३ वैतनिक ४ पु० । (१०) भरभुजा के तीन नाम—भर्जक १ भ्राष्ट्रिक २ भ्राष्ट्री (भ्राष्ट्रिन् ३ पु० । (११) जाल आदि से पक्षियों को पकड़ने वाले के दो नाम—वागुरिक १ जालिक २ पु० ।

पुंसि वैवधिको वार्तावाही वार्तावहोऽपि च ॥१७॥
 चाक्रिको घूसरस्तैली तैलिकश्च तिलन्तुदः ।
 पक्षिहन्तश्च जीवान्तकः शाकुनिक इष्यते ॥१८॥
 मांसिकः कौटिको वैतंसिको यो मासविक्रमी ।
 प्राकृतोऽपसदो जालमो नीचो हीनश्च पामरः ॥१९॥
 पृथग्जनो विवर्णश्च क्षुल्लकोऽपि तथेतरः ।
 अनाथ भिक्षुकौ रङ्गस्थान्तेवासी च वुक्कसौ । २०॥
 निषादप्लव चण्डाल चाण्डालश्चपचोपि च ।
 मातङ्गो वांसिको वंशजीवी हाडिमहत्तरौ ॥२१॥
 किराताः शबला मिल्ला पुलिन्दा वरुटाः समाः ।

(१) सदेशा ले जाने वाले के तीन नाम—वैवधिक १
 वार्तावाही २ वार्तावाह ३ (सदेशहर) पु० । (२) तैली के पाच
 नाम—चक्रिक १ घूसर २ तैली (तैलिन्) ३ तैलिक ४ तिलन्तुद
 ५ पु० । (३) पक्षी मारने वालों के तीन नाम—पक्षिहन्ता १
 जीवान्तक २ शाकुनिक ३ पु० । (४) मास बेचकर जीविका चलाने
 वाले के चार नाम—मांसिक १ कौटिक २ वैतंसिक ३ मासविक्रयी
 ४ पु० । (५) नीच के दश नाम—प्राकृत १ अपसद २ जालम ३
 नीच ४ हीन ५ पामर ६ पृथग्जन ७ विवर्ण ८ क्षुल्लक ९ इतर
 १० पु० । (६) रङ्ग के तीन नाम—अनाथ, भिक्षुक २ रङ्ग ३
 पु० । (७) चण्डाल के बारह नाम—अन्तेवासी १ वुक्कस २
 निषाद ३ प्लव ४ चण्डाल ५ चाण्डाल ६ श्वपच ७ मातङ्ग ८
 वांसिक (डोम के) ९ वंशजीवी १० हाडा (मेहत्तर के) ११ मह-
 त्तर १२ पु० । (८) मिल्ल के पाच नाम—किरात १ शबर २
 मिल्ल ३ पुलिन्द ४ वरुट ५ पु० ।

मृगयु लुब्धको व्याधोऽथ भृत्यो दास किंकरौ ॥२२॥

नियोज्य प्रैष्य दासेय दासेर परिचारकाः ।

भुजिप्यो गोप्य चेटी च सूत्यानस्नुष्णपेशलौ ॥२३॥

चतुरश्च पटुर्दक्षो मन्दस्तु यद्भविष्यक ।

तुन्द परिमृजाऽऽलस्या बलसाऽनुष्ण शीतकाः ॥२४॥

क्षुरभाण्ड क्षुवाधायः क्षुरवानी क्षुरालिका ।

विष्टि राजूर्हठान्तोत् भृत्ये तत्कर्म विष्टिता ॥२५॥

तर्त्रं तु चर्मतन्तुः स्याद् भिक्षापात्रं तु खर्परः ।

तैलयन्त्र तु चक्रं स्यात् स्त्रियां गाली तु गालिका ॥२६॥

(१) व्याध के तीन नाम—मृगयु १ लुब्ध २ व्याध पु. (२)

भृत्य के ग्यारह नाम—भृत्य १ दास २ किंकर ३ नियोज्य—

प्रैष्य ५ दासेय ६ दासेर ७ परिचारक ८ भुजिप्य ९ गोप्य १०

चेट ११ पु० (३) चतुरजनो के छ नाम—सूत्यान १ उष्ण २

पेशल ३ चतुर ४ पटु ५ दक्ष ६ पु० । (४) आलसी जन के सात

नाम—मन्द १ यद्भविष्यक २ तुन्दपरिमृज ३ आलस्य ४ आलस

५ अनुष्ण ६ जीनक ७ पु० । (५) नाई के पेटो के चार

नाम—क्षुरभाण्ड नपु० क्षुवाध २ पु० क्षुवानी १ क्षुरालिका

४ स्त्री० । (६) बलपूर्वक बनाये गये भृत्य के दो नाम—विष्टि

१ आजू २ स्त्री० । (७) इसके काम के एक नाम—विष्टिता

१ स्त्री० । (८) तात के दो नाम—तन्त्र १ नपु०, चर्मतन्तु २

पु० । (९) भिक्षा पात्र के एक नाम—खर्पर १ पु० । (१०)

तैलयन्त्र के एक नाम—चक्र १ नपु० । (११) गालो के दो नाम—

गाली १ गालिका २ स्त्री० ।

कुक्करो भषक सारमेयः श्वा मृगदशकः ।

कुकुरः शुनकोऽर्क स्तृन्मत्तो यः प्रयोगतः ॥२७॥

शुनी स्यात्सरमा विश्वं कट्टुः श्वा मृगया पट्टुः ।

आखेटो मृगयाऽऽच्छोदनं मृगव्यं नपुंसकम् ॥२८॥

विट्चरो ग्राम्य घोणा स्याद् वर्करो यो युवा पशुः ।

परैरनिच्छतां वस्तु हरणं लुण्ठनं वलात् ॥२९॥

वेष्टं काऽऽवेशिकौ वीराऽऽवेशः संरंभ ईरितः ।

१० स्तेनै कागारिकौ चौर दस्यु मोषक तस्कराः ॥३०॥

पाटच्चर परास्कन्दि प्रतिरोधि मलिम्लुचाः ।

११ पेटा स्त्रियां च मञ्जूषा पिटकः पेटकः पुमान् ॥३१॥

(१) कुक्कुर के सात नाम—कुक्कुर १ भषक २ सारमेय ३ श्वा (श्वन्) ४ मृगदशक ५ कुकुर ६ शुनक ७ पु० । (२) पागल कुत्ते के एक नाम—अर्क १ पु० । (३) कुत्ती के दो नाम—शुनी १ सरमा २ स्त्री० (४) शिकारी कुत्ते का एक नाम—विश्वकट्टु १ पु (५) शिकार के चार नाम—आखेट १ पु०, मृगया २ स्त्री०, आच्छोदन ३ मृगव्य १ नपु० । (६) ग्राम सूकर के दो नाम—विट्चर ४ ग्राम्यघोणी २ पु० । (७) जुवान पशु के एक नाम—वर्कर १ पु० । (८) छटने के एक नाम—लुण्ठन १ नपु० । (९) वीर के आवेश के चार नाम—वेष्टक १ आवेशिक २ वीज्वेश ३ संरंभ ४ नपु । (१०) चौर के दश नाम—स्तेन १ एकागारिक २ चौर ३ दस्यु ४ मोषक ५ तस्कर ६ पाटच्चर ७ परास्कन्दी ८ प्रतिरोधी ९ मलिम्लुच १० पु० । (११) पेटी के चार नाम—पेटा १ मञ्जूषा २ स्त्री, पिटक ३ पेटक ४ पु० ।

नना शु^१ल्व वराटः स्त्री-रज्जु स्त्रिषु वटी गुणः ।

चौर्यं तु चोरिका स्तेयं स्थालोप्त्रं चौरिका वनम् ॥३२॥

सूत्रं तन्तौ वायदण्डो वेमा व्यूतिस्तु वाणिषु ।

अरहट्टो घटी यन्त्रे कूपात्सलिलवाहने ॥३३॥

पुंसि पेपण यन्त्रे स्याद् घरट्टोऽञ्जी तथा स्त्रियाम् ।

कूटयन्त्रं तदुन्माथो मृगपागस्तु वागुरा ॥३४॥

बन्धने लोभ हेतुस्तु 'वीतसो मृगपक्षिणाम् ।

पौञ्चाली पुत्रिके तुल्ये भारयष्टि विहंगिका ॥३५॥

हिन्दी-(१) रस्सी (डोरी) के पाच नाम—शुल्व १ स्त्री०, नपु०, वराट २ पु०, रज्जु ३ स्त्री०, वटी ४ त्रि०, गुण ५ पु० ।

(२) चोरी के तीन नाम—चौर्य १ स्तेय क नपु०, चोरिका ३ स्त्री ।

(३) चोरो से आये धन के एक नाम—लोप्त्र १ नपु । (४) सूत के दो

नाम—सूत १ नपु०, तन्तु २ पु० । (५) वेमा (जुलहे की कंघी)

के दो नाम—वायदण्ड १ वेमा (वेमन्) २ पु० । (६) रूई धूनने

के डडे के दो नाम—व्यूति १ वाणि २ स्त्री० । (७) अरहट्ट के

एक नाम—अरहट्ट १ पु० । (८) चक्की (जिससे आटा पीसते

हैं) के दो नाम—घट्ट १ पु०, अञ्जी २ स्त्री० । (९) कपा

(कपास वास का छोटा धनुष जिसमें लासा लगाकर चिड़ियों

को पकड़ते हैं) के दो नाम—कूटयन्त्र १ नपु०, उन्माथ २ पु० ।

(१०) फदा (रस्सी का घेरा) के दो नाम—मृगपाश १ पु० वागुरा

२ स्त्री । (११) मृगपक्षियों को पकड़ते समय में ललचाने के वस्तु

को 'वीतस' कहते हैं पु० । (१२) पुतली स्त्री की आकृति का बत्तादि

निर्मित पुतला के दो नाम—पचाली १ पुत्रिका २ स्त्री० । (१३) भार

की लकड़ी के दो नाम—भारयष्टि १ विहंगिका २ स्त्री० ।

१ शिक्क्यं काचो वस्त्रा २ तु वर्धी नध्री स्त्रियामिमाः ।

३ उपानत्पादुका पादूः ४ कशात्वश्वादि ताडनी ॥३६॥

पापाण भेदनैस्तको भस्त्रा चर्मप्रसेविका ।

काष्ठादि भेदनी ५ त्वारा शलाका तूलिकैषिकाः । ३७॥

कषः स्यान्निकषः शाणः कर्तरीतु कृपाणिका ।

६ मूषी त्वावर्तनी मूषा व्रश्चनः पत्रदारणः ॥३८॥

हस्तैकुट्टः शिलाकुट्टोऽयोधनः कूटमस्त्रियाम् ।

- (१) सीका(रस्सी का फन्दा, जिस पर दही आदि टांगा हुआ रहता है) के दो नाम—शिक्क्य १ नपु०, काच २ पु० । (२) चमड़ा से बने रस्सी के तीन नाम—वस्त्रा १ वर्धी २ नध्री ३ स्त्री० । (३) जूते के तीन नाम—उपानत् १ पादुकार २ पादू ३ स्त्री० । (४) चाबूक का एक नाम—कशा १ स्त्री० । (५) छेनी (जिससे लोहे काटे जाय) का एक नाम—टन्क १ पु० । (६) भाथी के दो नाम—भस्त्रा १ चर्मप्रसेविका २ स्त्री० । (७) लकड़ी चीरने का औजार का एक नाम—आरा १ स्त्री० । (८) चित्र बनाने की लेखनी के तीन नाम—शलाका १ तूलिका २ एषिका ३ स्त्री० । (९) स्वर्णपरीक्षण की कसौटी के तीन नाम—कष १ निकष २ शाण ३ पु० । (१०) कैचो के दो नाम—कर्तरी १ कृपाणिका २ स्त्री० । (११) सुवर्ण गलाने के मिट्टीपात्र के तीन नाम—मूषी १ आवर्तनी २ मूषा ३ स्त्री० । (१२) सुवर्ण पात्र छेदन की कैची के दो नाम—व्रश्चन १ पत्रदारण २ पु० । (१३) हथौडा हथौडी के दो नाम—हस्तकुट्ट १ शिलाकुट्ट २ पु० । (१४) एरण (नेहाई) के दो नाम—अयोधन १ पु०, कूट २ पु०, नपु० ।

नना शु^१ल्वं वराटः स्त्री-रज्जु स्त्रिषु वटी गुणः ।

चौर्यं तु चोरिका स्तेयं स्थाललो^२प्त्रं चौरिका धनम् ॥३२॥

सूत्रं तन्तौ वायदण्डो वेमा व्यू^३तिस्तु वाणिषु ।

अरहट्टो घटी यन्त्रे कूपात्सलिलवाहने ॥३३॥

पुंसि पेपण यन्त्रै स्याद् घरट्टोऽञ्जी तथा स्त्रियाम् ।

कूटयन्त्रं तदुन्माथो मृगपाशस्तु वागुरा ॥३४॥

बन्धने लोभ हेतुस्तु 'वीतसो मृगपक्षिणाम् ।

पंचाली पुत्रिके तुल्ये भारयष्टि विहंगिका ॥३५॥

हिन्दी-(१) रस्सी (डोरी) के पाच नाम-शुल्व १ स्त्री०, नपु०, वराट २ पु०, रज्जु ३ स्त्री०, वटी ४ त्रि०, गुण ५ पु० ।
 (२) चोरी के तीन नाम-चौर्य १ स्तेय क नपु०, चोरिका ३ स्त्री ।
 (३) चोरो से आये धन के एक नाम-लोप्त्र १ नपु । (४) सूत के दो नाम-सूत १ नपु०, तन्तु २ पु० । (५) वेमा (जुलहे की कंधी) के दो नाम-वायदण्ड १ वेमा (वेमन्) २ पु० । (६) रूई धूनने के डडे के दो नाम-व्यूति १ वाणि २ स्त्री० । (७) अरहट्ट के एक नाम-अरहट्ट १ पु० । (८) चक्री (जिससे आटा पीसते हैं) के दो नाम-घरट्ट-१ पु०, अज्जो २ स्त्री० । (९) कपा (कपास वास का छोटा घनुष जिसमें लासा लगाकर चिड़ियों को पकड़ते हैं) के दो नाम-कूटयन्त्र १ नपु०, उन्माथ २ पु० ।
 (१०) फदा (रस्सी का घेरा) के दो नाम-मृगपाश १ पु० वागुरा २ स्त्री । (११) मृगपक्षियों को पकड़ते समय में ललचाने के वस्तु को 'वीतस' कहते हैं पु० । (१२) पुतली स्त्री की आकृत का ब्लादि निर्मित पुतला के दो नाम-पचाली १ पुत्रिका २ स्त्री० । (१३) भार की लकड़ी के दो नाम-भारयष्टि १ विहंगिका २ स्त्री० ।

१ शिख्यं काचो वस्त्रा २ तु वध्रीं नध्री स्त्रिगामिमाः ।

३ उपानत्पादुका पादूः ४ कशात्वश्वादि ताडनी ॥३६॥

पापाण भेदनैस्तको भस्त्रा चर्मप्रसेविका ।

काष्ठादि भेदनी ५ त्वारा शर्लाका तूलिकैपिकाः । ३७॥

कषः स्यान्निकषः शाणः कर्तरीतु कृपाणिका ।

६ मूषी त्वावर्तनी मूषा ब्रध्ननः पत्रदारणः ॥३८॥

हस्तकुट्टः शिलाकुट्टोऽयोधनः कूटमस्त्रियाम् ।

(१) सीका(रस्सी का फन्दा, जिस पर दही आदि टांगा हुआ रहता है) के दो नाम—शिख्य १ नपु०, काच २ पु० । (२)

चमड़ा से बने रस्सी के तीन नाम—वस्त्रा १ वध्री २ नध्री ३ स्त्री० ।

(३) जूते के तीन नाम—उपानत् १ पादुका २ पादू ३ स्त्री० ।

(४) चाबूक का एक नाम—कशा १ स्त्री० । (५) छेनी (जिससे

लोहे काटे जाय) का एक नाम—टन्क १ पु० । (६) भाथी के

दो नाम—भस्त्रा १ चर्मप्रसेविका २ स्त्री० । (७) लकड़ी चीरने का

औजार का एक नाम—आरा १ स्त्री० । (८) चित्र बनाने की

छेखनों के तीन नाम—शलाका १ तूलिका २ एषिका ३ स्त्री० ।

(९) स्वर्णपरीक्षण की कसौटी के तीन नाम—कष १ निकष २

शाण ३ पु० । (१०) कैचो के दो नाम—कर्तरी १ कृपाणिका २

स्त्री० । (११) सुवर्ण गलाने के मिट्टीपात्र के तीन नाम—मूषी १

आवर्तनी २ मूषा ३ स्त्री० । (१२) सुवर्ण पात्र छेदन की कैंची के

दो नाम—ब्रध्नन १ पत्रदारण २ पु० । (१३) हथोडा हथौड़ी के

दो नाम—हस्तकुट्ट १ शिलाकुट्ट २ पु० । (१४) एरण (नेहाई)

के दो नाम—अयोधन १ पु०, कूट २ पु०, नपु० ।

सदंशिका तु सदंशो स्मर्ययो मूर्ति रेवतु ॥३९॥

शिल्पं कलादिकं कर्म नाराच्येषणिके समे ।

स्त्रियां प्रति कृतिश्चाऽर्चा प्रतिमा प्रतियातना ॥४०॥

प्रतिच्छाया प्रतिच्छन्द पुमान्प्रतिनिधि स्तथा ।

कायोमान रूपे विवे प्रत्यन्ताः प्रतिमार्थकाः ॥४१॥

उपमानोपमेयौ तु यस्य यस्मिन्क्रमात्स्थितौ ।

उपमोपमिती तुल्ये वाच्यलिङ्गा व्यवस्थिता ॥४२॥

साधारण सरूपोऽपि सवर्णः सन्निभःसमः ।

सधर्मा तुल्य सदक्ष समान सदशाः सदक् ॥४३॥

- (१) साडसी के दो नाम—सदशिका १ स्त्री०, सदंश २ पु० । (२) लोहे की स्त्रीमूर्ति का एक नाम—सूर्मा १ स्त्री० । (३) कलात्मक काम के एक नाम शिल्प १ नपु० । (४) सोना तौलने की तुल के दो नाम—नाराची १ एषणिका २ स्त्री० । (५) प्रतिमा के ग्यारह नाम—प्रतिकृति १ अर्चा २ प्रतिमा ३ प्रतियातना ४ प्रतिच्छाया ५ स्त्री प्रतिच्छन्द ६ प्रतिनिधि ७ प्रति-काय ८ पु०, प्रतिमान ९ प्रतिरूप १० प्रतिविम्ब ११ नपु० । (६) जिसकी उपमा ली जाती हो उसका एक नाम—उपमान १ त्रि० । (७) जिसमें उपमा दी जाय उसका एक नाम—उपमेय १ त्रि० । (८) उपमा के दो नाम—उपमा १ उपमिति २ स्त्री० । (९) तुलना बोधक शब्द के ग्यारह नाम—साधारण १ सरूप २ सवर्ण ३ सन्निभ ४ सम ५ सधर्मा (सधर्मन्) ६ तुल्य ७ सदक्ष ८ समान ९ सदृश १० सदक् (सदृशू) ११ ए सब वाच्यलिङ्ग ।

मदिरा' तु सुरा मद्य कश्यं हाला परिस्रुताः ।

'सीध्वासवौ तु मैरेय' शुण्डा पानं तु मद्यभूः ॥४४॥

सरकौ मद्यपानो स्या च्चषकः पानभाजनम् ।

पाशकौ देवनोऽक्षः स्यात्कैतवं द्यूतमस्त्रियाम् ॥४५॥

समिकंः कितवो धूर्तोऽक्षधूर्तो द्यूतकारकः ।

शारी स्याद्गुटिका गोटी प्रतिज्ञा तु पणः पुमान् ॥४६॥

शारिधिः शारिफलकं स्यादष्टापदमित्यपि ।

(१) मदिरा (दारु) के छ नाम—मदिरा १ सुरा २ स्त्री०, मद्य ३ कश्य ४ नपु०, हाला ५ परिस्रुता ६ स्त्री० । (२) ईख (सेलडो) शाक (भाजी) आदि से बनाये गये मद्य के तीन नाम—सीधु १ आसव २ पु०, मैरेय ३ नपु० । (३) मद्य घर के तीन नाम—शुण्डा १ स्त्री०, पान २ नपु०, मद्यभू ३ स्त्री० । (४) मद्यपान का एक नाम—सरक १ पु० । (५) मद्यपान के प्याला के दो नाम—चषक १ पु०, पानभाजन २ नपु (६) जूआ खेलने के पासा के पाच नाम—पाशक १ देवन २ अक्ष ३ पु०, कैतव ४ द्यूत ५ पु, नपु० । (७) द्यूतकार के पाच नाम—समिक १ कितव २ धूर्त ३ अक्षधूर्त ४ द्यूतकारक ५ पु० । (८) पाशा खेलने की गोटी के तीन नाम—शारी १ गुटिका २ गोटी ३ स्त्री० । (९) शर्त लगाने के तीन नाम—प्रतिज्ञा १ स्त्री०, पण (गुह) २ पु० । (१०) जूआ खेलने के पट के तीन नाम—शारिधि १ पु, शारि-फलक २ अष्टापद ३ नपु० ।

सदंशिका^१ तु सदंशो^२ सूर्म्ययो मूर्तिं रेवतु ॥३९॥

^३शिल्पं कलादिकं कर्म ^४नाराच्येषणिके समे ।

द्वियां प्रति कृतिश्चाऽर्चा प्रतिमा प्रतियातना ॥४०॥

प्रतिच्छाया प्रतिच्छन्द पुमान्प्रतिनिधि स्तथा ।

कायोमानं रूपे विवे प्रत्यन्ताः प्रतिमार्थकाः ॥४१॥

उपमानोपमेयौ तु यस्य यस्मिन्क्रमात्स्थितौ ।

उपमोपमिती तुल्ये वाच्यलिङ्गा व्यवस्थिता ॥४२॥

^१साधारण सरूपोऽपि सवर्णः सन्निभःसमः ।

सधर्मा तुल्य सदक्ष समान सदशाः सदक् ॥४३॥

- (१) साडसी के दो नाम—सदशिका १ स्त्री०, सदंश २ पु० । (२) लोहे की स्त्रीमूर्ति का एक नाम—सूर्मी १ स्त्री० । (३) कलात्मक काम के एक नाम शिल्प १ नपुं० । (४) सोना तौलने की तुल के दो नाम—नाराची १ एषणिका २ स्त्री० । (५) प्रतिमा के ग्यारह नाम—प्रतिकृति १ अर्चा २ प्रतिमा ३ प्रतियातना ४ प्रतिच्छाया ५ स्त्री प्रतिच्छन्द ६ प्रतिनिधि ७ प्रतिकाय ८ पु०, प्रतिमान ९ प्रतिरूप १० प्रतिविम्ब ११ नपु० । (६) जिसकी उपमा ली जाती हो उसका एक नाम—उपमान १ त्रि० । (७) जिसमें उपमा दी जाय उसका एक नाम—उपमेय १ त्रि० । (८) उपमा के दो नाम—उपमा १ उपमिति २ स्त्री० । (९) तुलना बोधक शब्द के ग्यारह नाम—साधारण १ सरूप २ सवर्ण ३ सन्निभ ४ सम ५ सधर्मा (सधर्मन्) ६ तुल्य ७ सदक्ष ८ समान ९ सदश १० सदक् (सदग्) ११ ए सद वाच्यलिङ्ग ।

मदिरा^१ तु सुरा मद्य कश्यं हाला परिस्रुताः ।
^२सीध्वासवौ तु मैरेय^३ शुण्डा पानं तु मद्यभूः ॥४४॥
 सर्रको मद्यपानो स्या च्चषकः पानभाजनम् ।
 पाशको देवनोऽक्षः स्यात्कैतवं द्यूतमस्त्रियाम् ॥४५॥
 समिकः कितवो धूर्तोऽक्षधूर्तो द्यूतकारकः ।
 शारी स्याद्गुटिका गोटी प्रतिज्ञा तु पणः पुमान् ॥४६॥
 शारिधिः शारिफलकं स्यादष्टापदमित्यपि ।

(१) मदिरा (दारु) के छ नाम—मदिरा १ सुरा २ स्त्री०,
 मद्य ३ कश्य ४ नपु०, हाला ५ परिस्रुता ६ स्त्री० । (२) ईस्र
 (सेलडो) शाक (भाजी) आदि से बनाये गये मद्य के तीन नाम—
 सीधु १ आसव २ पु०, मैरेय ३ नपु० । (३) मद्य घर के तीन
 नाम—शुण्डा १ स्त्री०, पान २ नपु०, मद्यभू ३ स्त्री० । (४)
 मद्यपान का एक नाम—सरक १ पु० । (५) मद्यपान के प्याला
 के दो नाम—चषक १ पु०, पानभाजन २ नपु (६) जूआ खेलने
 के पासा के पाच नाम—पाशक १ देवन २ अक्ष ३ पु०, कैतव ४
 द्यूत ५ पु, नपु० । (७) द्यूतकार के पाच नाम—समिक १ कितव
 २ धूर्त ३ अक्षधूर्त ४ द्यूतकारक ५ पु० । (८) पाशा खेलने की
 गोटी के तीन नाम—शारी १ गुटिका २ गोटी ३ स्त्री० । (९)
 शर्त लगाने के तीन नाम—प्रतिज्ञा १ स्त्री०, पण (गलह) २ पु० ।
 (१०) जूआ खेलने के पट के तीन नाम—शारिधि १ पु, शारि-
 फलक २ अष्टापद ३ नपु० ।

शुकुकुकुटमैपादि प्राणि क्रीडा समाह्वयः ॥४७॥

सर्गोऽत्र ये यथा प्रोक्ता यौगिकाः शिल्पकादयः ।

लिङ्गान्तरेऽपि तादृम्यां द्विविष्यन्ति भवन्ति ते ॥४८॥

॥*॥ इत्यन्त्यवर्णवर्गः समाप्तः ॥*॥

॥ इति द्वितीयः काण्डः समाप्तः ॥

(१) कुकुकुट आदि प्राणी की क्रीडा के एक नाम-समाह्वय
१ पु० । (२) इस वर्ग में जो यौगिक शिल्पक आदि शब्द कहे
गए हैं वे सब योग मर्यादा से लिङ्गान्तर में भी होते हैं होंगे ।

॥-॥ इति अन्त्यवर्ण वर्ग समाप्त ॥-॥

॥ इति द्वितीय काण्ड समाप्त ॥

॥ श्रीः ॥

॥ अथ तृतीयकाण्डम् ॥

॥ अथ प्रकीर्णवर्गः प्रारभ्यते ॥

प्रकीर्णवर्गे लिङ्गोहः प्रकृति प्रत्ययादिभिः ।

सचयोऽपचयो तुल्यौ सक्षयाऽपचयो क्षये ॥१॥

निष्ठीवने तु थूत्कार उदजः पशुचालनम् ।

विरामो-पशमौ तुल्यौ-वान्तिस्तु वमनं वमिः ॥२॥

छर्द्युद्वाराऽऽविधस्तु स्याद् वैधनी भृङ्गसूचिका ।

स्तम्बध्नस्तु क्षुरपे स्यात्प्रत्याख्यानं निराकृतौ ॥३॥

हिन्दा—(१) लिङ्गबोधक विशेष प्रत्यय के अभाव मे प्रकृति से, कहीं पर प्रत्यय से, कहीं पर रूपभेद से साहचर्य से लिङ्ग निर्णय सक्षित वर्ग में होगा । (२) समुदाय अर्थ मे—‘सचय और अपचय पु० । (३) क्षय के दो नाम—सक्षय १ अपचय २ पु० । (४) मुख से कफ फेकना—थूकना अर्थ में दो नाम—निष्ठीवन (निष्ठवन) १ नपु, थूत्कार २ पु० । (५) प्रेरणा अर्थ मे (उदज) होता है पु० (यहा अज घातु को वी आदेश नहीं होता है) । (६) विराम (समाप्ति) अर्थ में—विराम १ और उपशम २ पु० । (७) उल्टी के पाँच नाम—वान्ति १ वमि २ स्त्री०, वमन ३ नपु० । छर्दि ४ उद्वारा ५ स्त्री० । (८) सूई के तीन नाम—आविध १ पु, वैधनी २ भृङ्गसूचिका ३ स्त्री० । (९) हसिया खुरपा के दो नाम—स्तम्बध्न १ क्षुरप्र २ पु० (मुकुटने क्षुरप्र के स्थान पर ‘खुरप्र’ लिख के बाण भेद अर्थ बताया है) । (१०) निराकरण के दो नाम—प्रत्याख्यान (निरसन) १ नपु०, निराकृति (प्रत्या-देश पु०) २ स्त्री० ।

विपर्ययं विपर्यासो व्यत्यास व्यत्ययावपि ।
 प्रतिशासनमाह्वय दूतादि प्रेषणे स्वतः ॥४॥
 परिर्मभं परिष्वङ्गाऽऽश्लेषा आलिङ्गनार्थकाः ।
 दर्शनं त्वीक्षणं वीक्षा निर्वर्णनं मुदीक्षणम् ॥५॥
 समौ प्रारम्भ आरम्भ स्त्वेराया वेगसंभ्रमौ ।
 प्रतिबन्धोऽन्तरायः स्यात्सर्मालेपे विलेपनम् ॥६॥
 प्रतिज्ञायां च वचने स्थित आश्रवं इष्यते ।
 सामीप्ये सन्निधिः^{१०} पुंसि धान्यादिवपनः पवे ॥७॥

(१) व्यतिक्रम (उलटफेर) के चार नाम—विपर्यय १ विपर्यास २ व्यत्यास ३ व्यत्यय ४ पु० । (२) सेव कादि से बुलवाकर जो शासन हो उसका एक नाम—प्रतिशासन १ नपु० । (३) आलिङ्गन के चार नाम—परिर्मभ १ परिष्वङ्ग २ आश्लेष ३ (सश्लेष) पु०, आलिङ्गन (उत्सृजन) ४ नपु० । (४) ईक्षण (देखने के) पाँच नाम—दर्शन १ ईक्षण २ निर्वर्णन ३ उदीक्षण ४ नपु०, वीक्षा ५ स्त्री० । (५) प्रारम्भ के दो नाम—प्रारम्भ १ आरम्भ २ पु० । (६) त्वरा (जल्दोवाजी) अर्थ में तीन नाम—त्वरा स्त्री०, वेग २ संभ्रम ३ पु० । (७) विघ्नबाधा (रुकावट) के दो नाम—प्रतिबन्ध १ अन्तराय २ नपु (८) अङ्गराग के अथवा सुघालेप आदि के दो नाम—सर्मालेप १ पु०, विलेपन २ नपु० । (९) प्रतिज्ञा और वचनस्थिति अर्थ में—‘आश्रव’ पु० । (१०) समीप अर्थ में—सन्निधि १ पु० । (८) धान्य आदि को शोधन करना—पव १ पु० ।

अभिप्रायोऽऽशयच्छन्दाः प्रस्तावेऽवसरः स्मृतः ।

विग्रहे व्यास विस्तारौ विस्तर शब्दविग्रहः ॥८॥

प्रसरो वस्तु विस्तारे सवाहस्त्वङ्गमर्दने ।

धीशक्ति निष्क्रमः सूत्रवेष्टने त्रसरः स्मृतः ॥९॥

प्रणयप्रश्रयो प्रेम्णि प्रजनोपसरो समौ ।

समौ समोससक्षेपौ आस्या स्यादासना स्थितौ ॥१०॥

(१) अभिप्राय के तीन नाम—अभिप्राय १ आशय २ छन्द, ३ (मत १ आकृत २ भाव ३) पु० नपु० । (२) प्रस्ताव के दो नाम—प्रस्ताव १ अवसर २ (प्रसङ्ग) पु० । (३) विस्तार (फैलाव) के तीन नाम—विग्रह १ व्यास २ विस्तार ३ पु० । (४) शब्द विग्रह के एक नाम—विस्तर १ पु० । (५) वस्तु के विस्तार का एक नाम—प्रसर १ पु० । (६) सुखकारक मर्दन के दो नाम—सवाह (अङ्गमर्द) १ पु०, अङ्गमर्दन २ नपु० । (७) बुद्धि के शक्ति के दो नाम—धीशक्ति १ स्त्री० (धी शक्ति के आठ भेद—शुश्रूषा १ श्रवण २ चैव ग्रहण ३ धारणं ४ तथा । ऊहापोहो ६ च विज्ञान ७ तत्त्वज्ञान ८ च धोगुणा ॥) निष्क्रम २ पु० । (८) सूत्र (धागा) को गोली बने हुए के दो नाम—सूत्रवेष्टन १ नपु०, त्रसर २ पु० । (९) प्रेम करने के दो नाम—प्रणय १ प्रश्रय २ पु० । (१०) प्रथम गर्भ ग्रहण करने के दो नाम—प्रजन १ उपसर २ पु० । (११) सक्षेप के दो नाम—समास १ सक्षेप २ पु० । (१२) मर्यादा के तीन नाम—आस्या १ आसना २ स्थिति ३ स्त्री० ।

नीवाको धनधान्यादेः प्रयामेऽर्थक्षैतौ व्ययः ।

संक्रमो दुर्गसंचारोऽवेक्षा स्त्रीवस्त्ववेक्षणे ॥११॥

विरहे विप्रलम्भः स्याद् विप्रयोगोऽपि रागिणः ।

विधुर स्यात्प्रविश्लेषे परिसर्पे परिक्रिया ॥१२॥

प्रक्रमः प्रथमारम्भ उन्नतौ तु समुन्नयः ।

मेलार्थो मेलको मेलः संमेलः सङ्गसगमौ ॥१३॥

भूरिदाने विलम्भः स्याद् विख्यातिस्त्विति विश्रुतिः ।

^{१३}उद्धनः परिकाष्ठं च यत्राऽऽधायाऽऽश्रुतक्ष्यते ॥१४॥

- (१) धन धान्य आदि सग्रह के दो नाम—नीवाक १ प्रयाम २ २ पु० । (२) घन हानि के दो नाम—अर्थक्षति १ स्त्री०, व्यय २ पु० । (३) दुर्गभूमि में संचरण क्रिया के दो नाम—सक्रम (सक्राम) १ दुर्गसचर (दुर्गसचार) २ पु० नपु । (४) सावधानी के दो नाम—अवेक्षा १ स्त्री०, वस्त्ववेक्षण २ नपु० (प्रतिजागर पु०) । (५) विरह के तीन नाम—विरह १ विप्रलम्भ २ विप्रयोग ३ पु० । (६) सदा के लिये वियोग के दो नाम—विधुर १ नपु० प्रविश्लेष २ पु० । (७) परिजनादि से वेष्टन के दो नाम—परिसर्प १ पु०, परिक्रिया २ स्त्री० । (८) प्रथम आरम्भ के दो नाम—प्रक्रम १ प्रथमारम्भ २ पु० । (९) उन्नति के दो नाम—उन्नति १ स्त्री०, समुन्नय २ पु० । (१०) सम्मिलित होने के छ नाम—मेल १ स्त्री०, मेलक २ मेल ३ सम्मेल ४ सङ्ग ५ सगम ६ पु० । (११) अतिदान के दो नाम—भूरिदान १ नपु० विलम्भ २ पु० । (१२) अतियशस्वी के दो नाम—विख्याति १ विश्रुति २ स्त्री० । (१३) जिस काष्ठ पर रखकर काष्ठ छोला जाय उस आधार काष्ठ के दो नाम—उद्धन १ पु०, परिकाष्ठ २ नपु० ।

परिसर्या परीसारे उपग्रस्त्वन्तिकाश्रये ।

उपभोगे तु निर्वेशो मँदहर्षो प्रमोदने ॥१५॥

अभिचारस्तु हिंसादि क्रिया सन्धिस्तु मेलनम् ।

समुच्चये समाहारोऽर्षहारोऽपहतौ मतः ॥१६॥

पादचारे विहारः स्यात् प्रवाहो जलनिर्गमे ।

अनुहारेऽनुकारः स्यात् स्यान्निरोधस्तु निग्रहः ॥१७॥

विप्लवो डमरो डिम्बो बन्धने बन्ध इत्यपि ।

विप्रकारो निकारे स्याद् आधारे विषयाऽऽश्रयो ॥१८॥

(१) प्रतिदिशा में गमन के दो नाम—परिसर्या १ स्त्री० परीसार २ पु० । (२) पडोसी के घर के दो नाम—उपघ्न १ अन्तिकाश्रय २ पुं । (३) उपभोग के दो नाम—उपभोग १ निर्वेश २ पु० । (४) प्रमोद आनन्दातिशय के तीन नाम—मद १ हर्ष २ पु०, प्रमोदन ३ नपुं० । (५) हिंसादि क्रिया के एक नाम—अभिचार १ पु० । (६) मिला देने के दो नाम—सन्धि १ पु०, मेलन २ नपु० । (७) राशीकरण के दो नाम—समुच्चय १ समाहार २ पु० । (८) दूर करने के दो नाम—अपहार (अपचय) १ पु०, अपहृति २ स्त्री० । (९) पैरो से चलने के दो नाम—पादचार १ विहार २ पु० । (१०) जल निकालने के दो नाम—प्रवाह १ जलनिर्गम २ पु० । (११) अनुकरण के दो नाम—अनुहार १ अनुकार २ पु० । (१२) रोकने के दो नाम—निरोध १ निग्रह २ पु० । (१३) छटपाट उपद्रव के तीन नाम—विप्लव १ डमर २ डिम्ब ३ पु० । (१४) बन्धन के दो नाम—बन्धन १ नपु०, बन्ध २ पु० । (१५) उपकार के दो नाम—विप्रकार १ निकार २ पु० । (१६) देश के तीन नाम—आधार १ विषय २ आश्रय ३ पु० ।

नीवाको धनधान्यादेः प्रयामेऽर्थक्षतौ व्ययः ।

संक्रमो दुर्गसंचारोऽवेक्षा स्त्रीवस्त्ववेक्षणे ॥११॥

विरहे विप्रलम्भः स्याद् विप्रयोगोऽपि रागिणः ।

विधुर स्यात्प्रविश्लेषे परिसर्पे परिक्रिया ॥१२॥

प्रक्रमः प्रथमारम्भ उन्नतौ तु समुन्नयः ।

मेलार्थं मेलको मेलः संमेलः सङ्गसगमौ ॥१३॥

भूरिदाने विलम्भः स्याद् विख्यातिस्त्विति विश्रुतिः ।

^{१३}उद्धनः परिकाष्ठं च यत्राऽऽधायाऽऽशुतक्ष्यते ॥१४॥

- (१) धन धान्य आदि सग्रह के दो नाम—नीवाक १ प्रयाम २ २ पु० । (२) धन हानि के दो नाम—अर्थक्षति १ स्त्री०, व्यय २ पु० । (३) दुर्गभूमि में संचरण क्रिया के दो नाम—सक्रम (सक्राम) १ दुर्गसचर (दुर्गसचार) २ पु० नपु । (४) सावधानी के दो नाम—अवेक्षा १ स्त्री०, वस्त्ववेक्षण २ नपु० (प्रतिजागर पु०) । (५) विरह के तीन नाम—विरह १ विप्रलम्भ २ विप्रयोग ३ पु० । (६) सदा के लिये वियोग के दो नाम—विधुर १ नपु० प्रविश्लेष २ पु० । (७) परिजनादि से वेष्टन के दो नाम—परिसर्प १ पु०, परिक्रिया २ स्त्री० । (८) प्रथम आरम्भ के दो नाम—प्रक्रम १ प्रथमारम्भ २ पु० । (९) उन्नति के दो नाम—उन्नति १ स्त्री०, समुन्नय २ पु० । (१०) सम्मिलित होने के छ नाम—मेल १ स्त्री०, मेलक २ मेल ३ सम्मेल ४ सङ्ग ५ सगम ६ पु० । (११) अतिदान के दो नाम—भूरिदान १ नपु० विलम्भ २ पु० । (१२) अतियशस्वी के दो नाम—विख्याति १ विश्रुति २ स्त्री० । (१३) जिस काष्ठ पर रखकर काष्ठ छोला जाय उस आधार काष्ठ के दो नाम—उद्धन १ पु०, परिकाष्ठ २ नपु० ।

परिसर्या परीसारे उपद्रवस्त्वन्तिकाश्रये ।

उपभोगे तु निर्वेशो मँदहर्षो प्रमोदने ॥१५॥

अभिचारस्तु हिंसादि क्रिया सन्धिस्तु मेलनम् ।

समुच्चये समाहारोऽर्षहारोऽपहतौ मतः ॥१६॥

पादचारे विहारः स्यात् प्रवाहो जलनिर्गमे ।

अनुहारेऽनुकारः स्यात् स्यान्निरोधस्तु निग्रहः ॥१७॥

विप्लवो डमरो डिम्बो बन्धने बन्ध इत्यपि ।

विप्रकारो निकारे स्याद् आधारे विषयाऽऽश्रयो ॥१८॥

(१) प्रतिदिशा में गमन के दो नाम—परिसर्या १ लो० परीसार २ पु० । (२) पडोसी के घर के दो नाम—उपध्वन १ अन्तिकाश्रय २ पुं । (३) उपभोग के दो नाम—उपभोग १ निर्वेश २ पु० । (४) प्रमोद आनन्दातिशय के तीन नाम—मद १ हर्ष २ पु०, प्रमोदन ३ नपुं० । (५) हिंसादि क्रिया के एक नाम—अभिचार १ पु० । (६) मिला देने के दो नाम—सन्धि १ पु०, मेलन २ नपु० । (७) राशीकरण के दो नाम—समुच्चय १ समाहार २ पु० । (८) दूर करने के दो नाम—अपहार (अपचय) १ पु०, अपहृति २ लो० । (९) पैरों से चलने के दो नाम—पादचार १ विहार २ पु० । (१०) जल निकालने के दो नाम—प्रवाह १ जलनिर्गम २ पु० । (११) अनुकरण के दो नाम—अनुहार १ अनुकार २ पु० । (१२) रोकने के दो नाम—निरोध १ निग्रह २ पु० । (१३) छटपाट उपद्रव के तीन नाम—विप्लव १ डमर २ डिम्ब ३ पु० । (१४) बन्धन के दो नाम—बन्धन १ नपु०, बन्ध २ पु० । (१५) उपकार के दो नाम—विप्रकार १ निकार २ पु० । (१६) देश के तीन नाम—आधार १ विषय २ आश्रय ३ पु० ।

वृत्तौ वरो हँवो हूत्तौ, निगादः परिभाषणे ।

अनुग्रहोऽनुकम्पाया-मभियोगस्त्वभिग्रहे ॥१९॥

परिणामः फले श्राय श्रयणे जयने जयः ।

इङ्गितेत्विङ्ग आकारो विकारो विक्रियार्थकः ॥२०॥

प्रसूतौ प्रसवो दान्तौ दमः शान्तौ शमस्तथा ।

उत्कर्षाऽतिगयो तुल्यौ क्लमो ग्लानौ स्तवः स्तवे ॥२१॥

- (१) वाड (वेष्टन) के दो नाम—वृत्ति १ स्त्री, वर २ पु०। (२) बुलाने के दो नाम—हव १ पु०, हुत्ति २ स्त्री०। (३) निन्दा के साथ उपा-
लम्भ के दो नाम—निगाद (नगद) १ पु परिभाषण २ नपु ।
(४) अनुकम्पा के दो नाम—अनुग्रह १ पु, अनुकम्पा २ स्त्री० ।
(५) आरोप (दात्रा) के दो नाम—अभियोग १ अभिग्रह २ पु० ।
(६) परिणाम के दो नाम— परिणाम १ पु०, फल २ नपु० ।
(७) सेवा के दो नाम—श्राय १ पु०, श्रयण २ नपु० । (८)
जय के दो नाम—जयन १ नपु०, जय (विजय) २ पु० । (९)
अन्दर की चेष्टा के तीन नाम—इङ्गित १ इङ्ग २ आकार ३ पु० ।
(१०) प्रकृति का अन्यथा भावहोना 'विकार' है पु० । (११)
प्रसव के दो नाम—प्रसूति १ स्त्री प्रसव २ पु० । (१२)
तपस्या के केशो को सहन करने के दो नाम—दान्ति १ स्त्री०
दम २ पु० । (१३) काम क्रोध आदि के अभाव के दो नाम—
शान्ति १ स्त्री०, शम २ पु० । (१४) अतिशय के दो नाम—
उत्कर्ष १ अतिशय २ पु० । (१५) ग्लानि के दो नाम—क्लम १
पु०, ग्लानि (ग्लनि) २ स्त्री० । (१६) स्तुति के दो नाम—स्तव
१ स्तव २ पु० ।

परस्परं मिथोऽन्योऽन्य मितरेतर मित्यपि ।

घृतादीनां द्रवीभावे आधारो द्रव इत्युभौ ॥२२॥

न्यायो नीतौ भ्रमोभ्रान्तौ व्येधो वेधे र्णः कणे ।

न्याय्यं न्यायपथोपेते ष्छोषो दाहे वरः पतिः ॥२३॥

परम्परोपदेशे स्या-दाम्नायो ग्रहणे ग्रहः ।

स्फुरणा स्फुरणं स्फूर्तिं यदृच्छं स्वैरिते समे ॥२४॥

स्फाति वृद्धौ क्षियाह्रासे जागर्या जागरे समे ।

- (१) एक दूसरे से तुल्य अर्थ में चार नाम—परस्पर १ नपुं०, मिथस् २ अव्यय, अन्योन्य ३ इतरेतर ४ नपुं०
 (२) पिघले हुए घी आदि के दो नाम—आधार १ द्रव २ पु०
 (३) न्याय देशकालोचित के दो नाम—न्याय १ पु०, नीति २ स्त्री० । (४) भ्रमात्मक ज्ञान के दो नाम—भ्रान्ति (मिथ्यामिति) १ स्त्री०, भ्रम २ पु० । (५) वेधन के दो नाम—व्यध १ वेध २ पु० । (६) शब्दायमान अर्थ में दो शब्द—रण १ कण २ पु० । (७) अकाट्य न्याय के एक नाम—न्याय १ त्रि० । (८) दाह अर्थ में छोष पु० । (९) पति अर्थ में 'वर' १ पु० । (१०) गुरुपरम्परा से आगत उपदेश के एक नाम—आम्नाय १
 (११) ग्रहण करने के दो नाम—ग्रहण १ नपुं०, ग्रह २ पु० । (१२) स्फूर्ति के तीन नाम—स्फुरणा १ स्फूर्ति २ स्त्री०, स्फुरण ३ नपुं० । (१३) मन चाहे करने के दो नाम—यदृच्छा १ स्वैरिता २ स्त्री० । (१४) वृद्धि अर्थ में 'स्फाति' है स्त्री० । (१५) ह्रास अर्थ में 'क्षिया' है स्त्री० । (१६) जागते रहने के दो नाम—जागर्या १ जागरा २ स्त्री० ।

प्रथो ख्यातौ प्रमा सम्यग् ज्ञाने प्रमिति रित्यपि ॥२५॥
 तर्पणं प्रीणनं तुल्ये कम्पेन तु विधूननम् ।
 व्याप्तौ समूर्च्छन छेदे वर्द्धन गदने गदः ॥२६॥
 शुभर्कमाऽवदाते स्तः कर्मणं मूलकर्मणि ।
 शङ्कुल्यादि समूहे स्या देकैक वक्ष्यमाणकम् ॥२७॥
 क्रमाच्छाङ्कुलिक पृष्ठयं ब्राह्मण्य शक्तुकं तथा ।
 आपूपिकञ्च साहस्रं भैक्ष्य कारीष्य धेनुके ॥२८॥
 काक मानुष्यक वाकं खैणं पौंसं च यौवतम् ।

(१) ख्याति अर्थ में 'प्रथा' स्त्री० । (२) प्रमाण के दो नाम—प्रमा १ प्रमिति २ स्त्री० । (३) तृत होने के दो नाम—तर्पण १ प्रीणन २ नपु० । (४) डोलना (आन्दोलित) अर्थ में दो नाम—कम्पन १ विधूनन २ नपु० । (५) सब तरफ व्याप्त के दो नाम—व्याप्ति १ समूर्च्छन २ (अभिव्याप्ति) स्त्री० । (६) छेद अर्थ में भी एकनाम—वर्द्धन १ नपु० । (७) स्पष्ट बोलने के दो नाम—गदन १ नपु० गद २ पु० । (८) शुभकर्म के दो नाम—शुभकर्म (शुभकर्मन्) १ अवदान २ नपु० । (९) मूलकर्म के दो नाम—कर्मण १ मूलकर्म (न्) २ नपु० । (१०) शङ्कुली आदि समूह का एक नाम—शङ्कुली १ समूहमे शाङ्कुलिकम् १, पृष्ठ समूह का—पृष्ठय, ब्राह्मण समूह का—ब्राह्मण्य, शक्तु समूहका—शक्तुकम्, अपूप समूह का—आपूपिकम्, सहस्र समूह का—साहस्रम्, भिक्षा समूह का—भैक्षम्, करीष समूह का कारीष्य, धेनु समूह का—धेनुकम्, काक समूह का—काकम्, मनुष्य समूह का—मानुष्यकम्, बकसमूह का—वाकम् खो समूह का—खैणम्, पुंस समूह का—पौंसम्, युवती समूह का—यौवतम् ये सब नपु०

पाश्या सहायता खल्या हल्यैव जनतादिकम् ॥२९॥

एवमन्येपि संकीर्णाः शब्दा वोऽया यथामति ।

॥ इति प्रकीर्णवर्गः समाप्तः ॥

पशु समूह का-पाश्य, सहाय समूह का-सहायता, खल समूह का-खल्या (खलिनी) हल समूह का-हल्या, जनसमूह का जनता ये सब लो० । ऐसे और २ भी संकीर्ण शब्द स्व स्व मति अनुसार जानने योग्य है ।

॥ इति प्रकीर्णवर्ग समाप्त ॥

॥ अथ विशेषणवर्गः प्रारभ्यते ॥

विशेष्ये' यादृशे यादृक् स्याल्लिङ्गवचनादिकम् ।

गुणद्रव्यक्रियारूपे तत्तादृक् तद् विशेषणे ॥१॥

दानशौण्डौ वदान्यश्च दानशूरो बहुप्रदः ।

निपुणो विज्ञ निष्णात प्रवीणाऽभिज्ञ शिक्षिताः ॥२॥

वैज्ञानिकः कृती किञ्च कुशलोऽथ परीक्षकः ।

हैतुको हृदयालुस्तु यः स्यात्सुहृदयः पुमान् ॥३॥

उन्मना उत्क उत्कण्ठा वाञ्छनोऽन्तर्मनास्तु यः ।

दुर्मना विमना हृष्टचेता हर्षित मानसे ॥४॥

प्रमनाश्चाऽपि दुर्वीचि दुर्वक्ताऽपिच कद्रद ।

हिन्दी—(१) नोट—केवल अजहलिङ्गो को छोडकर गुण-द्रव्य क्रियावाचक विशेषणो मे विशेष्य के समान लिङ्ग सख्या विभ-क्तिया होती है। (२) दानशूर के चार नाम—दानशौण्ड १ वदान्य २ दानशूर ३ बहुप्रद ४ त्रि० । (३) चतुर के नौ नाम—निपुण १ विज्ञ २ निष्णात ३ प्रवीण ४ अभिज्ञ ५ शिक्षित ६ वैज्ञानिक ८ कृती ८ कुशल ९ । (४) परीक्षा करने वालो के दो नाम—परीक्षक १ हैतुक २ (कारणिक) । (५) दयालु के दो नाम—हृद-यालु १ सुहृदय (सहृदय) २ । (६) उत्कण्ठित के तीन नाम—उन्मना १ उत्कर २ उत्कण्ठावान् (उत्सुक) ३ । (७) दु स्त्री के तीन नाम—अन्तर्मना १ दुर्मना २ विमना ३ । (८) हर्षयुक्त मनवाले के चार नाम—हृष्टचेता १ हर्षित २ मानस ३ प्रमना ४ । (९) दुर्वक्ता के तीन नाम—दुर्वीचि १ दुर्वक्ता २ (दुर्वक्तृ)कद्रद ३ ।

पुण्यवान् सुकृती धन्योऽथ महेच्छेमहाशयौ ॥५॥

महोद्योगी महोत्साहे प्रतीक्ष्याऽऽराध्य पूज्यका ।
स्याज्जैवातृके आयुष्मान् शास्त्रज्ञः शास्त्रवित्समौ ॥६॥

दक्षिण्यो दक्षिणार्हे स्याद्वरदो वरदायकः ।

सुकलो दातृभोक्ता स्यात्सेवकोपासकौ समौ ॥७॥

सन्दिहानः साशयिके सरलोदारदक्षिणाः ।

विख्यातवित्तविज्ञात प्रतीतप्रथिताः समाः ॥८॥

स्यौद्गुण्यो गुणसम्पन्नो निर्वायौ दृढकार्यकृत् ।

- (१) भाग्यशाली के तीन नाम—पुण्यवान् १ सुकृति (तिन्) २ धन्य ३ । (२) महापुरुष के दो नाम—महेच्छ १ महाशय २ । (३) दु साध्य मे भी उद्योगी के दो नाम—महोद्योगी १ महोत्साह २ । (४) पूज्य के तीन नाम—प्रतीक्ष्य १ आराध्य २ पूज्य ३ । (५) आयुष्मान् के दो नाम—जवातृक १ आयुष्मान् २ । (६) शास्त्रवेत्ता के दो नाम—शास्त्रज्ञ १ शास्त्रवित् २ । (७) दक्षिणा देने योग्य के दो नाम—दक्षिण्य १ दक्षिणार्हे (दक्षिण्येय) २ । (८) वरदाता के दो नाम—वरद १ वरदायक (समर्थक) २ । (९) दाताभोक्ता के दो नाम—सुकल १ दातृभोक्ता २ । (१०) सेवक के दो नाम—सेवक १ उपासक २ । (११) सन्देहशील के दो नाम—सन्दिह १ साशयिक २ । (१२) उदार के तीन नाम—सरल १ उदार २ दक्षिण ३ । (१३) प्रसिद्ध के पाच नाम—विख्यात १ वित्त २ विज्ञात ३ प्रतीत ४ प्रथित ५ । (१४) गुणसम्पन्न के दो नाम—गुण्य १ गुणसम्पन्न २ । (१५) दृढकार्यकर्त्ता के दो नाम—निर्वाय १ दृढकर्मकृत् २

प्रसिताऽऽसक्त तल्लीनोत्सुकाऽऽविष्टास्तु तत्परे ॥९॥

कुटुम्बव्यापृतोऽभ्यागारिकोऽथ निरवग्रह ।

स्वैरी स्वतन्त्रः स्वच्छन्द इभ्याऽऽढ्यधनिनः समाः॥१०॥

प्रभुः परिवृद्धो नेता नायकः पतिरीश्वरः ।

अधिपस्वामीनौ चाऽथ समृद्धोऽत्यधिकद्विकः ॥११॥

श्रीलः श्रीमांश्च लक्ष्मीवाल्लक्ष्मणश्चाऽथ वर्त्सलः ।

स्निग्धो मूर्कस्त्ववाक्^{१०} कर्मः कर्मशालिनिर्कर्मठे ॥१२॥

कर्मशूरः^{१२} कृपालुस्तु दयालुः सुरतस्तथा ।

भवेत्कारुणिको यस्तु परतन्त्रः स नाथवान् ॥१३॥

(१) कार्य मे तत्पर व्यक्ति के छह नाम-प्रसित १ आसक्त २ तल्लीन ३ उत्सुक ४ आविष्ट ५ तत्पर ६ । (२) कुटुम्ब में आसक्त के दो नाम-कुटुम्बव्यापृत १ अभ्यागारिक २ । (३) स्वच्छन्द के चार नाम-निरवग्रह १ स्वैरी २ स्वतन्त्र ३ (अपावृत) स्वच्छन्द ४ । (४) धनवान के तीन नाम-उभ्य १ आढ्य २ धनी ३ । (५) अधिपति के आठ नाम-प्रभु १ परिवृद्ध २ नेता ३ नायक ४ पति ५ इश्वर ६ अधिप ७ स्वामी ८ । (६) अत्यन्त धनवान के दो नाम-समृद्ध १ अत्यधिकद्विक २ । (७) गोभा अथवा सम्पत्ति युक्त के चार नाम-श्रील १ श्रीमान् २ लक्ष्मीवान् ३ लक्ष्मण ४ । (८) पुत्रादि स्नेह पात्र मे अभिलाप रखने के दो नाम-वर्त्सल १ स्निग्ध २ । (९) मूर्क के दो नाम-मूर्क १ अवाक् २ । (१०) कर्मशीलके एक नाम-कर्म १ । (११) कर्मशूर के दो नाम-कर्मठ १ कर्मशूर २ । (१२) दयालु के चार नाम-कृपालु १ दयालु २ सुरत ३ कारुणिक ४ । (१३) पराधीन के चार नाम-परतन्त्र १ नाथवान् २ पराधीन ३ परवान् ४ ।

पराधीनश्च परवान् क्रियावास्तु क्रियापरः

आयत्ताऽधीननिघ्नाः स्यु रस्त्रच्छन्दश्च गृह्यक्रः ॥१४॥

क्षीवशौण्डात्कटाः मत्ते गृध्नो लुब्धोऽभिलाषुकः ।

तृष्णाक्य गर्धनो लिप्सु लेलुभो लोलुपः समो ॥१५॥

उन्मदिष्णु-न्मदौ तुल्यौ जिघत्सु अशनायितः ।

बुभुक्षितोऽपि क्षुधित आघूनोऽदरिकावथ ॥१६॥

परान्नः परपिण्डाद भक्षकेऽद्मर घस्मरो ।

परलोकोऽस्ति नाऽस्तीति मतिमन्तौ क्रमाद्मू ॥१७॥

आस्तिको नास्तिको दिष्टं मन्वानो दैष्टिको मतः ।

दुर्विनीतोऽविनीतो द्वौ सर्वान्नीनोऽखिलान्नभुक् ॥१८॥

(१) क्रिया करने वाले के दो नाम— क्रियावान् १ क्रियापर २ । (२) अधीन सामान्य के पांच नाम— आयत्त १ अधीन २ निघ्न ३ अस्त्रच्छन्द ४ गृह्यक्र ५ । (३) उन्मत्त के चार नाम— क्षीव १ शौण्ड २ उत्कट ३ मत्त ४ । (४) लोभी के छ नाम— गृध्न १ लुब्ध २ अभिलाषुक ३ तृष्णाक्य ४ गर्धन ५ लिप्सु ६ । (५) अत्यन्त लोभा के दो नाम— लोलुभ १ लोलुप २ । (६) उन्मादशील के दो नाम— उन्मदिष्णु १ उन्मद २ । (७) भुखे के छ नाम— जिघत्सु १ अशनायित २ बुभुक्षित ३ क्षुधित ४ आघून ५ औदारिक ६ । (८) परान्नजीवी के दो नाम— परान्न १ परपिण्डाद २ । (९) भक्षण करने वाले के तीन नाम— भक्षक १ अद्मर २ घस्मर ३ । (१०) परलोक मानने वाले को 'आस्तिक' नहीं मानने वालों को 'नास्तिक' भाग्य मानने वाले को 'दैष्टिक' कहते हैं । (११) दुर्विनीत के दो नाम— दुर्विनीत १ अविनीत ३ । (१२) जिस किसी के अन्न खाने वाले के दो नाम— सर्वान्नीन १ अखिलान्नभुक् २ ।

कर्मण्यं च भरण्य च वेतनं कर्मकृन्नरः ।

भुङ्क्ते कर्मकरोऽतः स्यात् कर्मकारस्तु तत्क्रियः ॥१९॥

पिपन्यात्मम्भरिः कुक्षि-म्भरिः स्वमुदरम्भरिः ।

मृतस्नातस्त्वपस्नात आमिषाशिनि शौष्कलः ॥२०॥

कामुकः कमनः कम्नः कामनः कमिताऽभिकः ।

कामयित्यनुकाऽभीका गोष्ठश्चो गृहनिन्दकः ॥२१॥

बाधाशून्यो निराबाधो निष्कामस्तु निरामिषः ।

निरीहो निरपेक्षः स्यान्निर्विकारे निरञ्जनः ॥२२॥

कर्मक्षमोऽलङ्कर्मिणो जालमो यस्त्वसमीक्ष्यकृत् ।

(१) जो काम करके वेतन लेते हैं उनके चार नाम—
 कर्मण्यभुक् १ भरण्यभुक् २ वेतनभुक् ३ ये तीनों का नाम—
 कर्मकर ४ । (४) विना वेतन से काम करने वाले के एक
 नाम—कर्मकार १ । (५) अपने ही पेट को भरने वाले के तीन
 नाम—आत्मभरि १ कुक्षिभरि २ उदरम्भरि ३ । (६) मृतक के
 उद्देश्य से स्नान के दो नाम—मृतस्नात १ अपस्नात २ । (७)
 आमिष (मास) भोक्ता के एक नाम - शौष्कल १ । (८) कामुक
 (अभिलाषा वाले) के नौ नाम— कामुक १ कमन २ कम्न ३ कामन
 ४ कमिता ५ अभिक ६ कामयिता ७ अनुक ८ अभीक ९ । (९)
 निन्दक के दो नाम—गोष्ठश्चा १ गृहनिन्दक २ । (१०) निरोगी के
 दो नाम— बाधाशून्य १ निगबाध २ । (११) जाकाहारी के दो
 नाम—निष्काम १ निगामिष २ । (१२) इच्छा रहिन के दो नाम
 —निरीह १ निरपेक्ष २ । (१३) विकार होन के दो नाम— निर्वि-
 कार १ निरञ्जन २ । (१४) कार्य करने में समर्थ के दो नाम—
 कर्मक्षम १ अलङ्कर्मिण २ । (१५) विना विचार से काम करने वाले
 के दो नाम— जालम १ असमीक्ष्यकृत् २ ।

द्वयो बहुकरा किञ्च खलपूः खलशोधकः ॥२३॥

चिरक्रियो दीर्घसूत्रो मन्दः कुण्ठः क्रियालसः ।

अत्यन्तकोपनश्चण्डः क्रोधनैः कोप्य मर्षणः ॥२४॥

स्त्री दोहदिन्यां श्रद्धालुः श्रद्धायुक्तस्तु वाच्यवत् ।

ईर्ष्यालु रीर्ष्यकस्तन्द्रायुक्तस्तन्द्रालुघूर्णितौ ॥२५॥

समौ शयालु निद्रालु जागरुकस्तु जागरी ।

यदुन्नताऽऽनतं तत्तु बन्धुर १ दीर्घमायते ॥२६॥

(१) खलिहान नीपने पोतने के तीन नाम—खलपू १ खलशो-
धक २ बहुकर ३ (स्त्रीलिङ्ग में बहुकरा बहुकरी तो बहुकर की स्त्री
अर्थ में होगा)। (२) अति विलम्ब से काम करने वाले के दो नाम
चिरक्रिय १ दीर्घसूत्र २ । (३) काम में अलसाने वाले के तीन नाम—
मन्द १ कुण्ठ २ क्रियालस ३ । (४) अत्यन्त क्रोधो के दो नाम—
अत्यन्तकोपन १ चण्ड २ । (५) क्रोधो के तीन नाम—क्रोधन १
कोपी २ अमर्षण ३ । (६) श्रद्धायुक्त के एक नाम—श्रद्धालु (दोह-
दिनी अर्थ में केवल स्त्री) । (७) ईर्ष्या करने वाले के दो नाम—
ईर्ष्यालु १ ईर्ष्यक २ । (८) निद्रा आने से पहले जो सुस्ती आती
है उसके तीन नाम— तन्द्रायुक्त १ तन्द्रालु २ घूर्णित ३ । (९)
निद्रा आरही हो उसके दो नाम— शयालु १ निद्रालु २ । (१०)
जागते हुए के दो नाम— जागरुक १ जागरी २ । (११) कुछ एक
भाग ऊँचा और नीचे का एक नाम— बन्धुर १ (नानार्थ) । (१२)
लम्बाई के दो नाम— दीर्घ १ आयत २ ।

'प्रोच्छ्रितो-दग्र प्राशूच्च तुङ्गा, निस्तूलवर्तुले ।
 वृत्ते वामेन नीच न्यक् खर्व ह्रस्वा अधोमुखे ॥२७॥
 आननाऽवननाऽग्रानेदीयोऽत्यन्तमन्तिके ।
 सवेश निरुटाऽभ्यास समीपाऽऽपन्न पार्श्वकाः ॥२८॥
 सनिकृष्ट समर्याद-सदेश सविधानि च ।
 सनिगानो-परुण्ठे चाभ्यग्रो-पान्त सनीडवत् ॥२९॥
 सनिकर्षाऽन्तिकाऽभ्यर्णाः संनिधिः सविधेऽभितः ।
 पुंगव-पम शार्दूल-सिंह व्याघ्रादि कुञ्जराः ॥३०॥
 नृपुङ्गवादयः शब्दाः पुंसि प्राशस्त्यवाचकाः ।
 पाः शतादयो ये स्यु स्ते सख्येयाः शतात्परे ॥३१॥

(१) ऊँचे के पाच नाम—प्रोच्छ्रित १ उदग्र २ पाशु ३ उच्च ४ तुङ्ग ५ (शोचुङ्ग, -उचुङ्ग) । (२) गोलाकार के तीन नाम—निस्तूल १ वर्तुल २ वृत्त ३ । (३) छोटे (कद) के पाच नाम—वामन १ नीच २ न्यक् ३ खर्व ४ ह्रस्व ५ । (४) अधोमुख वाले के तीन नाम—आनत १ अवनन २ अवग्र ३ । (५) अतिसमाप का एक नाम—नेदीयम् (नेदिष्ठ) १ । (६) समीप के इकास नाम—सवेश १ निरुट २ अभ्यास ३ समीप ४ आसन्न ५ पार्श्व ६ सनिकृष्ट ७ समर्याद ८ सदेश ९ सविध १० सनिगान ११ उपरुण्ठ १२ अभ्यग्र १३ उपान्त १४ सनीड १५ सनिकर्ष १६ अतिक १७ अभ्यर्ण १८ सनिधि १९ सविध २० अभित २१ (२१ वा अव्यय है) । (७) पुंगव १ ऋषभ २ शार्दूल ३ सिंह ४ व्याघ्र ५ कुञ्जर ६ आदि उत्तरपद में रह कर प्रशस्त अर्थ के बोधक है जैसे—नृपुङ्गव आदि । (८) सो से आगे के सख्येय पा शत आदि हैं ।

निबिडं^१ तु घन सान्द्र विरले^२ पेलव तनु ।

समौ विरक्त^३ निर्विण्णौ^४ स्याद्विकासी^५ विकस्वरः ॥३२॥

क्षमाशीलः क्षमिक्षान्तु सहिष्णु सहनाः समाः ।

निद्राणः शयितः सुप्तः स्निग्धसान्द्रे तु मेदुर ॥३३॥

क्षिप्नु निराकरिष्णुः स्यात्प्रसारी तु विसृत्वरः ।

भविष्णु भविता भूष्णु विदूर^६ ज्ञातु विन्दवः ॥३४॥

लज्जाशिलेऽपत्रपिष्णु^७ वन्दारु^८ वन्दकः समौ ।

मण्डनोऽलङ्कारिष्णुः स्याद् हिंसके^९ हिंसघातुकौ ॥३५॥

- (१) अधिक मात्रा में एकत्रित के तीन नाम—निबिड १ घन २ सान्द्र ३ । (२) दूर दूर पर ओछी सख्या वाले के तीन नाम—विरल १ पेलव २ तनु ३ । (३) पुरुषार्थ नष्ट होने पर अपमानित के दो नाम— निर्विण्ण १ विरक्त २ (नानार्थ) । (४) विकासोन्मुख के दो नाम— विकासी १ विकस्वर २ । (५) क्षमाशील के पांच नाम— क्षमाशील १ क्षमी २ क्षान्ता ३ सहिष्णु ४ सहन ५ । (६) सोए हुए के तीन नाम— निद्राण १ शयित २ सुप्त ३ । (७) चिकने घन का एक नाम— मेदुर १ । (८) निकालने वाले के दो नाम— क्षिप्नु १ निराकरिष्णु २ । (९) फैलाने फैलनेवाले के दो नाम— प्रसारी १ विसृत्वर २ । (१०) होनहार के तीन नाम— भविष्णु १ भविता २ (भवितृ) भूष्णु ३ । (११) जानकार के तीन नाम— विदूर १ ज्ञाता (ज्ञातृ) २ विन्दु ३ । (१२) लज्जाशील के एक नाम— अपत्रपिष्णु १ । (१३) वन्दना करने वाले के दो नाम— वन्दारु १ वन्दक २ । (१४) अलङ्कारप्रिय के दो नाम— मण्डन २ अलङ्कारिष्णु १ । (१५) हिंसक के तीन हिंसक १ हिंस २ घातुक ३ ।

१उत्पति त्रुत्पतिष्णू द्वौ २भ्राजिष्णुः सुषमाऽन्वितः ।
 रोचिष्णू रोचक्रो विभ्राड् अविनीते^३ समुद्धतः ॥३६॥
 घृष्टं घृष्णग् वियाताः स्यु रधीरे त्रस्तकातरौ ।
 वश्यैः प्रणेये प्रश्रितं विनीत निभृताः समाः ॥३७॥
 ४प्रगल्भः प्रतिभायुक्तो भीरुके भीरुभीलुकौ ।
 त्रस्तु विस्मय मापन्ने विलक्षो विस्मितो मतः ॥३८॥
 लज्जितोऽधृष्ट गालीना आशंसा^{१३}ऽऽशसिनौ समौ ।
 तुल्यौ^{१३} वाक्पति वागीशौ वदवक्तृ^{१४} वदावदाः ॥३९॥

(१) ऊपर उछलने के दो नाम-उत्पतिता (उत्पतितृ १) उत्पति-
 ष्णु २ । (२) चमकने वाले के पाच नाम-भ्राजिष्णु १ सुषमान्वि-
 त २ रोचिष्णु ३ रोचक्र ४ विभ्राट् ५ । (३) अविनीत के दो नाम-
 अविनीत १ समुद्धत २ । (४) धोठ निर्लज्ज अविनीत के तीन नाम-
 धृष्ट(धृष्णु) १ धृष्णक् २ वियात्त ३ । (५) अधीर (घबराये हुए) के
 तीन नाम-अधीर १ त्रस्त २ कातर ३ । (६) अधीनस्थ के दो
 नाम-वश्य १ प्रणेय २ । (७) विनय युक्त के तीन नाम-प्रश्रित १
 विनीत २ निभृत ३ । (८) प्रत्युत्पन्नमति के दो नाम-प्रगल्भ १
 प्रतिभायुक्त २ । (९) कायर के चार नाम-भीरुक १ भीरु २
 भीलुक ३ त्रस्तु ४ । (१०) आश्चर्य चकित के दो नाम-विलक्ष १
 विस्मित २ । (११) लज्जाशील के तीन नाम-लज्जित १ अधृष्ट २
 २ शालीन ३ (सलज्ज) । (१२) मन वाञ्छित की इच्छा-इच्छा-
 वान् के दो नाम-आशसा १ आशसी २ । (१३) वागाचार्य के
 दो नाम-वाक्पति १ वागीश २ । (१४) वक्ता के तीन नाम-
 वद १ वक्ता (वक्तृ) २ वदावद ३ ।

‘वावदूकोऽतिवक्ता स्याद्’ वाग्मी तूचित वाक्पटुः ।

वाचाटः स्यात्त जल्पाको वाचालो बहु गर्ह्यवाक् ॥४०॥

यस्तु प्रियवदः शकः प्रियवादी स एव हि ।

मुखरो दुर्मुखो गहर्च वादी दुर्वाक्यकद्वदः ॥४१॥

‘लोहलोऽस्फुटवाक्’ काकस्वरोऽसौम्यस्वरोऽस्वरः ।

‘कुवादः कुचरस्तुल्यौ’ शब्दनो रवणः समौ ॥४२॥

आश्रवो विनयग्राही विधेयवचने स्थितौ ।

‘अतिमूढो जडश्चाऽज्ञः पराचोने पराङ्मुखः ॥४३॥

- (१) प्रौढ वक्ता के दो नाम—वावदूक १ अतिवक्ता २ ।
 (२) न्याय बोलने वाले के दो नाम—वाग्मी १ उचितवाक्पटु २ ।
 (३) बहुनिन्ध भाषण करने वाले के चार नाम—वाचाट १ जल्पा-
 क २ वाचाल ३ बहुगर्ह्यवाक् ४ । (४) प्रियवक्ता के तीन नाम—
 प्रियवद १ शक २ प्रियवादी ३ । (५) निन्ध कटुवचन बोलने
 वाले के पाच नाम—मुखर १ दुर्मुख २ गर्ह्यवादी ३ दुर्वाक् ४
 कद्वद ५ । (६) तुतली बोली वाले के दो नाम—लोहल १
 अस्फुटवाक् २ । (७) रूखा बोलने वाले के तीन नाम—काक-
 स्वर १ असौम्यस्वर २ अस्वर ३ । (८) कुवचन शील के दो
 नाम—कुवाद १ कुचर २ । (९) शब्द करने वाले के दो नाम—
 शब्दन १ रवण २ । (१०) जिसकी प्रवृत्ति निवृत्ति का विधान
 किया जा सके उसके चार नाम—आश्रव १ विनयग्राही २ विधेय
 ३ वचनेस्थित ४ (शिष्य आदि) । (११) अनपढ़ के तीन नाम
 —अतिमूढ १ जड २ अज्ञ ३ । (१२) विमुख हुए के दो
 नाम—पराचोन १ पराङ्मुख ।

एडमूकस्वयाकर्णं स्तूष्णीको मौनमास्थितः ।
 प्रत्याख्यातो निरस्तोऽपि प्रत्यादिष्टो निराकृतः ॥४४॥
 शठेऽनृजुं विप्रलब्धे वञ्चितो नाटकादिषु ।
 भेर्यादि वादके नान्दीवादी नान्दीकरो मतः ॥४५॥
 नग्नो दिगम्बरोऽवासा अपध्वस्ते तु धिक्कृतः ।
 व्यसनि न्युपरक्तः स्यात्समौ संकसुंकाऽस्थिरौ ॥४६॥
 निष्कासितेऽवकृष्टः स्याद् विवशाऽरिष्टदुर्मतिः ।
 व्यासक्तो व्याकुलो व्यग्रस्तुल्यौ विह्वलविक्रवौ ॥४७॥

(१) जो न बोले न सुने का एक नाम—एडमूक १ । (२) मौन हो जाने का एक नाम—तूष्णीक १ । (३) जिसका प्रस्ताव लौटा दिया हो उसके चार नाम—प्रत्याख्यात १ निरस्त २ प्रत्यादिष्ट ३ निराकृत ४ । (४) शठ अर्थ में एक नाम—अनृजु १ । (५) ठगे गये के दो नाम—विप्रलब्ध १ वञ्चित २ (६) नाटकादि मङ्गल वादक पाठक के दो नाम—नान्दीवादा १ नान्दीकर २ । (७) जिसने वस्त्रधारण छोड़ दिया है उसके तीन नाम—नग्न १ दिगम्बर २ अवासा ३ । (८) धिक्कारे गए के दो नाम—अपध्वस्त १ धिक्कृत २ (न्यक्कृत) । (९) व्यसनी के दो नाम—व्यसनी १ उपरक्त २ । (१०) अस्थिर के दो नाम—सकसुक १ अस्थिर २ । (११) बाहर निकाले गये के दो नाम—निष्कासित १ अवकृष्ट २ । (१२) विगड़ी बुद्धि वाले के दो नाम—विवश १ अरिष्टदुर्मति २ । (१३) व्याकुल के तीन नाम—व्यासक्त १ व्याकुल २ व्यग्र ३ । (१४) रसग छोड़े हुए के दो नाम—विह्वल १ विक्रव २ ।

क्षारिताऽऽक्षारितौ वाच्योऽभिशस्तोऽथ मनोहेतः ।

हतः प्रतिहतश्चैव प्रतिवद्धोऽमनोरथे ॥४८॥

दूष्यस्तिरस्करिण्यादिः कशार्हे कश्य उप्यते ।

पिशुनो दुर्जनो वाऽपि खलो भेदक्रियापटुः ॥४९॥

गुप्तसंज्ञचनात्कर्णे जपः सूचक इत्युभौ ।

हननीयः स्मृतो वध्ये धूर्ते व्यसकवञ्चकौ ॥५०॥

क्रूरे पापे नृशंसश्च चिकुरश्चञ्चलेऽपि च ।

दरिद्रे दुर्गतो दीनो रङ्को निःस्वश्च दुर्विधः ॥५१॥

प्रोच्यते कृपणे क्षुद्रः कदर्यस्तु मितंपच ।

(१) पुरुष दोष से मिथ्याकलंकित किये गये के चार नाम—
 क्षारित १ आक्षारित २ वाच्य ३ अभिशस्त ४ । (२) भङ्ग मनोरथ
 के चार नाम—मनोहत १ हत २ प्रतिहत ३ प्रतिवद्ध ४ । (३)
 तिरस्करिणी (पडदा) आदि को 'दूष्य' कहते हैं (नानार्थ)
 (४) चावूक (कोडा) मारने योग्य के दो नाम—कशार्ह १
 कश्य २ । (५) एक दूसरे में भेद (फूट) करवाने वाले के तीन
 नाम—पिशुन १ दुर्जन २ खल ३ । (६) विपक्षी को गुप्त सूचना
 देनेवाले (चुगलखोर) के दो नाम—कर्णेजप १ सूचक २ । (७)
 फांसी देने योग्य के दो नाम—हननीय १ वध्य २ । (८) धूर्त के
 तीन नाम—धूर्त १ व्यसक २ वञ्चक ३ । (९) क्रूर के तीन
 नाम—क्रूट १ पापर २ नृशंस ३ । (१०) चञ्चल अर्थ में भी एक
 नाम—चिकुर १ (११) दरिद्र के छ नाम—दरिद्र १ दुर्गत २
 दीन ३ रङ्क ४ निःस्व ५ दुर्विध (१२) । कृपण अर्थ में एक
 नाम—क्षुद्र १ । (१३) कदर्य के दो नाम—कदर्य १ मितंपचर ।

मूर्खे मूढाऽज्ञः वैधेय यथा जाताश्च वालिशः ॥५२॥
 अहंयुः स्यादहंकारी शुभंयुयः शुभाऽन्वितः ।
 स्वेदजा मत्कुणाद्याः स्युर्गो नराद्या जरायुजाः ॥५३॥
 अण्डजाः पक्षि सर्पाद्या उद्भिजा वृक्षगुल्मकाः ।
 प्रतिश्रुतं परिज्ञात मूरीकृत मुरीकृतम् ॥५४॥
 संगीर्णो-पश्रुते चैव विदितं चोररीकृतम् ।
 संश्रुतो-पगते अगी-कृतं चाऽपि समाहितम् ॥५५॥
 आश्रुते रक्षिते त्राण त्रात गोपायिताऽविताः ।
 शोभनं मञ्जुल मञ्जु मनोज्ञ चारु सुन्दरम् ॥५६॥
 कान्तं मनोहरं साधु रुचिरं चाऽथ वल्लभम् ।

(१) मूर्ख के छ नाम—मूर्ख १ मूढ २ अज्ञ ३ वैधेय ४ यथाजात ५ वालिश ६ । (२) अहकारी के दो नाम—अहयु १ अहकारी २ । (३) शुभयुक्त के दो नाम—शुभयु १ शुभान्वित २ । (४) खटमल आदि 'स्वेदज' कहे जाते हैं । (५) गो तथा मनुष्य आदि 'जरायुज' कहलाते हैं । (६) वृक्ष लता गुल्म आदि उद्भिज (उद्भिज्ज, उद्भिद्, उद्भिद) । (७) पक्षी सर्प आदि 'अण्डज' कहलाते हैं । (८) प्रतिज्ञा सुकृत के नैरह नाम—प्रतिश्रुत १ प्रतिज्ञात २ ऊरीकृत ३ उरीकृत ४ संगीर्ण ५ उपश्रुत ६ विदित ७ उररीकृत ८ सश्रुत ९ उपगत १० अङ्गीकृत ११ समाहित १२ आश्रुत १३ । (९) रक्षित के पाँच नाम—रक्षित १ त्राण २ त्रात ३ गोपायित ४ अवित ५ । (१०) सुन्दर के दश नाम—शोभन १ मञ्जुल २ मञ्जु ३ मनोज्ञ ४ चारु ५ सुन्दर ६ कान्त ७ मनोहर ८ साधु ९ रुचिर १० । (११) प्रिय व्यक्ति वा वस्तु के पाच नाम—वल्लभ १ अभीप्सित

अभीप्सितं प्रियं हृद्यअभीष्ट मथ 'शोधितम् ॥५७॥
निःशोध्यं मृष्ट निर्णिवते अनवस्करमित्यपि ।

मलीमसे स्यान्मलिनं मलदूषितकच्चरे ॥५८॥

पवित्रं मेध्य-पूतानि पावनं पुण्यमुज्ज्वले ।

विमलाऽनाविले वीत्राऽवदात विशदानि च ॥५९॥

विशुद्धं शुचि, शून्यन्तु रिक्तं तुच्छं मथाऽधमः ।

अवमश्च निकृष्टोऽपि गहर्चे निन्द्यश्च कुत्सितः ॥६०॥

प्रमुखं च प्रधानं तु सर्वेकत्वे नपुंसकम् ।

प्रवेक उत्तमो वर्यो वरेण्योऽनुत्तमोऽग्रियः ॥६१॥

पराध्याऽनवराध्याऽग्राऽग्रीय प्राग्र्यऽग्रचमुख्यवत् ।

वरः प्राग्रहरश्चाऽपि प्रवहोऽथाऽत्तिशोभन ॥६२॥

- २ प्रिय ३ हृद्य ४ अभीष्ट ५ । (१) शोधित के पाँच नाम—
शोधित १ नि शोध्य २ मृष्ट ३ निर्णिक्त ४ अनवस्कार ५ ।
(२) मलिन के चार नाम—मलीमस १ मलिन २ मलदूषित ३
कच्चर ४ । (३) पवित्र के पाच नाम—पवित्र १ मेध्य २ पूत ३ पावन
४ पुण्य ५ । (४) उज्ज्वल के आठ नाम—उज्ज्वल १ विमल २
अनाविल ३ वीत्र ४ अवदात ५ विशद ६ विशुद्ध ७ शुचि ८ ।
(५) शून्य के तीन नाम—शून्य १ रिक्त २ तुच्छ ३ । (६) अधम
के तीन नाम—अधम १ अवम २ निकृष्ट ३ । (७) निन्द्य के तीन
नाम—गहर्च १ निन्द्य २ कुत्सित ३ । (८) श्रेष्ठ के अठारह
नाम—प्रमुख १ नपु०, प्रधान २ (एकवचन में ही सदा रहे
नपुमक मेदिनी) प्रवेक ३ उत्तम ४ वर्य ५ वरेण्य ६ अनुत्तम ७
अग्रिय ८ परार्थ्य ९ अनवरार्थ्य १० अग्र ११ अग्रीय १२ प्राग्रच
१३ अग्र्य १४ मुख्य १५ वर १६ प्राग्रहर १७ प्रवह १८ ।

सत्तमः पुष्कलः श्रेयान् श्रेष्ठोऽसारं तु फल्गुनि ।
 विशङ्कट विशालो-रु विपुलानि बृहन्महत् ॥६३॥
 पृथुल पृथु वडूं च पीनस्तु स्थूलपीवरौ ।
 स्तोऽल्पे ल्प क्षुल्ल सूक्ष्माणि दस्रं श्लक्षणं कृशं तनु ॥६४॥
 त्रुटिर्मात्रा स्त्रियां पुंसि कणलेश लवाऽणवः ।
 अल्पीयोऽत्यल्पमल्पिष्ठ भूरितु प्रचुर बहु ॥६५॥
 अदभ्रं बहुल प्राज्यं भूरिष्ठ स्फार भूयसी ।
 स्फिरं पुरु प्रभूत च पुरुह चाऽखिले समम् ॥६६॥
 समग्राऽखण्डकृत्स्नानि सकलाऽशेष विश्ववत् ।
 सर्व पूर्ण सप्तस्ताऽनून निःशेषाप्यथो नतैम् ॥६७॥

(१) अतिशोभन के पाच नाम—अतिशोभन १ सत्तम
 पुष्कल ३ श्रेयान् ४ श्रेष्ठ ५ । (२) असार के दो नाम—असार
 १ फल्गु २ । (३) विशाल के नौ नाम—विशङ्कट १ विशाल २
 उरु ३ विपुल ४ बृहत् ५ महत् ६ पृथुल ७ पृथु ८ वडू ९ ।
 (४) स्थूल के तीन नाम—पीन १ स्थूल २ पीवर ३ । (५)
 सूक्ष्म के चौदह नाम—स्तोक अल्प २ क्षुल्ल ३ सूक्ष्म ४ दभ्र
 ५ श्लक्षण ६ कृश ७ तनु ८ 'त्रुटि ९ मात्रा १०' ये दो स्त्री०,
 कण ११ लेश १२ लव १३ अणु १४ ये चार पु० । (६) अल्प
 के तीन नाम—अल्पयस १ अत्यल्प २ अल्पिष्ठ ३ (७) बहुत
 (अधिक) के तेरह नाम—भूरि १ प्रचुर २ बहु ३ अदभ्र ४
 बहुल ५ प्राज्य ६ भूरिष्ठ ७ स्फार ८ भूयस ९ स्फिर १० पुरु
 ११ प्रभूत १२ प्ररुह १३ । (८) सपूर्ण के तेरह नाम—अखिल
 १ सम २ समग्र ३ अखण्ड ४ कृत्स्न ५ सकल ६ अशेष ७ विश्व
 ८ सर्व ९ पूर्ण १० समस्त ११ अनून १२ निशेष १३ ।

वेल्लितं वक्रमाविद्ध मामुग्नं जिह्व कुञ्चिते ।
 ऊर्मिमत्कुटिलं भुग्न मशलेऽनर्धरे ध्रुवः ॥६८॥
 नित्योऽपि शाश्वतश्चाऽपि सनातनसदानौ ।
 क्रिमसेचनकं तृप्तेर्नाऽस्त्यन्तो यस्य दर्शनात् ॥६९॥
 चरस्रसश्चरिष्णुश्च जंगमे ज्ञ चराचरः ।
 कालव्यापी तु कूटस्थ एकरूपतया स्थितः ॥७०॥
 स्थैर्यान् स्थिरतरः स्थाष्णुर्दवीर्यस्त्वतिदूरके ।
 चलनं चञ्चलं लोलं चलं क्रमं चलाचलम् ॥७१॥
 तरलं चटुलं पारिप्लवं चाऽपि परिप्लवम् ।
 न द्वयोः कम्पनं क्रमु-कम्पयोर्मेदिनी त्रिषु ॥७२॥

(१) वक्र के ग्यारह नाम—नत १ वेल्लित २ वक्र ३ आविद्ध ४
 आमुग्न ५ जिह्व ६ कुञ्चित ७ ऊर्मिमत् ८ कुटिल ९ भुग्न १०
 मशाल ११ । (२) ध्रुव के छ नाम—अनर्धर १ ध्रुव २ नित्य ३
 शाश्वत ४ सनातन ५ सदानौ ६ । (३) जिसको देखने से तृप्ति
 नहीं हो उसका एक नाम—असेचनक (आसेचनक) । (४) व्रस
 के छ नाम—चर १ व्रस २ चरिष्णु ३ जगम ४ इज्ञ ५ चराचर
 ६ । (५) त्रिकाल में एक समान रहनेवाले के दो नाम—काल-
 व्यापी १ कूटस्थ २ । (६) स्थिर के तीन नाम—स्थैर्यान्
 १ स्थिरतर २ स्थाष्णु ३ । (७) अतिदूर सुदूर के दो नाम—
 दवीर्यस् १ दविष्ठ २ । (८) चञ्चल के ग्यारह नाम—चलन १
 चञ्चल २ लोल ३ चल ४ क्रम ५ चलाचल ६ तरल ७ चटुल
 ८ पारिप्लव ९ परिप्लव १० कम्पन ११ । (कम्पन को नपु,
 ही माना है, अगर कम्पन वा कम्प अर्थ मेहो तो मेदिनीकार ने
 त्रिलिङ्ग कहा है)

संहृते दृढसन्धिः स्याद् अवाग्रेऽवनताऽऽनतौ ।

अतिरिक्तोऽधिकेतु स्यात्तथा समधिकोऽपि च ॥७३॥

प्रौढेधित प्रवृद्धानि प्रतनस्तु पुरातनः ।

चिरन्तनः पुराणश्च प्रतन ऐन्द्रियकं तु यत् ॥७४॥

प्रत्यक्षमिन्द्रियैर्ज्ञात मप्रत्यक्षमतीन्द्रियम् ।

मोघं निरर्थकं व्यर्थं स्पष्टे प्रव्यक्तं मुल्वणम् ॥७५॥

स्फुटं साधारणं तु स्यात्सामान्यं च निरर्गलम्

निर्वाधमसहायेऽर्थे एकाकी चैक एककः ॥७६॥

ग्रन्थिले ग्रन्थितं दृढं गुम्फितं सदितं तथा ।

- (१) दृढ सन्धिवाले के दो नाम—सहत १ दृढसधि
 २ । (२) अधोमुख के तीन नाम—अवाग्र १ अवनत २ आनत
 ३ । (३) अधिक के दो नाम—अतिरिक्त १ समधिक २ ।
 (४) बढे हुए के तीन नाम—प्रौढ १ एधित २ प्रवृद्ध ३ । (५)
 पुराने के पांच नाम—प्रतन १ पुरातन २ चिरतन ३ (चिरतन)
 पुराण ४ प्रतन ५ । (६) प्रत्यक्ष के दो नाम—ऐन्द्रियक
 १ प्रत्यक्ष २ । (७) अज्ञात के दो नाम—अप्रत्यक्ष १ अती-
 न्द्रिय २ । (८) निष्पन्न के तीन नाम—मोघ १ निरर्थक २
 व्यर्थ ३ । (९) स्पष्ट के चार नाम—स्पष्ट १ प्रव्यक्त २ उल्वण
 ३ स्फुट ४ । (१०) साधारण के चार नाम—साधारण १
 सामान्य २ निरर्गल ३ निर्वाध ४ । (११) असहाय के तीन
 नाम—एकाकी १ एक २ एकक ३ । (१२) गुथे गए के पांच
 नाम—ग्रन्थिल १ ग्रन्थित २ (पथित) दृढ ३ गुम्फित ४ सदित ५ ।

जघन्याऽन्ताऽन्त्य पाश्चात्याश्चरमः पश्चिमोऽस्त्रियाम् ७७
 सकटं पुंसि संवाधो वपुः सैव्यं तु वामकम् ।
 दक्षिण त्वपसैव्यं स्याद् विस्मृताऽन्तर्गते समे ॥७८॥
 अन्योऽन्यतर एकस्त्व इतरस्त्वोऽन्य वाचिनि ।
 स्युर्वलयित संवीत रुद्धान्यावृत्त वेष्टिते ॥७९॥
 मुषितं चोरिते विश्व-कोष आहत्यमूषितम् ।
 निवृत्तं तु परिक्षिप्त प्रवृद्धं प्रसृतं समे ॥८०॥
 अरुन्तुद यन्मर्मस्पृग् विस्तृतं वितत ततम् ।

(१) अन्तके छ नाम—जघन्य १ अन्त (अन्तिम) २ अन्त्य
 ३ पाश्चात्य ४ चरम ५ पश्चिम ६ पु० नपुं० । (२) सकुल के
 दो नाम—सकट १ त्रि०, संवाध २ पु० । (३) शरीर के वाम
 अङ्ग का एक नाम—सव्य १ । (४) दक्षिण भाग का एक नाम—
 अपसव्य १ । (५) भूल जाने के दो नाम—विस्मृत १ अन्तर्गत
 २ । (६) भिन्न के छ नाम—अन्य १ अन्यतर २ एक ३ त्व ४
 इतर ५ त्व (त्वत्) ६ ए सर्वनाम हैं इनके नपुंसक में
 अन्यत् १ अन्यतरत् २ एकम् ३ त्वम् ४ इतरत् ५ त्वम्
 होंगे । (७) नदी आदि से घिरे हुए के पाच नाम—वलयित १
 संवीत २ रुद्ध ३ आवृत्त ४ वेष्टित ५ । (८) चोराये गये
 के तीन नाम—मुषित १ चोरित २ मूषित ३ [विश्वकोष में सीना
 जोड़ी से चोराये गये को 'मूषित' कहा है] । (९) परिखा से
 वेष्टित के दो नाम—निवृत्त १ परिक्षिप्त २ । (१०) फैले हुए के
 दो नाम—प्रवृद्ध १ प्रसृत २ । (११) मर्मवेधी के दो नाम—
 अरुन्तुद १ मर्मस्पृक् २ । (१२) विस्तृत के तीन नाम—विस्तृत
 १ वितत २ तत ३ ।

भवेद् याचितकं याञ्चां प्राप्ते प्रार्थित याचिते ।
 प्राप्तेऽप्राप्तेऽदिते भिन्ने दीर्ण दारित भेदिताः ८५
 दग्धे प्लुष्टो-पित-प्रुष्टः समाप्तेऽवसितः सितम् ।
 ज्ञप्त तु ज्ञपिते रूग्ण भुग्ने विद्धेतु वेधितम् ८६।
 छिद्रं निर्वाण मग्नौ च मुन्यादौ च तनू^०कृते ।
 तष्टस्त्वष्टोऽथशमिते शान्तः सदानिते सितः ॥८७।
 मूत मुद्धित वद्धे च सन्दितां^३ स्यात्तिरोहितम् ।
 विलीनेऽन्तर्हितं चापि निलीनं^४ क्लिशिते पुनः ॥८८।

- (१) मागने पर मिले हुए वस्तु का एक नाम—याचितक १ । (२) मागे गए वस्तु के दो नाम—प्रार्थित १ याचित २ । (३) फाड़े गए के चार नाम—भिन्न १ दीर्ण २ दारित ३ भेदित ४ । (४) जले हुए के चार नाम—दग्ध १ प्लुष्ट २ उषित २ प्रुष्ट ४ । (५) समाप्त हुए के तीन नाम—समाप्त १ अवसित २ सित ३ । (६) बोध प्राप्त कराये गये के दो नाम—ज्ञप्त १ ज्ञपित २ । (७) रोगी तथा वक्र के दो नाम—रूग्ण १ भुग्न २ । (८) शर आदि से वेधे गए के तीन नाम—विद्ध १ वेधित २ छिद्र ३ । (९) निर्वाण के एक नाम—निर्वाण १ । (१०) छोटे या दुबले के तीन नाम—तनूकृत १ तष्ट २ त्वष्ट ३ । (११) उपशान्त के दो नाम—शमित १ शान्त २ । (१२) बद्ध के छ नाम—सन्दानित १ सित २ मूत ३ मुद्धित ४ वद्ध ५ सन्दिता ६ त्रि० (मेदिनीकार अवसित अर्थात् समाप्त अर्थ में, सितं नपुं० शर्करा अर्थ में सिता स्त्री०, श्वेत और बद्ध अर्थ में विशेषण मान-लिया है । (१३) छिपे हुए के चार नाम—तिरोहित १ विलीन २ अन्तर्हित ३ निलीन ४ । (१४) क्लेश पार करते हुए के दो नाम—क्लिशित १ क्लिष्ट २ ।

चलिते कम्पिताऽऽधूत धुतप्रेङ्खितवेल्लिताः ॥८१॥

द्रुताऽऽवदीर्णे न्यस्त तु निसृष्टे गुणिताऽऽहते ।

निदिग्धोपचिते घ्राते घ्राण मुद्गूर्ण उद्यतम् ॥८२॥

गुण्डितो रूषितो लिप्तो दिग्धे मीढं तु मूत्रितम् ।

नुन्ननिष्ठयुत-नुताऽस्त क्षिप्ताऽऽविद्धे-रिता अथ ॥८३॥

शिक्वित काचितं शिक्वे ह्रीतं ह्रीणौ तु लज्जिते ।

निशित तेजितं शात क्षुण्णतेऽय पूजितेऽश्रितम् ॥८४॥

(१) कम्पित के छ नाम—चलित १ कम्पित २ आधूत ३ धुत ४ प्रेङ्खित ५ वेल्लित ६ । (२) गरमो से पिघले हुए के दो नाम—द्रुत १ अवदीर्ण २ । (३) त्यक्त के दो नाम—न्यस्त १ निसृष्ट २ (प्रत्याख्याता) । (४) गुणित के दो नाम—गुणित १ आहत २ । (५) पुष्ट के दो नाम—निदिग्ध १ उपचित २ । (६) सुषे गए के दो नाम—घ्रात २ घ्राण २ । (७) उद्यत के दो नाम—उदगूर्ण १ उद्यत २ । (८) घली आदि से भरे हुए के दो नाम—गुण्डित १ (गुण्डित) रूषित २ । (९) गीले चन्दन आदि से लिप्त के दो नाम—लिप्त १ दिग्ध २ । (१०) मूत्रित के दो नाम—मीढ १ मूत्रित २ । (११) प्रेरित के सात नाम—नुन्न १ निष्ठयुत २ नुत ३ अस्त ४ क्षिप्त ५ आविद्ध ६ ईरित ७ । (१२) छीन्केपर रखे गए के दो नाम—शिक्वित १ काचित २ । (१३) लज्जित के तीन नाम—ह्रीत १ ह्रीण २ लज्जित ३ । (१४) माण पर घिस कर तेज किये गये के चार नाम—निशित १ तेजित २ शात ३ क्षुण्ण ४ । (१५) समानित के दो नाम—पूजित १ अश्रित २ ।

भवेद् याचितकं याञ्चां प्राप्ते प्रार्थित याचिते ।
 प्राप्तेऽप्राप्तेऽदिते भिन्ने दीर्ण दारित भेदिताः ८५
 दग्धे प्लष्टो-पित-प्रुष्टः समाप्तेऽवसितः सितम् ।
 ज्ञप्त तु ज्ञपिते र्गण भुग्ने विद्धेतु वेधितम् । ८६।
 छिद्रं निर्वाण मग्नौ च मुन्यादौ च तनू^० कृते ।
 तष्टस्त्वष्टोऽथशैमिते शान्तः सदानिते सितः ॥८७।
 मूत मुद्धित वद्धे च सन्दितं^० स्यात्तिरोहितम् ।
 विलीनेऽन्तर्हितं चापि निलीनं^० क्लिशिते पुनः । ८८।

- (१) माग्ने पर मिले हुए वस्तु का एक नाम—याचितक १ । (२) मागे गए वस्तु के दो नाम—प्रार्थित १ याचित २ । (३) फाड़े गए के चार नाम—भिन्न १ दीर्ण २ दारित ३ भेदित ४ । (४) जले हुए के चार नाम—दग्ध १ प्लष्ट २ उषित २ प्रुष्ट ४ । (५) समाप्त हुए के तीन नाम—समाप्त १ अवसित २ सित ३ (६) बोध प्राप्त कराये गये के दो नाम—ज्ञप्त १ ज्ञपित २ । (७) रोगी तथा वक्र के दो नाम—र्गण १ भुग्न २ । (८) शर आदि से वेधे गए के तीन नाम—विद्ध १ वेधित २ छिद्र ३ (९) निर्वाण के एक नाम—निर्वाण १ । (१०) छोटे या दुबले के तीन नाम—तनूकृत १ तष्ट २ त्वष्ट ३ । (११) उपशान्त के दो नाम—शमित १ शान्त २ । (१२) वद्ध के छ नाम—सन्दानित १ सित २ मूत ३ मुद्धित ४ वद्ध ५ सन्दित ६ त्रि० (मेदिनीकार अवसित अर्थात् समाप्त अर्थ में, सितं नपुं० शर्करा अर्थ में सिता स्त्री०, श्वेत और वद्ध अर्थ में विशेषण मान-लिया है । (१३) छिपे हुए के चार नाम—तिरोहित १ विलीन २ अन्तर्हित ३ निलीन ४ । (१४) क्लेश पार करते हुए के दो नाम—क्लिशित १ क्लिष्ट २ ।

क्लिष्टं 'कथितनिष्पक्वे' 'स्वनित ध्वनिते, अथ, ।

'विविधस्तु बहुविध नानारूप पृथग्विधाः ॥८९॥

पुष्टे स्यात्पुषितं 'सगूढेतु सकलितः स्मृतः ।

'मृगिताऽन्वेशिताऽन्विष्ट मार्गितानि गवेषिते ॥९०॥

पक्वं परिणते सोढे' क्षान्तं पूर्णे तु पूरितम् ।

दान्तः स्यात् शमिते हन्नै'गुने निष्कासिते गुदात् ९१

ध्वस्तं भ्रष्ट च्युत स्रस्त गलित स्कन्न पन्नकाः ।

'निन्दिते त्ववगीतं स्याद् वृक्णे कृत्तं छितं दितम् ॥९२॥

(१) पकाए गए के दो नाम—कथित १, निष्पक्व २ ।

(२) अस्फुट शब्द करते हुए के दो नाम—स्वनित १ ध्वनित

२ । (३) अनेक रूप के चार नाम—विविध १ बहुविध २ नाना-

रूप ३ पृथग्विध ४ । (४) जिसका पोषण किया गया है उसके

दो नाम—पुष्ट १ पुषित २ । (५) अनेक अंको के साराश

खींचकर बनाए गए एकाकी नाटक आदि के दो नाम—सगूढ १

सकलित २ । (६) अन्वेषण के पाच नाम—मृगित १ अन्वेषित

२ अन्विष्ट ३ मार्गित ४ गवेषित ५ । (७) परिणाम के दो

नाम—पक्व १ परिणत २ । (८) क्षमापित के दो नाम—सोढ १

क्षान्त २ । (९) पूर्ण के दो नाम—पूर्ण १ पूरित २ । (१०)

स्वाभाविक तेज को दबाकर रखने का अभ्यासी के दो नाम—

दान्त १ शमित २ । (११) निकाले गए पुरीष के दो नाम—

हन्न १ गुण २ । (१२) च्युत (पडते हुए) के सात नाम—

ध्वस्त १ भ्रष्ट २ च्युत ३ स्रस्त ४ गलित ५ स्कन्न ६ पन्नक

(पन्न) (१३) जन अपवाद के दो नाम—निन्दित १ अवगीत २

नपुं०, (निर्वाद अर्थ में 'अवगीत' पु० है मेदिनी) ।

छिन्न छातं छनदाते संयोजित उपाहिते ।

स्युत मूतमुतं चेति तितयं तन्तु सन्ते ॥९३॥

सन्तापिते तु सन्तप्तं दूनं धूपिततापिते ।

विधुत त्यक्त हीनास्तु धूतो-त्सृष्ट समुज्झिताः ॥९४॥

आख्याताऽभिहितोवताः स्युर्लपितोदितजल्पिताः ।

भापिते प्रतिपन्ने तु मानितं बुधित तथा ॥९५॥

बुद्धं चाऽवसित ज्ञात विदिताऽवगतानि च ।

- (१) कटे हुए के आठ नाम—वृक्ण १ कृत्त २ छित ३ दित ४ छिन्न ५ छात ६ छन ७ दात ८ । (२) मिलाए गए के दो नाम—सयो-जित १ उपाहित २ (आकाशादि में अग्नि विकार का नाम भी होता है) । (३) सीए गए तन्तु विस्तार के तीन नाम—स्युत १ ऊत २ उत ३ । (४) तपाए गए के पांच नाम—सन्तापित १ सन्तप्त २ दून ३ धूपित ४ तापित ५ । (५) छोड़े हुए के छ नाम—विधूत १ त्यक्त २ हीन ३ धूत ४ उत्सृष्ट ५ समुज्झित ६ । (६) कहे गए के सात नाम—आख्यात १ अभिहित २ उक्त ३ लपित ४ उदित ५ जल्पित ६ भाषित ७ । (७) समझे गए के आठ नाम—प्रतिपन्न १ मानित २ बुधित ३ बुद्ध ४ अवसित ५ (अवसित समाप्ति अर्थ में भी है) ज्ञात ६ विदित ७ अवगत ८

भुंकेऽभ्यवहृतं जग्धमशितं भक्षितं तथा ॥९६॥

चर्वितं गिलितं लोढं खादितं ग्रस्तमित्यपि ।

तृप्ते प्रमुदितः प्रीतो हृष्टस्तुष्टश्च हर्षितः ॥९७॥

॥०॥ इति विशेषणवर्गः समाप्तः ॥०॥

(१) भुक्त के दश नाम—भुक्त १ अभ्यवहृत २ जग्ध ३ अशित

४ भक्षित ५ चर्वित ६ गिलित ७ लोढ ८ खादित ९ ग्रस्त १० ।

(२) हर्षित के छ नाम—तृप्त १ प्रमुदित २ प्रीत ३ हृष्ट ४ तुष्ट

५ हर्षित ६ ।

॥००॥ इति विशेषणवर्ग समाप्त ॥००॥

॥०॥ अथ नानार्थवर्गः प्रारभ्यते ॥०॥

पर्यायैवृत्त्या नानार्थाः ऋचनोवताश्च शेषिताः ।
 अर्थान्तरे प्रयुञ्जानाः पुनरुक्तिं न विभ्रति ॥१॥
 त्रिदिवाऽऽकाशयोर्नाको नाकुर्वल्मीक शैलयोः ।
 भूवनेऽपि जने लोकेः श्लोकेः पद्ये यशःसुच ॥२॥
 कः समीराऽऽत्मदक्षाऽग्नि यमब्रह्मसु वर्धिषु ।
 ब्रध्ने पुमान् सुखे शीर्षे जलेकतु नपुंसकम् ॥३॥
 नागे वा वर्धकौ तक्ष-कोऽर्कः स्फटिक सूरयोः ।
 जम्बुको वरुणे क्रोष्टौ खड्गेवा सायकः शरे ॥४॥
 कलङ्कोऽङ्केऽपवादेऽथाऽङ्गश्चिह्नोत्सङ्गयोः पुमान् ।

हिन्दी— (१) कितनेक नानार्थ शब्द स्थल स्थलपर अपने २ पर्यायो के साथ कहे जा चुके हैं फिर भी वे यहा अर्थान्तर मे कहे जायगे अत पुनरुक्ति दोष से दुष्ट नहीं होंगे । (२) स्वर्ग और आकाश अर्थ में 'नाक' है पु० । (३) बल्मीक और पर्वत को 'नाकु' कहते हैं पु० (नाकिन् से 'देव' जाने) । (४) भुवन और जनबोधक 'लोक' है पु० । (५) पद्य व यश अर्थ मे 'श्लोक' है पु० । (६) वायु आत्मा दक्ष अग्नि यम ब्रह्मा मयूर सूर्य अर्थ मे 'क' है पु० और सुख मस्तक जल अर्थ मे नपु० । (७) नाग और बढाई का नाम 'तक्षक' है पु० । (८) स्फटिक और सूर्य को 'अर्क' कहते हैं पु० । (९) वरुण और क्रोष्टा अर्थ मे 'जम्बुक' है पु० । (१०) खड्ग और बाण का नाम— 'सायक' है पु० । (११) अङ्क और अपवाद अर्थ में 'कलङ्क' है पु० । (१२) चिह्न और क्रोड (गोद) अर्थ मे 'अङ्क' है पु० ।

अलीकं यातना कृत्योः कारिके भकरेऽङ्गुली ।

कर्णयो भूषणे पद्म वीजकोश्या च कर्णिका ॥१०॥

स्यात् सिते खदिरसोमवल्कलकः कटफलेऽपि च ।

शालावृकाः कपौ क्रोष्टु शुनोरप्यथ कालिका ॥११॥

वृश्चिके मेघ जालेऽपि करिण्या गवि धेनुका ।

सोमे जैवातृकः पुसि दीर्घायुषि कृशे त्रिपु ॥१२॥

विहङ्गमे द्वयोः पुंसि खुरेत्वश्वस्य वर्तकः ।

व्याघ्रादौ पुण्डरीकं ना यवान्यादिषु दीपकः ॥१३॥

(१) अनृत अप्रिय अर्थ मे 'अलीक' है नपु० । (२) यातना और कृति अर्थ मे 'कारिका' है स्त्री० । (३) हाथी की सूढ अंगुली कर्णभूषण कमलकोष अर्थ मे 'कर्णिका' है स्त्री० (सुपारी के गुच्छा, सूक्ष्मवस्तु अत्यन्त, आग्ने मन्थ में भी है) । (४) श्वेत खदिर कायफल अर्थ में 'सोमवल्क' है पु० । (५) क्रोष्टा कपि कुक्कुर (कुत्ता) अर्थ में 'शालावृक' है पु० । (६) मेघ समूह अर्थ में 'कालिका' है स्त्री० और चण्डिका भेद १ कार्त्तिय २ वृश्चिक ३ पत्र ४ क्रमदेयवस्तु मूल्य ५ घूसरीमेघ ६ नवमेघ ७ पटोल शाखा ८ रोमाली ९ मांसी १० काकी ११ शिवा १२ घूसरी योगिनी भेद १३ उमा १४ अर्थ मे भी है । (७) करिणी और धेनु अर्थ मे 'धेनुका' (वशा) अर्थ हो तो स्त्री०, राक्षस दानव विशेष में पु० । (८) चन्द्र अर्थ में 'जैवातृक' पु०, दीर्घायुस् कृश (कृषक) अर्थ में त्रिलिङ्ग । (९) विहङ्गम अर्थ में 'वर्तक' पु० स्त्री०, अश्व खुर अर्थ में पु० । (१०) व्याघ्र अग्नि दिङ्नाग कोशकार अर्थ में 'पुण्डरीक' पु०, सिताम्भोज सितच्छत्र भेषज अर्थ मे भी नपुं । (११) वागलङ्का [वाणीके अलङ्कार] दीप्तिकारक अर्थ मे 'दीपक' वाच्यलिङ्ग है और अजमोदा यवानी बहिचूडा अर्थ में पु० है ।

आतङ्को रोगसन्ताप शङ्कासु मुरजध्वनौ ।
 नैकदेशे प्रतीक तु प्रतिलोमविलोमयोः ॥१४॥
 भूनिम्बे भूस्तृणेऽपि स्यात्कटफलेऽपि च भूतिकम् ।
 हेमन्युरोभूषणे साष्टशते दीनार कर्षयोः ॥१५॥
 अस्त्री निष्कं सुवर्णानां शल्के शकलवल्कले ।
 दम्भैनः शमलेष्वस्त्री कल्कः शीलाऽन्वयादिषु ॥१६॥
 अनूक, गुग्गुलूक व्याल ग्राहिष्वृभुक्षि च ।
 कौशिकोऽथ च पिण्याक स्तिलकल्केऽपि सिहके ।१७।
 रुद्रचापे पिनाकोऽस्त्री पांशुवर्ष त्रिशूलयोः ।

(१) सद्य, घाती रोग सन्ताप शङ्का में और मुरजध्वनि मे
 'आतङ्क' पु० । (२) एकदेश अर्थ मे प्रतीक' पु०, प्रतिलोम
 विलोम अर्थ में नपु० । (३] भूनिम्ब भूस्तृण [एक प्रकार
 का घास] कायफत्र अर्थ मे 'भूतिक' नपु० । (४) सुवर्ण में,
 उरोभूषण मे, एक सो आठ सुवर्ण मे दीनार (मोहर) और कर्ष
 में निष्क पु० नपु० । (५) खण्ड अर्थ में शल्क शकल वल्कल
 (अर्थ भित्त नेम दल) नपु० । (६) शब्द दम्भ ऐनसू (पाप)
 शमल अर्थ मे 'कल्क' नपु० । (७) शील कुल (अन्यजन्म) अर्थ
 में 'अनूक' नपु० । (८) गुग्गुलु उल्लूक (उल्लू) सपेरा और अर्थ
 मे 'कौशिक' पु० । (९) तिल कल्क सिल्हक और हिङ्गु बाहीक
 (उत्तरप्रदेश विशेष) अर्थ मे 'पिण्याक' पु० नपु० (बह्नीक बह्नीक
 धीर हिङ्गु में अश्वदेश मे पु० । (१०) रुद्रचाप, पाशुवर्ष (धूली
 की वर्षा) त्रिशूल अर्थ में 'पिनाक' पु०, नपु० ।

सुरे वृन्दारकः श्रेष्ठे मनोज्ञे त्रिषु दाम्भिकः ॥१८॥

तथा कौक्कुटिकोऽपि स्याद् योऽदूरे प्रहिते क्षणः ।

मुख्याऽन्य केवलेष्वेकं त्रिषु वृन्दारकादयः ॥१९॥

इति कान्ता ।

कार्याऽक्षमः प्रभो लाभदर्शी लालाटिकः स्मृतः ।

शंखोऽस्त्री निधिभालास्थोः कम्बोजा खं पुरादिषु ॥२०॥

शिलीमुखोऽलौवाणे च शिखा ज्वाला घृणी अपि ।

मयूखः किरणे ज्वाला शोभयोः शैलवृक्षयोः ॥२१॥

इति खान्ता ।

नगोऽगौ स्याद्भृगैः सूर्ये श्रीकामादौ नपुंसकम् ।

(१) सुर अर्थ मे 'वृन्दारक' पु०, श्रेष्ठ मनोज्ञ में त्रिलिङ्ग ।

(२) अदूरदर्शी '(मूर्ख) अर्थ मे 'दाम्भिक और कौक्कुटिक' है त्रिलिङ्ग । (३) मुख्य अन्य केवल अर्थ में 'एक' है त्रि० । (४) कार्य करने मे अममर्थ होने हुए भो स्वामी का लाभ मार्ग दृढ कर निकालने वाले का नाम-लालाटिक है ॥इति कान्ता ॥

(५) निधि, ललाट, अस्थियो में पु०, नपुं० कम्बु मे पु०, 'शख है । (६) पुर इन्द्रिय क्षेत्र शून्य विन्दु विहायस् (आकाश) सवेदन देवलोक शर्मन् में 'ख' है नपुं० । (७) भ्रमर नाण में 'शिलीमुख' है पु० । (८) ज्वाला किरण शाखा बहिचूडा लाङ्ग लिकी (करिहारी) अग्रमात्रा चूडामात्र शिफा प्रपद (पादाग्र) अर्थोंमें 'शिखा' है स्त्री० । (९) किरण ज्वाला शोभा अर्थों में 'मयूख' है पु० । ॥इति खान्ता ।

(१०) शैल (पर्वत) वृक्ष अर्थ में 'नग और अग' पु० (११) सूर्य अर्थ में 'भग' पु०, मोक्ष श्री योनि वीर्य इच्छा ज्ञान वैराग कीर्ति माहत्म्य ऐश्वर्य यत्न धर्म में नपुं० ।

शबले त्रिषु सारङ्गो हरिणे चातके पुमान् ॥२२॥

आदित्य भूमि स्वर्गादौ ना स्त्री गौर्न नपुंसकम् ।

मृगाः पशौ कृतादौ च यानाद्यङ्गैस्त्रियां युगम् ॥२३॥

लिङ्गं चिह्नाऽनुमानादौ शृङ्गं प्राधान्यं सानुनोः ।

गुह्यं मूर्धनो वराङ्गं च पतङ्गः सूर्यं पक्षिणोः ॥२४॥

पराभवेऽभिषङ्गो नाऽऽक्रोशेऽथ प्लवगः कपोः ।

अहेः काये फणायां च भोगैः स्यादि भृतौ सुखे ॥२५॥

(१) शबल(नानावर्ण) अर्थ में 'सारङ्ग' त्रि०, हरिण चातक मतङ्गमे पु० । (२) आदित्य बलीवर्द किरण क्रतुभेद मे 'गौ' पु०, सौरभेयी (गाय) दृक् बाणादिक वाक् भू अप् समन् मे स्त्री०, केशव कोष स्वर्ग वत्र अम्बु रश्मि दृक् बाण लोमन् मे पु०, स्त्री० कहा है । (३) पशु अर्थ में कुरङ्ग करो नक्षत्र भेद अन्वेषण यज्वा में पु०, वनितामृग स्त्री में 'मृगी' है स्त्री० । (४) शब्द रथ हल आदि अग में 'युग' पु०, कृत आदि युगम हस्त चतुष्क वृद्धि नामन् ओषधि मे नपु० । (५) शब्द चिह्न अनुमान सांख्य की मानी हुई प्रकृति शिवमूर्ति विशेष मेहन अर्थ मे 'त्रिङ्ग' नपु० । (६) प्रभुत्व शिखर चिह्न क्रीडा अम्बुयन्त्र विषाण उत्कर्ष मे 'शृङ्ग' नपु० । कूर्च कुञ्ची दाढी शीषक में पु०, विषा स्वर्ण मोन भेद ऋषभ ओषधि में स्त्री० । (७) योनि मस्तक मातङ्ग गुडत्वक (इस की छाल) अर्थ मे 'वराङ्ग' नपु० । (८) पक्षी सूर्य शलभ शालि प्रभेद में 'पतङ्ग, पु० । (९) पराभव आक्रोष (शपथ) में 'अभिषङ्ग' पु० । (१०) कपि मेक सूर्य सारथि में 'प्लवग' पु० । (११) सर्प काय फणा (पालन अभ्यवहार) स्त्री हाथी घोड़े आदि के भरण पोषणसुखमें 'भोग' पु० ।

बाण सूर्ये विहङ्गादौ खगो वेगो रयादिषु ।

स्नानीये कौमुमे रेणौ परागैः स्याद्रजः स्यपि ॥२६॥

सैर्गो निश्चय निर्मोक्ष स्वभावाऽध्याय सृष्टिषु ।

मातङ्गः श्वपचे नागे नागोनातु गजादिषु ॥२७॥

योगैः क्वचः सामादि ध्यानसङ्गति युक्तिषु ।

अर्षाङ्गस्तिलकेऽप्यङ्ग होन नेत्रान्तयोरपि ॥२८॥

पूगैः स्यात्क्रमुके वृन्दे आशुंगो वायु बाणयोः ।

इति गान्ता ॥

अर्थैः पूजाविधौ मूल्ये 'परिघोऽर्गल घातयोः ॥२९॥

योगभेदे विशेषाऽस्त्रे दुःखाऽहो व्यसनेष्वर्धम् ।

(१) बाण सूर्ये विहङ्गम (देवप्रह) मे 'खग' पु० । (२) रय प्रवाह मे 'वेग' पु० । (३) उवटन एव पुष्प के रेणु धूली गिरी प्रभेद विद्ययाति उपराग चन्दन मे 'पराग' पु० । (४) निश्चय त्याग स्वभाव अध्याय सृष्टि मोह उत्साह मे 'स्वर्ग' पु० । (५) श्वपच नाग मे 'मातङ्ग' पु० । (६) पन्नग मातङ्ग क्रूरा-चार तोयद नागकेशर पुनाग नागदन्तक मस्तक देहानिलप्रभेद श्रेष्ठ मे 'नाग' पु०, रङ्ग सोसक करणान्तर मे नपु० । (७) सहनन (क्वच) उपाय (सामादि) ध्यान अपूर्वाध सप्रामिवपु स्थैर्य प्रयोग विष्कम्भ भेषज विस्रब्ध घातक द्रव्य कार्मण मे 'योग' पु० । (८) तिलक अङ्गहीन नेत्रान्त मे 'अपाङ्ग' पु० । (अजय-कोष ने चित्रक प्रधान मे भी कहा है) । (९) क्रमुक (सुपारो) और वृन्द मे 'पूग' पु० । (१०) वायु ओर बाण अर्थ मे 'आशुग' पु० । इति गान्ता ।

११) पूजाविधि और मूल्य मे 'अर्थ' पु० । (१२) अर्गल घात योगभेद अन्नविशेष मे 'परिघ' पु० । (१३) दुःख अंहस् (पाप) व्यसन मे 'अघ' नपु० ।

शबले त्रिषु सारङ्गो हरिणे चातके पुमान् ॥२२॥

आदित्य भूमि स्वर्गादौ ना स्त्री गौर्न नपुंसकम् ।

मृगाः पशौ कृतादौ च यानाद्यङ्गैस्त्रियां युग्मम् ॥२३॥

लिङ्गं चिह्नाऽनुमानादौ शृङ्गं प्राधान्यं सानुनोः ।

गुह्यं मूर्ध्नो वराङ्गं च पतङ्गः सूर्यं पक्षिणोः ॥२४॥

पराभवेऽभिषङ्गो नाऽऽक्रोशेऽथ प्लवगः कर्पो ।

अहेः काये फणायां च भोगैः स्यादि भृतौ सुखे ॥२५॥

(१) शबल(नानावर्ण) अर्थ में 'सारङ्ग' त्रि०, हरिण चातक मतङ्गमे पु० । (२) आदित्य बलीवर्द किरण क्रतुभेद मे 'गौ' पु०, सौरभेयी (गाय) टक् बाणादिक वाक् भृ अप् समन् मे स्त्री०, केशव क्रोष स्वर्ग वत्र अम्बु रश्मि टक् बाण लोमन् मे पु०, स्त्री० कहा है । (३) पशु अर्थ में कुरङ्ग करो नक्षत्र भेद अन्वेषण यज्वा में पु०, वनितामृग स्त्री में 'मृगी' है स्त्री० । (४) शब्द रथ हल आदि अग में 'युग' पु०, कृत आदि युग्म हस्त चतुष्क वृद्धि नामन् ओषधि मे नपुं० । (५) शब्द चिह्न अनुमान सांख्य की मानी हुई प्रकृति शिवमूर्ति विशेष मेहन अर्थ मे 'शृङ्ग' नपुं० । (६) प्रभुत्व शिखर चिह्न क्रीडा अम्बुयन्त्र विषाण उत्कर्ष मे 'शङ्ग' नपु० । कूर्च कुञ्ची दाढी शीषक में पु०, विषा स्वर्ण मोन भेद ऋषभ ओषधि में स्त्री० । (७) योनि मस्तक मातङ्ग गुडत्वक (इस की छाल) अर्थ मे 'वराङ्ग' नपु० । (८) पक्षी सूर्य शलभ शालि प्रभेद में 'पतङ्ग, पु० । (९) पराभव आक्रोष (शपथ) में 'अभिषङ्ग' पु० । (१०) कपि मेक सूर्य सारथि में 'प्लवग' पु० । (११) सर्प काय फणा (पालन अभ्यवहार) स्त्री हाथी घोड़े आदि के भरण पोषणसुखमें 'भोग' पु० ।

बाण सूर्ये विहङ्गादौ खगो वेगो रयादिपु ।

स्नानीये कौसुमे रेणौ परागैः स्याद्रजः स्यपि ॥२६॥

सर्गो निश्चय निर्मोक्ष स्वभावाऽध्याय सृष्टिपु ।

मातङ्गः श्वपचे नागे नागोनातु गजादिपु ॥२७॥

योगैः कवचः सामादि ध्यानसङ्गति युक्तिपु ।

अर्पाङ्गस्तिलकेऽप्यङ्ग होन नेत्रान्तयोरपि ॥२८॥

पूर्गैः स्याक्रमुके वृन्दे आशुङ्गो वायु बाणयोः ।

इति गान्ता ॥

अर्थैः पूजाविधौ मूल्ये परिघोऽर्गल घातयोः ॥२९॥

योगभेदे विशेषाऽस्त्रे दुःखाऽहो व्यसनेष्वर्थैः ।

(१) बाण सूर्य विहङ्गम (देवप्रह) मे 'खग' पु० । (२) रय प्रवाह मे 'वेग' पु० । (३) उवटन एवं पुष्प के रेणु धूळी गिरी प्रभेद विख्याति उपराग चन्दन मे 'पराग' पु० । (४) निश्चय त्याग स्वभाव अध्याय सृष्टि मोह उत्साह मे 'स्वर्ग' पु० । (५) श्वपच नाग मे 'मातङ्ग' पु० । (६) पन्नग मातङ्ग क्रूरा-चार तोयद नागकेशर पुनाग नागदन्तक मस्तक देहानिलप्रभेद श्रेष्ठ मे 'नाग' पु०, रङ्ग सोसक करणान्तर मे नपु० । (७) सहनन (कवच) उपाय (सामादि) ध्यान अपूर्वाध सप्राप्तिवपु स्थैर्य प्रयोग विष्कम्भ भेषज विस्रब्ध घातक द्रव्य कार्मण मे 'योग' पु० । (८) तिलक अङ्गहीन नेत्रान्त मे 'अर्पाङ्ग' पु० । (अजय-कोष ने चित्रक प्रधान मे भी कहा है) । (९) क्रमुक (सुपारो) और वृन्द मे 'पूग' पु० । (१०) वायु ओर बाण अर्थ मे 'आशुग' पु० । इति गान्ता ।

११) पूजाविधि और मूल्य मे 'अर्थ' पु० । (१२) अर्गल घात योगभेद अन्नविशेष मे 'परिघ' पु० । (१३) दुःख अंहस् (पाप) व्यसन मे 'अघ' नपु० ।

पृक्काया स्त्रीलघुः शीघ्रे कृष्णागुरुणि न द्वयोः ॥३०॥
मनोज्ञेऽल्पे च निः सारे गुरौ स्याद्वाच्यलिङ्गवत् ।
ओषोऽम्भसा रये वृन्दे काचैः शिक्ये मृदन्तरे । ३१॥

इति घान्ता ।

नेत्ररोगे प्रपञ्चस्तु विपर्यासेऽपि विस्तरे ।

रुचिर्गर्भस्ति स्पृहयो रभिष्वङ्गे स्त्रिया शुचिः ॥३२॥

इति चान्ता ।

पात्रकेऽत्युपधाऽमात्ये मासिना त्रिष्वतोऽधिके ।

निजं त्रिषु स्वके नित्ये नाऽब्जः शङ्खशशाङ्कयोः ॥३३॥

समभूमौ रणेऽप्याजिः सन्तानेऽपि जने प्रजा ।

हरे विष्णौ विधौ कामं छागेऽजो” वह गोष्ठयोः ॥३४॥

[१] पृक्का ओषधि मे ‘लघु’ स्त्री०, शीघ्र कृष्णागुरु
नपु०, मनोज अल्प नि सार गुरु मे त्रि० । (२) अम्भोवेग और
वृन्द परम्परा द्रुत नित्योपदेश मे ‘ओष’ पु० । ॥इति घान्ता ।

(३) शिक्य मृदन्तर नेत्ररोग भेद [मणि] मे ‘काच’ पु० । (४)

विपर्यास विस्तर सचय प्रतारण मे ‘प्रपञ्च’ पु० । (५) दोषि

शोभा अभिष्वङ्ग मे ‘रुचि’ स्त्री० । (६) ग्रीष्म अग्निशृङ्गार

आषाढ शुद्धमन्त्री ज्योष्ठमास मे ‘शुचि’ पु०, घवल शुद्ध अनुपहत

में त्रि० ।

॥इति चान्ता ।

(७) आत्मीय नित्य अर्थ मे ‘निज’ त्रि० । (८) शङ्ख शशाङ्क

निचुल वेतस घन्वन्तरि में ‘अब्ज’ पु०, पद्म मे नपु, [मेदिनी क्रोष

मे शस्त्र अर्थ मे पु० नपु० । (९) समभूमि समर भूमि मे

‘आजि’ स्त्री० । (१०) सन्तति और राष्ट्रवासी जनसमूह मे ‘प्रजा’

स्त्री० । (११) हर विष्णु विबु काम छाग रघुपुत्र मे ‘अज’ पु० ।

मार्गे 'वर्जो' द्विजो दन्त विप्रादावण्डजेऽहि^३भुक् ।
 ताक्ष्ये केकिनि कुठ^४जोऽस्त्री दन्तेऽपि बलजा तुया ॥३५॥
 यूथिका वरयोषा वा बलज गोपुरादिषु ।
 धर्मराजो यमे बुधे जिने राज्ञि युधिष्ठिरे ॥३६॥

इति जान्ता ।

क्षेत्रज्ञो वाच्यलिङ्गः स्यात्प्रवीणे नाऽऽत्मनि स्थिरः ।
 नाम चेतनयोः संज्ञा^५ स्वाङ्गाद्यै रर्थ सूचने ॥३७॥

इति जान्ता ।

पटु^६ दक्षादिके कष्ट^७ कृच्छ्रेऽपि गहने जटा ।

(१) वह अर्थात् [वृषस्कन्ध गन्धवह अश्व] गोष्ठ मार्ग
 में 'वर्ज' पु० । (२) दन्त ब्राह्मण क्षत्रिय विश् अण्डज पक्षी मे
 [साधु मे भी] 'द्विज' पु० । (३) गरुड मयूर अर्थ मे 'अहि-
 भुक्' पु० । (४) निकुञ्ज हस्तिदन्त तनु मे 'कुञ्ज' पु० नपु ।
 (५) यूथिका वरयोषा अर्थ मे 'बलजा' स्त्री० । (६) गोपुर क्षेत्र
 अस्य सगर अर्थ में 'बलज' नपु० । (७) यम बुध जिन राजा युधि-
 ष्ठिर अर्थ मे 'धर्मराज' पु० । इति जान्ता । (८) प्रवीण अर्थ मे
 वाच्यलिङ्ग (विशेष्य लिङ्ग) और आत्म बोधक अर्थ मे 'क्षेत्रज्ञ'
 पु० । (९) नाम मे चेतना मे अङ्गादिओ से अर्थ सूचन में 'संज्ञा'
 स्त्री० । इति जान्ताः । (१०) तीक्ष्ण स्फुट दक्ष निष्ठुर निर्दय
 नीरोग चतुर में 'पटु' त्रि० पटाल में पु.नपु० । छत्रा लवण में
 नपुं । (११) कृच्छ और गहन मे 'कष्ट' नपु०, ।

मूले लग्नकचे मास्या मिष्टि^१ यागेच्छयोरपि ॥३८॥
 ज्ञानेऽक्षिण दर्शने^२ दृष्टि^३ बहूनि त्रिषु निश्चिते ।
 सृष्टिः संशय कालाऽल्प सूक्ष्मैलासुत्रुटिः स्त्रियाम् ॥३९॥
 अरिष्ट सूतिकागारे आसवादौ शुभेऽशुभे ।
 समृद्धि फलयो^४ व्युष्टि^५ दैवते दिष्ट^६ मद्रयोः ॥४०॥
 तक्षाऽऽदित्य भिदोस्त्वष्टा^७ देवशिल्पिनिना कटुः ।
 रसेऽकार्येऽद्रयोस्तीक्ष्णे मत्सरे त्रिषु कोटयैः ॥४१॥
 संख्या^८ भेदे प्रकर्षे च कोणेऽग्र धनुषः स्त्रियः ।
 खल^९तौ शिपिविष्टः स्याद्दुश्चर्मणि महेश्वरे ॥४२॥

(१) लग्नकच (केश समूह) मूल मासां मे 'जटा'
 स्त्री०, 'लक्ष (पीपल विशेष) मे 'जटा' । (२) यागमत अभिलाष
 (सग्रहश्लोक) मे 'इष्टि' स्त्री० । (३) ज्ञान अक्षि दर्शन अर्थ मे
 'दृष्टि' स्त्री० । (४) प्राज्य अतिगय निश्चिन अर्थ मे 'सृष्टि' स्त्री० ।
 (५) संशयकाल अल्प सूक्ष्मैला अर्थ मे 'त्रुटि' स्त्री० । (६)
 सूतिकागार आसन (मद्य) शुभ अशुभ तत्र मरणचिह्न अर्थ मे 'अरिष्ट,
 नपुं०, लशुन निम्न फेनिल काक कङ्कमे पु० । (७) फल समृद्धि
 अर्थ मे 'व्युष्टि' स्त्री० । (८) दैव (भागधेय भाग्य) अर्थ मे 'दिष्ट'
 नपु 'काल' पु० । (९) तक्षा (तक्षन्) आदित्यभित् देवशिल्पी
 अर्थ मे 'त्वष्टा (त्वष्टृ)' पु० । (१०) रस (मात्र) अर्थ मे 'कटु' पु०
 अकार्य मे नपुं०, तद्वान् मे सुगन्धि मत्सर स्वरो मे त्रि०, (११) कटु-
 रोहिणी लता राजिक मे स्त्री० । (१२) संख्याभेद प्रकर्ष अश्रि
 (कोण) धनुष के अग्र अर्थ मे 'कोटी' स्त्री० । (१३) खलति दुश्चर्म
 (न) शिव शौरी (विष्णु आदि) अर्थ मे 'शिपिविष्ट' पु० ।

काके-भगण्डौ करटो नागगण्डे कटौ कटः^३ ।

कैतवाऽनृत मायासु यन्त्र निश्चल राशिषु ॥४३॥

सीराङ्गे शैलशृङ्गे चाऽयोघने कूटमस्त्रियाम् ।

रिष्ट स्यादशुभाभावे पुंसि फेनिलखङ्गयोः ॥४४॥

इति टान्ता ।

नीलकण्ठः सितापाङ्गे हरेऽपि पीतसारके ।

दात्यूहे कलविङ्गे च खञ्जने कालकंठवत् ॥४५॥

कौष्ठोऽन्तर्जठरे पुंसि कुसूलेऽन्तर्गृहे स्वके ।

युवाऽल्पयोः कनिष्ठोना कनिष्ठा दुर्बलाङ्गुलिः ॥४६॥

नक्षत्रे गृहगोधाया ज्येष्ठा मासान्तरे पुमान् ।

त्रिषु श्रेष्ठे च वृद्धे च कौष्ठोत्कर्षे दिशिस्थितौ ॥४७॥

हिन्दी—(१) काक इभगण्ड कुसुम्भ निन्द्यजीवन एकादशाहा-
दिश्राद्ध दुर्दुरुद्ध वाद्यमेद अर्थ में 'करट' पु० । (२) श्रोणि नितम्ब
अर्थ में 'कट' स्त्री०पु०, क्रियाकार कञ्ज अतिशय शव समय
गजगण्ड कपोल में पु० । (३) कैतव अनृत माया यन्त्रनिश्चल राशि
सीराङ्ग शैलशृङ्ग अयोघन अर्थ में 'कूट' नपु० । (४) अशुभाऽभाव
(शुभ) अर्थ में 'रिष्ट' नपुं, फेनेत्र खङ्ग में पु० । इति टान्ता ।
(५) 'नीलकण्ठ और कालकण्ठ' सितापाङ्ग हर पीतमारक दात्यूड
कलविङ्गमें पु० । (६) 'कौष्ठ' अन्तर्जठर कुसूत्र अन्तर्गृह आत्मीय
में पु० । (७) 'कनिष्ठ' युवा और अल्प अर्थ में पु०, दुबली अंगुली
अर्थ में 'कनिष्ठा' (छोटी अंगुली) कहते हैं स्त्री० । (८) 'ज्येष्ठा'
नक्षत्र और गृहगोधा अर्थ में स्त्री०, मासान्तर अर्थ में 'ज्येष्ठा' पु०,
श्रेष्ठ और वृद्ध में त्रि० । (९) 'काष्ठा' उत्कर्ष और दिशास्थिति अर्थ
में स्त्री० ।

निष्ठा नाशाऽन्तनिष्पत्ति याञ्चा निर्वहणेषु च । इति ठान्ता ।

अभिमानग्रहव्यूह मौन सैन्य दमादिषु ॥४८॥

कोण प्रकाण्ड मन्थान यमाऽश्वलगुडादिषु ।

पारिपार्श्विक भेदेऽपि चण्डाशोर्दण्ड इष्यते ॥४९॥

इक्षु पाके भसन्नाह गोलकेषु गुंडो गुडा ।

स्तुही योषित्च गुडिका स्यादिडा बुधयोषिति ॥५०॥

गोभू वाक्त्रपि भाण्डस्तु पात्रे भूषाऽश्वभूषयोः ।

वणिङ् मूलधनेक्ष्वेडो विषे कर्णामयेध्वनौ ॥५१॥

रक्ताऽर्कस्य फले पर्णे घोषपुष्पे नपुसकम् ।

स्त्रियां वंशशलाकाया सिंहनादेऽथ वाच्यवत् ॥५२॥

दुरासदे च कुटिले काण्डो वर्गाऽश्व वारिषु ।

वाण स्कन्ध रहः स्तम्ब नाडीवृन्देषु कुत्सिते ॥५३॥

(१) 'निष्ठा' नाश अन्त निष्पत्ति याञ्चा निर्वहण अर्थ में पु० । इति ठान्ता । (२) 'दण्ड' अभिमान ग्रह व्यूह मौन सैन्य दम आदि मे एव कोण प्रकाण्ड मन्थान यम अश्व लगुड आदि में, एव सूर्य के पारिपार्श्विक भेद मे प्रयोग होता है पु० । (३) 'गुड' इक्षुपाक हस्तिसनाह गोलक मे पु०, 'गुडा' तो स्तुही योषित् गुडिका अर्थ मे स्त्री० । (४) 'इडा' बुध ग्रहयोषित् गो भू वाक् अर्थ मे स्त्री० । (५) 'भाण्ड' पात्र भूषा अश्वभूषण वणिङ्मूलधन अर्थ मे नपु० । (६) 'क्ष्वेड' विष कर्णरोग ध्वनी रक्तार्क वृक्षके फल पत्ते घोषपुष्प में नपु०, वंशशलाका सिंहनाद मे स्त्री०, दुरासद कुटिल मे त्रि० । (७) 'काण्ड' वर्ग अश्व वारिवाण स्कन्ध रहस् स्तम्ब नाडीवृन्द कुत्सित् वृक्षमित् अर्थ में पु०नपुं ।

वृक्षभिद्यपि न स्त्री स्यात् नाडी कालेऽपि षट्क्षणे ।
इति ङान्ता ।

नितान्त बलवत् स्थूल प्रगाढेषु दृढे स्त्रियु ॥५४॥
प्रतिज्ञाऽतिशयो वाढं प्रगाढं दृढकृच्छ्रयोः ।

‘व्यूढः पृथुल विन्यस्त सहतेष्वभिधेयवत् ॥५५॥
इति ङान्ता ।

स्त्रैण गर्भेऽर्भके भ्रूणो वाणो बलि सुते शरे ।

स्पृहा पिपासयो स्तृष्णा जुगुप्सा करुणे घृणा ॥५६॥

भ्रूवो र्यदन्तराऽऽवर्ते ऊर्णा मेषादि लोमनि ।

‘हरिणी हरिता हेम प्रतिमान मृगीष्वपि ॥५७॥

(१) ‘नाडी’ नाल व्रणान्तर शिरा गण्डदूर्वा खर दूर्वा विशेष
दम्भचर्या और षट्क्षणकाल अर्थ में स्त्री । इति ङान्ता ।

(२) ‘दृढ’ नितान्त बलवान् स्थूल और प्रगाढ अर्थ में स्त्री । (३)
‘वाढ’ प्रतिज्ञा अतिशय अर्थ में नपुं० । (४) ‘प्रगाढ’ दृढ और
कृच्छ्र अर्थ में नपुं० । (५) ‘व्यूढ’ पृथुल विन्यस्त सहत में वाच्य-
लिङ्ग (विशेष्यलिङ्ग) पुं० । इति ङान्ता ।

(६) ‘भ्रूण’ गर्भ शिशु अर्थ में पुं० । (७) ‘वाण’ बलिसुत
एवं शर अर्थ में पुं० । (८) ‘तृष्णा’ स्पृहा और पिपासा अर्थ में
स्त्री० । (९) ‘घृणा’ जुगुप्सा और करुणा अर्थ में स्त्री० । (१०)
‘ऊर्णा’ भौहो के अन्तराय में आवर्त में मेष शश उष्ट्र मृग आदि
लोम अर्थ में स्त्री० । (११) ‘हरिणी’ हरिता हेम प्रतिनिधि
मृगी अर्थ में स्त्री० ।

'स्थूणा स्तम्भेऽपि सूर्म्या च हरिणः पाण्डुरे त्रिषु ।
 त्रिषु ग्रामाधिपे श्रेष्ठे नापिते ग्रामिणीः पुमान् ॥५८॥
 समरेऽस्त्री कणे कोणे नापिते ना रणो मतः ।
 क्षणो व्यापारहीनत्वे मुहूर्तोत्सव पर्वसु ॥५९॥
 कार्षापणे वराटानां माने मूल्ये घणे पणः ।
 द्यूते विक्रय्य शाकादे बद्धमुष्टो भृत्तौ ग्लहे ॥६०॥
 मौर्व्य प्रधानरूपादि सन्ध्याद्या वृत्ति एज्जुषु ।
 शुक्ल सूदेन्द्रिय त्याग सत्त्व सौर्यादि धीषु च ॥६१॥
 गुणः पद्मेऽग्नि मन्थाने 'श्रीपर्ण हस्तिनी भयोः ।
 'करेणु द्विविण' वित्ते काञ्चने च पराक्रमे ॥६२॥

(१) 'स्थूणा' गृहस्तम्भ और सूर्मा अर्थ में स्त्री० । (२) 'हरिण पाण्डु और जबल अर्थ में त्रि० । (३) 'ग्रामिणी' ग्रामनायक श्रेष्ठ नापित अर्थ में पु० । (४) 'रण' शब्द समर कण कोण अर्थ में पु नपु०, नापित में पु० । (५) 'क्षण' व्यापारहीनत्व और मुहूर्त्त उत्सव पर्व अर्थ में नपु० । (६) 'पण' कार्षापण सिक्का वराट क मान मूल्य धन शाकादि वेचनार बद्धमुष्टि भृत्ति ग्लह (जूआ) अर्थ में पु० । (७) 'गुण' मौर्वी (धनुर्गुण) अप्रधान रूपादि सन्ध्यादि वृत्ति रज्जु शुक्ल सूद इन्द्रिय त्याग सत्त्व सौर्यादि धी अर्थ में पु० । (८) 'श्रीपर्ण' कमल अग्निमन्थ (अरणि) अर्थ में नपुं०, 'श्रीपर्णा' कुम्भी गम्भारी अर्थ में स्त्री० । (९) 'करेणु हस्तिनी अर्थ में स्त्री०, इभ में पु० (रन्तिदेवतो "करेणुश्च गरेणुश्च करिणी कर्णिकारयो" कहे गये है ।) (१०) 'द्विविण' वित्त काञ्चन पराक्रम अर्थ में नित्य नपुं०

आपणे विपेणिः पण्यवीथिका पण्ययो स्त्रियाम् ।

प्रतीची सुरयो गण्ड दूर्वाया वारुणी रिणम् ॥६३॥

निराश्रये भूवो भागे ऊपरे प्रवणः क्षणे ।

निम्नोर्वी क्रम आयत्ते क्षीणे प्रगुणप्रह्वयोः ॥६४॥

चतुष्पथेषुना तीक्ष्णं विषेऽभिमर लोहयोः ।

क्लीवं पुंसि यवाग्रेस्या तिग्माऽऽत्मत्यागिनो स्त्रियु ॥६५॥

द्रोणा काष्ठाम्बु वाहिन्या गवादन्या च नीवृति ।

पुमान् कृपीपतौ काकेऽऽद्याढकादि चतुर्ष्वपि ॥६६॥

गणः प्रमथ सघात सख्या सैन्य प्रभेदवान् ।

मक्षिका पिप्पली नक्र जीरकेषु कर्णा कणः ॥६७॥

हिन्दी— (१) 'विपणि' आपण पण्यवीथी और पण्य अर्थ में स्त्री० । (२) वारुणा' प्रतीची सुरा गण्डदूर्वा अर्थ में स्त्री० । (३) 'ईरिण इरिण' निराश्रय भूभाग में ऊपर भूभाग में नपु० । (४) 'प्रवण' क्षण निम्नोर्वीक्रम आयत्त क्षीण प्रगुण प्रह्व में त्रि०, चतुष्पथ में पु० । (५) तीक्ष्ण' विष अभिमर अर्थात् युद्धबल स्वबलसाध्वसलोह (अजिमुष्कक) में नपु०, यवाग्र पु०, तिग्म आत्मत्वागिन् में त्रि० । (६) 'द्रोणा' काष्ठांम्बुवाहिनी गवादनी नीवृत् (जनपद) स्त्री०, कृपीपति (द्रोणाचार्य) में पु०, काक आढक आढकादि चतुष्टय (आढक १ द्रोण २ स्वारी ३ वाह ४) में 'द्रोण' पु०नपु० (आढकी तु तुवर्या स्त्री परिमाणान्तरे त्रिषु मेदिनी) । (७) 'गण' प्रमथ आदि रुद्रगण सघ सख्या सैन्य प्रभेद में पु० । (८) 'कण' मक्षिका पिप्पली कुम्भीर जोरक में स्त्री०, अतिसूक्ष्म धान्याश में 'कण' पु० ।

अतिसूक्ष्मे च धान्यांशे 'स्थाणुः कीले हरे पुमान् ।
 अस्त्री ध्रुवे प्रमाणं तु शास्त्रे यन्ता प्रमातृषु ॥६८॥
 मर्यादा हेतु नित्येषु चैकत्व सत्यवादिनि ।
 कायकारण कायस्थ साधनेन्द्रिय कर्मसु ॥६९॥
 व्रतबन्धे नाट्यगीत भेदयोः करण यदि ।
 वधरक्षण रक्षितृ गृहेषु शरणं भवेत् ॥७०॥
 वाच्यवद् निचितेऽशुद्धे संकीर्ण वर्णसङ्करे ।
 पशुशृङ्गे-भ-दन्तादौ विषाणं त्रिषु न स्त्रियाम् ॥७१॥
 वर्णो द्विजादा वरुणो वर्ण भेदादिषु त्रिषु ।
 मौर्वी सन्ध्या सत्त्व शुक्ल द्रव्य धीषु गुणः पुमान् ॥७२॥

(१) 'स्थाणु'कील हर मे पु०, ध्रुव मे पु० नपु० । (२) 'प्रमाण' शास्त्र इयत्ता प्रमाता (तृ) मर्यादा हेतु नित्य सत्यवादी (इन्) मे नपुं० एकवचन है । (३) 'करण' काय कारण काय स्थ साधन इन्द्रिय कर्मन् व्रतबन्ध नाट्यभेद गीतभेद मे नपु०, गूढा विष् के पुत्र मे वानर आदि मे पु० । (४) 'शरण' वध रक्षण रक्षिता (तृ) गृह मे नपु० । (५) 'सकीर्ण' सकट, वर्णसकर मे नपुं०, व्याप्त अशुद्ध मे वाच्यलिङ्ग । (६) 'विषाण' पशुशृङ्ग हस्तिदन्त मे त्रि०, शीरिकाक्रीली अजशृङ्गा मे स्त्री०, कुष्ठनामक ओषधि मे नपुं० । (७) 'वर्ण'द्विज आदि, शुक्ल आदि, यज्ञ कथा, गुण कथा, स्तुति मे पु०, भेद रूप अक्षर विलेखन मे पु० नपु० । (८) 'वरुण' गुणी मे त्रि०, अव्यक्त राग अर्क सन्ध्याराग अर्क साग्धि नि शब्द कपिल कुष्ठभेद मे पु०, 'वरुणा' अतिविषा श्यामा मज्जिष्ठा त्रिवृता मे स्त्री० । (९) 'गुण' मौर्वी सन्ध्यादि सत्त्वादि शुक्लादि द्रव्याश्रित धी त्यागादि और्वादि रूपादि अप्रधान मृद इन्द्रिय आवृति रज्जु मे पु० ।

घण्टापथे ससरणं प्राण्युत्पादे चमूगतौ ।

भुक्तोज्झितोन्मूलितयोः ^१समुद्धरण मुन्नतौ ॥७३॥

इति णान्ताः ।

कृतान्तौ दैव सिद्धान्त यमाऽकुशलकर्मसु ।

प्रकारेऽपि प्रकरणे वृत्तान्तः कात्स्न्यं वार्तयोः ॥७४॥

आनर्तो देशभेदे स्या नृत्य स्थाने जने रणे ।

श्लेष्मादि रस रक्तादि महाभूतानि तद्गुणाः ॥७५॥

शब्दयोनीन्द्रिये प्रस्थ विकृति धातवः स्मृताः ।

शक्तिरायुधकास्वाः स्यान्मूर्ति काठिन्य काययोः ॥७६॥

शुद्धान्तो नृपनारीणां वेश्म कक्षान्तरोऽपि च ।

क्षयेऽपचिति रचाया साति दानाऽवसानयोः ॥७७॥

विस्तारे व्रतति वलया ^३वसति वास वेश्मनी ।

(१) 'ससरण' घण्टापथ प्राण्युत्पाद चमूगति मे नपु० ।

(२) 'समुद्धरण' भुक्तोज्झित (वान्त मे) उन्मूलित उन्नय मे नपु० ।

इति वान्ता । (३) 'कृतान्त' दैव सिद्धान्त यम अनिष्टकर्म कर्मन्

मे पु० । (४) 'वृत्तान्त' प्रकार प्रकरण कात्स्न्यं वार्ता मे पु० ।

(१०) 'आनर्त' देशभेद नृत्यस्थान जनरण मे पु० । (६) 'धातु'

श्लेष्मन् पित्तादि भुक्त आहार के प्रथम अवस्थारूप रस रक्त

मज्जा शुक्रादि, तद्गुण इन्के गन्धादि, महाभूत, शब्दोत्पत्ति,

मूलकारण, इन्द्रिय, प्रस्थविकृति गैरिकादि मे पु० । (७) 'शक्ति

सामर्थ्य कासू (विकल्पनाक्) मे स्त्री० । (८) 'मूर्ति' काठिन्य काय

में स्त्री० । (९) 'शुद्धान्त' राजाओ के अन्त पुर और गुप्तकक्षा

(मन्त्रणा करने का स्थान) भेद में पु० । (१०) 'अपचिति' पूजा

और क्षय अर्थात् व्यय निष्कृति हानि मे स्त्री० । (११) 'साति'

दान और अवसान मे स्त्री० । (१२) 'व्रतति' विस्तार और वल्ली

मे स्त्री० । (१३) 'वसति' वास भवन रात्रि में स्त्री० ।

रात्रिर्वाऽति' धनुष्कोट्या पीडायां हेति' रचिपि ॥७८॥

रवेर्ज्वालासु वा वह्नेः शस्त्रेऽथ 'जगती क्षितौ ।

छन्दो भेदेऽपि दशमं पङ्क्तिच्छन्दोऽपि च स्त्रियाम् ७९

प्रभावेऽप्यार्यतिः पत्तिर्ना गतौ स्त्रीषु पक्षतिः ।

पक्षमूले तिथेर्वाऽपि पक्षिणां वेद कर्णयोः ॥८०॥

वार्ताया च 'श्रुतिर्योनि लिङ्गादौ 'प्रकृति' ० धृति ।

धारणाऽध्वर तुष्ट्यादौ 'गुप्ति' भू विवरेऽपि च ॥८१॥

(१) 'अति' पीडा और धनुषकोटि मे स्त्री० । (२) 'हेति' सूर्य के अचि में वह्निज्वाला में शस्त्र में स्त्री० । (३) 'जगती' पृथिवी छन्दोभेद भुवन जन मे प्राकार मे स्त्री०, 'जगत्' विष्टप (स्वर्गमें) नपुं०, 'जगत् (जगन्) वायु मे पु जगम मे त्रि० । (४) 'पङ्क्ति' (उक्ताऽत्युक्ता तथा मध्या प्रतिष्ठाऽन्यासु पूर्विका गायत्र्युष्णिगनुष्टुप् च बृहतो पङ्क्तिरेव' च) इस गणना मे दशवा छन्द को 'पङ्क्ति' (दशाक्षरचरण) कहते है और दश सख्यादि मे भी स्त्री० । (५) 'आयति' समय दैर्घ्य आगामिकाल और प्रभाव मे स्त्री० । (६) 'पत्ति' चरणचारी अर्थ मे पु०, और एक हाथी एक रथ तीन घोडे, पाच पदाति हो जिसमे वह स्त्री० है । (७) 'पक्षति' पक्षियो और तिथियो के पक्षमूल (प्रतिपद) मे स्त्री० । (८) 'श्रुति' श्रोत्रकर्म वार्ताओ मे स्त्री० । (९) 'प्रकृति' लिङ्ग योनि पौरवर्ग अमात्यादि स्वभावो मे स्त्री० । (१०) 'धृति' धारणा अध्वर तुष्टि योगान्तर धैर्य मे स्त्री० । (११) 'गुप्ति' भू विवर रक्षा कारा (अवकर स्थान जहा कि कूडा कचरा डाले जाते हो) इन अर्थो मे स्त्री० ।

वनिता जातरागायां स्त्रियां स्त्री त्रिषु याचिते ।
 बालुका सिकता भूमि कैशिक्यादिषु वृत्तयः ॥८२॥
 रीति^१ स्यन्द प्रचारादि रीति^२ डिम्बाऽतिवृष्टिषु ।
 प्राप्तिर्महोदये लाभे जाति जन्मादिषु स्त्रियाम् ॥८३॥
 अग्नि त्रये युगे त्रेता^३ भूतीरक्षादि संपदि ।
 पुरी नद्यो रहे भोगं-वतीनाऽहौ, क्षितिः क्षये ॥८४॥
 वासादौ समितिः सधे सभाया महती पुमान् ।

(१) 'वनिता' दर्शिता अत्यन्ता अनुरागा स्त्री और स्त्री में स्त्री०, याचित अर्थ मे त्रि० । (२) 'सिकता' मिकतिल में स्त्री०, बालु का बहुवचनान्त । (३) 'वृत्ति' भरत शास्त्र प्रसिद्ध कैशिकी आरभटी भारती सात्वती ए चार वृत्तिया है जिन पर नाटय शास्त्र प्रतिष्ठित है, विवरण जीव्य मे भी है, वैयाकरण तो कृत् तद्धित समास एकशेष सनाद्यन्त घातुरूपो को कहते है स्त्री० । (४) 'रीति' प्रचार स्यन्द अरकूट लोहकिङ्क में स्त्री० । (५) 'ईति' डिम्ब अर्थात् भयध्वनि पुष्कस प्लीहन् विप्लव और अतिवृष्टि अनावृष्टि मूषक शलभ शुक्र प्रत्यासन्न राजगण इन अर्थों में स्त्री० । (६) 'प्राप्ति' महोदय (अधिगम) लाभ मे स्त्री० । (७) 'जाती' जन्म गोत्र मालती सामान्य छन्द जातीफल आमलकी चुल्ली कम्पिल्ल मे स्त्री० । (८) 'त्रेता' अग्नित्रय (जठराग्नि वाडवाग्नि दहराग्नि) और युग मे स्त्री० । (९) 'भूति' भस्म [रक्षा] सम्पत्ति हस्तिशृङ्गार मे स्त्री० । (१०) 'भोगवती' नागपुरी और नदी अर्थ में स्त्री०, 'भोगवान्' सर्प मे पु० । (११) 'क्षिती' क्षय क्षिति कालभेद निवास मे स्त्री० । (१२) 'समिति' सध सभा में स्त्री० ।

तत्त्वभेदे स्त्रियां वीणा भेदे प्राज्ये नपुंसकम् ॥८५॥

वृत्तेऽन्यलिङ्गं वृत्तं तु छन्दश्चारित्र वृत्तिसु ।

त्रिषु रूप्ये सिते हेम्नि रजत सलिले घृतम् ॥८६॥

अमृतं कलधौत तु रूप्य हेम्नोः कृतं युगे ।

पर्याप्तेऽपि श्रुतं शास्त्रे चाऽवधारण कर्मणि ॥८७॥

निमित्तं लक्षणे हेतौ रक्तं नील्यादि राशिणि ।

कलीवं खगादि सवादौ स्त्री करिण्योस्तु ॥८८॥

फलगु न्यरोगयो वार्ता वृत्तौ वार्ता जनश्रुतौ ।

(१) 'महती' तत्त्वभेद में पु० [महान] है, वल्लकी [वीणा] भेद में स्त्री०, राज्य प्राज्य मे नपु, श्रेष्ठ वृद्ध मे विशेष्यलिङ्ग । (२) 'वृत्त' अधीत अतीत वर्तुल मृत वृत्त [स्वीकृत] मे पु०, और वृत्त में [सम्पन्न मे] अन्यलिङ्ग छन्द चारित्र वृत्ति मे नपु० । (३) 'रजत' रूप्य सित हेमन् रञ्जन शोणित हृद हार मे त्रि० । (४) 'घृत' आज्य जल मे नपु०, प्रदोष मे अभिधेयवत् यज्ञेष पोयूष सलिल घृत अप जिन मे चित मोक्ष मे नपु, और देव जिन धन्वन्तरी मे अमृत मे पु० । (५) 'कलधौत' सुवर्ण रजत मे नपु० । (६) 'कृत' युग पर्याप्त मे नपु०, विहित हिसित मे त्रि० । (७) 'श्रुत' शास्त्र और अवधृति मे नपु० । (८) 'निमित्त' हेतु ओर लक्षण में नपु० । (९) 'रक्त' अनुरक्त नील्यादि रञ्जित लोहित मे त्रि०, कुकुम ताम्र प्राचीनामलक असृक् मे नपु । [१०] 'वासिता' खगाराव ध्वानमात्र सुरभीकृत वस्त्रवेष्टित मे नपु, करिणी नारी मे स्त्री० [स्वामीके मत से 'वाशिता' तालव्यान्त है] । (११) 'वार्ता' नीरुज नोरोगि वृत्तिमान् मे पु०, फलगु अरोग में नपु० 'वातिङ्गण वृत्ति जनश्रुति वार्ता कृष्णाधुदन्त मे स्त्री० ।

बृहती क्षुद्रवार्ताक्या छन्दो वसनयोरपि ॥८९॥

जीवाऽनपेक्षिकर्माऽत्याहितं यच्च महद्भयम् ।

भूतं जन्तु पिशाचादौ पुमान्देवे त्रिषूचिते ॥९०॥

जनापवाद निर्वाद दुष्ट गर्हित वस्तूनि ।

अवगोतस्त्रिषु श्वेतं रूप्ये स्यादन्यवत्सिते ॥९१॥

शुद्धे सितेऽवदातः स्यात्पीते बद्धार्जुनी सितः ।

उत्थिता स्तूयतोत्पन्न वृद्धिमान्तः त्रिषूच्छिताः ॥९२॥

प्रवृद्धोन्नद्ध संजाता आदृतः सादरेऽर्चिते ।

मूर्च्छितो मूढः सोच्छ्रायो प्रतीतः ख्यातहृष्टयोः ॥९३॥

- (१) 'बृहती' क्षुद्रवार्ताकी (बैगन) कण्टकारि (भोरिङ्गिनी) वाक् वारिधानी (पानी की कोठी) महती छन्दोभेद वसनभेद मे लो० । (२) 'अत्याहित' जीवानपेक्षिकर्म मे महाभिति मे नपु० । (३) 'भूत' जन्तु पिशाचादिश्मादि मे नपु०, देवयोनि विशेष में पु०, उचिन प्राप्त वृत्त सम सत्य मे त्रि० । (४) 'अवगोत' जनापवाद निर्वाद दुष्ट (दृष्ट) और गर्हितवस्तुओ मे त्रि० । (५) 'श्वेत' द्वीपभेद आदिभेद मे पु०, श्वेता' वराटिका काष्ठ पाटला शंखिनी मे त्रि०, 'श्वेत' रूप्य मे नपु०, सित मे अन्यवत् हैं । (६) 'अवदान' शुद्ध अर्थात् निर्मल मे श्वेत मे पातमें त्रि० । (७) 'सित' अवसित अर्थात् बुद्ध बद्ध धवल त्रि०, शर्करा मे स्त्री० । (८) 'उत्थित' प्रोद्यत उत्पन्न वृद्धिमान् मे त्रि० । (९) 'उच्छित' प्रवृद्ध समुन्नद्ध सजात मे त्रि० । (१०) 'आदृत' सादर व्यवहार मे अर्चित अर्थात् सम्मानित मे त्रि० । (११) 'मूर्च्छित' मूढ और सोच्छ्राय मे त्रि० । (१२) 'प्रनीत' ज्ञात प्रज्ञात हृष्ट सादर मे त्रि० ।

विविक्तो' विजने पूतेऽभिजातः' कुलजे बुधे ।
 कृत्रिमे भूषिते शस्ते सस्कृतोऽप्यन्यलिङ्गकः ॥९४॥
 पाणिन्यादि कृते सूत्रे क्लीब युक्तेऽस्ति सस्कृते ।
 मर्षिण्यप्यभिनीतोऽथाऽनन्तो निरवधौ त्रिषु ॥९५॥
 निवासे दृढ सन्नाहे निवातो वातवर्जिते ।
 कृतेऽग्रतोऽभियुक्ताना पूजने वाऽग्रतः कृते ॥९६॥
 पुरस्कृतोऽम्ल' परुषो तनुते शुक्तं मुच्यते ।
 साध्वभ्यर्हित' सत्येषु विद्यमानप्रशस्तयोः ॥९७॥

(१) 'विविक्त' असपृक्त रह पूत विवेकी मे त्रि० । (२) 'अभिजात' कुलीन न्याय्य पण्डिन मे त्रि० । (३) 'सस्कृत' कृत्रिम भूषित शस्त (प्रशसा योग्य) अर्थ मे अन्यलिङ्ग है पाणि-
 न्यादि कृन सूत्र में नपुं० । (४) 'अभिनीत' युक्त अतिसस्कृत
 मर्षी (मर्षिन्) मे त्रि० । (५) 'अनन्त निरवधि मे त्रि०, केशव
 जेष मे पु०, विशल्या शारिवा दूर्वा कृणा दूरालभा पथ्या पार्वती
 आमलकी विश्वम्भरा गुडची मे स्त्री०, सुखवर्त्म मे नपुं० । (६)
 'निवात' 'निवास दृढकवच वातवर्जित मे पु० । (७) 'पुरस्कृत'
 आदरणीयो मे सर्वप्रथम आदर पाने वाले एव शत्रुओ से लडने
 के समय मे आगे लडने वाले अर्थ मे त्रि० । (८) 'शुक्त आयुर्वेद
 प्रक्रिया से जब गुड सहद अम्ल परुष हो जाय तब उसका
 नाम शुक्त होता है नपु० (मृन्मयादि शुचौ भाण्डे सगुडा क्षुद्रमा-
 क्षिक । धान्यराशौ त्रिरात्रस्थ शुक्तं चुक्रं तदुच्यते ॥ वैद्यकम् (९)
 'सत्' साधु अभ्यर्हित सत्य विद्यमान प्रशस्त मे साधु धीर प्रशस्त
 मे पु०, मान्य सत्य विद्यमान मे त्रि०, साध्वी में स्त्री० ।

सद् भूर्जेना 'शितिः श्वेते मेचके निशिते त्रिषु ।
मनापि स्फुटयो 'व्यक्तो दृष्टान्तस्तु' निदर्शनम् ॥९८॥
शास्त्रं क्षत्ता क्षत्रियाया शूद्राद् द्वाः स्थेऽपि सारथो ।
हरौ हरे 'जिनेऽव्यक्ताऽजितौ स्रुतस्तु तक्षिणि ॥९९॥
भूपालभूधरौ 'भूमृत् स्त्रीपुष्पे मासयो ऋतुः ।
स्याद्भूपालेऽपि 'मूर्धाभिषिक्तो राजन्यमण्डले ॥१००॥
स्थपतिर्ना सुतैः पुत्रे पार्थिवे तनया सुता ।
सूते हस्तिपके 'यन्ता भर्ता स्वामिनिना त्रिषु ॥१०१॥

- (१) 'शिति' भूर्ज मे पु०, श्वेत मेचक निशित (काल अर्थात् सर्प में) त्रि० । (२) 'व्यक्त' मनोपि [मनोपिन्] और स्फुट मे त्रि० । (३) 'दृष्टान्त' निर्दग् (उदाहरण) शास्त्र मरणमे पु० (४) 'क्षत्ता' (क्षत्) शूद्र से क्षत्रिया मे उत्पन्न को दारपाल को सारथि को भजिष्यातनय (दासीपुत्र) नियुक्त प्रजासूद् को भा कहते है पु० । (५) 'अजित अव्यक्त' हरि हर जिन मे पु०, अनिर्जित मे त्रि०, महत् (महान्) आदि आत्मा मे नपु०, अस्फुट मे त्रि० । (६) 'स्रुत' सारथि तक्षा क्षत्रिय से ब्राह्मणीपुत्र मे, बन्दी पारद मे पु०, प्रसूत प्रेरित मे त्रि० । (७) 'भूमृत्' से वृष अद्रि समझे जाते है पु० । (८) ऋतु स्त्री पुष्प वसन्तादि दो दो महिने घोर मे पु० । (९) 'मूर्धाभिषिक्त' भूपाल मे 'मन्त्री मे' क्षत्रिय मे पु० । (१०) 'स्थपति' कञ्जुकी शिल्पिभेद मे पु०, सत्तम [अतिश्रेष्ठ] मे त्रि० । (११) 'सुत' पुत्र मे पार्थिव मे पु० स्त्री अपत्य मे 'सुता' तनया बोधक है स्त्री० । (१२) 'यन्ता' [यन्त्] हस्तिपक [महावत] सुत [सारथी] पु० । (१३) 'भर्ता' स्वामी अर्थ मे पु०, पोष्टा (पोष्टृ) धाता (धात्) में त्रि० ।

विविक्तो^१ विजने पूतेऽभिजातः^२ कुलजे बुधे ।
 कृत्रिमे भूषिते शस्ते सस्कृतोऽप्यन्यलिङ्गकः ॥९४॥
 पाणिन्यादि कृते सूत्रे क्लीबं युक्तेऽस्ति सस्कृते ।
 मर्षिण्यप्यभिनीतोऽथाऽनन्तो निरवधौ त्रिषु ॥९५॥
 निवासे दृढ सन्नाहे निवातो वातवर्जिते ।
 कृतेऽग्रतोऽभियुक्तानां पूजने वाऽग्रतः कृते ॥९६॥
 पुरस्कृतोऽम्ल^३ परुषो तनुते शुक्तं मुच्यते ।
 साध्वभ्यर्हितं^४ सत्येषु विद्यमानप्रशस्तयोः ॥९७॥

(१) 'विविक्त' असपृक्त रह पूत विवेकी मे त्रि० । (२) 'अभिजात' कुलीन न्याय्य पण्डित मे त्रि० । (३) 'सस्कृत' कृत्रिम भूषित शस्त (प्रशसा योग्य) अर्थ मे अन्यलिङ्ग है पाणि-
 न्यादि कृत सूत्र में नपुं० । (४) 'अभिनीत' युक्त अतिसस्कृत
 मर्षी (मर्षिन्) मे त्रि० । (५) 'अनन्त निरवधि मे त्रि०, केशव
 जेष में पु०, विशल्या शारिवा दूर्वा कणा दूरालभा पथ्या पार्वती
 आमलकी विश्वम्भरा गुडची मे स्त्री०, सुखवर्त्म मे नपुं० । (६)
 'निवात' 'निवास दृढकवच वातवर्जित मे पु० । (७) 'पुरस्कृत'
 आदरणीयो मे सर्वप्रथम आदर पाने वाले एव शत्रुओ से लडने
 के समय मे आगे लडने वाले अर्थ मे त्रि० । (८) 'शुक्त आयुर्वेद
 प्रक्रिया से जत्र गुड सहद अम्ल परुष हो जाय तब उसका
 नाम शुक्त होता है नपु० (मृन्मयादि शुचौ भाण्डे सगुडा क्षुद्रमा-
 क्षिक । धान्यराशौ त्रिरात्रस्थ शुक्त चुक्रं तदुच्यते ॥ वैद्यकम् (९)
 'सत्' साधु अभ्यर्हित सत्य विद्यमान प्रशस्त मे साधु धीर प्रशस्त
 मे पु०, मान्य सत्य विद्यमान मे त्रि०, साध्वी में स्त्री० ।

सद् भूर्जेना 'शितिः श्वेते मेचके निशिते त्रिषु ।
मनापि स्फुटयो 'व्यक्तो दृष्टान्तस्तु' निदर्शनम् ॥९८॥
शास्त्रं क्षत्ता क्षत्रियायां शूद्राद् द्वाः स्थेऽपि सारथी ।
हरौ हरे 'जिनेऽव्यक्ताऽजितौ मूर्तस्तु तक्षिणि ॥९९॥
भूपालभूधरौ 'भूमृत् स्त्रोपुष्पे मासयो ऋतुः ।
स्याद्भूपालेऽपि 'मूर्धाऽभिषिक्तो राजन्यमण्डले ।१००।
स्थपतिर्ना सुतैः पुत्रे पार्थिवे तनया सुता ।
सूते हस्तिपके 'यन्ता भर्ता स्वामिनिना त्रिषु ॥१०१॥

- (१) 'शिति' भूर्ज मे पु०, श्वेत मेचक निशित (काल अर्थात् सर्प में) त्रि० । (२) 'व्यक्त' मनोपि [मनोपिन्] ओर स्फुट मे त्रि० । (३) 'दृष्टान्त' निदर्श (उदाहरण) शास्त्र मरणमे पु० (४) 'क्षत्ता' (क्षत्) शूद्र से क्षत्रिय मे उत्पन्न को दारपाल को सारथि को भजिष्यातनय (दासीपुत्र) नियुक्त प्रजासृष्ट को भा कहते है पु० । (५) 'अजित अव्यक्त' हरि हर जिन मे पु०, अनिर्जित मे त्रि०, महत् (महान्) आदि आत्मा मे नपु०, अस्फुट मे त्रि० । (६) 'सूत' सारथि तक्षा क्षत्रिय से ब्राह्मणीसुत मे, बन्दी पारद मे पु०, प्रसूत प्रेरित मे त्रि० । (७) 'भूमृत्' से तृप अद्रि समझे जाते है पु० । (८) ऋतु स्त्रो पुष्प वसन्तादि दो दो महिने धोर मे पु० । (९) 'मूर्धाभिषिक्त' भूपाल मे 'मन्त्री मे' क्षत्रिय मे पु० । (१०) 'स्थपति' कञ्बुकी शिल्पिभेद मे पु०, सत्तम [अतिश्रेष्ठ] में त्रि० । (११) 'सुत' पुत्र मे पार्थिव मे पु० स्त्री अपत्य मे 'सुता' तनया बोधक है स्त्री० । (१२) 'यन्ता' [यन्तृ] हस्तिपक [महावत] सुत [सारथी] पु० । (१३) 'भर्ता' स्वामी अर्थ मे पु०, पोष्टा (पोष्टृ) धाता (धातृ) में त्रि० ।

पोष्टृधातोः, अथोयान पात्रे पोतः शिशावपि ।

मृते प्राण्यन्तरे प्रेतौ हस्तो भे-भकरादिषु । १०२॥

केतुं लक्ष्मपताकारु ग्रहौत्पाताऽरिषु स्मृतः ।

उत्पातेऽग्नौ धूमकेतु जीमूतोऽद्रौ च वारिदे ॥१०३॥

तदेऽर्णवे सरस्वान् स्याद् गरुत्मान् तार्क्ष्य पक्षिणोः ।

भासे खगे गकुन्तोऽथ विवस्वान् देवसूर्ययोः ॥१०४॥

इति तान्ता

माने सानुनि प्रैस्थोऽस्त्री स्यादास्थौऽऽस्थानयत्नयोः ।

(१) 'पोत' यानपात्र [छोटी नौका वहित्र) शिशु गृहस्थान वासस् मे पु० । (२) 'प्रेत' भूतान्तर मे पु०, मृत मे त्रि० । (३) 'हस्त' भ (नक्षत्र) इभकर [हाथी के सूढ़] कर मे सप्रकोष्ठकर मे ऋक्ष आदि से भिन्न केश व्रात मे पु० [(४) 'केतु' लक्ष्म पताका रुजू ग्रह उत्पात अरि मे पु० । (५) 'धूमकेतु' उत्पात ग्रहभेद अग्नि को कहते है पु० । (६) 'जीमूत' अद्रि धृतिकार देवताड [देवताल] पयोधर [मेघ] मे पु० । (७) 'सरस्वान्' नद अब्धि मे पु० रसिक मे अन्यवत् वाणी स्त्री रत्न वाक् देवी गो नदी नदीभित् मे स्त्री० । (८) 'गरुत्मान' पक्षी और गरुड मे पु० । (९) 'गकुन्त' भास मे अर्थात् भा गोष्ठकुक्कुट गध मे [और खग मे पु० । (१०) 'विवस्वान्' देव मे सूर्य मे पु०, [विवस्वतपु। का नाम 'विवस्वनी' स्त्री०, विवस्वदपत्य मे वैवस्वनी वैवस्व- वैवस्वनम् त्रिलिङ्ग] । इति तान्ता ।

(११) 'प्रस्थ' (एवसेर) म भेद सानु उन्मितवस्तु में पु० नपु० । (१२) 'आस्था आलम्बन आस्थान यत्न श्रद्धा में स्त्री

तमोनुदोऽग्निश्चन्द्राकौ स्युस्तुर्याऽशाऽहि रश्मयः ॥११०॥
 पादा विश्रम्भ निन्दाऽऽज्ञा अपवादोऽथ गोष्पदम् ।
 सेविते चाऽपि मानेऽथ ऋतु वत्सरयोः शरत् ॥१११॥
 मन्दाः निर्भाग्य मूढाऽल्पाऽपटवोऽतीक्ष्ण कोमला ।
 मृदुः विशारदो विद्वत्सुप्रगल्भा वथाऽऽस्पदम् ॥११२॥
 प्रतिष्ठा कृत्ययोः स्वादु मधुरे ष्टौ त्रिषु स्त्रियाम् ।
 सविदं आजि क्रियाकार सभाषा ज्ञान नामसु ॥११३॥
 ककुच्चैककुद श्रेष्ठ वृषाङ्ग राजलक्ष्मसु ।
 ञब्दे वाक्ये पदे पाद चिह्नाऽपदेशवस्तुषु ॥११४॥
 व्यवसाय श्लोकपाद त्राण स्थानेषु लक्ष्मणि ।
 पद क्लीबेऽथ किरणे मेदिनी कृन्मते पुमान् ॥११५॥

(१) 'तमोनुद' अग्नि चन्द्र अर्क मे पु० । (२) 'पाद' चतुर्थांग अहि रश्मि मे पु० । (३) 'अपवाद' विश्रम्भ आज्ञा निन्दा मे पु० । (४) 'गोष्पद' गोपद मे गोपदाङ्कितभूगत (गाय के खुर के चिह्न) अवकाश मे नपु० । (५) 'शरत्' ऋतु और वत्सर मे स्त्री० । (६) 'मन्द' निर्भाग्य मूढ अल्प अपटु अतीक्ष्ण स्वैर रोगी मे त्रि०, हस्तिजात्यन्तर मे जनि मे पु० । (७) 'मृदु' अतीक्ष्ण कोमल मे त्रि० । (८) 'विशारद' सुप्रगल्भ (धृष्ट) विद्वान् मे त्रि० । (९) 'आस्पद' प्रतिष्ठास्थान कृत्य मे नपु० । (१०) 'स्वादु' मधुर मे मनोज मे त्रि० । (११) 'सविद' समर क्रियाकार (क्रिया का नियम) सभाषा ज्ञान नाम प्रतिज्ञा आचार सकेन तोषण मे स्त्री० । (१२) 'ककुद कुकुद ककुद' श्रेष्ठ (प्राधान्य) वृषाङ्ग राजलक्ष्म (नृ) मे पु० नपु० । (१३) 'पद' ञब्द वाक्य पद पादचिह्न अपदेश वस्तु व्यवसाय श्लोकपाद त्राण स्थान लक्ष्म (चिह्न) मे नपु०, मेदिनीकार के मत से किरण मे पु० ।

स्कन्ध स्तरु प्रकाण्डादौ स्नुही लेपोऽमृतं सुधा । १२०
मर्यादाया प्रतिज्ञाया संधाऽथ प्रार्थने चरे ।

प्रणिधि बुधं वृद्धौ च पण्डितेऽप्यवधिं विले ॥ १२१ ॥

परिच्छेदे विधि देवे विधानेऽपि विधुर्हरौ ।

सोमेऽध्वभारयोः पर्याहारे विवधवीवधौ ॥ १२२ ॥

बन्धे विनश्वरे दोषोत्पादे मुख्याऽनुयायिनि ।

वाले च प्रकृतस्याऽऽस्ते योऽनुबन्धोऽनिवर्तने ॥ १२३ ॥

अथात् वमन गजकर शाकर मे पु०, सरित् (नदी) मे लो० ।
(१) 'स्कन्ध' तरु प्रकाण्ड काय मद्रादि छन्दोभेद सपराय (ससाग्
युद्ध) मसुदाय (समूह) अम नृपति मे पुं० । (२) 'सुधा' स्नुही
(थुहर) लेप (रूण्डिका चूर्ण) अमृत मे स्त्री० । (३) 'सधा'
प्रतिज्ञा मर्यादा मे लो० । (४) 'प्रणिधि' प्रार्थना चर मे
पु०, (अवधान मे भी) । (५) 'बुध' चन्द्रसुत मे पु०, पण्डित मे
त्रि० । (६) 'वृद्ध' जीर्ण प्रवृद्ध ज मे त्रि० । (७) 'अवधि'
अवधान सीमा का अर्थ 'अण्डकोश' भी है काल विल मे पु० ।
(८) 'विधि' नियति काल विधान परमेष्ठी (ष्टिन्) मे पुं० (विरही
को व्यथित करने वाला) । (९) 'विधु' शशाङ्क कर्पुर्गृह्णीकेश
राक्षस मे पु० । (१०) 'विवध वीवध' स्कन्धवाह्य काष्ठ जिम मे
दोनों और शिक्ये बंधे हो ऐसी जो (विहगिका भारयष्टि) जिसे
हिन्दो मे 'कावड़' कहते हैं ऐसे पर्याहार मे और पर्याहार सबन्धित
मार्ग मे भार मे पु० । (११) 'अनुबन्ध' बन्ध मे विनश्वर मे
दोषोत्पाद मे मुख्याऽनुयायी वाल मे प्रकृत के अनिवर्तन मे पु० ।

स्याद् यज्ञियतरोः शाखा परिधिश्चोपसूर्यकम् ।

समाधिर्ध्यान नीवाक् नियमेषु समर्थने ॥१२४॥

प्रत्याशा बन्धके चित्त पीडा व्यसनयोः पुमान् ।

अधिष्ठाने स्थितश्चाऽऽधिः , इति धान्ताः ।

पत्री तु शरपक्षिणौ ॥१२५॥

‘हायनोऽर्चि व्रीहि वर्षो पक्ष्यश्चौ वाजिनः स्मृताः ।

‘शिखरी तरु शैलैस्त साद्य श्वारोह सारथी ॥१२६॥

अभिपन्नोऽपराद्धाऽभिद्रुतग्रस्तविपद्गताः ।

अधिष्ठानं प्रभावाऽध्यासन चक्रपुरेष्वपि ॥१२७॥

तैलिन स्तोत्रविरलौ वनं कानननीरयोः ।

स्वश्रेष्ठेऽपि मणौ रत्नं सस्थानं स्याच्चतुष्पथे ॥१२८॥

(१) ‘परिधि’ यज्ञिय तरु की शाखा मे उपसूर्यक म पु० ।

(२) ‘समाधि’ ध्यान नीवाक नियम समर्थन और काव्य के गुणान्तर मे पु० । (३) ‘आधि’ प्रत्याशाबन्धक चित्तपीडा व्यसन अधिष्ठान मे पु० । इति धान्ता ।

(४) ‘पत्री (पत्रिन्)’ श्येन रथ शर रूपाधिष्ठित तरु रथिक अद्रि मे पु० । (५) ‘हायन’ अद्र मे पु० नपु०, अर्चिषू (रश्मि) व्रीहि (वर्ष मे एक बार फलनेवाला धान्य) मे पु० । (६) ‘वाजिन्’ अश्व बाण पक्षी में पु० । (७) ‘शिखरी’ (रिन्) तरु मे पर्वत मे पु० । (८) ‘सादी (न)’ अश्वारोही सारथि मे पु० । (९) ‘अभिपन्न’ अपराद्ध अभिद्रुत ग्रस्त विपद्गत में पु० । (१०) ‘अधिष्ठान’ प्रभाव अध्यासन रथाङ्ग (चक्र) पुर (नगर) मे नपु० । (११) ‘तलिन’ स्तोत्र विरल और स्वच्छ मे नपु० । (१२) ‘वन’ कानन नीर निवास निलय (कुल्यधर) मे त्रि० । (१३) ‘रत्न’ स्वजातिश्रेष्ठ मे मणि मे नपु० । (१४) ‘सस्थान’ चतुष्पथ सन्निवेश मृत्यु आकृति मे नपु० ।

आकृत्यां सन्निवेगे च मरणेऽप्यथ लक्ष्म च ।
 चिह्न प्रधानयो र्वहि बर्हिणौ शिखिनौ मतौ ॥१२९॥
 विरोचनोऽग्निश्चन्द्राऽर्कौ ग्रावा प्रस्तरपर्वतौ ।
 प्रतियत्नस्तु सस्कारो लिप्सोपग्रह एव च ॥१३०॥
 केशेना वृजिनो जन्म भूम्यामभिजनः कुले ।
 ऋदनं रोदनाऽऽह्वाने सूनाऽधो जिह्विकादिषु ॥१३१॥
 वेदाविप्रस्तपस्तत्त्वं ब्रह्मब्रह्मा प्रजापतिः ।
 तनुस्त्वक्काययोः क्रीडा व्यवसायादि देवेनम् ॥१३२॥
 कृत्ये निमन्त्रणे केतौ केतन भीरु वन्दयोः ।

(१) लक्ष्म (न्) चिह्न और प्रधान मे नपु० । (२) 'शिखी (न्)' बर्हि मयूर बज्रवर्द शर केतुग्रह द्रुम कुक्कुट मे पु०, और अन्य जिस्वानो मे त्रि० ।

(३) 'विरोचन' अग्नि चन्द्र अर्क (सूर्य) और प्रह्लाद-पुत्र (बलि) मे पु० । (४) 'ग्रावा (न्)' प्रस्तर (पत्थल) पर्वत में पु० । (५) प्रतियत्न' सस्कार लिप्सा उपग्रहण मे पु० । (६) 'वृजिन्' केश मे पु०, कल्मष मे नपुं०, कुटिल मे त्रि० । (७) 'अभिजन' जन्मभूमे कुल ख्याति कुलव्रत मे पु० । (८) 'ऋदन' रोदन मे आह्वान मे नपु० । (९) 'सून' प्रसव पुष्पा मे नपु०, 'सूना' पुत्री वधस्थान जिह्वातल में स्त्री० । (१०) ब्रह्मन्' वेदतत्त्व तपस्या मे नपु०, 'ब्रह्मा' वेधा ऋत्विक् योगमित मे पु० । (११) 'तनु' त्वक् (त्वचा) देह मे स्त्री० (अल्प विरल कृश मे त्रि० । (१२) 'देवन' क्रीडा व्यवसाय (व्यवहार) जिगीषा मे नपु०, अक्ष मे पु० । (१३) 'केतन' कार्य ध्वज निमन्त्रण निवास मे नपु० ।

'कामिनो वज्र तडितो ह्रादिन्यैश्च वाहिनी' ॥१३३॥

सैन्य तरङ्गिणी सेना मूर्ख नीचा पृथग्जनः ।

चित्रभानुस्तु सूर्येऽग्नौ भानू रश्मि दिवाकरः ॥१३४॥

भूतात्मा यातृदेहोस्तो वर्त्माऽक्षिच्छद्रमार्गयोः ।

ग्रहदेहः प्रभावस्त्वद्द वामानि पिशुनः खले ॥१३५॥

गुह्येऽकार्येऽपि कौपीन क्षणे पर्व तियावपि ।

अवकाशे स्थितौ स्थान निर्धन कुलनाशयोः ॥१३६॥

'कामिनो' भीरु और वन्दा (अर्थात् वृक्ष त्वगेष अथवा
रीकन्द) मे स्त्री०, कामुक चक्रवाक पारावत् मे पु० 'कामा' ।

'ह्रादिनी' वज्र और विद्युत् मे स्त्री० । (३) 'वाहिनी'

। तरङ्गिणी (स्रवन्ता) सेना मे स्त्री० । (४) 'पृथग्जन' (पृथ-

गोजन) मूर्ख नोच मे पु० । (५) 'चित्रभानु' सूर्य वह्नि मे

। (६) 'भानु' रश्मि दिवाकर मे पु० । (७) 'भूतात्मा'

। देह मे पु० (८) 'वर्त्मा' नेत्रच्छद्र मार्ग मे नपु० । (९)

मन्' गृह देह (जन्म) प्रभाव (शक्ति) त्वद् (तेजस्) मे नपुं० ।

०) 'विशु' कपिवक कारु मे पु०, पृक्क मे स्त्री०, कुंडुकुम मे

०, खल और मूचक (चुगच्छोर) मे त्रि० । (११) 'कौपीन'

पक्षी अकार्य मे नपु० । (१२) 'पर्व' उत्तमव ग्रन्थि प्रस्ताव

पुत्र आदि अभावस्या और प्रतिपद का सन्धि तथा तिथिपञ्च-

ान्तर अर्थात् चतुर्दश्यष्टमी अभावस्यच पूर्णिमा इन अर्थो मे नान्त

पु० । (१३) 'स्थान' वृद्धि क्षयेतः सादृश्य अवकाश स्थिति मे

पुं०, उचित अर्थ मे अन्यय । (१४) 'निधन' कुलनाश मे नपु० ।

उद्यान वनभेदः स्यान्निसृतिश्च प्रयोजनम् ।
समानः सत्समैकेषु तरस्वी वेगि शूरयोः ॥१३७॥
साधनाऽवाप्ति तोषण्वाराधनं बुद्धिचिह्नयोः ।
प्रज्ञानमभिमानस्तु दर्पे प्रणयहिसयोः ॥१३८॥
पुस्तकाऽऽहव तन्त्रेषु त्थानं पौरुषेऽपि च
शक्र घातुकमत्तेभ वर्षुकाब्दा घनाधनः ॥१३९॥
दाने न्यासापर्णेऽरीणा शुद्धौ निर्यातनं स्मृतम् ।
व्यसनं भ्रश विपदो दोषे कामजज्ञोपजे ॥१४०॥
मेघे निरन्तरे मूर्ति गुणे भूते घनस्त्रिषु ।

- (१) 'उद्या' वनभेद नि सृति प्रयोजन मे नपु० ।
(२) 'समान' मत् सम एक मे त्रि०, नाभि वायु मे पु० । (३) 'तरस्वी' वेगवान् शूर मे त्रि० । (४) 'आराधन' साधन अवाप्ति तोषण मे नपु० । (५) 'प्रज्ञान' बुद्धि और चिह्न मे नपु० । (६) 'अभिमान' अर्थ आदि के दर्प मे अज्ञान, प्रणय हिंसा मे नपु० । (७) 'उत्थान' तन्त्र मे अर्थ त् कृटुम्बकृत्य पिद्धात औषधोत्तम प्रधान तन्तुव य (तन्तुवान) जालभेद परिच्छेद श्रुतिशाखातर उभयार्थप्रयोजक हेतु मे पुस्तक रण मे (मेदिनीकोष के मत से प्राङ्गण उद्गम हर्म्य मलवेग मे) नित्य नपु० । (८) 'घनाधन' शुक घातुक मत्तेभ (पागल हाथी) वर्षुकाब्द अर्थान् वर सनेवाला बादल अथवा सवत्सर मे पु०, (घरणि कोषने अन्योन्य घट्टन और घातुक मे ही 'घनाधन' है ऐभा माना है) । (९) 'निर्यातन' दान मे न्यासापर्ण मे वैशुद्धि मे नपु० । (१०) 'व्यसन' भ्रश मे अर्थात् अघ पतन मे दैवानिष्टफल मे निष्फलोद्यम मे पाप मे अशुभ मे सकित मे कामजदोष मृगया धूत पानादि मे कोपजदोष वाक्पारुष्य दण्डपारुष्य अर्थ दूषण आदि मे नपु० ।

विरोधाऽऽचरणेऽपि स्याद् व्युत्थान प्रतिरोधने ॥१४१॥

सूर्ये प्रभाविनो राजा नृपे क्षत्रिय सोमयोः ।

सूचनोत्साह हिंसासु गन्धन सुरशिल्पिनि ॥१४२॥

सूर्ये च विश्वकर्माऽथ वर्ष्मदेहप्रमाणयोः ।

परमात्मनि बुद्धौ च प्रधान मद्रतुच्छयोः ॥१४३॥

वितान त्रिषु विस्तार क्रत्वोर्न साधनं गतौ ।

मारणे मृतसंस्कारे द्रव्योपपादनेऽपि च ॥१४४॥

आतञ्चन प्रतीवापे वेग तर्पणयो रथ ।

(१) 'घन' निरन्तर (सान्द्र) मूर्तिगुण (काठिण्य सघात)

मूर्त (मूर्च्छाल) मेघ मुस्त विस्तार लोह मुद्गर में त्रि० । (२)

'व्युत्थान' विरोधाचरण में प्रतिरोध मे स्वतन्त्रता मे नपु०

(विरुद्धसुत्थानम्) । (३) 'इन' सूर्य नृप पति मे पु० । (४)

'राजा' (न) नृप क्षत्रिय चन्द्र प्रभु यक्ष शक्र मे पु० । (५)

'गन्धन' सूचन उत्साह हिंसा प्रकाशन मे नपु० । (६) विश्वकर्मा

(न) सुरशिल्पी सहस्राशु (मुनिभित्) मे पुं । (७) 'वर्ष्म' देह

प्रमाण अतिसुन्दराकृति मे नपु० । (८) 'प्रधान' महामात्र प्रकृति

परमात्मा प्रज्ञा मे नपु, उत्तम मे तो एकवचनान्त ही होता है ।

(९) 'वितान' यज्ञ उल्लोच विस्तार मे पु नपु वृत्तविशेष मे नपु,

मद में तुच्छ मे त्रि० (१०) 'साधन' गतिमारण मृतसंस्कार सैन्य

सिद्धौषध निर्वतन उपाय मेद् दापन अनुगम घनोपपादन में

नपु० । (११) 'आतञ्चन' दव्यादिभाव हेतुक दुग्धादि मे

तकादि प्रक्षेप अथवा निक्षेप मात्र को सज्ञा प्रतीवाप है प्रतीवाप

मे ज्वनवेग मे आप्यायन तर्पण मे नपु० ।

१'आत्मा बुद्धौ धृतौ यत्ने स्वभावे ब्रह्मवर्षणोः ॥१४५

२'आच्छादनं सपिधाने वस्त्रेऽपवृत्ति मात्रके ।

३'कौलीनमपवादेऽपि पशु पक्ष्य हि योधने ॥१४६॥

४'व्यञ्जन श्मश्रु निष्ठानाऽवयवेष्वपि लाञ्छने ।

किञ्जलकेऽणा वक्षि लोम्नि ५'पक्ष्माश्च सङ्गतौ रते ॥१४७

६'मथुनं ७'वाणिनी दूती नर्तकी फलपुष्पयोः ।

८'प्रसून ९'न्यून हीनेस्त ऊने गहर्घ्ये इति नान्ताः ।

१०'कच्छपी' ॥१४८॥

कूर्म्यां वीणा प्रभेदेऽग्नि रीशविष्णु वृषाकपिः ।

(१) आत्मा (न्) वृद्धि वृत्ति यत्न स्वभाव ब्रह्म परमात्मा वर्षम कलेवर चित्त मे और व्यावर्तन मे पु० । (२) 'आच्छादन' सपिधान वस्त्र अपवृत्तिमात्र मे अर्थात् लुपने लुपाने के सावनो मे नपु० । (३) 'कौलीन' लोकवाद मे पशु अहि पक्षियों के युद्ध मे नपु० । (४) 'व्यञ्जन' निष्ठान अर्थात् तेमन (व्यञ्जन) मे श्मश्रु के अवयव मे चिह्न मे नपु० । (५) पक्ष्म' सूत्रादि सक्ष्माश्च मे किञ्जलक [केसर] मे अक्षिञ्चोम मे नपु० । (६) 'मिथुन' सगत [सबन्ध] मे सुरत युग्म मे राशि मे नपु० । (७) 'वाणिनी' नर्तकी दूतीमत्ता अथवा विदग्धा स्त्री मे स्त्री०, वाणिनी और वाहिनो शब्द मेदिन्य दि कोष मे पवर्गीयादि हेमकोश मे अन्तस्थादि देखे जाते है । (८) 'प्रसून' फल और पुष्प मे नपु० । (९) 'न्यून' तथा हीन गहर्घ्य और ऊन मे नपु० । इति नान्ता । (१०) 'कच्छपी' डुलि वल्लकी भेद क्षुद्रगदान्तर [छोटी गदा] मे स्त्री० । [११] 'वृषाकपि' जातवेदा [अग्नि] शरर विष्णु मे पु० ।

कलापोवर्ह तूणीर भूषणेपु च सहते ॥१४९॥

प्राप्तरूपोऽभिरूपःस्वरूपो बुध मनोज्ञयोः ।

गोधुग् गोष्ठपतिर्गोपैः परीवापस्त्वपा स्थितिः ॥१५०॥

परिच्छदे च पर्युप्तौ विटपः पल्लवेऽपि च ।

शय्याऽट्टालकदारेषु तल्पमाच्छदनाऽन्नयोः ॥१५१॥

कशिपुर्न स्त्रिया मूष्माऽश्रुणीवाष्पं

इति पान्ता ।

..

.

रवर्ण के ।

इति फान्ता ।

ना कुत्सितेऽन्यवद् रेफः

...

कम्बुर्वलय शंखयोः ॥१५२॥

(१) 'कलाप' वर्ह तूण'र भूषण [काञ्ची] सहति मे पु० मेदनी कोष की विशेषता है कि चन्द्र विदग्ध व्याकरण मे कहा है । (२) 'प्राप्तरूप' अभिरूप स्वरूप बुध और मनोज्ञ मे त्रि० । (३) 'गोप [गोपा] गोष्ठपति [गोशाला के स्वामी] गोदोग्धा [गाय दूहने वाला] गोपाल मे पु० । (४) 'परीवाप' जलस्थिति पराच्छद [परिवार] पर्युप्ति मे पु० । [५] 'विटप' स्तम्भ शाखा विस्तार पल्लव [अल्प जलाशय] पु० नपु, विटाधिप मे पु० । (६) 'तल्प' शय्या अट्टालक दारा में पु० नपु० । (७) 'कशिपु' आच्छादन अन्न [भक्त] में पु० नपु० । (८) 'वाष्प' ऊष्म अश्रु मे नपु० [अमर हैम भी स्पर्शादि ही मानते है । गोवर्धनाचार्य ने मेदिनी कोष के आधार पर 'वाष्प पर्याकुलम्' ऐसा अन्तस्थ वकार रक्खा है । इति पान्ता । (९) 'रेफ' रवर्ण मे पु०, कुत्सित मे त्रि० । इति फान्ता । (१०) 'कम्बु' वलय गज शम्बूक मे पु०, शंख मे स्त्री० ।

पुंस्कोक्तिलेऽपि गन्धर्वः खेचरे दिव्यगायने ।
 अन्तराभवसत्त्वेऽश्वे द्विजिह्वः सर्पसूचकौ ॥१५३॥
 पूर्वजे नरि भूमिन् स्युः पूर्व प्रागग्रत त्रिषु ।
 त्रिषु विक्रम हीने स्यात्क्रीवँ षण्ठे पुमानपि ॥१५४॥
 इति बान्ता
 बालिगो वा शिशुर्दिम्भः सभा सभ्येऽपि संसदि ।
 कुमुम्भः करके क्लीवं स्यान्महारजनेऽपि च ॥१५५॥
 कुम्भो घटे भू मूर्धनो नां शम्भु ब्रह्माऽर्हतोः शिवे ।
 कुक्षे भ्रूणेऽर्भके गर्भो विस्त्रम्भः प्रणयादिषु ॥१५६॥

(१) 'गन्धर्व' पुंस्कोक्तिञ्च खेचर दिव्यगायन अन्तर्गभव-
 सत्त्वं अश्व पशुभेद मे पु० । (२) 'द्विजिह्व' सर्प मे सूचक
 [चुल्लोत्तोर] विशेष्यजिह्व । (३) 'पूर्व' पूर्वज मे पु० बहुवचनान्त
 है, 'पूर्व' प्राक् अग्रत मे त्रि० । 'क्रीव' विक्रम हान मे त्रि० षण्ठ
 मे पु० नपु० । इति बान्ता ।

(५) 'दिम्भ' बालिश अज और शिशु मे पु० । (६)
 'सभा' सामाजिक गोष्ठि द्यूत मन्दिर मे स्त्री० । (७) 'कुमुम्भ'
 कर्क अर्थात् पक्षिविशेष दाडिम एला (इलायची) मेघोपत्र करङ्क
 कम्ण्डलु मे पु०, महारजन मे हेम में नपु० । (८) 'कुम्भ' घट इभ-
 मस्तक राशिभेद वैश्यापति कुम्भकर्णमुत्त में पु०, त्रिवृत् अर्थात् शुक्र
 त्रिधारा में गुग्गुलु मे नपु० । (९) 'शम्भु' महादेव परमेष्ठी अर्हत
 विष्णु में पु० । (१०) 'गर्भ' कुक्षि भ्रूण अर्भक सन्धि पनसकण्ठक
 में पु० । (११) 'विस्त्रम्भ' केलिकलह विश्वास प्रणय वध मे पु०
 (अमरमाला कोष ने परेचय प्रार्थना में भी माना है) ।

स्तम्भः स्थूणा जडोभावः स्त्रियान्तु मुंरभिर्गवि ।
 २ दुन्दुभिः पुसि भेर्या स्यात्स्त्र्यक्षे विन्दु त्रिकद्वये १५७
 ३ वल्लभो दयिताऽव्यक्ष सल्लक्षण तुरङ्गमाः ।
 क्षत्रियेऽपि पुमान्नाभिः

इति भान्ता ।

४ रश्मिः किरण प्रग्रहो ॥१५८॥

परिभुक्तोज्झिते जीर्णे ५ यातायाम ६ प्लवगमः ।
 कपि भेकौ हरित्कृष्णौ श्यामः ७ स्त्री शरिवा निशा ।
 वृन्दे स्तोत्रेऽध्वरे स्तोमं ८ शौर्यो धोगौ ९ पराक्रमः ।

(१) 'स्तम्भ' गृहस्तम्भ स्थूणा सूर्मा जडोभाव मे पु० । (२) 'सुरभि' शल्लकी (साही सेली)मातृभूमि गो सुरगो मे स्त्री०, चम्पक वसन्त जातीफल विख्यात सचिव धीर चैत्र मे पु०, स्वर्ण गन्धोत्पल मे नपु. सुगन्धिकान्त मे त्रि० । (३) 'दुन्दुभि' वरुण दैत्य भेरी मे पु०, अक्ष विन्दु त्रिकद्वय मे नपु० (दुन्दुभ्या खलु तत्कृत पतितया यद् द्रौपदी हारिता) । (४) 'वल्लभ' दयित अव्यक्ष सल्लक्षण-तुरङ्गम मे त्रि० । (५) 'नाभि' मुख्यनृप चक्रमध्य क्षात्रय मे पु०, प्राणि प्रतीक मे पु० नपु०, कस्तूरिकामद मे स्त्री० । इति भान्ता । (६) 'रश्मि' किरण प्रग्रह (पक्ष्म) मे पु० । (७) 'यातायाम' परिभुक्तोज्झित मे जीर्ण मे त्रि० । (८) 'प्लवगम' कपि भेक मे पु० । (९) 'श्याम' प्रयागवट वारिद वृद्धदारक पिक हृत् कृष्ण मे पु०, तद्वान् मे त्रि०, सिन्धु लवण मे नपु०, शरिवा अप्रसूताङ्गना प्रियङ्गु यमुना त्रियामा कृष्ण त्रिवृत्तिका नीलिका मे स्त्री० । (१०) 'स्तोम' वृन्द स्तोत्र अध्वर मे पु० । (११) 'पराक्रम, सामर्थ्य शौर्य उद्योग मे पु० ।

मनोभवेच्छयोः कामो नैगमो निगमो वणिक् ॥१६०॥
 ग्रामो वृन्देऽपि शब्दादि पूर्वः क्रान्तौ तु विक्रमः ।
 निगमो वणिक् पथो वेद पुरं स्वसृ कुलस्त्रियोः ॥१६१॥
 जामि रुक्सेनयोः स्तम्बे गुल्मः क्षान्तौ क्षितौक्षमा ।
 अलसे कुटिले जिह्वो न्यूनैऽपि कुत्सितेऽधमः ॥१६२॥
 क्षमः शक्ते हिते युक्ते वामं वल्गु प्रतीपयोः ।
 रामो बले नील चारु सितेऽपित्रिष्वुपक्रमः ॥१६३॥
 उपाय पूर्व आरम्भः उपधाऽथाऽध्यात्मकैतवो ।

- (१) 'काम' स्मर इच्छा मे पु, रेतस् निष्काम काम्यमे नपु० ।
 (२) 'नैगम' उपनिषद् वणिक् नागर मे पु० । (३) 'ग्राम' स्वर
 सवसथ वृन्द शब्दादिपूर्वक मे पु० । (४) 'विक्रम' शक्ति
 सम्पत्ति और क्रान्तिमात्र मे पु० । (५) 'निगम' वणिक्पथ वेद कट
 पुरी वाणिज मे पु० । (६) 'जामि' स्वसा कुलस्त्रो मे स्त्री० ।
 (७) 'गुल्म' स्तम्ब प्लीहा घट्ट सैन्य मेन्यरक्षण वल्ली वृक्षविशेष
 समूह मे पु० । (८) 'क्षमा क्षान्ति [तितिक्षा] क्षिति [पृथ्वी]
 मे स्त्री० । (९) 'जिह्व' अलस कुटिल मे त्रि० । (१०) 'अधम'
 न्यून कुत्सित मे त्रि० । (११) 'क्षम' शक्त मे हित मे युक्त मे त्रि० ।
 (१२) 'वाम' सव्य प्रतीप द्रविण अतिसुन्दर पयोधर हर काम मे
 त्रि०, इमका छालिङ्गरूप 'वामा' हा होता है । 'वामी' तो
 शृगाली अश्वा रामभो कम्भी अर्थ मे ही होता है । (१३) 'राम'
 पशुविशेष जामदग्न्य बलराम दाशरथि सित श्वेत मनोज्ञ मे त्रि० ।
 (१४) 'उपक्रम' चिकित्सा आरम्भ विक्रम उपधा मे पु । (१५)
 'सुद्धम' अध्यात्म कैतव मे नपु०, अग्नि मे पु०, अल्प मे त्रि० ।

“सूक्ष्म ललाम पुच्छाऽव भूषा प्राधान्यकादिषु ॥१६४॥

ललाम धर्म आचार स्वभाव न्याय सोमपाः ।

प्रथमस्तु प्रधानादी इति मान्ताः ।

वदान्यो दातृ वाग्मिनाः ॥१६५॥

समुच्छ्रयो विरोधेऽपि द्रव्यं भव्य गुणाश्रयो ।

तुरगे गरुडे ताक्षर्यो मन्वु दैन्ये क्रुति क्रतो ॥१६६॥

समयः काल सिद्धान्त शपथाऽऽचारसविदः ।

श्वशुर्यो देवर श्यालः पर्यद्यपि प्रतिश्रयः ॥१६७॥

प्रेम विश्रम्भ याश्चासु प्रणयो यच्छुभाऽशुभम् ।

- (१) ‘ललाम [न] ललाम’ प्रधान वज शृङ्ग पुण्ड्र अर्थात् अश्वदि ललाट चित्र अश्वभूषा अश्व प्रभाव मे नपु० । (२) ‘धर्म’ आचार स्वभाव न्याय पुण्य उपमा क्रतु अहिंसा उपनिषद् में पु० नपुं०, धनुष्यम सोमपमे पु० । (३) ‘प्रथम’ प्रधान आदि बोधक में विशेष्यलिङ्ग । इति मान्ता । (४) ‘वदान्य’ दाता वाग्मी में त्रि० (५) ‘समुच्छ्रय’ वैर उन्नती मे पु० । (६) ‘द्रव्य’ द्रविण भव्य पृथिव्यादि पित्तल भेषज विद्येप रीति जतु द्रुम विद्येप मे नपु० । (७) ‘ताक्षर्य’ तुरग सर्प गरुडाग्रज गरुड मे पु०, रसाञ्जन मे नपुं० । (८) ‘मन्वु’ दैन्य क्रोधक्रतु शोक मे पु० । (९) ‘समय’ काल सिद्धान्त शपथ आधार सविद (ज्ञानधी) क्रियाकार निर्देश सकेत भाषा मे पु० (१०) ‘श्वशुर्य’ क्रमज पति पत्नी देवर और श्याल मे पु० । (११) ‘प्रतिश्रय’ आश्रय अभ्युपगम सभा मे पु० । (१२) ‘प्रणय’ विश्रम्भ प्रेम याञ्चा प्रसर निर्वाण परिचय विश्वास विप्रलम्भ में पु० ।

कर्म भाग्यं रहस्योप स्थयो गुह्यं कलौ युगे ॥१६८॥
 पुण्ये तिप्यो विशल्यातु दन्तिका नाम शोभयोः ।
 अभिख्या विषयो ज्ञातो यस्तु शब्दादिकेष्वपि ॥१६९॥
 अन्यक्षस्थानगोहेषु विषय शपथतथ्ययोः ।
 सत्य कषायो निर्यासे वीर्य बलप्रभावयोः ॥१७०॥
 स्थूलोच्चैयस्त्व साकल्ये गण्डोपलकरण्डयोः ।
 कक्ष्या प्रकोष्ठ मध्ये भवन्धकाञ्चीषु मध्यमम् ॥१७१॥
 न्याय्ये रूप्य प्रशस्तेऽपि रूपे पुण्यं तु चार्वापि ।

(१) 'भाग्य' शुभाऽऽवह विधि मे शुभाऽशुभ कर्म मे नपुं० । (२) 'गुह्य' रहस्य उपरथ मे नपु०, कमठ दम्भ मे पु० । (३) 'तिप्य' कलियुग पुष्यन्क्षत्र मे पुं०, 'तिप्या' घात्री मे स्त्री० । (४) 'विशल्या' दन्ती अग्नि शिखा (इन्द्रपुष्पी) गुडुची त्रिपुटा (छोटी डलायची) मे स्त्री० । (५) 'अभिख्या' नाम (अभिधान) शोभा यज्ञ मे स्त्री० । (६) 'विषय' गोचर देश जनपद (जनावास) जिसके प्रबन्ध से जो ज्ञात होसके उस रूपादिक मे पु० । (७) 'विषय' अग्नि ऋक्ष स्थान गृह शक्ति मे नपुं० । (८) 'सत्य सत्ययुग शपथ तथ्य मे नपु० तद्वान् मे त्रि० । (९) 'कषाय' रसभेद अङ्गराग विलेपन निर्याम मे पु० नपु, सुरभि लोहित मे अन्यदत् । (१०) 'वीर्य' सामर्थ्य प्रभाव शुक्र तेज मे नपुं । (११) 'स्थूलोच्चय' असाकल्य गण्डोपलकरण्ड मे पु । (१२) 'बृहती' अर्थात् क्षुद्रवार्ता की आदि मे हर्म्यादि प्रकोष्ठ मे मध्ये भवन्धन अर्थात् हार्थी का पेटकस मे और काञ्ची मे स्त्री । (१३) 'मध्य' न्याय्य अवलग्न अन्तर अधम मे त्रि । (१४) 'रूप्य' आयत स्वर्ण रजत मे नपु, सुन्दर मे त्रि । (१५) 'पुण्य' मनोज मे त्रि०, सुकृत धर्म मे नपु ।

अर्थानपेन आत्मज्ञोऽर्थः सोम्य मुन्दगदिपु ॥१७२॥

वक्तव्य कुल्लिटे हीने कर्त्यः ऋजे निरामये ।

छायात्प्रना तपेऽपि स्यात्प्रतिविशाऽर्हं वापिनाः ॥१७३॥

जनवादेऽपि जन्याऽयं जन्य श्रामेऽपि ।

व्यमनेऽनिष्ट दैवेपि विपद्यप्यनयः क्रमे ॥१७४॥

पर्यायोऽवसरेऽर्थाः स्याद् वैश्य श्रामिनोरपि ।

त्रिषु क्रिया देवतयो भेद्ये कृत्या प्रनादिभिः ॥१७५॥

कशेरौ हेमिनि गौणेय भ्रातृव्यो भ्रातृजे द्विपि ।

हिन्दी—(१) 'अर्थ' अर्थयुक्त आत्मवान् न्याय्य में त्रि०,

शिला जतु में नपु० । (२) 'सौम्य' सोमान्मज अनुप्र मनोज्ञ

सोमदैवत में त्रि०, मृगशिर. शिर स्थ पञ्चनारक (इल्वला) मे बहु-

वचन स्त्री० । (३) 'वक्तव्य' कुल्लित हीन वचनार्ह में त्रि० । (४)

'कल्य' प्रभात मे नपु०, वाक्श्रुति वर्जित सञ्ज नीरोग दक्ष कल्याण-

वचन उपायवचन में त्रि०, मद्य मे स्त्री० । (५) 'छाया' अनात्प

प्रतिबिम्ब सूर्यपत्नी में स्त्री० । (६) 'जन्यं' हृद् जनवाद (परीवाद)

सग्राम मे नपु०, 'जन्या' मातृवयस्या मे स्त्री०, 'जन्य' जनक

मे पु०, 'जन्य' उत्पाद्य जनितृ नवोढा ज्ञातृ भृय वरस्तिग्ध मे

त्रि० । (७) 'जघन्य' चरम शिशन मे नपु०, अवम (निन्द्य) में

त्रि० । (८) 'अनय' व्यसन अनिष्टदैव विरत् मे पु० । (९)

'पर्याय' प्रकार निर्माण अवसर क्रम मे पुं० । (१०) 'अर्थ' स्वामी

वैश्य में पु० । (११) 'कृत्या' क्रिया देवता घनादि भेद्य विद्विद्

विद्वान् मे त्रि० । (१२) 'गाङ्गेय' स्वर्ण कशेरु मे नपु०, भीष्म में

पु० । (१३) 'भ्रातृव्य' भ्रातृज और द्विद् में पु० ।

भूमन्यन्तगमने प्रायः पूज्यस्तुं श्वशुरादिषु ॥१७६॥

प्रत्ययः शपथज्ञानाऽधीन विश्वासहेतुषु ।

शब्दे रन्ध्रेऽथ सस्त्यायः सघात सन्निवेशयोः ॥१७७॥

ध्वनन्मेघाऽव्दग्बदेन्द्राः पर्जन्योऽतिक्रमेऽत्ययः ।

वृषाकपायी श्री गौरी वरी जीवन्तिकासु च ॥१७८॥

भवेदनुगयो द्वेषे पश्चात्तापाऽनुबन्धयोः ।

आपदायति युद्धेषु सपरायोऽथ सनयः ॥१७९॥

पश्चादवस्थायि बले समवायेऽप्यथ क्षयः ।

निलयेऽपचयेऽपि स्यात् इतियान्ताः ।

बल्यशु पाणयः करैः ॥१८०॥

ध्वान्ताऽगी दानवो वृत्रं आकारं स्त्विगिताऽऽकृती ।

(१) 'प्राय (म्). अनगन मृत्तु बाहुल्य तुल्य में अव्यय । (२)

'पूज्य स्वसुर आदि श्रेष्ठ में त्रि० । (३) 'प्रत्यय' शपथ ज्ञान अधीन विश्वास आचार हेतु सन् आदि रन्ध्र शब्द में पु० ।

(४) 'सस्त्याय' सघात सन्निवेश विस्तृति मे पु० । (५) 'पर्जन्य' ध्वनन्मेघ मेघ-शब्द इन्द्र मे पु० । (६) 'अत्यय' अतिक्रम कृच्छ्र उत्पात दोष नाश दण्ड में पु० । (७) 'वृषाकपायी' श्री गौरी वरी जीवन्ति का में स्त्री० । (८) 'अनुगय' द्वेष पश्चात्ताप अनु-

बन्धन मे पु० । (९) 'सपराय आपत् उत्तरकाल युद्ध में पु० । (१०) 'सनय पश्चादव स्थायी सेना और समवाय मे पु० ।

(११) 'क्षय' रोगान्तर वैशमकल्प अन्त अपचय मे पु० । इति यान्ता । (१२) 'कर बलि अंशु पाणि (वर्षोपल प्रत्याय राजस्व शुण्ड) में पु० । (१३) 'वृत्र प्रगाढाऽन्धकार अरि दानव शैलभेद मेघ में पु० । (१४) 'आकार इङ्गित (चेष्टा) आकृति (अवय-

वसस्थान) में पु० ।

कालेऽप्यजातशृङ्गो रश्मश्रुर्नाऽपि तूवरः ॥१८१॥
 यमेन्द्राऽर्काऽनिलाश्चन्द्र वाजि सिंहाशु विष्णवः ।
 कप्यहीशुकभेकौ च हरिर्ना कपिले त्रिषु ॥१८२॥
 मात्रा परिच्छदे वित्ते मानेकर्ण विभूषणे ।
 तीर्थापधि जलव्योम पद्मखड्ग फलेऽपि ॥१८३॥
 वाद्य भाण्डमुखे हस्ति हस्ताऽग्रे पुष्करं मतम् ।
 अग्र पुरस्तादुपरि परिमाणेऽप्यथो दरः ॥१८४॥
 श्वभ्रे भयेऽक्षर मोक्षेऽपवर्गेऽप्यथ चाऽम्बरम् ।
 व्योम्नि वाससि, गोत्रतु नाम्नि, तन्त्रं परिच्छदे ॥१८५॥
 सूत्रवायेऽपि सिद्धान्ते प्रधाने चाऽथ गह्वरः ।

(१) 'तूवर' प्रौढ उमर में शींगहोन पशुओं में, रश्मश्रुहीन उमरवाले पुरुषों में कषायरस में पु० । (२) 'हरि यम इन्द्र अर्क अनिल चन्द्र वाजा सिंह अंशु विष्णु कपि अहि शुक भेक में पु०, कपिल में त्रि० । (३) 'मात्रा' परिच्छद वित्तमान कर्ण-विभूषण अक्षरावयव स्वल्प में स्त्री०, कस्त्र्य अवधारण में नपु० । (४) 'पुष्कर' तीर्थ औषधि जल व्योम कमल खड्गफल वाद्यभाण्ड-मुख हस्तिहस्ताग्र (द्वीप विहग राग उरगान्तर) में नपु० । (५) 'अग्र पुरस्तात् उपरि फलपरिमाण आलम्बन समूह प्रान्त में नपु०, अधिक प्रधान प्रथम में त्रि० । (६) 'दर' श्वभ्र (गर्त) भय (सावस्) में नपु०, 'दरी कन्दर में स्त्री०, 'दर मनाक् अर्थ में अव्यय । (७) 'अक्षर' मोक्ष अपवर्ग ओ में नपु० । (८) 'अम्बर व्योम वल कार्पास सुगन्धक में नपु० । (९) 'गोत्र' नाम कुल (सभावनीयबोध कानन क्षेत्र कर्म) में नपु शैल में पु०, 'गोत्रा' भूमि गो में स्त्री० । (१०) 'तन्त्र' परिच्छद तन्तुवाय सिद्धान्त प्रधान कुटुम्बकृत्य औषधोत्तम शास्त्रभेद श्रुति शास्त्रान्तर उभयार्थक हेतु में नपु० ।

गुहा दम्भो, सिते पीतेऽरुणे गौरोऽथ शर्वरम् ॥१८६॥
घातुकेऽप्यन्धतमसे वज्रस्तु हीरके पवि ।

मुस्तके पिठरं राज कशेरुणि च नागरम् ॥१८७॥

सत्र वने सदादाने यशाऽऽच्छादनयोः रहः ।

उपहर समीपेऽपि द्वारमात्रेऽपि गोपुरम् । १८८॥

मन्दिरं नगरेऽगारे पुरं च हल कोडयोः ।

मुख्ये पोत्रं मौशीरं दण्ड स्वापाऽऽसनादिषु ॥१८९॥

(१) 'गहर' गुहा दम्भ निकुञ्ज गहन मे पु० नपु० ।

- (२) 'गौर सित (विशुद्ध) पीत अरुण मे त्रि० श्वेत मर्षप चन्द्र में पु०, 'गौरी' असजातरजा कन्या मे शकरभार्या, रोचनी रचनी पिङ्गा प्रियङ्गु वसुधा नदीविशेष सिन्धु पत्नी में स्त्री० । (३) शर्वर, घातुक अन्धतमस मे त्रि० । (४) 'वज्र हीरक' पवि, त्रपु, वस्त्र में पु०, नपु० बाधक धात्री मे नपु० । योगान्तर मे पु०, 'वज्रा' स्नुही गुड्घो मे स्त्री०, 'वज्री' स्नुहचन्तर मे स्त्री० । (५) 'पिठर' मुस्ता मन्थानदण्ड मे नपु०, स्थाली मे पु० । (६) 'नागर' कशेरु (पोठ की अस्तिऔर घास) मुस्तक शुण्ढा विदग्ध नगगेद्वय मे त्रि० । (७) 'सत्र' वन सदादन यज्ञ आच्छादन कैत्र मे नपु० । (८) 'उपहर' एकान्त समीप मे नपु० । (९) 'गोपुर' द्वार पद्वार (कैवर्ती मुस्तक) मे नपु० । (१०) 'मन्दिर' नगर अगार मे नपु०, मकरालय समुद्र मे पु० । (११) 'पुर' शरीरगृहोपरिगृह मे नपु०, गुग्गुल मे पु०, नगर मे नपु०, 'पुगी' स्त्री० । (१२) 'पोत्र' हलमुखाग्र सूकरमुखाग्र (वखमुखाग्र) मे नपु० । (१३) 'औशीर दण्ड चामर शयन आसन मे नपु० ।

प्रदेरो वाण नारी रुग् भङ्गा अस्त्राः क्वचित्कचाः ।

वंशाङ्कुरे करीरोऽस्त्री वृक्षभिद्दृष्टयोश्च ना ॥१९०॥

आश्चर्याऽऽलेख्ययोश्चित्र यौत्रा गत्युत्सवादिषु ।

प्रमीला निद्रयो स्तन्द्रा स्याद् धात्री तूपमातरि॥१९१॥

सुराऽऽवाग्भृष्वरा, कर्पराशेऽपि शर्करा वरः ।

त्रिषु देवाहते श्रेष्ठे ह्यीव स्यात्तु मनाक्प्रिये॥१९२॥

“उदारस्तु महद्दात्रो नीचाऽन्या वितेरः स्मृतः ।

(१) 'प्रदर' वाण रोगभेद विक्राग्र भङ्गा मे पु०, । (२)

'अस्त्र' कोण क्व में पु०, अश्रुगोणित मे नपु० । (३) 'करीर'

वंशाङ्कुर मे पु० नपु०, वृक्षभित् घट मे पु०, 'करवीरा' चीरिका

हस्तिदन्तिमूल मे स्त्री० । (४) 'चित्रा' आखुपर्णी (ओषधि)

गोडुम्बा सुभद्रा दन्तिका माया सर्प नक्षत्र नदी भेद मे स्त्री०,

चित्र 'तिलक आलेख्य कर्बुर अद्भुत मे नपुं०, तद्युक्त मे त्रि०, चित्री

झिल्ली में स्त्री० गोस्तन वस्त्रभेद रेखालिखनभेद मे नपु० । (५)

'यात्रा' यापनोपाय गति देवार्चनोत्सव मे स्त्री० । (६) 'तन्द्रा'

प्रमीला (नींद थकावट आदि) स्त्री० । (७) 'धात्री' उपमाता

माता वसुमति आमलि में स्त्री । (८) 'डरा' सुरा अपूवाक् भू मे

स्त्री । (९) 'शर्करा' कर्पराश उपल (पत्थल) खण्डविकृति शर्करा-

न्तितदेश रुग्भेद [रागभेद] शकल में स्त्री०॥(१०) 'वर' जामाता

वृत्ति देवतादेराभिषिक्त षिद्र में पु०, श्रेष्ठ में स्त्री०, कुंकुम में नपु०,

वरी शतावरि मे स्त्री०, 'वरा' त्रिफला मे स्त्री०, मनाक् प्रिय में

नपु । (११) 'उदार' महत् दाता में पु० दक्षिण (अर्थात् कुशल

चतुर दक्ष) मे त्रि० । (१२) 'इतर' नीच और अन्य मे त्रि० ।

वभ्रुः स्यान्नकुले विष्णौ विपुले पिङ्गले त्रिषु ॥१९३॥
 प्रातीहारी प्रतीहारो द्वाःस्थे द्वार्यथ मत्सरः ।
 त्रिषु तद्वत्कृपणयोः शुभद्वेषे परस्य च ॥१९४॥
 परीवारैः खड्गकोशे जङ्गमे च परीच्छदे ।
 क्षुद्रा व्यङ्गा नटीकण्ठ कारिका सरघासु च ॥१९५॥
 क्षुद्रोऽधमेऽल्पेऽपि कलत्रं श्रोणि भार्ययोः ।
 आडम्बरः समारम्भे गजगर्जित तूर्ययोः ॥१९६॥
 घूतकारे पणे पुसि घूते ह्रीवं दुरोर्दरम् ।
 मुक्ता शुद्धौ पुमाँस्तैरः शैरो वायौ च कर्बुरे ॥१९७॥
 अभिहारस्तु चौर्याऽभियोग सहननेष्वपि ।

- (१) 'वभ्रु' नकुल विष्णु विपुल मे पु० पिङ्गल मे त्रि० (विश्वकोष-
कार कृशानु अजमेष मुनि शूली मे भी माना है) । (२) प्रतीहारी
प्रतीहार, द्वा स्थ (द्वारपाल) द्वार मे स्त्री० पु० । (३) 'मत्सर'
मात्सर्य क्रोव परशुभद्वेष मे पु०, अन्यशुभद्वेषवान् कृपण मे त्रि० ।
'मत्सरा' मक्षिका मे स्त्री० । (४) 'परीवार' खड्ग कोश जङ्गम
परिजन परिच्छद (उपकरण) मे पु० । (५) 'क्षुद्रा' व्यङ्गा (अङ्गहीना)
नटी वेद्या कण्ठकारिका सरघा चाङ्गोरी हिला मक्षिकामात्र में
स्त्री०, अधम कल्प क्रूर कृपण मे त्रि० । (६) 'कलत्र' श्रोणी और
भार्या मे नपु० । (७) 'आडम्बर' समारम्भ गजगर्जित तूर्यघोष मे
पु० । (८) 'दुरोदर' घूतकार घूतपण मे पु० घूत मे नपु० ।
(९) 'तार' मुक्तादि सशुद्धि तरण शुद्धमौक्तिक मे पु०, रजत
अत्युच्चस्वर मे त्रि०, नक्षत्र नेत्रगोलक बालिपत्नी बुद्धदेवी मे स्त्री० ।
(१०) 'जार' वायु मे पु०, कर्बुर (शबल) मे त्रि० । (११) अभि-
हार चौर्य अभियोग सहनन मे पु० ।

भवेत्प्रतिमैरः पुसि चम् जघनयोरपि ॥१९८॥

कान्तारः स्यान्महारण्ये तथा दुर्गपथे त्रियाम् ।

गृहोऽप्यवस्करो यूपखण्डे यज्ञे स्वरुः पुमान् ॥१९९॥

बल स्थिराशयोः सारः क्लीव न्याग्ये वरं त्रिषु ।

विटपि न्यासने दर्भमुष्ट्या स्याद् विष्टरः पुमान् ॥२००॥

सगरस्तु प्रतिज्ञाऽऽजि सविदापत्स्वेयो र्वो ।

मित्रः स्वर्णेऽपि राः स्त्रीणा रतनौ वन्दः पयोधरः ॥२०१॥

मन्त्रो गुह्यादिवादेऽय क्षेत्रं पत्नी शरीरयोः ।

व्यासक्ताऽऽकुलयोर्व्यग्रैः स्वैरैः स्वच्छन्दमन्दयोः ॥२०२॥

(१) 'प्रतिसर' चम् पृष्ठ मन्त्रभेद मान्य वङ्गण व्रणशुद्धि मे पु०, मण्डल मे पु० नपु०, आरक्ष करम्त्र जघन्य अर्थात् नियो-
प्य मे त्रि० । (२) 'कान्तार' अरण्यानी बिल दुर्गमार्ग मे पु०
नपु०, इक्षुविशेष मे पु० । (३) 'अवस्कर अवस्कार' वर्चस्के
(विष्ठा) गुह्य मे पु० । (४) 'स्वरु' यूपखण्ड यज्ञ भिटर मे पु० ।
(५) 'सार' बल स्थिराश मञ्जा (लज्जावद्राजवनमञ्जा) मास
साराऽस्थि सारयोरिति भागुरे रावन्तोऽपि) मे पु० न्याग्य जल
घन मे नपु० वर मे त्रि० 'शार' तो वायु मे पु०, सबल मे
विशेष्यलिङ्ग । (५) 'विष्टर' विटपीदर्भमुष्टि पोठफलकादि आसन
मे पु० । (६) 'सगर' प्रतिज्ञा युद्ध सविद (अर्थात्-आचार
ज्ञानयुद्ध सभाषण नियम सकेत नाम तोषण) विष आपत् मे पु०
शमीफल नपु० । (७) 'मित्र' आदित्य मे पु० सुहृद् मे नित्य
नपु० । (८) रा (रै) स्वर्ण वित्त मे पु० । (९) 'पयोधर' स्तन
मेघ नारिकेर कशेरु कोषकार मे पु० । (१०) 'मन्त्र' वेदविशेष
देवादिसाधन गुह्यवाद मे पु० । (११) 'क्षेत्र' शरीर केदार सिद्ध-
स्थान कलत्र मे नपु० । (१२) 'व्यग्र' व्यासक्त आकुल मे त्रि० ।
(१३) 'स्वैर' मन्द स्वच्छन्द मे पु० स्वैरी स्त्री० ।

उद्दीप्त शुल्कयोः शुभ्रः क्रूरः कठिन निर्दयौ ।
 पक्षेपि वाहने पैत्र पात्र भाजन योग्ययोः ॥२०३॥
 स्वर्णेऽपि चन्द्रो भूरिश्च कायेऽपि विषयेऽर्जिरम् ।
 नटाया मधुके नेत्रं शास्त्र ग्रन्थनिदेशयोः ॥२०४॥
 दंगोपद्रवयोरस्त्री राष्ट्र स्यान्क्षीरमप्सु च ।
 हीनेऽनूर्ध्वेऽधरश्चाऽथो एकौग्रः स्यादनाकुलः ॥२०५॥
 उत्तरस्तूपरिश्रेष्ठो दीच्येष्वन्यो ह्यनुत्तरः ।
 शैलं लोहाऽऽयुधे क्लीवं पैरा दूरोत्तमाऽरयः ॥२०६॥

(१) 'शुभ्र' उद्दीप्त शुल्क मे त्रि अम्रह मे नपु० । (२)

'क्रूर' कठिन वृगस (निर्दय) घोर (भयङ्कर) मे त्रि० । (३) 'पत्र'
 वाहन पक्ष गर पर्ग मे नपु० । (४) 'पात्र' भ जन योग्य तीर-
 द्वयान्तर सुवादि पर्ग राजमन्त्री मे नपु० । (५) 'चन्द्र' कर्पूर काम्पि-
 ल्य (कामिल्ल) सुधागु स्वर्ण चारु मे पु० । (६) 'भूरि' वासुदेव
 हर पग्मेष्ठो मे पु० सुवर्ण प्राज्य मे नपु० । (७) अजिर काय
 विषय प्राङ्गण वात दर्दुर मे नपु० चण्डी मे लो० । (८) 'नेत्र'
 मधिग्रग बलभेद वृक्षमूल रथ चक्षुष मे नपु० नाडा नदी मे लो०
 नेता मे त्रि० । (९) 'शास्त्र' ग्रन्थ निदेश (आज्ञा) मे नपु० ।
 (१०) 'राष्ट्र' देश और उपद्रव मे पु० नपु० । (११) 'क्षीर'
 दुग्धजल मे नपु० । (१२) 'अधर' ओष्ठ मे पु० हीन मे अनूर्ध्व मे
 त्रि० । (१३) 'एकौग्र' एकनाम अनाकुल मे त्रि० । (१४) 'उत्तर'
 प्रतिवाक्त्र मे नपु० विराटतनय मे पु० विराटननया मे लो० उत्तरा
 ऊर्ध्व उदोत्र उत्तम मे त्रि० । (१५) 'अनुना' उत्तरविरुद्ध
 सर्वश्रेष्ठ अनुत्तरविमान मे विज्ञेयश्रिङ्ग । (१६) 'शैल' लोह
 आयुध मे नपु० 'श्लो' छुरिका मे स्त्री० । (१७) 'पर' दूर
 उत्तम अरि उत्तर मे पु० केवल मे नपु० ।

मधुरो यः प्रियः स्वादु जठरः कटिनेऽपि च ।

भेदे प्रकारः सादृश्ये द्वापरः संशये युगे ॥२०७॥

विशिखे ज(स)स्य शूकेऽपि किंशारुं गीर्षतिं गुरु ।

पर्यङ्के परिवारे वा व्राते परिकरः भृतः ॥२०८॥

अद्रिर्कं द्रुमं शैलाः स्युः व्रणकारिण्यं रूपकरः ।

निहवेऽवसरे वारो नारुं गिरि धन्वनोः ॥२०९॥

अन्तर्धि भेदतादर्थ्यं छिद्राऽऽत्मीयं विना बहिः ।

मध्येऽवकाशावसरं परिधानाऽन्तरात्मसु ॥२१०॥

अवधावन्तरे सस्तराऽध्वरे प्रस्तरैऽपि च । इति शान्ताः ।

(१) 'मधुर' प्रिय स्वादु जाभन रस रसवत् विष मे त्रि० ।

(२) 'जठर' कुक्षि बद्ध कक्खट (कठोल) मे पु नपुं० । (३)

'प्रकार' भेद सादृश्य मे पु० । (४) द्वापर युग संशय मे पु० ।

(५) 'किंशारु' अस्य शूक बाण वङ्कपत्री मे पु० । (६) गीर्षति

(गीर्षपति) बृहस्पति मे पु० । (७) परिकर व्रात पर्यङ्क परिवार

प्रगाढ गात्रिकाबन्ध त्रिवेक आरम्भ मे पु० (त्रिकाण्डशेष ने तो

'आरम्भ यत्न' को परिकर माना है) । (८) 'अद्रि' अर्क द्रुम

शैल मे पु० । (९) 'अरुणकर' व्रणवृत्ति मे त्रि० भल्लातक (भिलावा)

पु० । (१०) 'वार' सूर्यादि दिवस मे अवसर वृन्द कुब्जवृक्ष

हर हार मे पु० मद्यभाजन मे नपु० । (११) 'मरु गिरि विशेष

मे धन्वा (धन्वन) मे पु० । (१२) 'अन्तर' अन्तर्धि भेद तादर्थ्यं

छिद्र आत्मीय विना बहिस् मध्ये अवकाश अवसर परिधान

अन्तरात्मा अवधि मे त्रि० । (१३) 'सस्तर प्रस्तर और अध्वर में

पु० । (१४) 'प्रस्तर' मणि पाषाण में पु० । इति शान्ताः ।

स्थौल्ये स्थामनि सैन्ये च नावल काकसीरिणो ॥२११॥

मातङ्ग पुष्पकाण्डद्रु प्रभेदाः पीलवः कला ।

गिलपेऽपि काल भेदेऽथ प्रावारेऽप्यस्ति कम्बलः ॥२१२॥

त्रिषु व्यालः गठे नातु सर्प श्वापदयोः कलिः ।

युगेऽपि कमलः पुसि कुरङ्गेऽन्यन्नपुसकम् ॥२१३॥

मलं विद् पाप किट्टेष्व स्त्रियां शूलो रगायुधम् ।

अङ्कुरेऽपि प्रवालोलोऽस्त्री पेशलेश्वारु दक्षयोः ॥२१४॥

(१) 'वल' स्थौल्य स्थामा (सामर्थ्य) सैन्य गन्धरस रूप में

नपुं० बलराम दैत्यभेद बली वायस मे पु० । (२) 'पिल' मातङ्ग

पुष्प तालकाण्ड पादपवृक्षभेद अतिश्लण्ड परमाणु मे पु० पिलवृक्ष

के फल अर्थ मं नपु० । (३) 'कला मूल' रै वृद्धि शिल्पादि

अंशमात्र चन्द्रकी सोलमीकला कलना कालमान मे स्त्री० । (४)

कम्बल नागराज सास्ना प्रावार कृमि उत्तरासग मे पु० सलिल में

नपु० । (५) 'व्याल' गठ मे त्रि० दुष्टगज सर्प श्वापद सिंह में

पु० । (६) 'कलि' कलिका मे स्त्री० शुरो के सग्राम मे युग मे

पु० । (७) 'कमल' सलिल ताम्र जलज व्योम भेषज मे नपु०

कुरङ्ग मे पु० । (८) 'मल' विद् [विष्ठा] पाप किट्ट मे पु० नपुं०

कृपण मे त्रि० [वसा शुक्र मसृग् मज्जा मूत्र विद् कर्ण त्वड् नखा ।

श्लेष्माऽश्रुदषिका स्वेदो द्वादशैते मला नृणाम् ॥] । (९) 'शूल'

रोग आयुध मृत्यु कतन याग मे पु० नपु पण्यस्त्री [गणिका] में

स्त्री० । (१०) 'प्रवाल' वीणादण्ड विद्रुम किसलय [नूतन रक्त

पल्लव अङ्कुर] मे पु० नपु० । (११) 'पेशल' चारु दक्ष में त्रि०

स्थौल्ये स्थामनि सैन्ये च नाबेल काकसीरिणो ॥२११॥

मातङ्ग पुष्पकाण्डद्रु प्रमेदाः पील्वः कला ।

गिल्पेऽपि काल भेदेऽथ प्रावारेऽप्यस्ति कम्बलः ॥२१२॥

त्रिषु व्यालैः गठे नातु सर्प श्वापदयोः कलिः ।

युगेऽपि कमलः पुसि कुरङ्गेऽन्यन्नपुसकम् ॥२१३॥

मल विट् पाप किट्टेष्व स्त्रिया शूलो र्गुग्रायुधम् ।

अङ्कुरेऽपि प्रवालौऽस्त्री पेशलेश्वारु दक्षयोः ॥२१४॥

(१) बल' स्थौल्य स्थामा (सामर्थ्य) सैन्य गन्धरस रूप मे नपु० बलराम दैत्यभेद बली वायस मे पु० । (२) 'पिलु' मातङ्ग पुष्प तालकाण्ड पादपवृक्षभेद अतिथिखण्ड परमाणु मे पु० पिलुवृक्ष के फल अर्थ मे नपु० । (३) 'कला मूल रै वृद्धि शिल्पादि अंगमात्र चन्द्रकी सोलमीकला कलना कालमान मे स्त्री० । (४) कम्बल नागगज सास्ता प्रावार कृमि उत्तरासग मे पु० सलिल मे नपु० । (५) 'व्याल' गठ मे त्रि० दुष्टगज सर्प श्वापद सिंह मे पु० । (६) 'कलि' कलिका मे स्त्री० शुरो के सप्राम मे युग मे पु० । (७) 'कमल' सलिल ताम्र जलज व्योम भेषज मे नपु० कुरङ्ग मे पु० । (८) 'मल' विट् [विष्ठा] पाप किट्ट मे पु० नपु० कृपण मे त्रि० [वसा शुक्र मसृग् मज्जा मूत्र विट् कर्ण त्वङ् नखा । श्लेष्माऽश्रुदण्डिका स्वेदो द्वादशैते मला नृणाम् ॥] । (९) 'शूल' रोग आयुध मृत्यु कतन याग मे पु० नपु पण्यस्त्रो [गणिका] में स्त्री० । (१०) 'प्रवाल' वीणादण्ड विद्रुम किसलय [नूतन रक्त पल्लव अङ्कुर] मे पु० नपु० । (११) 'पेशल' चारु दक्ष में त्रि०

क्रिया विलामयो लीलाऽन्त्रो तलोऽधः स्वरूपयोः ।

क्षेम पर्याप्ति पुण्येषु कुक्कुलं शिक्षिते त्रिषु ॥२१५॥

सत्पुण्यं चलयो लीलो वालो मूर्खेऽर्भकेऽपि च ।

कृत्तिकासु स्त्रिया भूमिन् बहुलोऽग्नीं शिते त्रिषु ॥२१६॥

श्वश्रे कुक्कुलं कीर्णे स्यात् गङ्गकुभिर्ना तुषाऽनटे ।

गवाक्षाऽऽनायवृन्देषु क्षारं जालं मयोपेला ॥२१७॥

शर्कराऽपि च कीर्णालं शोणितेऽम्भसि च पेलम् ।

आमिषे मौल्यैश्चूडा किरीटं संयताः रुचाः ॥२१८॥

हिन्दी-(१) 'लीला' केलि विलाम खेला शृङ्गारभाव क्रिया मे स्त्री० । (२) 'तल' स्वरूप अनूर्ध्व मे पु० नपु०, व्याघातवारण (गोधा) कानन कार्यवीज मे नपु०, तालवृक्ष चपेट त्मरु (तलवार की मूठ) तन्त्रीघात (वीणा वजाना) मे पु० । (३) 'कुशल' क्षेम पर्याप्ति पुण्य मे नपु०, शिक्षित मे त्रि० । (४) 'लोल' सत्पुण्य चल मे पु०, लोला स्त्री मे रसना मे स्त्री०, अन्यत्र मे नपु० । (५) 'वाल' मूर्खे अर्भके मे त्रि० । वनस्पति विशेष मे पु० नपु०, कुन्तल गज एव अश्वके वालधि मे पु०, अलङ्कार मेघ्य मे 'वाली बाला' त्रुटि मे स्त्री० । (६) 'बहुला' नीलिका एला गो स्त्री मे स्त्री०, कृत्तिकाओ मे बहुवचनान्त स्त्री०, विहायम् मे नपु०, अग्नि कृष्णपक्ष मे पु०, प्राज्य कृष्ण मे त्रि० । (७) 'कुक्कुल' खड्ढा मे नपु०, तुषाऽग्नि मे पु० । (८) 'जाल' गवाक्ष आनाय वृन्द (समूह) क्षार (जन्म) मे नपु०, नीपद्रुम मे पु० । (९) "उपल" प्रस्तर रत्न मे पु०, शर्करा मे स्त्री० । (१०) 'कोलाल' शोणित अम्भस् मे नपु० । (११) 'पल' उन्मान मास मे नपु० । (१२) मौलि चूडा किरीट (सुकुट) घम्मिल (सयतकेश) मे पु० (कोषकारो

वात्याया ना तु वातूल त्रिषु वातासहे वैलिः ।
 करोपहारयो दैत्ये ना स्त्री प्राण्यङ्गजा सखी ॥२१९॥
 सेत्वावली स्त्रियामौली रित्रषु न्याद् विशदाशये ।
 वेला वाच्यम्बु विकृतौ मर्यादा कालयोरपि ॥२२०॥
 पाल्त्रिस्त्र्यङ्ग पङ्क्त्यादौ कीलः शङ्कादिषु द्वयोः ।
 कृतान्ताऽनेहसौ कालः करालं स्तुङ्ग दन्तुरौ २२१॥
 चेलं वस्त्रेऽधमे स्थूल जडेऽपि त्रिषु, केवलम् ।
 निर्णीतेऽथ त्रिलीङ्ग तु स्यादेक कृत्स्नयोः, फैलम् ॥२२२॥

- मे रभस मेदिनीकारो ने अनपुंसक कहा है) अशोक पादप वृक्ष
 मे पु० । (१) 'वातूल' वात्या (ववण्डर) पु० (क्षीरस्वामि के मत
 से 'वातल') वातासह मे त्रि० । (२) बलि दैत्यप्रभेद कर चामर-
 दण्ड (यम) उपहार मे पु० जरा से श्रृंगचर्म मे ग्रहदारुप्रभेद
 (सोही) उदराऽवयव मे स्त्री० । (३) 'आलि' (आली) वयस्या
 (सखी) सेतु पक्ति मे स्त्री०, विशदाशय मे त्रि० । (४) 'वेला'
 समुद्रविक्रात समुद्रतट काल सीमा आकिल्लमरण (सुख से मरणा)
 रोग ईष्टभोजन मे स्त्री० । (५) 'पालि (पालो)' (पाल वान्धना)
 यूका सश्मश्रुयोषित मे स्त्री०; अङ्क प्रभेदपक्ति अश्रि (अस्त्रि) कर्णलता

सस्ये हेतुकृते, शील सद्वृत्त सत्स्वभावयोः ।

नेत्ररुद् छदिपोः क्लीवं वृन्दे न पटलं पुमान् ॥२२३॥

और्वाग्नावपि पातालं मूलं भाऽऽद्य शिफासु च । इतिलान्ताः ।

ध्रुवं स्यान्ननिश्चिते भेना शाश्वते त्रिष्वथोत्सवः ॥२२४॥

इच्छायाः प्रसवेऽमर्षोत्सेकादिषु महे दवः ।

दावश्च वन वन्याग्नी आह्वानाऽऽज्ञाऽऽवर हवाः ॥२२५॥

मन्त्री सहायः सचिवो धवः पति नृ शाखिनः ।

शैलोऽर्कमेषा ववयैः सत्ताऽभिप्राय जन्मसु ॥२२६॥

भावश्चेष्टादिके गौरी कैरवेतु शिवा भवः ।

(१) 'शोलासद्वृत्त सत्स्वभाव मे नपु०। (२) 'पटल' पिटक परिच्छद

छदिष (गृहाच्छादन) नेत्ररुद् तिलक में नपु०, वृन्द मे स्त्री० नपु०।

(३) 'पाताल' नागलोक विवर वडवानल मे नपु०, । (४) 'मूल'

नक्षत्र आदि जटा मूलधन में नपु०, अन्तिक में पु० । इति लान्ता ॥

(५) 'ध्रुव' कील शिव शकु वसु योग वट सुनि मे पु०, मूर्वा

शालिपर्णी गीति सुग्भेद में स्त्री०, निश्चित तर्क निश्चय मे नपु०,

शाश्वत में त्रि० । (६) 'उत्सव' इच्छा प्रसव अमर्ष

उत्सेक (घमण्ड) मह मे पु० । (७) 'दवदाव' वन औग्

वनाग्नि मे पु० । (८) 'हव' आह्वान आज्ञा अवर मे पु० ।

(९) 'सचिव' मन्त्री सहाय मे पु० । (१०) 'धव' पति नृ

(धूर्त) वृक्षविशेष मे पु० । (११) 'अवि' शैल अर्क मेष (नाथ

मुषिककम्बल) में पु०, भू पुष्पवती मे स्त्री० । (१२) 'भाव' सत्ता

अभिप्राय जन्म स्वभाव चेष्टा आत्मा क्रिया लला पदार्थ विभूति

बन्धु जन्तु इत्यादि मे पु० । (१३) 'शिवा' गौरी क्रीष्णी

वात्याया ना तु वातूल त्रिषु वातासहे वैलिः ।
 करोपहारयो दैत्ये ना स्त्री प्राण्यङ्गजा सखी ॥२१९॥
 सेत्वावली स्त्रियामाली स्त्रिषु म्याद् विशदाशये ।
 वेला वार्ध्यम्बु विकृतौ मर्यादा कालयोरपि ॥२२०॥
 पालिरस्यङ्क पङ्क्त्यादौ कीलः शङ्कादिषु द्वयोः ।
 क्रतान्ताऽनेहसौ कालः करालं स्तुङ्ग दन्तुरौ २२१॥
 चेळ वस्त्रेऽधमे स्थूलं जडेऽपि त्रिषु, केवलम् ।
 निर्णीतेऽथ त्रिलीङ्ग तु स्यादेक कृत्स्नयोः, फलम् ॥२२२॥

- मे रभस मेदिनीकारो ने अनपुंसक कहा है) अशोक पादप वृक्ष
 में पु० । (१) 'वातूल' वात्या (ववण्डर) पु० (क्षीरस्वामि के मत
 से 'वातल') वातासह मे त्रि० । (२) बलि दैत्यप्रभेद कर चामर-
 दण्ड (यम) उपहार मे पु० जरा से श्रुचर्म मे ग्रहदारुप्रभेद
 (सोढी) उदराऽवयव मे स्त्री० । (३) 'आलि' (आली) वयस्या
 (सखी) सेतु पक्वित मे स्त्री०, विशदाशय मे त्रि० । (४) 'वेला'
 समुद्रविकृत समुद्रतट काल सीमा आक्लिष्टमरण (सुख से मरणा)
 रोग ईष्टभोजन मे स्त्री० । (५) 'पालि (पाली)' (पाल वान्धना)
 यूका सशमश्रुयोषित मे स्त्री०; अङ्क प्रभेदपक्ति अश्रि (अस्त्रि) कर्णलता
 प्रस्थ प्रदेश छात्रादि देय मे त्रि० । (६) 'कील (कीला)' शंकु
 कफोणि ज्वाला स्तम्भ लेश स्थाणु मे पु० स्त्री० । (७) 'काल'
 समय महाकाल मृत्यु यम कृष्ण मे पु० । (८) 'कराल' दन्तुर
 तुङ्ग भोषण मे त्रि०; कृष्णकुटेरक मे नपु०, सर्जरसतैल मे पु० ।
 (९) 'चेल' वस्त्र अधम मे त्रि० । (१०) 'स्थूल' कूट निष्प्रज्ञ
 पीवर में त्रि० । (११) 'केवल' निर्णीत मे नपु०, एक कृत्स्न मे
 त्रि० । (१२) 'फल' समय हेतु समुत्थ फलक व्युष्टि लाभ जाती-
 फल कक्कोल (शीतल मिर्च) वाणाग्र मे नपु० ।

सस्ये हेतुकृते, शील सद्वृत्त सत्स्वभावयोः ।

नेत्ररुद् छदिपोः क्लीवं वृन्दे न पटैलं पुमान् ॥२२३॥

और्वाग्नावपि पातालं मूलं भाऽऽद्य शिफासु च । इतिलान्ताः ।

ध्रुवं स्यान्निश्चिते भेना शाश्वते त्रिष्वथोत्सवः ॥२२४॥

उच्छायाः प्रसवेऽमर्षोत्सेकादिषु महे दवः ।

दावश्च वन वन्याग्नी आह्वानाऽऽज्ञाऽऽवरं हवाः ॥२२५॥

मन्त्री सहायः सचिवो ध्रुव पति नृ शाखिनः ।

शैलोऽर्कमेपा वत्रयैः सत्ताऽभिप्राय जन्मसु ॥२२६॥

भावश्चेष्टादिके गौरी कैरवेतु शिवौ भवः ।

- (१) 'शोलासद्वृत्त सत्स्वभाव मे नपु०। (२) 'पटल' पिटक परिच्छद छदिष (गृहाच्छादन) नेत्ररुद् तिलक में नपु०, वृन्द मे क्ली० नपु०। (३) 'पाताल' नागलोक विवर वडवानल मे नपु०, । (४) 'मूल' नक्षत्र आदि जटा मूलधन मे नपु०, अन्तिक में पु० । इति लान्ता ॥ (५) 'ध्रुव' कील शिव शकु वसु योग वट मुनि मे पु०, मूर्वा शालिपर्णी गीति सुग्भेद मे क्ली०, निश्चित तर्क निश्चय में नपु०, शाश्वत मे त्रि० । (६) 'उत्सव' इच्छा प्रसव अमर्ष उत्सेक (घमण्ड) मह मे पु० । (७) 'दवदाव' वन औग् वनाग्नि मे पु० । (८) 'हव' आह्वान आज्ञा अवर मे पु० । (९) 'सचिव' मन्त्री सहाय मे पु० । (१०) 'वत्र' पति नर (धूर्त) वृक्षविशेष मे पु० । (११) 'अवि' शैल अर्क मेष (नाथ मुषिककम्बल) में पु०, भू पुष्पवती मे क्ली० । (१२) 'भाव' सत्ता अभिप्राय जन्म स्वभाव चेष्टा आत्मा क्रिया लला पदार्थ विभूति बन्धु जन्तु इत्यादि मे पु० । (१३) 'शिवौ' गौरी क्रोष्ट्री

हरो जन्म च नोवो तु स्त्रीकृटी बल्लवन्धने ॥२२७।

तथा परिपणे मूल द्रव्ये पारश्वस्तु यः ।

द्विजात् शूद्रा सुते शस्त्रे द्वन्द्वं युग्म त्रिवादयोः ॥२२८॥

व्यवसायाऽसु द्रव्येषु सत्त्व जन्तुषु न स्त्रियाम् ।

ज्ञात्यात्मनोः स्वर्वात्मीये त्रिष्वस्त्री तु धनेष्वथ ॥२२९॥

उत्पादे प्रसवो गर्भमोचने फलपुष्पयोः ।

अनुभावः प्रभावेऽपि निश्चये भावसूचके ॥२३०॥

स्यात्स्थानं प्रभवो जन्म हेतु राद्योपलब्धये ।

सक्तुफला अभया अमलकी ज्ञाटमलोषधि (भूम्यामलकी)

पुण्डरीकद्रुम मे लो० मेदिनीकाग ने पुण्डरीकद्रुम (पुण्डरीया)

मे शिवा को जिव पु० माना है सुकुट ने पु०, अगाळ मे

भो जिवा को लो हो माना है) । (१) भव' हर जन्म प्राप्ति

सत्ता सपाग क्षेमेश मे पु० । (२) नोत्री स्त्री कृटी बल्लवन्धन

मे परेण (जमानतदेना) मूयद्रव्य मे स्त्री० । (३) 'पारश्व'

द्विज से शूद्रासुत मे शाल मे परतीतनय मे पु० । (४) 'द्वन्द्व,

युग्म कलह रहस्य मिथुन (मर्यादा व्युत्क्रमण अर्थात् पृथग्वस्थान

यज्ञपात्र प्रयोग अभिव्यक्त अर्थात् (साहचर्य) मे नपु० पुलिङ्ग भी

(चार्थद्वन्द्व) । (५) 'सत्व' व्यवसाय असु द्रव्य त्रित आत्मत्व

स्वभाव बल गुण पिशाच आदि मे नपु० जन्तु मे पु० नपु० । (६)

'स्व' ज्ञाति आत्मा मे पु०, आ मीय मे त्रि०, धन मे पु० नपु० ।

(७) 'प्रसव' उत्पाद गर्भमोचन फल पुष्प अपत्य मे पु० । (८)

'अनुभाव' प्रभाव निश्चय भावसूचक मे पु० । (९) 'प्रभव, प्रथ-

मज्ञानोपलब्धि के लिये स्थान जडमूल पराक्रम जन्महेतु मे पु० ।

'निह्वयोऽपह्ववेऽविश्वासेऽपि ना निकृतावपि॥२३१॥

॥ इति वान्ताः ॥

शिश्नज्ञौ बालिशो, राशीपुञ्ज मेपौ कुशं जले ।

आशादिक् तृष्णयो, वंशः कुले वा मस्करे रहः ॥२३२॥

प्रकाशेऽपि च वीकाशः कठोरादौ तु कर्कशः ।

निर्वेशो भोग भृत्योश्च कीनाशः क्षुद्रकर्षयोः ॥२३३॥

कृतान्ते यदि पुंस्येव स्थिति वचर्यादयो दर्शोः ।

ज्ञाने ज्ञातरि दृग् वैश्य मनुजो तु विशौ स्पशः ॥२३४॥

सपराय चरौ ख्याते प्रकाशः स्फुट आतपे ।

(१) 'निह्व अपह्व (छुपाना) अविश्वासम निकृति [कलः] अप-
लाप [प्रस्तुत विषय को बदलकर प्रकारान्तर से सगत जैसा समा-
धान करना] मे पु० । इति वान्ता ।

(२) 'बालिश' शिशु अज्ञ मे पु०, । (३) 'राशि' घान्य
आदि के पुञ्ज मे मेघ वृष आदिलग्न मे पु० । (४) 'कुश' जल
में नपु० रामपुन दर्भ योक्त्र दीप मे पु० । (५) 'आशा' दिशा
तृष्णा मे स्त्री० । (६) 'वंश' कुल वेणु वर्ग मेरुदण्ड मे पु०, ।
(७) 'वीकाश' विकाश विजन प्रकाश [व्यक्त] मे पु० । (८) 'कर्कश'
कठोर [परुष] क्रूर कृपण निर्दय दृढ इक्षु साहसिक कासमर्द
काम्बिन्ड मे पु० । (९) 'निर्वेश' भोग वेतन मूर्च्छन मे पु० । (१०)
'कीनाश' कर्षक क्षुद्र उपाशु घाती मे त्रि० कृतान्त मे पु० । (११)
'दर्श' अवस्था दीपवर्ति मे स्त्री०, वल्लान्त मे बहुवचन । (१२) 'दृक्'
दृश, दर्शन नेत्र बुद्धि मे स्त्री०, बोक्षक मे त्रि० । (१३) 'विश्व' वैश्य
मनुज प्रवेश मे पु० । (१४) 'स्पश' सपराय चर [पणिधि] मे पु० ।
(१५) 'प्रकाश' अतिप्रसिद्ध आतप स्फुट प्रहास मे पु० ।

अपदेशो निमित्ते स्यात् पदे लक्ष्ये वशा स्त्रियाम् ॥२३५॥
करिण्यपि इति शान्ताः ।

सुरे मत्स्येऽनिमिपो विषमप्सु च ।

आकर्षः शारिफलके द्यूतेऽक्षेऽप्यथ क्लिविषम् ॥२३६॥

अपराधेऽपि पक्षस्तु सहायेऽथात्ममानवौ ।

पुरुषोऽधिकृतेऽव्यक्षः प्रत्यक्षेऽप्यथ वीरुधि ॥२३७॥

कक्षं स्तृणेऽपि, काको मत्स्यात्खगोऽर्वाक्षं इष्यते ।

भारतादावब्द वृष्टयो वर्षे मस्यथ पौरुषम् ॥२३८॥

पुभावे तत्क्रियाया च भिक्षां सेवार्थना भृती ।

(१) 'अपदेश' निमित्त व्याज पद लक्ष्य मे पु० । (२) 'वशा वन्ध्या सुता' स्त्री गवी करिणी मे स्त्री० । इति शान्ता ।

(३) 'अनिमिष' सुर मत्स्य मे पु० । (४) 'विष' गरल जल मे नपु० । (५) 'आकर्ष' द्युत इन्द्रिय पाशक शारिफलक कोद-
ण्डान्यास वस्तु आकर्षण मे पु० । (६) 'क्लिविष' पाप रोग अप-
राध मे नपु० । (७) 'पक्ष' मासार्ध पार्श्व ग्रह साध्य अविरोध
केशादिवृन्द बल सखि सहाय चुल्लीरन्ध्र पतत्र वाजी कुञ्जर के
पार्श्व मे पु० । (८) 'पुरुष' पुरुष साह्यज पुत्रागवृक्ष मे पु० ।
(९) 'अव्यक्ष' अधिकृत प्रत्यक्ष मे पु० । (१०) 'दक्ष' मुजामूल
अरण्य वीरुध (लता) शुष्कतृण और कच्छ मे पु०, 'कक्षा'
स्पर्धापद काञ्चो थ गेह प्रकोष्ठ गजरज्जु वल्ल के अञ्चल में
स्त्री० । (११) 'ध्वाक्ष' काक मत्स्य मक्षकपक्षा भिक्षुक तक्षक
में पु० । (१२) 'वर्ष' जम्बु द्वीपानां भारतादि अब्द वृष्टि में
पु० नपु०, 'वर्षा' प्रावृदकाल में वृवन्नान्न स्त्री० । (१३)
'पौरुष' पुभाव पुरुषकर्म पुरुषतेज मे नपु०, ऊर्ध्वावस्तुत दो
पाणि नृमान में तो त्रि० विशेषण है । (१४) 'भिक्षा' भृति
(वेतन) याचना सेवा भिक्षतवस्तु मे स्त्री० ।

विभावसुः ॥२४३॥

सूर्येऽग्नौ स्याद्धिताशसाऽहि दष्ट्राऽऽशौ, दिवोकशैः ।

सारङ्गा लालसौत्सुक्य प्रार्थने वर्षतर्णकौ ॥२४४॥

वैत्सो, वसु धने रत्ने नाऽनले रश्मि देवयोः ।

बाढ साध्वोऽस्तु साधीयान् ज्यायो वृद्ध प्रशस्ययोः ॥२४५॥

पयोऽम्बुक्षीरयो, स्तेजैः शुक्रदोप्ति बलादिषु ।

पद्याऽभिलाषयोऽछन्दस्तैपः कृच्छ्रादि कर्म यत् ॥२४६॥

वैरीया नूर वरयोः कनीयास्तु युवाऽल्पयोः ।

(१) 'विभावसु' सूर्य पाषक हारभेदमे पु० । (२)

'आशीस्' हिताऽऽशसा (हित सभावना) अहिदष्ट्रा (सर्प का दात) मे स्त्री० (आशी इकारान्त भी) । (३) दिवोकस् दिवोकस्' देव

चातक रूप सारङ्ग (हिरण चातक मतङ्गज गजबल) मे बहुवचनान्त पु० । (४) 'लालस ललमा' उत्सुकता याचना तृष्णाधिक्य मे स्त्री०

पु० । (५) 'वत्स' तर्णक (गोवत्स) वर्ष पुत्र अहि मे पु०, वक्षस् मे नपु (६) 'वसु' रै रत्न शाल वृद्धचौषध मे नपु०, मधुर मे त्रि०,

अनल भा देवविशेष योक्त्र बरु राजा मे पु० । (७) 'साधीयस्' अतिशयित दृढ अतिशोभन मे त्रि० । (८) 'ज्यायस्' अतिवृद्ध अतिप्रशस्य मे त्रि० । (९) 'पयस्' जल दुग्ध मे नपु० । (१०) 'तेजस्' शुक्र दोप्ति

बल प्रभाव पराक्रम धाम मे नपु० । (११) 'छन्दस्' पद्य अभिलाष वेद स्वैराचार मे नपु०, अकारान्त भी छन्द है । (१२) 'तपस्' लोकान्तर आदि व्रत धन मे नपु०, शिशिर ऋतु और माघ महिना

मे पु० । (१३) 'वरीयस्' योगभित् श्रेष्ठ वरिष्ठ अतियुवा मे त्रि०

(१४) 'कनीयस्' अतियुवा अल्प अनुज मे त्रि० ।

भ द्योत दृष्टिपु ज्योतिः' स नैभः श्रावणे नभाः॥२४७॥
 वयैः खगेऽपि बाल्यादौ वैधा विष्णो च रोदसी ।
 रोदस्यौ चाऽपि भू द्यावौ प्रभूरर्वाऽप्यथो रजः ॥२४८॥
 स्त्रीपुष्पे च गुणे, वर्चो रूपे तेजः पुरीषयोः ।
 विदेन् विद्वान् निम्न गाया वेगे स्रोतं स्तथेन्द्रिये ॥२४९॥
 तैमो राहौ गुणे ध्वान्ते सहो मार्गः सहोवळे ।
 अर्चिर्मयुखं शिखयो र्नाना चौर्यादि कर्मणि ॥२५०॥

- (१) 'ज्योतिम् अग्नि दिवाकर मे पु०, दृष्टि नक्षत्र प्रकाश मे नपु० ।
 (२) 'नभस्' व्योम में नपु०, श्रावण मेघ घ्राण वर्षा विमतन्तु पनद्रह
 (पात्र)में पु०, नभस अदन्त भो है 'नभस पुसि' इत्युणादि वृत्तो
 (नभसस्तु) नदी पतौ । गगने प्रावृषि ॥) । (३) 'वयस्' पक्षी
 बाल्य पौण्ड कैशोर तारुण्य वार्धक मे पु० । (४) 'वेधस्' हृषीकेश बुध परमेष्ठी में पु० । (५) 'रोदसी रोदस्यौ' समिलित
 पृथ्वी आकाश मे रोदस् द्विवचनान्त नपु० स्त्री० । (६) 'प्रसू' जननी कदली लता अश्वा मे स्त्री० । (७) 'रजस्' स्त्रीपुष्प
 (आर्तत्र) गुणान्तर पराग रेणुमात्र मे नपु०, रज शब्द अकारान्त
 भी है (रजोऽय रजसा सार्ध स्त्रीपुष्पगुणधूलिषु, अजय) ।
 (८) 'वर्चस्' रूप तेजस् विष्ठा वाक्क नपुं०, चन्द्रतनय मे
 पु० । (९) 'विद्वम् (विद्वान् विद्वन्)' आत्मवित् प्राज्ञ पण्डित
 में त्रि० । (१०) 'श्रोतस्' अम्बुवेग इन्द्रिय मे नपु० । (११)
 'तमस्' ध्वान्त गुण शोक मे पु० नपु, विधुन्तुद मे पु० । (१२)
 'सहस्' बल ज्योतिसू में नपु०, हेमन्त ऋतु में और मार्गशार्ध महिने
 में पु० । (१३) 'अर्चिस्' मयूख और शिखा में प्राय नपु० पु०
 नहीं । (१४) 'हिसा' चोरकर्म बन्धन त्रासन ताडन वध मे स्त्री०

हिंसां, हिंसेऽपि वीभत्से, ओजो दीप्तौ बले, महः ।
 तेज उत्सवयो रोकः ओकाः सञ्जाऽऽश्रयो रसः ॥२५१॥
 शृङ्गारादौ द्रवे वीर्ये गुण राग विषेऽपि ।
 पापाऽपराधा वागः स्या त्कर्ण पूरे च शेखरे ॥२५२॥
 उत्तसश्वाऽवतसश्च हसः श्वेतच्छदो रविः । इतिसान्ता ।
 निर्यूहो द्वार आपीडे निर्यासे नागदन्तके ॥२५३॥
 दारा गृहं गृहं वृत्रेऽप्येहि वर्हं^२ दले ग्रैहाः ।

(१) 'बामत्स' विकृत पार्थ क्रूर हिंस्र पाप वृगात्मा मे पु० ।
 (२) 'ओजस्' दीप्ति बल प्रकाश भवष्टम्भ मे नपु०, (विषम सद्यथावाची ओजस् ता अकारान्त भी है) । (३) 'महस्' उत्सव तेजस् में नपु०, मह अदन्त भी है 'मही नद्यन्तरे समौ मह उत्सव तेजसो' मेदिनी । (४) 'ओकसू' सञ्ज (घर) मे नपु०, आश्रयमात्र में पु० । (५) 'रस' शृङ्गार आदि साहित्य रस में द्रव में वीर्य मे स्वाद मे तिक्तादि गुण मे विष में राग मे देहघातु में जल में पारद पु०, गल्लकी पाठा जिह्वा घरणि क्लृप्ते मे 'रसा' स्त्री० । (६) 'आगस्' पाप और अपराध में नपु० । (७) 'उत्तस अवतस' कर्णाभरण शेखर (भूषण) में पु० । (८) 'हस' विहङ्गभेद अर्क विष्णु अश्वविशेष योगि मन्त्रादि भेद परमात्मा अमत्सर निर्जोम राजा शरीरान्त प्राणवयु में पु० । इतिसान्ता ।

(९) 'निर्यूह' द्वार आपीड (भूषण) निर्यास (रस काथ) नागदन्त (खूंटी) मे पु० । (१०) 'गृहा' क्लृप्त मे सञ्ज में पु० बहुवचनान्त, 'गृह' भवन अर्थ बोधक हो तो नित्य नपु० । (११) अहि सर्प वृत्रासुर मे पु० । (१२) 'वर्ह' पिच्छ दल में पु० नपु० । (१३) 'अड' निर्वन्ध अर्कादि उपगग सैदिकेय प्रतनादि ग्रहण अनु-अड रणोधम मे पु० ।

निर्वन्धाऽर्को-परागाथा नृपाहेंऽर्ये परिग्रहे ॥२५४॥

परिर्वहं स्तुलासुत्र सप्तिरश्म्योश्च प्रग्रहः ।

तमोपहोऽर्कश्चन्द्राऽग्नी व्यूहो वृन्दे परिग्रहः ॥२५५॥

शापमूल परीवार राहुवक्त्रस्य भास्कराः ।

आरोहस्त्ववगेहेऽपि नानार्था अव्यया इतः ॥२५६॥

इति हान्ताः ।

॥ नानार्थ अव्यय ॥

धातुयोगज सीमाऽभिव्याप्तीपत्स्वाङ् सक्वृत्सहे ।

एकवारेऽर्घ्यडिद् वाक्यस्मृत्यो, रालङ्घनेऽर्प्यंति ॥२५७॥

हन्तहर्षे विषादे च वागारम्भाऽनुकम्पयोः ।

(१) 'परिर्वह' राजयोग्यवस्तु परिच्छद सामान मे पु० ।

(२) प्रग्राह (घञन्त) प्रग्रह (अप् प्रत्ययान्त) तुलासुत्र हयादि रश्मि वन्दी नियमन भुज सुवर्ण हस्ती पादक (वृश्च) मे पु० ।

(३) 'तमोपह' सहस्राशु मृगाङ्क जिनवह्नि मे पु० । (४)

'व्यूह' बलविन्यास निर्माण वृन्द तर्क मे पु० । (५) 'परिग्रह' शपथ

मूल आदान पत्नी परिजन राहुमुखगत भास्कर मे पु० । (६)

'आरोह' अवरोह वराऽऽरोहकटि आरोहण गजारोह दीर्घत्व समुच्छ्रय मे पु० । इति हान्ताः ॥

नानार्थ अव्यय ॥

(७) 'आङ्' धातुयोगज (आगच्छति) ईषदर्थ (ओष्णम्)

सीमा (आषोडशात् पन्द्रह वर्ष तक अभिव्यापि आसमुद्रात् में ।

(८) 'सक्वृत्' सहार्थ एकवारम् मे । (९) 'आ' वाक्य स्मृति

अडित् मे । (१०) 'अति' प्रशंसा प्रकर्ष लघन में । (११) 'हन्त'

हर्ष विषाद वागारम्भ अनुकम्पा में ।

'इति प्रकरणे हेतु प्रकाशादि समाप्तिषु ॥२५८॥

तिर्यगर्थे तिरोऽन्तर्धो प्रौढिर्नामप्रकाशयोः ।

अल वारण पर्याप्ति शक्ति भूषणवाचकम् ॥२५९॥

रहस्यापि मिथोऽन्योन्य मर्धे सामि जुगुप्सिते ।

वाक्यालङ्कार जिज्ञासा निषेधाऽनुनयाः खलु ॥२६०॥

तर्केऽर्थ निश्चये नून किं पृच्छा वा जुगुप्सनम् ।

विस्तारेऽङ्कतौ चोरी चोररी चोररी, किले ॥२६१॥

सभाव्यवार्तयोः, कस्यात्सुखे मूर्धनि वारिणि ।

नाम सभाव्य क्रोधोपगम प्राकाश्य कुत्सने ॥२६२॥

परे च लोके स्वर्गे स्वर्गे भेदाऽप्रमथयोः पुनर् ।

भेदेऽवधारणे तु स्यात् पापे-प-त्कुत्सनासु कुं ॥२६३॥

(१) 'इति' प्रकरण हेतु प्रकाशादि समाप्तिभिर्दर्शन दृष्टान्त प्रकार अनुकर्ष मे । (२) 'तिरस्' तिर्यक् अर्थ में अन्तर्धि में । (३) 'मादुम्' नाम प्राकाश्य में । (४) 'अल' वारण पर्याप्ति शक्ति भूषण निरर्थक मे । (५) 'मिथस्' अन्योन्य रहस्य मे । (६) 'सामि' अर्थ जुगुप्सा मे । (७) 'खलु' वाक्यालङ्कार जिज्ञासा निषेध अनुनय (मान्दवन वी मा मान निषेध वाक्य पद के पूति मे । (८) 'नून' तर्क अर्थ निश्चयमें । (९) 'किं' प्रश्न कुत्सा वितर्क निषेध मे । (१०) ऊर्। उररी ऊररी ए तीनो विस्तार अङ्गाकार अर्थ मे है । (११) 'किले' वार्ता सभाव्य अनुनयार्थ अरुचि मे । (१२) 'क' सुन्व गिरम् तोय पादपूरणमे । (१३) 'नाम' सभावना क्रोध अभ्युपगम प्राकाशन कुत्सा विस्मय स्मरण काम विकल्प मे । (१४) 'स्वर्' परलोक स्वर्ग मे । (१५) 'पुनर्' अप्रथम अविकार भेद पक्षान्तर में । (१६) 'तु' पादपूरण भेद समुच्चय अवधारण पक्षान्तर वियोग प्रशमा विनिग्रह में । (१७) 'कुं' पाप ईषत् कु सा निवारण में ।

वितर्क प्रश्नयोः स्वित् धिक् निन्दा भर्त्सनयोः उतं ।

विकल्पाऽप्यर्थयो पश्चात् प्रतीच्या चरमे वृथा ॥२६४॥

निरर्थकेऽविधौ पश्चात् सादृश्येऽप्यनु निश्चये ।

निःशेषे निर् हा विपादाऽर्ति शुक्षु हा वोपमादिषु ॥२६५॥

शङ्का समुच्चय प्रश्न गर्हा संभावनाः अपि ।

अवधारण हेत्वो हि परिप्रश्न वितर्कयोः ॥२६६॥

हु प्रबन्धे च निकटेऽतीते वाऽऽगामिके पुरा ।

पुरार्थे प्रथमे प्राच्या पुरस्तादग्रतो, बत ॥२६७॥

- (१) 'स्वित्' वितर्क प्रश्न पादपूर्ति में । (२) 'धिक्' निन्दा (दोष कीर्तन) भर्त्सन (अपकार शब्द से भयो पान) में । (३) 'उत' समुच्चय रूप प्रश्नरूप अप्यर्थ में विकल्प मे । (४) 'पश्चात्' प्रतीची चरम (सप्तम्यन्त पञ्चम्यन्त प्रथमान्त 'अवर' शब्द से निपातित है ।) (५) 'वृथा (वृषा)' प्रयोजन विना वन्व्य विधि विवर्जित मे । (६) 'अनु' होन सद्गार्थ पश्चात् सादृश्य आग्राम समोप लक्षणादि अनुक्रम में । (७) 'निर्' निःशेष निषेध कान्ता आदि अर्थ मे निश्चय मे 'नि' है । (८) 'हा' वषाद दु स्र शोक कुत्सा मे । (९) 'वा व' उपमा विकल्प वितर्क एवार्थ इवार्थ पादपूरण समुच्चय में । (१०) 'अपि' शङ्का समुच्चय प्रश्न गर्हा संभावना में । (११) 'हि' अवधारण हेतु पादपूर्ति विशेष प्रश्न हेत्वपदेश सभ्रम असूया में, 'ही' दु खहेतु विषाद विस्मय में । (१२) 'हु' परिप्रश्न विकल्प मे । (१३) 'पुरा' प्रबन्ध निकट अतीत आगामक में । (१४) 'पुरस्तात् अग्रतस्' प्राची पुरार्थ प्रथम मे । (१५) 'बत' खेद अनुग्रह सतोष अनुकम्पा आम त्रण मे ।

'इति प्रकरणे हेतु प्रकाशादि समाप्तिषु ॥२५८॥

तिर्यगर्थे तिरोऽन्तर्धो प्रादुर्नामप्रकाशयोः ।

अल वारण पर्याप्ति शक्ति भूषणवाचकम् ॥२५९॥

रहस्यापि मिथोऽन्योन्य मर्धे सामि जुगुप्सिते ।

वाक्यालङ्कार जिज्ञासा निषेधाऽनुनयाः खलु ॥२६०॥

तर्केऽर्थ निश्चये नून किं पृच्छा वा जुगुप्सनम् ।

विस्तारेऽङ्कतौ चोरी चोररी चोररी, किल ॥२६१॥

सभाव्यवार्तयोः, कस्यात्सुखे मूर्धनि वारिणि ।

नाम सभाव्य क्रोधोपगम प्राकाश्य कुत्सने ॥२६२॥

परे च लोके स्वर्गे स्वर् भेदाऽप्रमथयोः पुनर् ।

भेदेऽवधारणे तु स्यात् पापे-प-त्कुत्सनासु कुं ॥२६३॥

(१) 'इति' प्रकरण हेतु प्रकाशादि समाप्ति निदर्शन दृष्टान्त प्रकार अनुकर्ष मे । (२) 'तिरस्' तिर्यक् अर्थ में अन्तर्धि में । (३) 'मादुस्' नाम प्राकाश्य में । (४) 'अल' वारण पर्याप्ति शक्ति भूषण निरर्थक मे । (५) 'मिथस्' अन्योन्य रहस्य मे । (६) 'सामि' अर्थ जुगुप्सा मे । (७) 'खलु' वाक्यालङ्कार जिज्ञासा निषेध अनुनय (मा-त्वन् वी-मा मान निषेध वाक्य पद के पूर्ति मे । (८) 'नून' तर्क अर्थ निश्चयमे । (९) 'किं' प्रश्न कुत्सा वितर्क निषेध मे । (१०) 'ऊग' उररो ऊग्री ए तोनो विस्तार अङ्गाकार अर्थ मे है । (११) 'किल' वार्ता सभाव्य अनुनयार्थ अरुचि मे । (१२) 'क' सुख शिरस् तोय पादपूरणमे । (१३) 'नाम' सभावना क्रोध अभ्युपगम प्रकाशन कुत्सा विस्मय स्मरण काम विकल्प मे । (१४) 'स्वर्' परलोक स्वर्ग मे । (१५) 'पुनर्' अप्रथम अत्रिकार भेद पक्षान्तर में । (१६) 'तु' पादपूरण भेद समुच्चय अवधारण पक्षान्तर वियोग प्रशसा विनिग्रह में । (१७) 'कु' पाप ईषत् कुत्सा निवारण में ।

वितर्क प्रश्नयोः स्वित् धिक् निन्दा भर्त्सनयोः उत ।

विकल्पाऽप्यर्थयो पश्चात् प्रतीच्या चरमे वृथा ॥२६४॥

निरर्थकेऽविधौ पश्चात् सादृश्येऽप्यन्तु निश्चये ।

निःशेषे निर् निष् विपादाऽर्ति शुक्ष्हा वा वीपमादिषु ॥२६५॥

शङ्का समुच्चय प्रश्न गर्हा संभावनाः अपि ।

अप्रधारण हेत्वो हि परिप्रश्न वितर्कयोः ॥२६६॥

हु प्रबन्धे च निकटेऽतीते वाऽऽगामिके पुरा ।

पुरार्थे प्रथमे प्राच्या पुरस्तौदग्रतो, वत ॥२६७॥

(१) 'स्वित्' द्विनक प्रश्न पादपूर्नि मे । (२) 'धिक्' निन्दा (दोष कीर्तन)

भर्त्सन (अपकार शब्द से भयो पान) में । (३) 'उत' समुच्चय रूप प्रश्नरूप अप्यर्थ में विकल्प मे । (४) 'पश्चात्' प्रतीची चरम (सप्तम्यन्त पञ्चम्यन्त प्रथमान्त 'अवर' शब्द से निपातित है ।)

(५) 'वृथा (वृपा)' प्रयोजन विना वन्ध्य विधि विवर्जित मे ।

(६) 'अनु' होन सद्गार्थ पश्चात् सादृश्य आयाम मनोप लक्षणादि

अनुक्रम में । (७) 'निर् निम्' नि शेष निषेध कान्ता आदि अर्थ-

मे निश्चय मे 'नि' हैं । (८) 'हा' विषाद दु ख शोक कुसा मे ।

(९) 'वा व' उपमा विकल्प वितर्क एवार्थ इवार्थ पादपूरण

समुच्चय में । (१०) 'अपि' शङ्का समुच्चय प्रश्न गर्हा संभावना में ।

(११) 'हि' अवधारण हेतु पादपूर्नि विशेष प्रश्न हेत्वपदेश सभ्रम

असूया में, 'ही' दु खहेतु विषाद विस्मय में । (१२) 'हु' परिप्रश्न-

विकल्प मे । (१३) 'पुरा' प्रबन्ध निकट अतीत आगामक में ।

(१४) 'पुरस्तात् अग्रतस्' प्राची पुरार्थ प्रथम मे । (१५) 'वत'

ग्वेत् अनुग्रह सतोष अनुकम्पा आम व्रण मे ।

खेदाऽनुग्रहसंतोषाऽनुकम्पाऽऽमन्त्रणे ननु ।
 प्रश्नेऽवधारणेऽनुज्ञाऽऽमन्त्रणाऽनुनयादिषु ॥२६८॥
 मङ्गलाऽनन्तर प्रश्नाऽऽरम्भ कृत्स्नेष्वथो अथ ।
 यावत्तावच्च साकल्याऽवधि मानाऽवधारणम् ॥२६९॥
 नु पृच्छाया विकल्पे च नानाऽनेको भयार्थयोः ।
 पुनः सहार्थता शश्वत् आराद् दूर समीपयोः ॥२७०॥
 आः कोपेऽपि च पीडाया साक्षात् तुल्य समीपयोः ।
 चाऽन्याचय समाहारे तरेतर समुच्चये ॥२७१॥

(१) 'ननु' प्रश्न अवधारण अनुज्ञा आमन्त्रण अनुनय
 में । (२) 'अथो अथ' सशय अत्रिकार विकल्प समुच्चय
 मङ्गल अनन्तर प्रश्न आरम्भ कृत्स्न (ममस्न) में । (३) 'यावत्
 तावत्' साक्य अत्रि मान अवधारण में (मेदिनीकार,
 प्रथमा परिच्छेद मान अत्रिकार सन्न पक्षान्तर काऽर्त्न
 अवधारण अर्थ बतल ए है ।) । (४) 'नु' प्रश्न विकल्प अतोत
 अनुनय मे । (५) 'नाना' अनेक उभयार्थ त्रिना के अर्थ में ।
 (६) 'पुनर्' अथयम अत्रिकार भेद पक्षान्तर मे और 'शश्वत्'
 पुनर् के अर्थ मे सह अर्थ मे । (७) 'आरात्' दूर समीप में ।
 (८) 'अ' स्मरण अकारग कोर पीडा में । (९) 'साक्षात्'
 तुल्य समक्ष मे । (१०) 'च' प्रधानकार्य के अविरोध से कर्मान्तर
 क सादरहा अ वाच्य मे (भिज्ञानट गाँ चाऽऽनय) समाहार
 (समूह) मे यथा सज्ञा परिभाषम् मित्रिनो का अन्वय क ता रूप
 इतरेतर योग मे (यथा-धव खेरी) परस्पर निरपेक्ष किमी एक को
 किसी एक मे अन्वयरूप समुच्चय मे (यथा ईश्वर गुहं च भजस्व ।
 पादपरण मे पक्षान्तर मे त्रिनिश्चय मे ।

स्वस्त्याशीः क्षेमपुण्येषु ३ जोषं तूष्णीं सुरार्थयोः ।
 लक्षणादौ च वीप्साया तथा प्रतिविधौ प्राति ॥२७२॥
 अर्मा सह समीपेऽपि अहंहाऽद्भुत खेदयोः ।
 शीघ्राऽभिमुख साकल्य समीपो भयतोऽभितः ॥२७३॥
 मध्येऽन्तिकेऽपि समये एवम् इत्थमिवार्थयोः ।
 ॥ इति नानार्थवर्गः समाप्तः ॥

(१) 'स्वस्ति' मङ्गल आशीर्वाद पापनिर्णेजन आदि मे (२) 'जोषम्' तूष्णी अर्थ मे सुख मे प्रशंसा मे लङ्घन मे (३) 'प्राति' लक्षित हो जिससे ऐसे लक्षण मे इत्थभूताख्यान अर्थात् मुख्य सदृश प्रातिनिधि मे भाग मे व्याप्तुम् इच्छारूप वीप्सा मे प्रतिविधि अर्थात् प्रतिदान मे स्तोक मे । (४) 'अर्मा' सहार्थ, समीप मे । (५) 'अहह, अहहा' अद्भुत खेद परिकलेश प्रहर्ष संबोधन मे । (६) 'अभितम्, अभिमुख साकल्य समीप उभय-तस् मे । (७) 'समया निकषा हिरुक्, मध्य मे समीप मे । (८) 'एवम्, इत्थम् और एव अर्थ मे (धरणि कोष ने प्रकार उपमा ऋङ्गि कार अवधारण मे वह कर स्पष्ट किया है ।) ।

॥ इत्यनेकार्थ अव्ययवर्ग ॥

॥ नानार्थवर्ग समाप्त ॥

॥ अथ अव्ययवर्गः प्रारभ्यते ॥

अतीते 'ह्योऽह्नि विज्ञेयं भाविनि श्वस्तु कीर्तितम्

परेद्यवि परेऽह्नि स्यात् परश्वस्तु परेऽहनि ॥१॥

तदा तदानीं वै तस्मिन् काल द्वयमुदीरितम् ।

युगपदेकैकस्मिन् सर्वस्मिन् सर्वदा सदा ॥२॥

अस्मिन् साम्प्रतमेतर्हि सम्प्रति चाधुना तथा ।

इदानी चेति विज्ञेय मद्यात्राह्नि प्रकीर्तितम् ॥३॥

पूर्वेऽहनि च पूर्वेषु उत्तरेषु रादयः क्रमात् ।

उत्तरान्यतरान्यस्मादितराधर परादहः ॥४॥

हिन्दी—(१) 'ह्य' अतीत कल दिन मे ('ह्य' इसका वीता हुआ कल अर्थ होता है) । (२) 'श्व', भावी कल दिन मे (आगामी कल अर्थ होता है) । (३) 'परेद्यवि' परसों दिन मे (वीता हुआ परसों होना है) । (४) 'पश्व', भावी परसों दिन मे (आनेवाला परसों अर्थ होता है) । (५) 'तदा, तदानीम्' ये दोनो उम काल मे कहा हुआ है । (६) 'युगपत्, एकदा, ये दोनो एक काल के लिये प्रयुक्त होते है । (७) 'सर्वदा सदा,' ये दोनो हमेशा के लिये प्रयुक्त होते हैं । (८) 'साम्प्रत, एतर्हि, सम्प्रति, अधुना, ये चारो इस काल के लिये प्रयुक्त होते हैं । (९) 'इदानीम्, यद् भी अभी अर्थ मे प्रयुक्त होता है । (१०) 'अद्य' यह शब्द आज इस दिन अर्थ मे प्रयुक्त होना है । (११) 'पूर्वेषु' यह पूर्व दिन अर्थ मे प्रयुक्त होता है । (१२) 'उत्तरेषु' यह उत्तर दिन अर्थ मे प्रयुक्त होता है । इसी प्रकार 'अन्यतरेषु' अन्येषु, इतरेषु, अगरेषु, परेषु, ये सा भी क्रमशः क्रिमो एक

पूर्वे पूर्वतरेऽब्देऽस्मिन् परस्परं येषमे पुनः ।

अतीते स्म वैहि बहि प्रश्ने ऊं चानुनये त्वयि ॥५॥

उषा रात्र्यप्रसाने स्याद् हुतर्के च नती नमः ।

निन्दाया 'दुष्टु वै' सुष्टु प्रशसायामुदीरितम् ॥६॥

प्रातः प्रगे प्रभाते स्यात् साये सायं प्रकीर्तितम् ।

प्रागतीते सना नित्ये कच्चित् काम प्रवेदने ॥७॥

युक्तार्थे साम्प्रत स्थानेऽभीक्षणं शश्वन्निरन्तरे ।

अभावे नहि नो न स्यात् प्रसह्येति हठार्थकम् ॥८॥

दिन मे, दूसरे दिन इत्यादि अर्थों मे प्रयुक्त होते है । (१) 'परत्' यह शब्द गत वर्ष के लिये प्रयुक्त होता है । (२) 'परारि' यह शब्द तीसरे वर्ष के लिये प्रयुक्त होता है । (३) 'ऐषम' यह शब्द इस वर्तमान वर्ष के लिये प्रयुक्त होता है । (४) 'स्म' यह बीते हुए काल के लिये प्रयुक्त होता है । (५) 'बहि' यह बाहर अर्थ के लिये आता है । (६) 'ऊं' यह प्रश्न अर्थ मे है । (७) 'अयि, यह अनुमान (खुशामद) अर्थ मे है । (८) 'उषा' यह रात्रिका अन्त अर्थ मे है । (९) 'हुं' यह तर्क वितर्क अर्थ मे है । (१०) 'नम' यह नमस्कार अर्थ मे है । (११) 'दुष्टु' यह निन्दा अर्थ मे । (१२) 'सुष्टु' यह प्रशसा अर्थ में । (१३) 'प्रात प्रगे' ये दोनो प्रातः काल अर्थ में । (१४) 'साय' यह सायंकाल अर्थ मे । (१५) 'प्राक्' यह अतीतकाल अर्थ मे । (१६) 'सना' यह नित्य अर्थ में । (१७) 'कच्चित्, यह इष्ट प्रश्न मे । (१८) 'साम्प्रतम्, स्थाने' यह दोनो युक्त अर्थ मे । (१९) 'अभीक्षणम्, शश्वत्, ये दोनो लगातार अर्थ मे । (२०) 'नहि, नो, न' ये तीनो अभाव अर्थ मे । (२१) 'प्रसह्य' यह हठ अर्थ मे प्रयुक्त होता है ।

तत्त्वार्थेऽङ्गाऽञ्जसा प्रोक्तं प्रादुराविः प्रकाशने ।
अमत्ये च मृषा मिथ्याऽवध्यं नूनञ्च निश्चिते ॥९॥

निःषेधं दुःषमं निन्द्ये एव इत्यवधारणे ।

आमेवं तु पुनर्वैवा निश्चयार्थे प्रकीर्तिताः ॥१०॥

निकामानुमर्ता कामम् ओमेव परम तथा ।

कदाचिज्जातु कस्मिञ्चित्काले द्वयमुदाहृतम् ॥११॥

सहार्थे तु समं साकं सार्थं सत्रा सहेति च ।

भोः" प्याद् पाद् अङ्गहै हे स्युः मन्वो यनस्य द्योतकाः ॥१२॥

"हिनग् वर्जनं सामीप्ये सप्तसौ स्यादतर्किते ।

(१) अङ्गा, अञ्जसा ये दोनों तत्त्व यथार्थ अर्थ में प्रयुक्त होते हैं ।

(२) 'प्राद् आवि, ये दोनों प्रकाशन स्फुट अर्थ में प्रयुक्त होते

हैं । (३) मृषा, मिथ्या, ये दोनों अमन्य अर्थ में प्रयुक्त होते

हैं । (४) अवध्यम्, नूनम् ये दोनों निश्चित अर्थ में । (५)

'नि षनम् दुःषमम्, ये दोनों निन्दा करने योग्य अर्थ में ।

(६) 'एव यह अवधारण (अन्य की व्यावृत्ति) अर्थ में । (७)

'काम्, एव, तु पुन वै वा ये सभी निश्चय अर्थ में कहे हुए

हैं । (८) 'कामम्' ओम् एव परमम्, ये चार अत्यन्त अनु-

मति (त्वकृति) अर्थ में (९) कदाचित् जातु ये दोनों किसी

भी अनिश्चितकाल अर्थ में कहा गया है । (१०) 'मन्, माक-

सार्थं, सत्रा मन्, ये सब महार्थ में प्रयुक्त होते हैं । (११) 'भो-

प्याद् पाद् अङ्गहै हे, ये सब मन्वो यन अर्थ में द्योतक हैं ।

(१२) 'हिनग्' यह वर्जन मन्सौ अर्थ में है । (१३) 'महमा'

यह अतर्कित एकाएक अचानक अर्थ में है ।

स्वाहा स्यात्तु हविर्दाने वौषट् श्रौपट् वषट् स्वधा ॥१३॥

तूष्णीं मौने मनैराल्पे किञ्चिदीपत्तथैव च ।

तुं हि चह तथा वै स्यात् किलापि पादपूरणे ॥१४॥

प्राध्व स्यादानुकूल्यार्थे व्यर्थके तु मुधा वृथा ।

दोषा नक्त रजन्या स्यात् दिवसे तु दिवा स्मृतम् ॥१५॥

विकल्पार्थे तु आहो स्याद् उताहो किमुतापि वा ।

वक्रे साचि^{१०} तिर प्रोक्तं^{११} प्रेत्यामुत्र भवान्तरे ॥१६॥

पौनः पुन्ये^{१२} मुहुः शश्वत् अभीक्षणममकृत् पुनः ।

द्राक् झटित्यञ्जसा मक्षु सद्यः सपदि तन्क्षणे ॥१७॥

चिरार्थे चिररात्राय^{१३} चिरायादि प्रकीर्तितम् ।

(१) स्वाहा वौषट्, श्रौपट्, वषट्, स्वधा, ये सब हविष्य-क्षेप अर्थ के लिये प्रयुक्त होते हैं । (२) 'तूष्णीम्' यह मौन अर्थ मे । (३) 'मनाक किञ्चित्, इषत्, ये तीनों अल्प अर्थ, मे । (४) तु, हि, च, ह, वै, किल, अपि, ये सब श्लोक की पाठपूर्ति के लिये आते हैं । (५) प्राध्वम्, यह अनुकूल अर्थ मे प्रयुक्त होता है । (६) 'मुधा, वृथा' ये दोनो व्यर्थ अर्थ मे प्रयुक्त होते हैं । (७) दोषा नक्त' ये दोनो रात्रि अर्थ मे है । (८) 'दिवा' यह शब्द दिन अर्थ मे प्रयुक्त होता है । (९) 'आहो, उताहो, किमुत, वा' ये चारो विकल्प अर्थ मे प्रयुक्त होते हैं । (१०) 'साचि, तिर' ये दोनो टेढा अर्थ मे है । (११) 'प्रेत्य, अमुत्र' ये दोनो दूरमे भवरूप अर्थ मे प्रयुक्त होते हैं । (१२) 'मुहुः शश्वत्, अभीक्षणम्, अस-कृत्, पुन', इतने शब्द वारम्बार अर्थ मे (१३) द्राक् झटिति, अञ्जसा, मंक्षु, सद्यः, सपदि इतने शब्द तुरत अर्थ मे प्रयुक्त होते हैं । (१४) 'चिररात्राय चिराय, चिरं, चिरेण, चिगात्, चिरे' ये सब देर काल के लिये प्रयुक्त होते हैं ।

सादृश्यार्थे 'यथैवैव तथा वा व प्रकीर्तितम् ॥१८॥

विस्मयार्थे 'अहो हीचा नन्दे 'दिष्ट्या शमीरितम् ।

पुनश्चा प्रथमे भेदे निर्निश्चय निषेधयोः ॥१९॥

'अन्तरे चान्तरा मध्ये चान्तरेण तथैव च ।

परितः' सर्वतो विष्वक् समन्तात् समन्ततः ॥२०॥

अभितो विश्वतोऽर्थे स्यात् 'मास्म माल च वारणे ।

(१) 'यथा इव', एवं, तथा, वा, व, ये सब सादृश्य अर्थ मे प्रयुक्त होते है । (२) 'अहो ही 'ये दोनो आश्चर्य अर्थ मे । (३) 'दिष्ट्या, शम्' ये दोनो आनन्द अर्थ मे । (४) 'पुन', वार वार तथा भेद अर्थ मे (५) 'नि' यह निश्चय तथा निषेध अर्थ मे । (६) अन्तरे, अन्तरा अन्तरेण ये तना मध्य अर्थ मे । (७) परित सर्वत विष्वक् समन्तात् समन्तत अगित ये सब सभी तरफ से इस अर्थ मे प्रयुक्त होते है । (८) मास्म मा अल ये तीनो मना करना अर्थ मे प्रयुक्त होते है ।

॥ इति अव्ययवर्ग समाप्त ॥

॥ अथ लिङ्गादि निर्णयवर्गः प्रारभ्यते ॥

'लिङ्गनिर्देशकैः शास्त्रैः नानामुत्रसमन्तैः ।

सन्नादि निर्मितैः शब्दैः कृत्तद्धितसमासजैः ॥१॥

लिङ्गादि संग्रहत्वेन सक्षेपवर्णनामके ।

पूर्वानुक्तै लिङ्गादान् प्रकीर्णवदिहोन्नयेत् ॥२॥

लिङ्गोत्सर्गविधिर्ज्ञेयः काण्डत्रय उदाहृतः ।

विशेष विधिना नोचेत् कदाचिद् वाधितो भवेत् ॥३॥

ईदृदन्तः स्त्रियामेकाच् सयोनि प्राणि नामनि ।

।हन्दा—(१) इस लिङ्गादि निर्णय वर्ग मे जिन शब्दो के पुल्लिङ्गादि लिङ्गो का पूर्व मे प्रतिपादन नहीं किया गया है उन शब्दो मे लिङ्गादिका जान प्रकाण वर्ग के समान ही लिया किन्तु पुंसि सजाया घ प्रायेण, नपुसके भावेक्त स नपुसकम् अदन्तोत्तरपदो द्विगु स्त्रियामिष्ट' इत्यादि अनेक सूत्रो से युक्त लिङ्ग निर्देशक व्याकरण शास्त्रो एव सन् प्रत्ययादि सहित कृदन्त तद्धितान्त समासादि शास्त्रो से निष्पन्न 'पाक', त्याग, राग, श्रुति, स्मृति, मति, गति, स्तुति' इत्यादि शब्दों द्वारा करना चाहिये । (२) किन्तु तीनों काण्डो में किसी विशेष अपवाद विधि से नहीं वाधित होने पर सामान्य उत्सर्ग विधि से ही लिङ्गो का नोध कर लेना चाहिये ।

(३) यहा से 'त्रियाम्' इसका अधिकार चालु होता है ईकारान्त ऊहारांत एक अच् [स्वर] वाला शब्द स्त्रीलिङ्ग होता है जैसे श्री, ह्री, घी, भ्रू, द्रू, छ, भू, नी' इत्यादि यहां लवनं छ, इस प्रकार भाव मे क्विप् प्रत्ययान्त है किन्तु छनातीति छ. यह कर्तरि क्विप् प्रत्ययान्त तो त्रिलिङ्ग समझा जाता है ।

वाणी वल्ली निशा विद्युन्नदी दिग्भूधिया तथा ॥४॥

अदन्तोत्तर शब्दश्चेद् द्विगुरेकार्थबोधकः ।

नो चेद् भुवनपात्राद्यै रदन्तै र्जातु सयुतः ॥५॥

समूहे येनिकैटय त्रास्तल् वैरमिथुनादिवुः ।

स्त्रिया क्तिन्ननिष्वुल्ण्वुञ् णञ् युच् क्यवडिञ् निशाः

स्मृताः ॥६॥

(४) योनि सहित प्राणिवाचक शब्द भी स्त्रीलिङ्ग होता है जैसे माता, दुहिता याता, स्त्री, इत्यादि किन्तु दार शब्द योनि प्राणी स्त्रीवाचक होने पर भी पुलिङ्ग ही है ।

(१) वाणी, वल्ली, निशा, विद्युत्, नदी, भू, धी वाचक शब्दों के पर्याय स्त्रीलिङ्ग है जैसे—वाणी, वाक्, गौः, गो, वल्ली, लता, वीरुत्, निशा, रात्रि, रजनि इत्यादि ।

(२) अदन्तोत्तर पद द्विगु एकार्थक शब्द त्रिलोकी, दशमूली इत्यादि स्त्रीलिङ्ग है । किन्तु त्रिभुवन, पञ्चपात्र इत्यादि नपुंसक है । (३) समूह अर्थ मे य, इनि, कटय, त्र, तल्, वैर, मिथुना-र्थक वु प्रत्यय क्तिन्, अनि, ण्वुल्, ण्वुच्, णच्, युच्, क्यप्, अड् इञ् निश और अ प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग होते हैं । जैसे य-पाश्या, इनि खलिनी, डाकिनी, शाकिनी, कटय—रथकटया, त्र, गोत्रा, तल् देवता, ग्रामता, जनता, वैर मिथुन वु—अश्वमहिषिका काकोल्लिका, अत्रि भरद्वाजिका आदि शब्द से द्विपदिका गार्गिका काठिका शैष्यो-पाध्यायिका इत्यादि क्तिन्—मति, श्रुति, स्मृति, गति, कृति इत्यादि अनि अजननि, अकरणि ण्वुल्—प्रच्छदिका, प्रचर्चिका, प्रवाहिका, ण्वुच् आसिका शायिका, इक्षुभक्षिका णच्—व्यावक्रोशी व्यावहासी

उणादोवी निरुश्वोक्त ऊङ् ड्यावन्तं स्थिर चलम् ।

प्रहरणं तत्क्रीडायां दाण्डा मौष्टा णदिक् स्मृता ॥७॥

सा क्रियाऽस्यां घञो वः स्याद् दाण्डापातातिथिः स्मृता ।

मृगया श्यैनपातास्यात् तैलपाता स्वधा स्मृता ॥८॥

विवक्षाऽपचये चेत् स्त्री मृणाल्यादि रुढाहता ।

युच्-कारणा, कामना, क्यप् ऋज्या, इज्या, समज्या, निषद्या अड भिदा, छिदा, इब् कारि गणि. नि ग्लानि हानि. म्लानि श- 'क्रिया, इच्छा, अ-चिकीर्षा, ईहा, ऊहा इत्यादि । (१) उणादि गण मे ई प्रत्यय निप्रत्यय ऊ प्रत्ययान्त शब्द खोलिङ्ग होते हैं- जैसे-अवो, तरी, श्रेणि, श्रोणि, चमू इत्यादि, ऊङ्-डी आप् प्रत्ययान्त-वामोरु गौरी, रमा इत्यादि स्त्रीलिङ्ग है । (२) प्रहरण अर्थ में क्रीडा के लिए प्रत्युक्त ण प्रत्ययान्त शब्द खोलिङ्ग होते हैं जैसे-दण्डा मौष्टा इत्यादि । (३) 'दण्डपात इस तिथि मे है' इस अर्थ मे घञन्त क्रिया वाचक दण्डपात शब्द से खोलिङ्ग मे अप्रत्ययान्त 'दण्डपाता तिथि' ऐसा प्रयोग होता है । (४) श्येनपात इस मृगया मे है ।। इस अर्थ मे घञन्त क्रियावाचक श्येनपात शब्द से स्त्रीलिङ्ग में अप्रत्ययान्त 'श्यैनपाता मृगया' ऐसा प्रयोग होता है । (५) 'तैलपात इम स्वधा मे है' इस अर्थ में घञन्त क्रियावाचक तैलपात शब्द से स्त्रीलिङ्ग मे अप्रत्ययान्त 'तैल पाता स्वधा' ऐसा प्रयोग होता है । (६) अल्पता की विवक्षा करने पर मृगालो आदि से कुम्भी, प्रणाली, मुमली, पटी, तटी इत्यादि प्रयोग खोलिङ्ग में होता है । छोटा मृगाल, छोटा घडा, छोटा न लो, छोटा मुमळ, छोटा कपड़ा' छोटा तट ऐसा अर्थ होता है ।

टीका शेफालिका लङ्का घातकी पञ्जिकाढकी ॥९॥

सारिका सिधका हिकका प्राचिकोल्का पिपीलिका ।

कणिका तिन्दुकी भङ्गिः सुरङ्गामाढि सूचयः ॥१०॥

कन्धा साति रथा सन्दी नाभिराज सभा तथा ।

वितण्डा कानिणी पिच्छा शाणी चूर्णि ढुणी दरत् ॥११॥

चर्चरी झलरी होरा पारी लट्वा च सिद्धला ।

लिखा लक्ष्माऽथ गण्डुषा चमसी गृध्रसी मसी ॥१२॥

इत्पेवं स्त्रीत्वसंयुक्ताः शब्दाः स्त्रीत्वे प्रकीर्तिताः ।

हिन्दी—(१) टीका शेफालिका, लङ्का, घातकी पञ्जिका आढकी ये शब्द खालिङ्ग में प्रयुक्त होते हैं । शेफालिका सिहर-हान फूल को कहते हैं । जो कि रात में खिलते ही जमीन पर पड़ जाता है ।

(२) सारिका (मेना) शब्द खालिङ्ग है । सिध का (सीध नाम का वृक्ष विशेष शब्द एवं हिकका (हिचकी) शब्द प्राचिका (वनमञ्जिका) शब्द उल्का (टूट तारा) शब्द, पिपीलिका (छोटी-कीट पतङ्ग) शब्द, कणिका (अत्यन्त छोटा कण) शब्द, तिन्दुकी शब्द, भङ्गि (छटा विच्छिन्नि विशेष) शब्द, सुरङ्गा (सुरङ्ग) शब्द, माढि (वाण पत्र का अग्रभाग) शब्द, आसन्दी (कुसी), नाभि राजसभा वितण्डा, कानिणी (कौरी) पिच्छा (मयूर पिच्छ) शाणी (शाण) चूर्णि, ढुणा (कच्छरी) रग्न (पपात) चर्चरी (गीतवाद्य) झलरी (झाल) होरा (लग्न) पारी (दोहनपात्र) लट्वा (लट्वा) सिद्धला लिखा लक्ष्मा गण्डुषा चमसा गृध्रसी (वान व्याधि विशेष) मसी (मस) ये सब ख लङ्ग में प्रयुक्त होते हैं ।

स्त्रीलिङ्ग मनात ।

पुस्त्रे इत्यधिकारेऽस्मिन् सभेदानुचरार तथा ॥१३॥

पर्यायसहिताः सर्वे देवा दैत्या उदाहृताः ।

स्वर्गाद्विमेघ यागाब्धि वृक्षकालारिगरासयः ॥१४॥

एते हि नित्य पुल्लिङ्गा यथा शास्त्र प्रतीतिता ।

हिन्दी—(१) अब यहा से पुल्लिङ्ग के अधिकार मे भेदो (विशेष) तथा अनुचरो के साथ एव पर्यायो के साथ सभी देव तथा दैत्यवाचक शब्द पुल्लिङ्ग मे प्रयुक्त होते है, जैसे—मुग्धभेद (सुरविशेष) तुषिता, साव्या, आभास्वरा, इन्द्र, शक्र, सूर्य, आदित्य चन्द्र इन्द्र इत्यादि, देवानुचर हाहा, हह, तुम्बरु, नारद, मातलि इत्यादि, सुरपर्याय—अमरा, अनर्जरा, देवा, त्रिदशा, विबुधा सुरा इत्यादि । दैत्यभेद बलि, नमुवि, जम्भ इत्यादि दैत्यानुचर—कूष्माण्डा, मुण्डा दुम्भाण्डा इत्यादि दैत्यपर्याय—दैत्या, दैतेया, दानवा इत्यादि शब्द पुल्लिङ्ग माने जाते है । किन्तु दैवतानि, देवता, ये दोनो क्रमश नपुंसक लालिङ्ग है । (२) स्वर्ग अद्वि मेघ याग अब्धि वृक्ष काल अरि शर और असि इतने शब्द भेदो (विशेषो) तथा पर्यायो के सहित नित्य पुल्लिङ्ग होते है जैसे—स्वर्ग, नाक, त्रिदिव, अद्वि, गिरि, पर्वत, मेरु, हिमवान्, सह्य, मेघ, घन, जलद, पुष्कर, आवर्त, याग, यज्ञ मख क्रतु उकथ, अश्वमेघ, आग्नष्टोम, अब्धि, समुद्र, मागर क्षीरोद, लवणोद वृक्ष तरु द्रु, प्लक्ष काल, समय, दिष्ट मास, पक्ष ऋतु, अरि, शत्रु अशति आततायो, शर बाण विशिख नाराच भल्ल काण्ड अस्त्रि, खड्ग नन्दक, चन्द्रहास इत्यादि शब्द पुल्लिङ्ग होते है । किन्तु द्यो दिव् ये दोन स्वर्गवाचक शब्द स्त्रीलिङ्ग है तथा त्रिविष्टप शब्द नपुंसक है, एवं

कपोलौधरदोर्दन्त कोश कण्ठकरस्तनाः ॥१५॥

अह्नाहान्ताः नखक्ष्वेडाः रात्रान्ताः प्रागसंख्यकाः ।

सालाद्याश्च निर्यासाः अन्नसन्ता अवाधिताः ॥१६॥

मेघवाचक अभ्रशब्द नपुंसक है । एव दिन तिथि ये दोनो शब्द काल विशेषवाचक नपुंसक तथा स्त्रीलिंग भी माने जाते हैं । (१) कपोल अमरोष्ठ बाहु दन्त केश कण्ठ कर (टेकम मालगुजारी वगैरह राजग्राह्य भाग एवं किरण हाथ और स्तन वाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं । जैसे -कपोल गण्ड अधर ओष्ठ, दन्तच्छद, दो बाहु, प्रवेष्ट दन्त दशन रद जम्भ, केश, कच, कुन्तल, चिकुर, बाहु, स्तन, कुच, पयोधर इत्यादि शब्द पुल्लिंग हैं । (२) अह अँ अः शब्दान्त शब्द पुल्लिंग होते हैं पूर्वाह, पराह द्रह त्रयह इत्यादि । (३) नख और क्ष्वेड (जहर) शब्द पर्याय पुल्लिंग हैं । तप पुनर्वाक् क्ष्वेड गरल । (४) असख्यापूर्वक रात्र शब्दान्त शब्द पुल्लिंग है । सर्वरात्र पूर्वरात्र इत्यादि । (५) सरत् आद्य शब्द मे ओ वेष्ट द्रव श्रीवास वृक्षधूप गुग्गुलु सिंहक इत्यादि निर्यास वृक्ष द्रव वाले वृक्षो का वाचाक शब्द पुल्लिंग हैं । (६) अन् अन्तवाच्ये शब्द और अस्अन्तवाले शब्द पुल्लिंग है-जैसे कृष्णवर्मा, प्रतिदिवा मगवा अङ्गिरा वेगा चन्द्रमा इत्यादि, किन्तु अनन्त और अमन्त शब्द भी यदि किसी विशेष अपवाद से बाधित होने पर पुल्लिंग नहीं होते जैसे-लोम, सम, वर्म वर्त्म, अप्सरस जलौकस सुमनस इत्यादि शब्द यथाक्रम नपुंसक स्त्रीलिंग है ।

जतु कशेरु वस्तूनि त्यक्त्वा 'तुर्ववसानकाः ।

'कणभमरपोपान्त्या अदन्ताश्चेदमी तथा ॥१७॥

टथन पय सोपान्त्या गोत्राश्चै चरणाद्वयाः ।

(१) जतु वस्तु धीर कशेरुशब्द को छोड़कर तु शब्दान्त और रुशब्दान्त शब्द पुल्लिङ्ग होते हैं—जैसे—हेतु, सेतु वातु कुरु, मेरु, त्मरु इत्यादि जतु वस्तु और कशेरु ये तीन शब्द तो तु और रु शब्दान्त होने पर भी पुल्लिङ्ग नहीं हैं अपि तु नपुंसक लिंग ही माने जाते हैं । यहाँ पर यद्यपि किसी विशेष अपवाद से बाधित नहीं होने पर ही सामान्यरूप से पुल्लिङ्गादि लिंगों का समग्र किया गया है तथापि उमी विशेष अपवाद का फलिनार्थ ही जतु वस्तु कशेरु का निषेध किया हुआ समझना चाहिये । (२) ककार णकार भकार मकार रेफ षकार उपान्त्यवाले अदन्त शब्द तथा टकार थकार नकार पकार यकार सकार उपान्त्य वाले अदन्त शब्द पुल्लिङ्ग होते हैं, जैसे—अङ्क अर्क लोक शोक कोक गुण घुण, पाषाणः दर्भ गर्दभ सरभा होम धूम ग्राम काम, वास, शीकर, झझर समीर कीर माष तुष रोष, पट घट सरट करट नाथ सार्थ शपथ जन इन अपघन कूप यूष सूष, कलाप, विनय प्रणय अपनय रस हास पनस इत्यादि । (३) गोत्र अर्थात् वंश के आदि पुरुष वाचक शब्द पुल्लिङ्ग होते हैं जैसे—गौतम भरद्वाज, वसिष्ठ, काश्यप, शाण्डिल्य, कात्यायन इत्यादि । (४) चरण अर्थात् वेद शाखा वाचक शब्द पुल्लिङ्ग होते हैं जैसे—कठ, कलाप, बह्वृच इत्यादि ।

रोमन्थो दृति सीमन्तो हरिदुद्गीथ बुद्बुदाः ॥२३॥

स्तूपः फेनोऽर्बुदः कुन्दः कासमर्दश्च पूषकः ।

कणपक्षुर चुक्राश्च क्षत्रिये नाभिरातपः ॥२४॥

क्षुरप्रः केदर पूरो गोल पुद्गल हिगुलाः ।

मल्लो मल्लश्च वेतालः पुरोडाशस्तु पट्टिशः ॥२५॥

रभसश्चैव कुल्माषः कटाहश्च पतद्ग्रहः ।

बलीव इत्यधिकारेऽस्मिन् उक्तान्यत् समुदाहृतम् ॥२६॥

(१) रोमन्थ (चर्वित चर्वण) शब्द, दृति (चर्मपुट मशक) शब्द, सीमन्त (केग विन्यास) शब्द, हरित् (दिशा) शब्द, उद्गीथ, (सामवेद ध्वने प्रणव) शब्द, बुद्बुद (जल बुद्बुदे परपोटे) शब्द, स्तूप (ऊँचा भाग) शब्द, फेन शब्द, अर्बुद (दशकरोड) शब्द, कुन्द, (फूलविशेष) शब्द, कासमर्द (वेगवारविशेष) शब्द, पूषक (मात्रप्रा) शब्द, कणप (प्रास तलवार) विशेष शब्द, क्षुर (छूरदा) शब्द, चुक्र (स्रटाइ) शब्द एव क्षत्रिय विशेष अर्थ मे नाभि शब्द एव आतप (तरका धूर) शब्द, क्षुरप्र (बाण विशेष) शब्द, केदर (तरु विशेष) शब्द, पूर (जल प्रवाह) शब्द, गोल (मण्डल) शब्द, एव पुद्गल (परमाणु) शब्द, और हिङ्गुल (होङ्ग) शब्द पुन्लिग मे प्रयुक्त होते है । (२) मल्ल (पहलवान) शब्द, मल्ल (भाला) शब्द वेताल (भूतयोनि विशेष) शब्द, एव पुरोडाश (ऋवि विशेष) शब्द एव पट्टिश (शस्त्र विशेष) शब्द, रभस (वेग) शब्द, कुल्माष (काजी) शब्द, कटाह (कराह, पात्रविशेष) शब्द, एव पतद्ग्रह (पिकदानी) शब्द पुन्लिङ्ग मे प्रयुक्त होते है । पुन्लिङ्ग समाप्त । (३) अब यहा से नपुमक का अधिकार किया जाता है जिम्में कि उपरोक्त शब्द

अरण्यं स्रं तथा पर्णं हिमं श्वभ्रं तथोदकम् ।

^१उष्णं शीत बल मासं रुधिराक्षि द्रविणं मुखम् ॥२७॥

हेम शुल्ब फलं लोह मुख दुःस शुभाशुभम् ।

जलजानि च पुष्पाणि व्यञ्जनं लवणं तथा ॥२८॥

अनुलेपन तथा पुण्यं पापञ्च समुदाहृतम् ।

^२कोटि विहाय सख्याऽन्या शतादि परमावधिः ॥२९॥

^३लक्षं लक्षेति विज्ञेयमसिसुसन्तं^४ स्वरद्वयम् ।

अन् अन^५ शब्दान्तमाख्यात कर्तृभिन्नार्थवाचकम् ॥३०॥

से भिन्न शब्द समझना चाहिये । जैसे—अरण्य (जंगल) शब्द ख (आकाश) शब्द तथा पर्ण (पत्ता) शब्द, एव हिम (वर्फ) शब्द तथा श्वभ्र (बिल) शब्द एव उदक शब्द नपुसक लिङ्ग में प्रयुक्त होते हैं । (१) उष्ण शब्द, शीत शब्द, बल शब्द, मास शब्द, रुधिर शब्द, अक्षि (आँख) शब्द, द्रविण (धन) शब्द, मुखशब्द हेमन् (सुवर्ण) शब्द, शुल्ब (ताम्र) शब्द, फल शब्द, लोह शब्द, सुखशब्द तथा जल में उत्पन्न होने वाले फूल विशेष वाचक कमल कुमुद कल्हार उत्पल वगैरह शब्द एव व्यञ्जन तथा लवण शब्द, एव अनुलेपन शब्द एव पुण्य तथा पाप शब्द नपुसकलिङ्ग में प्रयुक्त होते हैं । (२) कोटि शब्द को छोड़कर शत शब्द से लेकर अन्तिम अवधि परार्ध पर्यन्त सख्या वाचक शब्द नपुसक होते हैं जैसे—शतम् सहस्रम्, अयुतम्, अर्बुदम् इत्यादि । (३) किन्तु लाख सख्या वाचक लक्ष शब्द नपुंसक तथा स्त्रीलिङ्ग होता है जैसे—लक्षम्, लक्षा इति । (४) दो स्वर (अच्) वाला असन्त उसन्त शब्द नपुंसक होता है । जैसे यश पय, तेज, तम, सर्पि, हविः ष्योतिः, शोच, वपुः, यजु धनु इत्यादि ।

'रोमन्थो दृति सीमन्तौ हरिदुद्गीथ बुद्बुदाः ॥२३॥

स्तूपः फेनोऽर्बुदः कुन्दः कासमर्दश्च पूषकः ।

कणपक्षुर चुक्राश्च क्षत्रिये नाभिरातपः ॥२४॥

क्षुरप्रः केदर पूरो गोल पुद्गल हिगुलाः ।

मल्लो भल्लश्च वेतालः पुरोडाशस्तु पट्टिशः ॥२५॥

रभसश्चैव कुल्माषः कटाहश्च पतद्ग्रहः ।

वलीव इत्यधिकारेऽस्मिन् उक्तान्यत् समुदाहृतम् ॥२६॥

(१) रोमन्थ (चर्वित चर्वण) शब्द, दृति (चर्मपुट मशक) शब्द, सीमन्त (केश विन्यास) शब्द, हरित् (दिशा) शब्द, उद्गोथ, (सामवेद ध्वने प्रणव) शब्द, बुद्बुद (जल बुदबुदे परपोटे) शब्द स्तूप (ऊंचा भाग) शब्द, फेन शब्द, अर्बुद (दगकरोड) शब्द, कुन्द, (फूलविशेष) शब्द, कासमर्द (वेगवारविशेष) शब्द, पूषक (माञ्जुरा) शब्द, कणप (प्रास तलवार) विशेष शब्द, क्षुर (छून्दा) शब्द, चुक्र (खटाइ) शब्द एव क्षत्रिय विशेष अर्थ मे नाभि शब्द एव आतप (तरका धूर) शब्द, क्षुरप्र (बाण विशेष) शब्द, केदर (तरु विशेष) शब्द, पूर (जल प्रवाह) शब्द, गोल (मण्डल) शब्द, एव पुद्गल (परमाणु) शब्द, और हिङ्गुल (होङ्ग) शब्द पुल्लिङ्ग मे प्रयुक्त होते है । (२) मल्ल (पहलवान) शब्द, भल्ल (भाला) शब्द वेताल (भूतयोनि विशेष) शब्द, एव पुरोडाग (ऋवि विशेष) शब्द एव पट्टिश (अस्त्र विशेष) शब्द, रभस (वेग) शब्द, कुल्माष (काजी) शब्द, कटाह (कराह, पात्रविशेष) शब्द, एव पतद्ग्रह (पिकदानी) शब्द पुल्लिङ्ग मे प्रयुक्त होते है । पुल्लिङ्ग समाप्त । (३) अब यहा से नपुंसक का अधिकार किया जाता है जिसमें कि उपरोक्त शब्द

अरण्यं स्रं तथा पर्णं हिम श्वभ्रं तथोदकम् ।

^१उष्णं शीत बलं मास रुधिराक्षि द्रविणं मुखम् ॥२७॥

हेम शुल्व फलं लोह सुरसं दुःस्र शुभाशुभम् ।

जलजानि च पुष्पाणि व्यञ्जनं लवणं तथा ॥२८॥

अनुलेपनं तथा पुण्यं पापञ्च समुदाहृतम् ।

^२कोटि विहाय सख्याऽन्या शतादि परमावधिः ॥२९॥

^३लक्ष लक्षेति विज्ञेयमसिसुसन्तं^४ स्वरद्वयम् ।

अन् अन^५ शब्दान्तमाख्यातं कर्तृभिन्नार्थवाचकम् ॥३०॥

से भिन्न शब्द समझना चाहिये । जैसे—अरण्य (जंगल) शब्द स्व (आकाश) शब्द तथा पर्ण (पत्ता) शब्द, एव हिम (वर्फ) शब्द तथा श्वभ्र (बिल) शब्द एव उदक शब्द नपुसक लिङ्ग मे प्रयुक्त होते हैं । (१) उष्ण शब्द, शीत शब्द, बल शब्द, मास शब्द, रुधिर शब्द, अक्षि (आँख) शब्द, द्रविण (धन) शब्द, मुखशब्द हेमन् (सुवर्ण) शब्द, शुल्व (ताम्र) शब्द, फल शब्द, लोह शब्द, सुखशब्द तथा जल मे उत्पन्न होने वाले फूल विशेष वाचक कमल कुमुद कल्हार उत्पल वगैरह शब्द एव व्यञ्जन तथा लवण शब्द, एव अनुलेपन शब्द एव पुण्य तथा पाप शब्द नपुसकलिङ्ग में प्रयुक्त होते हैं । (२) कोटि शब्द को छोड़कर शत शब्द से लेकर अन्तिम अवधि परार्ध पर्यन्त सख्या वाचक शब्द नपुसक होते हैं जैसे—शतम् सहस्रम्, अयुतम्, अर्बुदम् इत्यादि । (३) किन्तु लाख सख्या वाचक लक्ष शब्द नपुसक तथा स्त्रीलिङ्ग होता है जैसे—लक्षम्, लक्षा इति । (४) दो स्वर (अच्) वाला असन्त उसन्त शब्द नपुंसक होता है । जैसे यश पय, तेज, तम, सर्पि, हविः ष्योतिः, शोच, वपुः, यजु धनु इत्यादि ।

^१सलोपान्त्यं त्रशब्दान्तं नो चेत् पूर्वेण बाधितम् ।

^२सख्या पूर्वपद रात्र शब्दान्त समुदाहृतम् ॥३१॥

^३पात्राद्यन्तो यथा लक्ष्य द्विगुरेकार्थवाचकः ।

^४द्वन्द्वैकार्थं समाहारोऽव्ययीभावस्तथैव च ॥३२॥

^५सख्याऽव्ययात्परः पन्थाः समासान्तान्वितो भवेत् ।

(१) कर्ता से भिन्न अर्थ का वाचक अन शब्दान्त शब्द नपुसक होता है, जैसे—गमनम्, रमणम् दानम्, कथनम् इत्यादि एवं अन् शब्दान्त शब्द भी नपुसक होता है जैसे—सर्म, चर्म, वर्म, नाम, घान इत्यादि । (२) सकार और लकार उपान्त्य वाले त्र शब्दान्त शब्द नपुसक होते हैं । जैसे—दात्रम्, पात्रम् वस्त्रम्, विस, वुमम्, अन्वतमसम्, कूलम्, मूलम्, शूलम्, तूलम् इत्यादि किन्तु किसी पूर्व अपवाद से बाधित नहीं हो सका हो तो जैसे—पुत्र, वृत्र इत्यादि । (३) सख्यावाचक शब्द पूर्वपद तथा रात्र शब्दान्त शब्द नपुसक होता है । जैसे—त्रिरात्रम्, पञ्चरात्रम्, सप्तरात्रम् इत्यादि । (४) किन्तु एकार्थ वाचक तथा पात्रादि शब्दान्त द्विगु समास लक्ष्यानुसार नपुसक होता है । जैसे—पञ्चपात्रम् त्रिभुवनम् इत्यादि किन्तु त्रिलोकी त्रिपुरी पञ्चमूली त्रिवली इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग ही होता है । (५) एकार्थ वाचक समाहार द्वन्द्व समास तथा अव्ययीभाव समास नपुसक होते हैं जैसे—पाणिपादम्, अधिहरि, अधिगोपम्, अपदिशम् इत्यदि । (६) सख्यावाचक तथा अव्यय शब्द से परमे समासान्त प्रत्यययुक्त पथिन् शब्द नपुसक होता है । जैसे—द्विपथम्, त्रिपथम्, चतुष्पथम्, विपथम्, अपथम्, कापथम् इत्यादि, किन्तु धर्मपथ अतिपन्था, सुपन्था यहा पर पुल्लिङ्ग ही होता है क्योंकि सख्याव्ययादि नहीं हैं एव समासान्त प्रत्यय नहीं हैं ।

पष्ठ्यन्ताच्चेत्परा छाया बहुत्वे सगता यदि ॥३३॥

तत्पुरुषे समूहार्थे सभा शब्दान्त एव च ।

शालार्थाऽपि सभाराजाऽमनुष्याणां दराजकात् ॥३४॥

पष्ठ्यन्ताच्चेत्परा सा स्यात् दासो सममुदाहृतम् ।

उपज्ञोपक्रमान्तश्च प्राथम्यस्य प्रकाशने ॥३५॥

कन्थोशीनरदेशस्य संज्ञाया समुदाहृता ।

हिन्दी— (१) पष्ठी विभक्त्यन्त से पर में स्नेह वाले बहुत्व अर्थ में प्रयुक्त छाया शब्द नपुंसक होता है जैसे— इक्षुच्छायम्, विच्छायम् इसी प्रकार समूह अर्थ में प्रयुक्त सभा शब्द त तत्पुरुष समास नपुंसक होता है जैसे स्त्रीसभम् इत्यादि । स्त्री समूह ऐसा अर्थ समझना चाहिये । (२) शाला (गृह) अर्थ वाला तयो समूह अर्थ वाला सभा शब्द यदि राज शब्द भिन्न राजपयाय इन वगैरह पष्ठ्यन्त के बाद में हो तथा मनुष्यभिन्न राक्षस पिशाचादि वाचक पष्ठ्यन्त शब्द के बाद में हो तो नपुंसक होता है जैसे— दासीसभम्, इनसभम्, प्रभुसभम्, पिशाचसभम् रक्ष सभम् इत्यादि किन्तु राज शब्द के बाद सभा शब्द लोल्लिङ्ग ही होता है जैसे— राजसभा चन्द्रगुप्तसभा यहाँ पर चन्द्रगुप्त से राजविशेष का बोध होता है अतः लोल्लिङ्ग ही माना जाता है । (३) उपज्ञा और उपक्रम शब्दान्त तत्पुरुष नपुंसक होता है उस वस्तु का आरम्भ करना अर्थ प्रकट करना हो तो, जैसे— पाणिन्युपज्ञम्, अष्टकम्, नन्दोपक्रमम् द्रोण इत्यादि । पाणिनि ने सब से पहले अष्टाध्यायी व्याकरण को प्रकाशित किया । (४) उशीनर देश की संज्ञा में कन्था शब्दान्त तत्पुरुष नपुंसक होता है जैसे— सौशमिकन्थम्, बाल्हिकन्थम् ।

भावे 'कणनचिद् भिन्नाः समूहे भावकर्मणोः ॥३६॥

अदन्त प्रत्ययान्ताश्च शब्दाः क्लीबे प्रकीर्तिता ।

'पुण्याहं सुदिनाहश्च द्वयमेतत्तथैव च ॥३७॥

'क्रियाणामव्ययानाञ्चैकत्व भेदके स्मृतम् ।

'उक्थं च तोटक चोचं तिरीट मर्म योजनम् ॥३८॥

गृहस्थूलं तथा पिच्छं गद्य पद्यं कवेः कृतौ ।

(१) भाव मे क ण न और चित् (चकार सज्ञक) प्रत्ययों से भिन्न अदन्त कृदन्त प्रत्ययान्त शब्द तथा समूह अर्थ तथा भाव कर्म अर्थ मे विहित अदन्त तद्धित प्रत्ययान्त शब्द नपुसक होने हैं जैसे भूतम्, भवितव्यम्, भवनोयम्, ब्रह्मभूयम् सावराविणम्, साङ्कटितम्, भैक्षम्, काकम्, वाकम्, कैदार्यम्, गोत्वम्, मौनम्, मादेदम् मानोज्ञकम्, स्तेयम्, शौक्यम् इत्यादि, किन्तु विघ्न, स्वप्न चय, जय, श्वपथु इत्यादि । (२) पुण्याह तथा सुदिनाहम्, ये दोनो शब्द नपुसक मे प्रयुक्त होते हैं । (३) क्रिया तथा अव्ययो के विशेषण एक वचनान्त तथा नपुसक होते हैं । जैसे—मृदुपचति, प्रात कमनीयम् इत्यादि । एव शोभन पठनि, रमणीय वदति इत्यादि स्थलो मे मृदु शोभन तथा रमणीय ये क्रिया के विशेषण होने से नपुसक मे प्रयुक्त हुए हैं । एवं प्रात कमनीयम् यहा पर कमनीय यह 'प्रात' इस अव्यय का विशेषण होने से नपुसक मे प्रयुक्त हुआ है । (४) उक्थ (सामवेद विशेष) शब्द, तोटक (कलह करने वाला) शब्द, चोच (कदली फल-तालफल) शब्द, तिरीट (वेष्टन) शब्द, मर्म (प्राणसंस्थान) शब्द, योजन (परमात्मलीनता) शब्द, गृहस्थूल (घर के बीच का स्तम्भ) शब्द, एवं पिच्छ (मोर का पास) शब्द, एव कवि की कृति विशेष रूप गद्य तथा पद्य शब्द नपुसक में प्रयुक्त होता है ।

राजसूय तथा यज्ञे वाजपेयश्च सस्मृतम् ॥३९॥

भाष्य सिन्दूरमाणिक्य चीरचीवरपञ्जरम् ।

विदलं हरितालञ्च लोकायत मुदाहतम् ॥४०॥

स्थालं बाहलवमित्येते क्लीबे शब्दाः प्रकीर्तिताः ।

पुनपुंसक इत्यस्मिन् अधिकारे प्रदर्शिताः । ४१॥

शब्दा अधस्ताद् विख्याताः पिण्याकार्धर्चकण्टकाः ।

तण्डको मोदकपटङ्क खर्वटः शाटकोऽर्चुदः ॥४२॥

पातकश्चरकोद्योगौ तमालामलकौ नडः ।

(१) यज्ञ विशेष के लिये प्रयुक्त राजसूय शब्द तथा वाजपेय शब्द नपुंसक माना जाता है । (२) भाष्य (बृहद्व्याख्यान) शब्द, सिन्दूर शब्द, माणिक्य (पद्मरागादिमणि) शब्द, चीर (वस्त्र) शब्द, चीवर (फटा पुराणा) कपड़ा पञ्जर (पिजग) शब्द विदल (वास का पात्र) शब्द, हरिताल (दूर्वा) शब्द, लोकायत- (चार्वाक) शब्द, एव स्थाल (थाली) शब्द, तथा बाहलव (बहलवदेशोद्भव) शब्द नपुंसक मे प्रयुक्त होते है । (३) पुल्लिङ्ग तथा नपुंसक इन दोनों के अधिकार मे निम्न प्रदर्शित शब्द माने जाते है जैसे-पिण्याक (सरसो के खली) शब्द, एव अर्धर्च (आधी ऋचा) शब्द तथा कण्टक (काटा) शब्द एव तण्डक (खज्जनफेन) शब्द, तथा मोदक (लड्डु) शब्द एव टङ्क (टङ्की) शब्द एव खर्वट (नदी-पर्वत मध्यवर्ती ग्राम) शब्द एव शाटक (मारी) शब्द, अर्चुद (दश करोड़) शब्द, पातक (पाप विशेष) शब्द, चरक (वैद्यकशास्त्र विशेष) शब्द उद्योग शब्द तथा तमाल (पर्वतीय वृक्ष विशेष) शब्द, आमलक (आमला) शब्द तथा नड शब्द (सरकण्डा] पुल्लिङ्ग तथा नपुंसक माने जाते हैं ।

बुस्तं मुण्डं शीघ्रं कुष्ठं क्षेमं क्ष्वेडितसगमम् ॥४३॥

कुट्टिमं शतमानाम् ताण्डवाव्ययशम्बलम्

कर्पास कवियं कन्दं यूषं यूषं युगन्धरम् ॥४४॥

प्रग्रीव चमसं पारावार पात्रीव चिक्रसौ ।

अर्धर्चादिगणेषु न्येषा घृतादीना च संग्रहः ॥४५॥

तभ्याकृतिगणत्वाद्धि बोद्धव्यो विबुधैः सदा ।

स्त्री पुंसयोस्तु विज्ञेया अपत्यत्यप्रयान्तकाः ॥४६॥

(१) बुस्त (शङ्कुलि, पकमास, पनसफल) शब्द, मुण्ड (मुण्डितशिर) शब्द शीघ्र (शराव) शब्द, कुष्ठ (रोग विशेष) शब्द, क्षेम (कल्याण) शब्द, क्ष्वेडित (चिक्रण) शब्द, सगम (मिलन) शब्द, कुट्टिम (फर्ग) शब्द, शतमान (रूप्य का परिमाण विशेष) शब्द, अर्म (नेत्ररोग) शब्द, ताण्डव (ताण्डव नाच) शब्द, अव्यय (नाश रहित) शब्द, शम्बल (पाथेय) शब्द कार्पास (कपास) शब्द, कविय (घोडे का मुख भाण्ड) शब्द, (कन्द कादा) शब्द, यूष (माड चावल का ओसावन) शब्द, यूष शब्द, युगन्धर (कूवर) शब्द, प्रग्रीव (स्त्रिकी) शब्द, चमस शब्द, पारावार शब्द, पात्रीव [यज्ञपात्र विशेष] शब्द, चिक्रस [चिक्रन] शब्द पुल्लिङ्ग एव नपुसक हैं । (२) घृता वगैरह शब्द अर्धर्चादि गण मे पढे हुए होने से पुल्लिङ्ग तथा नपुसक है । (३)—यहा से स्त्रीपुस इन दोनों का अधिकार चलता है अर्थात् निम्न प्रकार के शब्द स्त्रीलिङ्ग तथा पुल्लिङ्ग समझे जाते हैं जैसे—अपत्य (पुत्रपौत्रादि) अर्थ मे विहित अण् इञ् वगैरह प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग होते हैं उदाहरण औपगव औपगवी, दाक्षि, दाक्षी, गागी गागी इत्यादि ।

द्विचतुष्पद् पदव्याला जातिभेदाः प्रकीर्तिताः ।

स्त्रिया योगे पुमाख्यास्तेऽपवादैश्चैव वाधिताः ॥४७॥

मल्लकश्चापि विज्ञेयः स्त्रीपुंसोभयलिङ्गकः ।

झाटलिर्वर्णकः स्वाति मुनिर्मनुर्वराटकः ४८

यष्टिः सृपाटी कर्कन्धूः शाटिर्मूषा कुटीकटी ।

स्त्री नपुंसकयोश्चाथाधिकारेऽत्रोचितादयः ॥४९॥

प्यञ् बुञ् प्रत्ययरूपान्ताः भावे कर्मणि च क्वचित् ।

(१) द्विपद वाचक चतुष्पदवाचक, षट्पदवाचक शब्द

तथा सर्पवाचकशब्द जाति विशेष का बोध कराने वाला पुल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग होता है जैसे मानुषः मानुषो, विप्र, विप्रा, शूद्र, शूद्रा, बकः, बकी, हस, हसी भ्रमर, भ्रमरी, उरग, उरगी, व्याल, व्याली, इत्यादि । ये सब पुल्लिङ्ग के योग होने पर स्त्रीलिङ्ग हो जाते है । किन्तु अपवाद से बाधित होने पर ईकारान्त न होकर आकारान्त होते हैं । (२) मल्लक शब्द (मालो) पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग है मल्लक, मल्लिका एवं झाटलि (वृक्ष विशेष) शब्द, वर्णक (चन्दन विलेपन) शब्द स्वाति (नक्षत्र विशेष) शब्द, मुनिशब्द, मनुशब्द, वराटक (कौडी) शब्द, यष्टि शब्द, सृपाटी शब्द (परिमाण विशेष) कर्कन्धू (बदरीफल) शब्द शाटो शब्द (सारी) मूषा (स्वर्णादि विलेपन भाण्ड) कुटी शब्द एव कटी शब्द पुल्लिङ्ग तथा स्त्री० है । (३) यहा स्त्रीनपुंसक का अधिकार चलता है जिसमे प्यञ् प्रत्ययान्त तथा बुञ् प्रत्ययान्त उचित वगैरह शब्द भाव तथा कर्म अर्थ मे नपुंसक एव स्त्रीलिङ्ग होते है जैसे-औचित्यम् औचिती सामग्रचम्, सामग्री आहोपुरुषिका शैष्योपाध्यायिका इत्यादि, मानोज्ञकम् रामणी यकम् इत्यादि ।

षष्ठ्यन्तेभ्य परे चेत्स्यु शालाच्छाया निशा सुराः ॥१०॥

सेना शब्दाश्च विज्ञेयाः गोशालमित्युदाहृतम् ।

आवन्तोत्तर शब्दश्चावन्तोत्तरपदो द्विगुः ॥५१॥

अनो नस्य च लोपोऽन्ते पञ्च खट्व मुदाहृतम् ।

त्रिलिङ्गेषु पुटी वाटी पेटी पात्री च दाडिमी ॥५२॥

कुवलीत्यादि शब्दा वै विद्वद्भिः समुदाहृताः ।

इतरेतरयोगे च द्वन्द्वे तत्पुरुषे तथा ॥५३॥

लिङ्गं परपदस्यैव प्रायशः समुदाहृतम् ।

(१) षष्ठ्यन्त से परे शाला, छाया-निशा-सुरा तथा सेना शब्दान्त शब्द नपुंसक तथा स्त्रीलिङ्ग होते हैं जैसे-गोशालम्, गोशाला, इक्षुच्छायम्, इक्षुच्छाया, श्वनिशम्, श्वनिशा, यवसुरम्, यवसुरा, नृमनम्, नृसेना इत्यादि । (२) आवन्त उत्तरपद वाला एव सख्यावाचक पूर्व पद वाला द्विगु समास, एवं अन् अन्त उत्तरपद वाला द्विगु समास स्त्रीलिङ्ग तथा नपुंसक होता है किन्तु अन्त मे अन् शब्द के नकार का लोप हो जाता है जैसे पञ्च खट्वम् पञ्चखट्वो पञ्चतक्ष पञ्चतक्षी इत्यादि । (३) त्रिलिङ्ग (पुर्ल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसक) में पुटी (सपुट) शब्द, वाटी (वास्तु-गृहोद्यान) शब्द, पेटी (मञ्जूषा) शब्द, पात्री (वर्तन) शब्द, (दाडिमी) शब्द, एवं कुवली(बदरीफल कमल मुक्ताफल) शब्द प्रयुक्त होते हैं । उदाहरण पुटः पुटी, पुटम्, वाट वाटी, वाटम् पेटी, पेटी, पेटम् पात्र, पात्री, पात्रम्, दाडिम दाडिमी, दाडिमम्, कुवल, कुवली, कुवलम् इत्यादि । (३) इतरेतरयोग द्वन्द्व तथा तत्पुरुषसमास मे उत्तरपद के अनुसार ही लिङ्ग प्राय होता है जैसे-कुक्कुटमयूरी, मयूरीकुक्कुटौ कुलब्राह्मण ब्राह्मणकुलम्, अर्धपिप्पली इत्यादि ।

प्राद्यपत्याद्यवादिभ्यः पर्यादिभ्यस्तथैव च ॥५४॥

निरादिभ्यश्च पूर्वेभ्यः पूर्वं लिङ्गता ।

आपन्नप्राप्त पूर्वाश्चालमाद्यास्तथैव च ॥५५॥

अर्थान्तास्तद्धितार्थे च द्विगुः संख्यास्तदन्तकाः ।

सर्वादयस्नदन्ताश्च शब्दा मुख्यानुसारिणः ॥५६॥

(१) किन्तु प्रादि अपत्यादि भवादि पर्यादि तथा निरादि उपसर्ग पूर्वपदो से परे तत्पुरुष समास में पूर्वपद के अनुसार ही लिङ्ग होता है जैसे—प्रगत आचार्य प्राचार्य आचार्य प्रगतो वा प्राचार्य दुराचार दुष्टो वा पुरुष दुःपुरुष, स्वद्वामतिक्रान्त, अतिखट्व मालामतिक्रान्त अतिमाल, अभिगतो मुम्बम् अभिमुखम्, वेला^३मुद्रतः उद्वेलम्, अवक्रुष्ट कोकिलया-अवकोकिल कोकिलया आहूतो वसन्त इत्यर्थ, परिणद्धो वीरुधा—परिवीरुत् सनद्धो वर्मणा सवर्म, परिग्लानोऽव्ययनाय पर्यध्ययन उद्युक्त सग्रामाय उत्सग्राम निष्क्रान्तः कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बि उत्क्रान्तः कुलादः उत्कुल । निर्गनमङ्गुलिभ्यो निरङ्गुलम् इत्यादि । (२) प्राप्त पूर्वपद तथा आपन्न पूर्वपद एवम् अलम् पूर्वपद और अर्थ शब्दान्त तत्पुरुष एवं तद्धितार्थ विषय मे द्विगु समास तथा संख्या-वाचक शब्द एव संख्या शब्दान्त शब्द, एव सर्वादिगण पठित शब्द तथा सर्वाद्यन्त शब्द विशेष्य (मुख्य) के लिङ्गानुसार पुल्लिङ्गादि मे प्रयुक्त होते है जैसे—प्राप्त जीविक आपन्न जीविक, अलं जीविक, द्विजार्थं सृप, द्विजार्था माला, द्विजार्थं पय पञ्च कपाल पञ्चकपाली, एक पुरुषः, एका स्त्री, एक वस्तु, द्वौ, द्वे, त्रय, तिस्र, त्रीणि, चत्वार चतस्र, चत्वारि बहवः, बह्वः, बहूनि, सर्व सर्वा सर्वम् ऊनत्रय ऊनतिस्र ऊनत्रीणि, परम सर्व. परमसर्वा, परमसर्वम् इत्यादि ।

आदिङ्नाम्ना बहुव्रीहि रन्यलिङ्गः प्रकीर्तितः ।

गुणि द्वैव्य क्रिया शब्दा विशेष्यस्यानुगामिनः ॥५७॥

कर्तृकर्मणि कृत्याश्च कृतः कर्तर्यनामनि ।

अर्णादि प्रत्ययान्ताश्च रक्ताद्यर्थे समागताः ॥५८॥

गब्दा नानार्थसम्पन्ना वाच्यलिङ्गा उदाहृताः ।

गब्दा षट् संज्ञका युष्मदस्मदी च तिडव्ययम् ॥५९॥

त्रिलिङ्गेषु समानास्ते विरोधे परमेव तत् ।

(१) दिगवाचक शब्द से भिन्न शब्द वाला बहुव्रीही समास अन्य पदार्थ के लिङ्गानुसार प्रयुक्त होता है जैसे-बहुधन पुरुष बहुधना स्त्री बहुधन कुलम् इत्यादि (२) शुक्लादि गुणवाचक शब्द गुणी परक होने पर विशेष्य के लिङ्गानुसार प्रयुक्त होते हैं जैसे-शुक्ल पटः शुक्ला शाटी, शुक्ल वस्त्रम् इत्यादि एत्र द्रव्य वाचक तथा क्रिया वाचक शब्द भी विशेष्य के लिङ्गानुसार होते हैं जैसे दण्डी पुरुष दण्डिनी शाला दण्डिकुलम् एव पाचक पुरुष पाचिका स्त्री पाचक कुलम् इत्यादि (३) कर्ता तथा कर्म वाच्य में प्रयुक्त कृत्प्रत्ययान्त शब्द एव संज्ञा से भिन्न स्थल में कर्ता वाच्य में प्रयुक्त कृदन्त प्रत्ययान्त शब्द तथा रक्ताद्यर्थ में प्रयुक्त अर्णादि प्रत्ययान्त तद्धितान्त शब्द नानार्थ में सम्पन्न होने से प्रधानवाच्यार्थ के लिङ्गानुसार प्रयुक्त होते हैं । जैसे-भव्य भव्या भव्यम् कार्यः कार्या कार्यम् कर्ता कर्त्री कर्तृ कौङ्कुम वस्त्रम् कौङ्कुमी शाटी कौङ्कुम पट वासिष्ठौ मंत्र वासिष्ठी ऋक् वासिष्ठ साम इत्यादि ।

(४) षट् संज्ञक शब्द तथा युष्मद् शब्द एवं अस्मद् शब्द तथा तिडन्त एव अव्यय शब्द तीनों (पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग तथा नपुंसक) लिङ्गों में समान ही रूप में प्रयुक्त होते हैं जैसे-पञ्च

शिष्टानां चैव शब्दानां लिङ्गस्य च विनिर्णयः ॥६०॥

शिष्ट प्रयोगतो नूनं कर्तव्यः पण्डितैरिति ।

॥ इति लिङ्गादि निर्णयवर्गः समाप्तः ॥

॥ तृतीयः काण्डः समाप्तः ॥

पुरुषाः, पञ्च स्त्रियः, पञ्च फलानि एवं षट् सप्त अष्ट नव दश वा पुरुषा, स्त्रियः फलानि च इत्यादि । एवं त्व पुरुषोऽसि, त्व स्त्री वर्तसे, त्व वन वर्तसे एव अह पुरुष, अह वनम् इत्यादि । एव पुरुष पचति स्त्रा पचति कुल पचति इत्यादि । एव उच्चै प्रासाद उच्चै पाठ शाला, उच्चै गृहम् इत्यादि । किन्तु लिङ्ग प्रतिपादक वचनों के परस्पर विरोध होने पर वचन के अनुसार ही लिङ्ग होना चाहिये जैसे—नी ल् यहा पर केवल पुलिङ्ग अथवा स्त्रीलिङ्ग न होकर दोनों लिङ्ग माने जाते हैं । (१) उपरोक्त शब्दों से वचे हुए शब्दों के लिङ्गों की व्यवस्था शिष्ट प्रयोगों के अनुसार समझ लेनी चाहिये जैसे तितड तितड, ताटङ्क कौरक कोरक इत्यादि क्योंकि 'चालनी तितड पुमान्' ऐसा शिष्टो के वचनानुसार तितड शब्द पुलिङ्ग माना जाता है किन्तु 'तितड परिवपन भवति' इस प्रकार पतञ्जलि के पस्पशाह्निक भाष्य वचन के अनुसार तितड शब्द नपुसक भी माना जाता है । एवं 'ताटङ्कस्ते' इस प्रकार आचार्य के प्रयोग से तोटङ्क शब्द पुल्लिङ्ग हो माना जाता है । किन्तु 'कालिका कोरक पुमान्' ऐसा वचन के अनुसार कोरक शब्द पुल्लिङ्ग होने पर भी 'कोरकाणि' ऐसा माघ कवि के प्रयोग के अनुसार नपुसक भी माना जाता है ।

॥ इति लिङ्गादि निर्णयवर्गः समाप्तः ॥

॥ इति तृतीयः काण्ड समाप्तः ॥

॥ सम्पूर्णम् ॥